


। श्रीगणेशायनमः ॥

अथ पंचदेवता पूजा विधि ।



१ स्नातः परिहितः श्वेत वस्त्र युगलः कुश हस्तौ यजमानः

२ ओं यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्स-
हजं पुरस्तात् आयुष्यमञ्चं प्रतिमुञ्च शुभ्रं
यज्ञोपवीतं बलमस्तुतेजः ॥

इति मंत्रेण यज्ञोपवीतं धारणं कृत्वा आसनं उपविष्टः

२ चन्दनविलेपनम्—

ओं चन्दनं वन्दते नित्यं, पवित्रं पापनाशनः ।
आपदाहरते नित्यं, लक्ष्मीर्विसतु सर्व्वदा ॥ १॥

३ ततः

ओं अपवित्रः पवित्रोवा सर्वावस्थांगतो पिवा ।
यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः ॥

इति जलेन आत्मानं पूजापकरणानि न सिञ्चेत्

(२)

चदेवतापूजाविधि ।

ओं पृथिवत्वयाधृता लोका देवित्वं विष्णुना
धृता त्वञ्च धारय मां नित्यं पवित्रं कुरु चासनम्

इति प्रणम्य ४

५ ततः त्रिकोण मण्डलं विधाय जलगंधोक्षत पुष्पैः ।

ओंपृथिव्यै नमः ओं आधार शक्तये नमः ओं
कूर्म्याय नमः ओं अनंताय नमः ओं शेषनागाय नमः

इति संपूज्य ५

६ ततः श्वेत सपसा ना दायः

ओं अप सपन्तु ते भूता ये भूता भुविसंस्थिता
ये भूता विघ्न कर्तारो स्तेनश्यन्तु शिवाज्ञया

इति भूता पसारनं कुर्यात् ६

७ तत्र जलंदत्वा अंकुश नुद्रया

ओं गंगे च जमुने चैव गोदावरि सरस्वति
नर्मदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्सन्निधिं कुरु ।

इत्यथ पात्र गङ्गादि तीर्थान्या वाद्य ।

ओं गङ्गादिभ्यः सरिद्भ्यो नमः

इति गंधोक्षत पुष्पैः संपूज्यं बद्धांजलिः प्रार्थयेत् ८

ओं सूर्यस्सोमोयमः कालः सन्ध्ये भूतान्यहः
क्षया पवनो दिक्पतिर्भूमि राका शंख चरामराः

ब्राह्मं शासनं मास्थायं कल्पध्व मिहसन्निधिम्
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्तु सूरयः ।

ततः संकल्पः

हरिः ओं ३ नमस्तत्सद् ३ अमुक मासे अमुक
पक्षेः अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रोह
अमुक शर्मा अमुक प्रधान देवता चरण प्रसादेन
मम सपरिवारस्य सकल दुरितोपशमन पूर्वक
सर्वा पृच्छान्ति विपुल धन धान्य सुख
सौभाग्यादि निखिल सद् भीष्ट सिद्धर्थे कर्तव्ये
अमुक प्रधान देवता पूजने ब्राह्मण वरणं स्वस्त्य-
यनं कलश स्थापनं गणेशादि पंचदेवता नवग्रह
दिकपालादि सर्व देव देवी पूर्वक अमुक
प्रधान देवता पूजनं करिष्ये ॥ इति संकल्पः ॥

११ ततः स्वस्त्य नमू

ओं स्वस्ति न इन्द्रोवृद्ध श्रवाः स्वस्ति नः पूषा
विश्ववेदाः स्वस्ति न स्तादर्यो रिष्टनेमिः स्वस्ति नो
बृहस्पतिर्दधातु ओं पृषदश्वा मरुतः पृष्णिमातरः
शुभं या बानो विदथेषु जगमयः अग्नि जिह्वा
मनवः सूर चक्षसो विश्वेनो देवा अब सागमन्निह

भद्रं कर्णेभिः शृणुयामो देवा भद्रं पश्येमा
 क्षभिर्यज्ञत्रा स्थिरै रंगै स्तुष्टु वा ग्वंसस्तनू
 भिव्यशेम देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदोन्ति
 देवायत्रानश्चक्राजर संतनूनां पुत्रासो यत्र
 पितरो भवन्ति मानो मध्यारी रिषतायुर्गन्तोः
 ओं अदितिर्घो रदितिरन्तः रिक्षमदितिर्माता
 सपिता सपुत्रः विश्वेदेवा अदितिः पंचजना अ
 दितिर्जातम दितिर्जनित्वम् दीर्घायुत्वाय वलाय
 वर्चसे सुप्रजास्त्वाय सहसा अधो जीव शरद
 शशतम् ओं द्यौः शान्तिरन्त रिक्षग्वं शान्ति
 पृथिवी शान्ति राप शान्तिरोषधयः शान्तिर्विश्वे
 देवाः शान्तिर्ब्रह्मशान्तिः सर्वग्वं शान्तिः शान्ति
 स्व शान्तिः सामा शान्तिरेधि ।

ओं मंगलं भगवानविष्णु मंगलं गरुड
 ध्वजः मंगलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरि
 ओं यं ब्रह्म वेदान्त विदो वदन्ति परं प्रधानं
 पुरुषन्तधान्ये विश्वोद्धतेः कारण मीश्वरं वा
 तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय ।

१२ ततः कलश स्थापनम्

१२ ओं भूरसि भूमिरस्य दितिरसिविश्वधाया
विश्वस्य भुवनस्य धर्त्रीं पृथिवीं यच्छ पृथिवी
दृग्वं पृथिवीं माहि ग्वं सीः ।

इति भूमि स्पर्शः १२

१३ ओं मानस्तोकेतनये मान आयुषिमानोवो
षुमानो अश्वेपुरी रिष, मानो बीरान् रुद्रभामिनो
धीर्ह बिष्मन्तः सदमित्वाह वामहे ।

इति गोमयम् स्पर्श १३

१४ ओं धान्यो मशि धिनुहि देवान्प्राणायत्वो
दानायत्वा व्यानाय त्वादीधी मनुप्रसिति मायुषे
ओं देवो वस्सविता हिरण्यपाणिः प्रतिगृभ्णा त्व-
च्छिन्द्रोण पाणिना चक्षुषेत्वा महीनां पयोसि ।

इति धान्यम् स्पर्श १४

१५ ओं आजिघ्र कलशं मह्यांत्वाविश न्त्वच-
द्ववः पुनरूर्जा निवर्त्त स्वसानोसहस्रं धुक्ष्वो रु-
धारा पयस्वती पुनर्मा विशता द्रयिः ।

इति कलशम् स्पर्श १५

१६ ओं वरुणास्यो तम्भन मसिवरुणस्यक-

म्भस्थ सर्जनीस्थो वरुणस्य ऋतसदनमसि वरु-
णस्य ऋत सदन मासीद ।

इति जलम् १६

१७ ओं यांः फलिनीर्या अफला अपुष्पायाश्च
पुष्पिणीः बृहस्पति प्रसूता स्तानो मुञ्जत्वंग्वंहंसः

इति फलम् १७

१८ ओं काण्डात्काण्डात्प्ररोहन्ति परुषः प
रुषस्परि एवानो प्रदूर्वेनप्र सहस्रेण शतैर्न च ।

इति दूर्वा १८

१९ ओं पवित्रस्थो वैष्ण व्योसवितुर्वः प्रस्पुव
उन्युनातु च्छिद्रैण पवित्रेण सूर्य्यअस्मिभिः ।

२० ओं हिरण्यगर्भस्सम वर्त्तताग्ने भूतस्यजातः
पतिरेकऽआसीत् सदाधार पृथिवीं मां कस्मै
देवाय हविष्या विधेम् ।

इति हिरण्यम् १९

ओं अम्बे अम्बिके अम्बालिके नामानयति
कश्चनशसस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पी लवासिनीम् ।

इत्याम्नादि पल्लव २०

२२ ओं पूर्णादिवि परापत सुपूर्णा पुनरापत
वस्तेव विक्रीणा वहा इषमूर्ज शतक्रतोः ।

इति पूर्ण पात्रम् २२

पूर्णपात्राय धान्य मसि पाठित्वा नारकेला आनिश्चते पठित्वा

२३ ओं श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या वहो रात्रे
पार्श्वे नक्षत्राणि रूप मश्विनौ व्याताम् इष्ण-
निषाण मुम्म इषाण सर्वलोकम्म इषाण ।

इति वस्त्रम् २३

२४ ओं अग्निज्योति ज्योतिणग्निस्वाहा सूर्यो
ज्योति ज्योति स्सूर्यस्वाहा अग्निर्वचो ज्योति
ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्योर्वचो ज्योति ज्योतिर्वच
स्वाहा ज्योति स्सूर्य स्सूर्यो योतिः स्वाहा ।

इति दीपः २४

२५ ओं दधिकाव्णोकार्षाजिष्णारशस्यवाजि न
सुरभिर्नोमुखा करोत् प्रणतायु ग्वं षि तर्षत ।

इति सदधि अलकम् २५

आकृष्येति वस्त्रं ददाति

२६ ओं मनो जूतिर्जुषता माज्यस्य बृहस्पति
यभिमं तेनो त्वरि याज समिमं दधातु
विश्वदेवा स ईह मदांतोप्रतिष्ठीभवः ।

२७ ओं गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां कर-
णीम् ईश्वरीं सर्वभूतानान्तामिहो पहवये श्रियम्
इति चन्दनम् २७

ततः कलश मालम्ब पठेत ।

२८ ओं कलशस्य मुखे ब्रह्मा मध्येचैव जना-
र्दनः कन्ठ देशोस्तिरुद्र इन्द्रश्चैव यमस्तथा आ-
दित्या बसवो रुद्रा देवाः स्कन्नयुरोगमाः कुक्षौत
सागरां स्सप्तद्वीत बतीमही अर्जुनी गोमती गङ्गा
चन्द्रभागा सरस्वती पृथिव्या यानि तीर्थानि
कलशे निवसन्तुमे ।

ओं मनाजूनिर्जुषता माज्यस्य वृहस्पतिर्यज्ञ
सिमं तनो त्वारिष्टं यज्ञं ग्वं स्त्रिमं दधातु
विश्वेदेवा स इह मादयन्तामोप्रतिष्ठ ॥ इति ॥
२९ ततः कलशे पूजा ।

इदं पाद्यं इदं मर्ष्यं इदं स्नानीयं जलम्
ब्रह्मणे नमः अन्नपूर्णानि नमः लक्ष्म्यै नमः गायत्र्ये
नमः सर्व तीर्थेभ्यो नमः सर्व क्षेत्रेभ्यो नमः ।

एवमेव गन्धान्तत पुष्प कुङ्कुमादिभि स्संपूज्य २९
३० बद्धाञ्जलिः प्राथयेत् ।

कलशाधिष्ठातृ देवताः पूजिताः प्रसन्नाभवन्त

३१ तः कलशपुरी भागे कस्मिंश्चित्पात्रे पञ्चदेव पूजा मार-
भेता तत्रा दौ पुष्प मंजला वा दध्यायायेत् ।

श्रीं स्वर्वं स्थूलतरं गजेन्द्र वदनं लम्बोदरं
सुन्दरं विघ्नेशं मदगन्धलुब्ध मधुपब्या लोल-
गण्ड स्थलं दन्ताघात विदारिता हितजनं
सीन्दूर शोभाकरं बन्दे शैल सुता सुतं गणपति
सिद्धिप्रदं कामदम् ।

इति ध्यात्वा

३२ श्रीं भगवन् गणेश स्वगण संयुत इहागच्छ
इहप्रतिष्ठ नमस्कृता पूजां गृहाण इत्यावाह्य इदं
पाद्यं इत मर्घ्यं इदं स्नानीय माचमनीयश्च जलं
समर्पयामि भगवत सायुधाय सवाहनाय सपरि-
वाराय श्रीं भगवते गणेशायनमः इदं चन्दन मिमं-
सिन्दूर मेलानक्षतांश्च समर्पयामि साङ्गाय० श्रीं
भगवते गणेशायनमः इदं पुष्पं दूर्वादलं धूपं दीप-
श्च समर्पयामि साङ्गाय० श्रीं भगवते गणेशायनमः
इदं नैवेद्यं पुनराचमनीयं जिलानाम्बू लं पूंगाफलं

चक्षणा द्रव्यञ्च समर्पयामि साङ्गाय० ओं भगवते
गणेशायनमः ।

एवं सर्वत्र श्रद्धः कार्यः ३२

३३ ततो प्रद्वीजलिः

ओं देवेन्द्र मौलिमन्दार मकरन्द कणारुणाः
विघ्नं हरन्तु हेरम्भ चरणांबुज रेणवः

भगवान् गणेश पूजितः प्रसन्नोभव-इति प्रणमेत् ३३

३४ पुनः पुष्प मादाय

ओं रक्ताञ्जयुग्माभय दानहस्तं केयूर हारा-
ङ्गद कुण्डलाढयं माणिक्य मौलिं दिन नाथमीड
बन्धूक कांति विलस त्रिनेत्रम्

इति ध्यात्वा ३४

३५ भगवन् सूर्यनारायण इहागच्छ इहतिष्ठ
नमस्कृतां पूजां गृहाण इत्यावाह्य

इत्या वाह्या पूर्ववत्पूजा प्रकारणानि समर्थ

ओं नमस्सवित्रो जगदेक चक्षुषे जगत्प्रसूति
स्थिति नाश हेतवेत्रयी मयाय त्रिगुणात्म
धारिणे विरञ्चिनारायण शङ्करात्मने ।

इति प्रणमेत् ३६

३७ पुष्पमादाय ।

ओं शान्ताकारं भुजग शयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मी
कान्तं कमल नयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं बन्दे-
विष्णु भव भयहरं सब लोकैक नाथम् ।

इति ध्यात्वा ३७

३८ भगवन् विष्णो इहागच्छ इहतिष्ठ नम-
स्कृतां पूजां गृहाण इत्यावाह पूर्ववत् ओं
विष्णवेनारायणाय नमः ।

इति पूजोपकरणानि समर्प्य ३८

३९ ओं कृष्णाय वासुदेवा च हरये परमात्मने
प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दायनमः ।

इति प्रणमेत् ३९

४० पुनः पुष्प मादाय ।

ओं ध्यायेन्नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु
चन्द्रातंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा-
भीति हस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं तमन्तास्तुतीरम-
मरगणैर्ब्याघ्र त्तं वसानं विश्वाद्यं विश्ववीजं
निखिल भयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् ।

इति ध्यात्वा ४०

देवेभ्यो नमः ॐ इष्टदेवेभ्यो नमः ॐ सर्वेभ्यो
देवेभ्यो नमः ॐ सर्वाभ्यो देवीभ्यो नमः ।

इति पूजोपकरणानि समर्प्य ४७

४८ ॐ सर्वे देवास्सर्वा देव्यश्च पूजिता प्रसन्ना
भवत ।

इति प्रथमेत् ४८

ततः पुष्य मादाय ।

शिवस्य गणपते विष्णोस्सूर्यस्य दुर्गाया
वा प्रधान देवतायांऽ पूर्वोक्त ध्यान वाङ्मयेन ध्यान
कृत्वा पूर्ववत् वाह्या पूजोपकरणानि समर्प्य
ॐ कर्पूरवर्ति सयुक्तं गोघृतेनच पूरितम्
नीराजनमिदं देव गृहाण परमेश्वरम् ।

इति नीराजनं निवेद्य ४८

४९ ॐ अज्ञानाद्धिस्मृतेभ्रान्त्या यन्न्यूनमधिर्व
कृतं विपरोतञ्च तत्सर्वं क्षमस्त्र परमेश्वर ॐ
आवाहन न जानामि न जानामि विसर्जनम्
पूजाञ्चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर ॐ अप-

राध सहस्राणि क्रियन्तेहर्निशंमया दासोय
मितिमां मत्वा क्षमस्व जगदीश्वर ।

इति सापराध मार्जनं त्रीन्पुष्पाञ्जली त्रिवेद्य शंख घंटा

दिवादनै देवं ग्रहस्य स्तुत्वा प्रणस्य ।

५० ओं यान्तु देवगण स्सर्वे पूजा मादाय
माम कीम् पूजाराधनकालेषु पुनरागमनायच
ओं गच्छ गच्छ पर स्थान परमेश्वर अवाह-
नस्य समये यथास्था त्पुनरागमः ।

इति संहार मुद्रया विसर्जनं कृत्वा ५०

ओं कृतैतदमुकदेवता पूजन कर्मसाङ्गता
सिद्धये ब्राह्मणाय दक्षिणां स्वम्प्रददे ।

इति ब्राह्मणाभ्य दक्षिणां दत्वा वान्धर्वैस्सह प्रसादं मुञ्जीत ५१

॥ इति पञ्चदेवता पूजा पद्धतिः ॥



❀ ऋणमोचन मङ्गलस्तोत्रं ❀

श्री गणेशाय नमः ॥ मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणार्हता धनप्रदः ।
 स्थिरासनो महाकायः सर्वं काम विरोधकः ॥ १ ॥ लो हतो
 लोहिता क्षत्र साम गाना कृपाकरः । धरात्मजः कुजो भौभो-
 रक्तङ्गो भूमि नन्दनः ॥ २ ॥ आङ्गर्को यमश्चैव सर्व रोगापहा-
 रकः । वृष्टः कर्ताऽपहर्ता च सर्वं कोम फलप्रदः ॥ ३ ॥ एतानि
 कुजनामानि नित्यं यः श्रद्धया पाठेत् । ऋणान् जायते तस्य
 धनं शीघ्रं मवाप्नुयाम् ॥ ४ ॥ धरणोर्गर्भं समभूतं विध्युत्कान्ति-
 समप्रघम् कुमार शक्तिहस्तच मङ्गल प्रणामाम्यहम् ॥ ५ ॥
 स्तोत्र मङ्गारकस्यैतत्पाठ—नीच सदा नृभिः । न तेषा भौमजा
 पीडा स्वल्पादि भवति ष्वचित् ॥ ६ ॥ अङ्गारक महाभाग
 भगवन् भक्तवत्सल । त्वा नमामि मना शेष मृण माशु विना-
 शय ॥ ७ ॥ ऋण रोगादि दारिद्र्यं ये चान्ये चाप मृत्यवः । भव
 क्लेश मनस्तापान् स्यन्तु मम सर्वदा ॥ ८ ॥ अति वक्र दरारध्य
 भोग मुक्त जितात्मवः । तुष्टा ददासि साम्राज्य रूष्टा हरसि
 तत्क्षणात् ॥ ९ ॥ विरिञ्चि शक्रविष्णूनां मनुष्याणां तुका कथा ।
 तेन त्वं सर्वं सत्त्वेन प्रहराजो महाबलः ॥ १० ॥ पुत्तान्देहि धन
 देहि त्वमस्मि शरण गतः । ऋणदा—रिद्य दुखेन शत्रूणां च
 भयात्ततः ॥ ११ ॥ एभिर्द्वादशभिः रत्नैर्यः स्तौति च धरा-
 सुतम् । महती श्रियमा प्राप्ति ह्यपरां धनदोयुवा ॥ १२ ॥

॥ इति ॥

पता-हिन्दी पुस्तकालय, मथुरा ।

❀ पाक विज्ञान ❀

(पाक शास्त्र की अद्वितीय पुस्तक)

यह पुस्तक स्वादिष्ट और मधुर भोजन बनाने के लिये विन्कल गुरु का काम देती है। इसमें साधारण चीजों से ही नाना प्रकार के भोजन बनाने की सरल विधि दी गई है। इसमें सब तरह की भुजिया और रसादार तरकारियाँ, अनेक प्रकार की दालें और भात, सब अनाजों की रोटियाँ, दूध से बचनेवाली सब चीजें, कढ़ी, अचार, चटनी रायता, पूड़ी, कचौड़ी, परावहे, सीठे पकवान, नमकीन पकवान तथा सब तरह की देशी और बङ्गाली मिठाइयाँ अनेक प्रकार से बनाने की सरल विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त खाने की किन २ चीजों का क्या गुण है, इसका भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। ऐसी पुस्तक प्रत्येक परिवार में रहनी चाहिये।

मोटै और चि कने कागज पर छपी ३०० पृष्ठों की पुस्तक का मूल्य केवल २) रुपया।
पुस्तक मिलने का पता:—हिन्दी पुस्तकालय, मथुरा।

॥ ओ३म् नमो ब्रह्मणे ॥

रामायण सन्देश



संग्रहकर्ता-

श्रीमान् १०८ उदासीन मण्डलेश्वर स्वामी
श्री केशवस्वरूपजी ।



प्रकाशक-

रामेश्वरलाल अग्रवाल,
श्री गणपति बटन इन्डस्ट्रीज
मेवाड़ी दरवाजा बाहर
व्यावर ।



विजयादशमी, सं. २००८

मूल्य : प्रेमपाठ नित्य

प्रेम से पढ़ना ।



—: विषय-सूचि :—

विषय	पृष्ठ संख्या।
मंगलाचरण	१
सत्संगति	२
रामनाम महात्म्य	५
मातृ पितृ भक्ति	१०
प्रारब्ध	११
माया का प्रभाव	१३
स्त्री	१६
स्त्री स्वभाव	१६
स्त्री-धर्म	१५
सासु का धर्म	२०
पाता अनसूया ने सीता को स्त्री धर्म कहा	२०
सुमित्रा लक्ष्मण गीता	२१
लक्ष्मण गुह गीता	२२
केवट्ट भक्त	२३
ज्ञान	२५
बालमीकि ने राम का निवास स्थान कहा	२५
कौसल्या भरत गीता	३०
विशिष्ट भरत गीता	३१
श्रीराम लक्ष्मण गीता	३३
शबरी का नवधा भक्ति	३४

श्रीराम ने नारदजी की संतों के लक्षण कहे	३५
भरत को राम ने सन्त असन्त के लक्षण कहे	३७
विभीषण को राम वचन	३६
नीति	४१
ईश्वर नीति	४७
रावण अंगद संवाद	४३
सत्य	४४
मित्र के धर्म	४५
रामेश्वर स्थापना	५५
हनुमान भरत संवाद	५६
भ्रातृ प्रेम राम वचन	५७
अंगो की निष्फलता	५८
७ प्रश्नों का उत्तर काक भुषुण्डजी ने दिया	५८
कलियुग के लक्षण	६२
चोपाई अनुष्ठान विधि	६६
गीता पाठ विधि	६८
भूत प्रेत राक्षस नाशक मंत्र	७०
अथ गरुडोपनिषद्	७०
दत्तात्रय के २४ गुरु	७२



— संग्रहकर्ता के दो शब्द —



प्रिय सज्जनवृन्द—मेरे प्रियवर शान्तात्मा दूधाहारी स्वामी सोऽहं मुनिजी ने कई बार प्रेरणाकी, कि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदासजी विरचित श्री रामचरित्रमानस से कुछ अमूल्य प्रकरण अलग निकाल कर छोटे रूप में छपाया जाय जिससे भक्त जन नित्य पाठकर अपने कल्याण का सुगम मार्ग निकाल सकें । अतएव मैंने रामचरित्रमानस का मंथन करना आरंभ किया । यह रामचरित्रमानस अगाध रत्नाकर है, अनन्तरलों से भरपूर है, यह अमूल्य रत्न सभी को सुलभ नहीं है; अतएव इसको अवगाहन करते करते जो कुछ जनता उपकारी प्रकरण मेरी बुद्धि अनुसार प्राप्त हुए सो इस “रामायणसंदेश” में संग्रह किये हैं ।

अतएव आशा है भक्त इस पुस्तक को प्रत्येक दिन पाठ व धारण कर अपने जीवन को सफल करेंगे ।



मंगलाचरणा

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । पूर्णस्य
पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ २ ॥ ॐ शान्तिः ३
ईशा० उप०

ॐ सहनाववतु । सह नौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहे ।
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे । ॐ शान्तिः । ३ ।
तैत्ति० २ । १ । १

करागविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् ।
वटस्य पत्रस्य पुटे-शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥
कण्ठे सुमालं तिलकांकमालं सौन्दर्यनिष्काशितमेघजालम् ।
रिपोः कमलं जलजामरालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥
गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालम् ।
यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॥
सुग्रीवमित्रं परमं पवित्रं साताकलत्रं नवमेघगात्रम् ।
कारुण्यपात्रं शतपत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥
संसारपारं निगमप्रचारं धर्माचतार हृतभूमिभारम् ।
सदाऽविकारं सुखसिन्धुसारं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥
लक्ष्मीविलासं जगतां निवासं लंका विनाशं भुवनप्रकाशम् ।
भृदेववासं शरदिन्दुहासं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि ॥
विद्याचार्यान् गुरुन् भक्त्या गूढार्थानां प्रकाशकान् ।
वरिष्ठान् विदूषान् सोऽहं प्रणमामि निरंतरम् ॥

* ॐ *

ध्यानमूलं गुरो-मूर्ति, पूजा मूल गुरो. पद्म ।
मत्रमूल गुरो-वाक्यं, मोक्ष-मूल गुरो. कृपा ॥



श्रीमान् १०८ उदासीन महडलेश्वर ब्रह्मनिष्ठ
स्वामी श्री केशवस्वरूपजी महाराज

ॐ नमो



ब्रह्मणे ॐ



रामायण संदेश



मंगलाचरणा



नीलाम्बुज-श्यामल-कोमलाङ्गम्,
सीता-समारोपितवाम-भागम् ।
पाणौ महा-सायक-चारु-चापं,
नमामि रामं रघुवंश-नाथम् ॥

उदासीन सुखासीनमुपासीनं रमारमम् ।
श्रौदास्य प्रथमाचार्यं कुमारं वैधसं भजे ॥
श्रौतवंश समुद्भूताः, श्रौत वंशेन दीक्षिताः ।
श्रौतसिद्धान्तविस्ताराः, पान्तु श्रौतमुनीश्वराः ॥
विद्याचार्यान् गुरुन् भक्त्या गुहार्थानां प्रकाशकान् ।
विरष्टान् विद्वपान् सोऽहं प्रणमामि निरन्तरम् ॥

* मीरठा *

जो सुभिरत सिधि होइ गन नायक करिवर वदन ।
 करउ अनुग्रह सोइ बुद्धि रासि सुभ गुन सदन ॥३॥
 कुन्द इन्दु समदेह उमा रमन करुना अयन ।
 जाहि दीन पर नेह करउ कृपा मर्दन मयन ॥४॥
 वन्दउँ गुरु पद कंज, कृपा सिन्धु नर रूप हरि ।
 महा मोह तम पुञ्ज, जासु वचन रविकर निकर ॥५॥

❀ सत्संगाति ❀

* बालकाण्ड *

साधु चरित सुभ चरित कपासु, निरस तिसद गुनमय फल जासु ।
 जां सहि दुख परछिद्र दुरावा, वंदनीय जेहिं जग जम पावा ।
 मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथराजू ।
 राम भक्ति जहँ सुरसरि धारा, सरसइ ब्रह्म विचार प्रचारा ।
 विधि निषेधमय कलि मल हरनी, करम कथा रविनंनि वरनी ।
 हरि हर कथा विराजति बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी ।
 वट विधास अचल निज धरमा, तीरथराज समाज सुकरमा ।
 सवहि सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा ।
 अकथ अलौकिक तीरथराऊ, देइ सब फल प्रगट प्रभाऊ ।

* दोहा *

सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग ।

लहहि चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग ॥

मज्जन फल पेखिअ ततकाला, काक होहिं पिक बकउ मराला ।
 सुनि आचरज करै जनि कोई, सतसंगति महिमा नहिं गोई ।
 बालमीक नारद घटजोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी ।
 जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना ।
 मति कीरति गति भूति भलाई, जय जेहिं जतन जहां जेहिं पाई ।
 सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहुँ वेद न आन उपाऊ ।
 विनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई ।
 सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिधि सब साधन फूला ।
 सठ सुधरिं सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई ।
 विधि बस सुजन कुसंगत परहीं, फनि मनि सम निज गुन अनुसरहीं ।
 विधि हरि हर कवि काविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी ।
 सो मो सन कहि जात न कैसे, साक बनिक मनि गुन गन जैसे ।
 हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोकहुँ वेद विदित सब काहू ।
 गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहिं मिलइ नीच जल संगी ।
 साधु असाधु सदन सुक सारीं, सुमिरहिं राम देहिं गनि गारीं ।
 धूम कुसंगति कारिख होई, लिखिअ पुरान मंजु मसि सोई ।
 सोई जल अनल अनिल संघाता, होइ जलद जग जीवन दाता ।

❀ दोहा ❀

गृह भेषज जल पवन पट, पाट कुजोग सुजोग ।
 होहि कुवस्तु सुवस्तु जग, लम्बहि सुलच्छन लोग ॥
 तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरिण तुला एक अग ।
 तूल न ताहि सकल मिलि, जो सुख लव सतसंग ॥

अब मोहिं भा भरोस हनुमन्ता, विनु हरिकृपा मिलहिं नहिं संता ।
 बड़े भाग पाईव सतसंगा, विनहि प्रयास होहि भव भंगा ॥

❀ दोहा ❀

सतसंग अपवर्ग कर, कामी भव कर पन्थ ।
 कहहि संत कवि कोविट, श्रुति पुरान सदग्रन्थ ॥
 भक्ति सुतंत्र सकल सुख वानी, विनु सतसंग न पावहिं प्राणी ।
 पुन्य पुंज विनु मिलहिं न संता, सत संगति संसृति करअंता ।
 तवहिं होई सब संसय भंगा, जब बहु काल कणिए सतसगा ।

❀ दोहा ❀

विनु सतसंग न हरि कथा, तेहि विनु मोह न भाग ।
 मोह गये विनु रामपद, होई न दृढ अनुराग ॥

निगमागम पुरान मत एहा, कहहिं सिद्ध मुनि नहिं संदेहा ।
 मत विसुद्ध मिलहिं परि तेही, चितवहिं राम कृपा करिं जेही ।
 राम कृपा तव दरसन भयऊं, तव प्रसाद सब संसय गयऊं ।

सत संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरि एकऊ बारा ।
 रज मग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई ।
 मरूत उड़ाइ प्रथम तेहि भाई, पुनि नृप नयन करीटन पाई ।
 सुनु खगपति अस समुक्ति प्रसंगा, बुध नहि करहि अधम कर संगी ।
 देख गरुड़ निज हृदय विचारी, मै रघुवीर भजन अधिकारी ।
 राम सिन्धु धन सज्जन धीरा, चन्दन तरु हरि सन्त समीरा ।
 सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, मो बिन सन्त न काहू पाई ।
 अस विचारि जो कर सत संगी, राम भक्ति तेहि सुलभ विहङ्गा ।

❀ दोहा ❀

आजु धन्य मै धन्य अति, यद्यपि सब विधि हीन ।
 निज जन जानि राम मोहि सन्त समागम दीन्ह ॥
 गिरजा सन्त समागम सम, न लाभ कछु आन ।
 विनु हरि कृपा न होय सो, गावहि वेद पुरान ॥

❀ राम नाम महात्म्य ❀

महामंत्र जोई जपत महेश्व, कासीं मुकुति हेतु उपदेश ।
 महिमा जासु जान गनराऊ, प्रथम पूजिअत नाम प्रभाऊ ।
 जान आदिकवि नाम प्रतापू, भयउ सुद्ध करि उलटा जापू ।
 सहस नाम सम सुनि सिव बानी, जपि जेई पिय संग भवानी ।
 हृषे हेतु हेरि हर ही को, किय भूषन तिय भूषन ती को ।
 नाम प्रभाउ जान सिव नीको, कालकूट फलु दीन्ह असीको ।

नारद जानेउ नाम प्रतारू, जग प्रिय हरि हर प्रिय आपू ।
 नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादू, भगत मिरोमनि भे प्रह्लादू ।
 ध्रुवें सगलानि जपेउ हरि नाऊं, पायउ अचल अनूपम ठाऊ ।
 सुमिरि पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू ।
 अपतु अजामिलु गजु गनि काऊ, भए मुकुत हरि नाम प्रभाऊ ।
 कहाँ कहाँ लागि नाम बड़ाई, रामु न सकहिं नाम गुन गाई ।

* दोहा *

नामु राम को कलपतरु, कलि कल्याण निवासु ।
 जो सुमरित भयो भाँग तें, तुलसी तुलसीदासु ॥

चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका, भए नाम जपि जीव विसोका ।
 वेद पुरान सन्त मत एहू, सकल सुकृत फल राम मनेहू ।
 ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितापत प्रभु पूजे ।
 कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयोनिधि जन मन मीना ।
 नाम कामतरु काल कराला, सुमिरत ममन सकल जग जाला ।
 राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु भाता ।
 नहिं कलि करम न भगति विवेकू, राम नाम अवलंबन एहू ।
 कालनेमि कलि कपट निधानू, नाम सुमति समरथ हनुमानू ।

❀ दोहा ❀

राम नाम नरकेसरी कनककसिपु कलिकाल ।
 जापक जन प्रह्लाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥

❀ त्रयोध्याकाण्ड ❀

राम राम कहि जे जमुहार्हीं, तिन्ह द्वि न पाप पुंज समुहार्हीं ।
करमनास जलु सुरसरि परई, तेहि को कहहु सीस नहीं धरई ।
उलटा नामु जपत जगु जाना, बालमीकि भये ब्रह्म समाना ।

❀ दोहा ❀

स्वपच सबर स्वस जमनजड, पांवर कोल किरात ।

रामु कहत पावन परम, होत भुवन विख्यात ॥

ठमा कहउं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजनु जगत सब सपना ।

जद्यपि प्रभुके नाम अनेका, श्रुति कह अधिक एकतेँ एका ।

राम सकल नामन तँ अधिका, होउ नाथ अध-खग-गन बधिका ।

❀ दोहा ❀

राका रजनी भगति तव, राम नाम सोई सोम ।

अपर नाम उडगन विमल, बसहुँ भगत उर व्योम ॥

जन्म जन्म मुनि जतन कराहिं, अत राम कहि आवत नार्हीं ।

जासु नाम बल शंकर कासी, देत सवहिं सम गति अविनासी ।

पापिउ जा कर नाम सुमरहीं, अति अपाग भव सागर तरहीं ।

राम चरन पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम्ह करहु ।

राम नाम विनु गिरा न सोहा, देखु बिचारि त्यागि मद मोहा ।

बसनहीन नहिं मोह सुरारि, सब भूपन भूपित वर नारी ।

राम विमुख संपति प्रभुताई, जाई रही पाई विनु पाई ।

❀ दोहा ❀

मोह मूल बहु सूत प्रद, त्यागहृ तम अभिमान ।
भजहु राम रघुनायक, कृपासिंधु भगवान ॥

❀ लंकाकाण्ड ❀

❀ दोहा ❀

श्री रघुवीर प्रताप ते, सिंधु तरे पापान ।
ते मतिमंद जे राम तजि, भजहिं जाई प्रभु आन ॥

❀ उत्तराकाण्ड ❀

❀ दोहा ❀

सुनु व्यालारि काल कलि, मल अवगुन आगार ।
गुनहु बहुत कलिजुग कर, विनु प्रयास निस्तार ॥
कृतजुग त्रेता द्वार, पूजा मख अरु जोग ।
जो गति होई सो कलिहरि, नाम ते पावहिं लोग ॥

❀ मातृपितृ-भक्ति ❀

❀ बालकाण्ड ❀

प्रातःकाल उठि कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहिं माथा ।
आयसु मागि करहिं पुरकाजा, देख चरित हरपइ मन राजा ॥

❀ दोहा ❀

व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुन नाम न रूप ।
भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप ॥

❀ अयोध्याकाण्ड ❀

मातु पिता गुरु स्वामि सिख, सिर धरि करहिं सुभायँ ।
लहेउ लाभु तिन्ह जनम कर नतरु जनम जग जायँ ॥

धन्य जनम जगतीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुन जासु ।
चार पदार्थ करतल तांके, प्रिय पितु मातु प्रान सम जांके ।
मातु पिता गुरु प्रभु कै बानी, विनहि विचार करिअ सुभजानी ।
सुन जननी सोई सुतु बड़भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी ।
तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा ।
परसुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी ।
तनय जजातिहि जौवनु दयऊ, पितु आज्ञा अघ अजसु न भयऊ ।

❀ दोहा ❀

अनुचित उचित विचारु तजि जे पालहि पितु बैन ।
ते भाजन सुख सुजम के बसहि अमर पति ऐन ॥

❀ प्रारब्ध ❀

❀ बालकाण्ड ❀

भरद्वाज सुनु जाहि जब, होइ विधाता वाम ।
धूरि मेरु सम जनक जम, ताहि व्याल सम दाम ॥

मारे हु कहें न संशय जाहीं, विधि विपरीत भलाई नाहीं ।
होइहि सोइ जो राम रुचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साखा ।
हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभु सुजाना ।

❀ दोहा ❀

कह मुनीस हिमवन्त सुनु, जो विधि लिखा लिलार ।
देव दनुज कर नाग मुनि, कोउ न भेटनहार ॥

अस विचारि सोचहि मति माता, सो न टरइ जो रचइ विधाता ।
 करम लिखा जौं बाउर नाहू, तौ कत दोसु लगाइअ काहू ।
 तुम्ह स न मिटहि कि विधिके अंका, मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका

* छन्द *

जनि लेहु मातु कलंकु करुना परि हरहु अवसर नही ।
 दुखु सुखु जो लिखा लिलार हमरे जाव जहँ पाउव तहीं ॥

* दोहा *

तुलसी जसि भवतव्यता, तैसी मिलइ सहाइ ।
 आपनु आवइ ताहि पहिं, ताहि तहा लौ जाइ ॥
 भूपति भावी मिटइ नहि, जदपि न दूपन तोर ।
 किये अन्यथा होइ नहि, विप्र श्राप अति घोर ।

जीव करम वस सुख दुख भागी, जईअ अवध देव हित लागी ।
 तुम पंडित परमारथ ग्याता, धरहु धीर लखि विमुख विधाता ।
 विविध कथा कहि कहि मृदु बानी, रथ बैठारेउ बरबस आनी ।
 जनि मानहु हियँ हानि ग्लानी, काल करम गति अघटित जानी ।
 काहुहिं दोसु देहू जनि ताता, भा मोहि सब विधि वाम विधाता
 लखि विधि वाम कालु कठिनाई, धीरजु धरहु मातु बलिजाई ।
 सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु ।

* दोहा *

सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहेंउ मुनि नाथ ।
 हानि लाभ जीवन मरनु, जसु अपजसु विधि हाथ ॥

सुख स्वरूप रघुवश मनि, मंगल मोद निधान ।

ते सोवत कुस डसि महि, विधि गति अति बलवान ॥

सुनहु भरत हम सब सुधि पाई, विधि करतव पर किछु न बसाई ।

तुम्ह गलानि जियँ जनि करहु. समुक्ति मातु करतुति ।

तात कैकई दोसु नहिं, गई गिरा मति धूति ॥

कोउ कह दूषनु रानिहि नाहिन, विधि सत्रु कीन्ह हमहि जो दाहिन ।

❁ अयोध्याकाण्ड ❁

जनम मरन सब दुख सुखभोगा, हानिलाभु प्रिय मिलन वियोगा

काल करम बस होहिं गोसाईं, बरबस राति दिवस की नाई ।

सुख हरषहिं जइ दुख बिलखाहीं, दोउ सम धीर धरहिं मन माहीं ।

धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़िअ सोच सकल हितकारी ।

कौसल्या कह दोसु न काहू, करम बिबस दुख सुख छति लाहू ।

कठिन करमं गति जान विधाता, जो सुभ असुभ सकल फल दाता

ईस रजाइ सीस सब ही कें उत्पती, थिति लय विषहु अमी कें ।

देवि मोह बस सोचिअ बादी, विधि प्रपंचु अस अचल अनादी ।

❁ माया का प्रभाव ❁

❁ बालकाण्ड ❁

❁ सोरठा ❁

लाग न उर उपदेसु, जदपि कहेऊ सिवँ बार बहु ।

बोले बिहसि महेसु, हरिमाया बलु जानि जियँ ॥

जिनकृत महा मोह मद पाना, तिन्ह कर कहा करिअ-नहिं-काना ।

* किष्किन्धाकाण्ड *

तव माया बस फिरऊ भुलाना, ताते मैं नहिं प्रभु पहिचाना ।

* दोहा *

एकु मै मंड मोह बस, कुटिल हृदय अग्यान ।

पुनि प्रभु मोहि विसारेउ दीन बन्धु भगवान ॥

नाथ जीव तव मायाँ मोहा, सो निस्तरई तुम्हरेहिं छोहा ।

नाथ विषय सम मद कछु नाहीं, मुनि मन मोह करई छन माहीं ।

अतिसय प्रबल देव तव माया, छूटइ राम करहु जो दाया ।

विषय बस्य सुर नगमुनि स्वामी, मैं पावँ पसु कपि अति कामी

नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तम निसि जो जागा ।

लोभ पाँम जेहि गर न बंधाया, सो नर तुम्ह समान गधुगया ।

यह गुन साधनतें नहीं होई, तुम्हरी कृपां पावे कोई कोई ।

* सुन्दरकाण्ड *

गगन समीर अनल जल धरनी, ईन्ह कई नाथ सहज जड करणी

तव प्रेरित मायाँ उपजाए, सृष्टि हेतु सब ग्रन्थानि गाए ।

* लंकाकाण्ड *

* दोहा ❀

जासु प्रबल माया बस, शिव विरंचि बड़ छोट ।

ताहि दिबावई निशिचर, निज माया मति खोट ॥

❁ उत्तरकाण्ड ❁

सुनि नारदहि लागि अति दाया, सुनु खग प्रवल राम कै माया ।
जो ग्यानिन्ह कर चित अपहरई, बरिआई विमोह मन करई ।
जेहि बहु वार नचावा मोहीं, सोई व्यापी विहंगपति तोही ।
प्रभु माया बलवन्त भवानी, जाहि न मोह कवन अस ग्यानी ।

❁ दोहा ❁

ग्यानी भगत सिरोमनि त्रिभुवनपति कर जान ।
ताहि मोह माया नर, पावैर करहि गुमान ॥
शिव विरंचि कहूँ मोहई को है बपुरा आन ।
अस जिये जानि भजहि मुनि, माया पति भगवान ॥

मोह न अन्ध कीन्ह केहि केही, को जग काम नचाव न जेही ।
तृस्ताँ केहि न कीन्ह वौराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहि दाहा ।

❁ दोहा ❁

ग्यानी तापस सूर कवि, कोविद गुन आगार ।
के हि कै लोभ विडम्बना, कीन्हि न ऐहि संसार ॥
श्री-मद बक्र न कीन्ह केहि, प्रभुता बधिर न काहि ।
भृग लोचनी के नैन सर, को अस लाग न जाहि ॥
क्रोध कि द्वैत बुद्धि विनु, द्वैत कि विनु अग्यान ।
माया बस परिच्छन्न जड़, जीवकि ईस समान ॥

छौरत ग्रन्थि पाव जाँ सोई, तब यह जीव कृतारथ होई ।

छोरत ग्रन्थि जानि खगराया, विघ्न अनेक करई तत्र माया ।
रिद्धि सिद्धि प्रेरई बहु भाई, बुद्धिहि लोभ दिखावहिं आई ।
कलबल छत्र करि जाहिं समीपा, अंचल वात बुजावहिं दीपा ।



* अरण्यकाण्ड *


❁ दोहा ❁

काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कै धारि ।
तिन्ह महुँ अति दारुन दुखद, माया रुपी नारि ॥
सुनु मुनि कह पुरान श्रुति संता, मोह विपिन कहुँ नारि वसंता ।
जप तप नेम जलाश्रय भारी, होई ग्रीष्म सोपई सब नारी ।

* उत्तराकाण्ड *

* सोरठा *

सोड मुनि ग्याननिधान, मृगनयनी त्रिधुमुख निरखि ।
बिबस होई हरिजान, नारि विष्णुमाया प्रगट ॥



* बालकाण्ड *

❁ दोहा ❁

सतो हृदय अनुमान किय, सब जानेउ सर्वग्य ।
कीन्ह कपट में शम्भु सन, नारि सहज जड अग्य ॥
पुनि पति बचनु मृषा करि जाना, सो फलु मोहिं विधातां दीन्हा

❀ अयोध्याकाण्ड ❀

उत्तरे देई न लेई उषाम्ब, नारि चरित करी ढारई आँसू ।
नीद बहुत प्रिय सेज तुराई, लखहु न भूप कपट चतुराई ।

❀ दोहा ❀

काने खोरे कूबरे, कुटिल कुंचाली जानि ।

तिय बिसेपि पुनि चेरि कहि, भरत मातु मुसुकानि ॥

जद्यपि नीति निपुन नरनाहू, नारि चरित जलनिधि अवगाहू ।
सत्य कहहिं कवि नारि सुभाऊ, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ ।
निज प्रतिविम्बु बरकु गहि जाई, जानि न जाई नारिगत भाई ।

❀ दोहा ❀

फाहे न पावकु जारि सक, का न समुद्र समाई ।

का न करै अबला प्रबल, केहि जग कालु न खाई ॥

विधिहुँ न नारि हृदयगति जानी, सकल कपट अघ अवगुन खानी
सरल सुसील धरम रत राउ, सो किमि जानै तीय सुभाऊ ।

❀ अरण्यकाण्ड ❀

भ्राता पिता पुत्र उरगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी ।

होइ विकल सक मनहि न रोकी, जिमिर विमनि द्रवरहि विलोकी ।

❀ लंकाकाण्ड ❀

नारि सुभाऊ सत्य सब कहहीं, अवगुन आठ सदा उर रहहीं ।

साहस अनृत चपलता माया, भय अविवेक असौच अदाया ।

❀ स्त्री धर्म ❀

❀ बालकाण्ड ❀

सती मरत हरिसन बह मागा, जनम जनम सिव पद अनुरागा ।

❀ दोहा ❀

महादेव अवगुन भवन, विष्णु सकल गुन धाम ।

जेहि कर मनु रम जाहिसन, तेहि तेहि सन काम ॥

जन्म कोटि लागि रगर हमारी, वरऊं शम्भु न त रहऊं कुआरी
 तजऊं न नारद कर उपदेसू, आपु कहहिं सत वार महेसू ।
 करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारि धरमु पति देउ न दूजा ।
 जदपि जोपिता नहिं अधिकारी, दासी मन क्रम वचन तुम्हारी ।
 पुनि पुनि सीय गाँद करि लेहीं, देई असीस सिखावनु देहीं ।
 होएहु सँतत पियहि पियारा, चिरु अहिवात असीस हमारी ।
 सासु ससुर गुरु सेवा करेहू, पति रुख लखि आयसु अनुसोहू ।
 अति सनेह बस सखी सयानी, नारि धरम सिखुवहिं मृदुवानी ।

❀ अयोध्याकाण्ड ❀

चलन चहत वन जीवननाथू, केहि सुकृती सन होइहिं साथू ।
 की तनु प्रान कि केवल प्राना, विधि करतवु कछु लाई न जाना ।
 आयसु मोर सासु सेवकाई, सब विधि भामिनि भवन भलाई ।
 एहि ते अधिक धरमु नहिं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा ।

दीन्हि प्रानपति मोहि सीख सोई, जेहि विधि मोरं परमहित होई ।
मैं पुनि समुझि दीखि मन माहीं, पिय वियोग सम दुखु जग नाहीं

❀ दोहा ❀

प्राननाथ वरुनायतनं, सुन्दरं सुखद सुजान ।

तुम बिनु रघुकुल कुमुद विधु, सुरपुर नरक समान ॥

मातु पिता भगिनी प्रिय भाई, प्रिय परिवारु सुहृद समुदाई ।
सासु ससुर गुरु सजन सहाई, सुत सुन्दर सुसील सुखदाई ।
जहँ लगि नाथ नेह अरु नाते, पिय विनु तियहि तरनिहु ते ताते ।
तनु धनु धामु धरनि पुर राजू, पति विहीन सवु सोक ममाजू ।
भोग रोग सम भूषन भारु, जम जातना सरिस संसारु ।
प्राननाथ तुम बिनु जग माहीं, मो कहूँ मुखद कतहुँ कछु नाहीं ।
जिय विनु देह नदी विनु बारी, तैसिअ नाथ पुरुष विनु नागी ।
नाथ सकल सुख साथ तुमारे, सरद विमल विधु वदन निहारे ।

❀ दोहा ❀

खग मृग परिजन नगरु वनु, बलकल विमल दुकूल ।

नाथ साथ सुरसदन सम, परनसाल सुख मूल ॥

सम महि तन तरुपल्लव डामी, पाय पलोटिहि सब निसि दासी ।
बार बार मृदु मूरति जोही, लागिहि तात बयारि न मोही ।
को प्रभु संग मोहिचितवनिहारा, सिंघबधुहि जिमि ससक सिआरा
मैं सुकुमारि नाथ बन जोगू, तुमिह उचित तप मोकहुँ भोगू ।
राम प्रबोधु कीन्ह विधि नाना, समऊ सनेहु न जाई बखाना ।

तव जानकी सासु पग लागी, सुनिए माय मैं परम अभागी ।
 सेवा समय दैअँ वनु दीन्हा, मोर मनोरथु सकल न कीन्हा ।
 तजव छोभु जनि छाडिअ छोह, करमु कठिन कछु दांसुन मोह ।
 सुनि सिय वचन सासु अकुलानी, दशा कवनि विधि कहौं बखानी ।

❁ सासु का धर्म ❁

वारहिं वार लाई उर लीन्ही, धरि धीरजु शिख आसिय दीन्ही ।
 अचल होउ अहिवातु तुम्हारा, जव लगि गंग जमुन जलधारा ।

❁ दोहा ❁

सोतहि सासु असीस सिख, दीन्हि अनेक प्रकार ।

चली नाई पद पदुम मिरु अतिहित वारहि वार ॥

गामसंग सिय रहति सुखागी, पुर परिजन गृह मुरति विमारी ।
 परन कुटी प्रिय प्रियतम संग, प्रिय परिवार कुरंग-विहंगा ।
 सासु सक्षुरसम मुनि तिय मुनिवर, असनु अमिअ सम कंदमूल कर
 नाथ साथ साँथरी सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई ।
 प्रिय परिजनहि मिली वैदही, जो जेहि जोगु भांति तेही तेही ।
 तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेमु परितोषु विसेपी ।
 पुत्रि पवित्र किए कुल दौऊ, मुजस धवल जगु कह सबु कोऊ ।

❁ अरण्यकाण्ड ❁

— पाता अनश्रूया ने सीता को स्त्रिधर्म कहा—

कह रिपिवधू सरस मृदु बानी, नारि धर्म कछु व्याज बखानी ।

मातु पिता भ्राता हितकारी, मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ।
 अमित दानि भर्ता बचदेही, अधम सो नारि जो सेव न तेही ।
 धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद काल परिखिअहि चारी ।
 वृद्ध रोगवस जड़ धन हीना, अन्ध बधिर क्रोधी अति दीना ।
 ऐसेहु पतिकर किअ अपमाना, नारि पाव जमपुर दुख नाना ।
 एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा ।
 जग पतिव्रता चार विधि अहहीं, वेद पुरान संत सब कहहीं ।
 उत्तम के अस बस मन माहीं, सपनेहुँ आन पुरुष जग नाहिं ।
 मध्यम परपति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे ।
 धर्म विचारि समुझि कुल रहई, सो निक्रिष्टत्रिय श्रुति अस कहई ।
 विनु अवसर भय तें यह जोई, जानेहु अधम नारी जग सोई ।
 पति बंचक परपति रति करई, रौरव नरक कल्प सत परई ।
 छन सुख लागि जनम सत कोटि, दुख न समुज तेहि सम को खोटी ।
 विनु श्रम नारि परम गति लहई, पतिव्रत धर्म छाडि छल गहई ।
 पति प्रतिकूल जनम जहँ जाई, विधवा होई पाई तरुनाई ।

* सुन्दरकाण्ड *

प्रभु संदेसु सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहिं तेही ।

❁ सुमित्रा लक्ष्मण गीता ❁

* अयोध्याकाण्ड *

धीरज धरेउ कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदु धानी ।

तात तुम्हारि मातु वैदेही, पिता रामु सब भाँति सनेही ।
 अबध तहां जहँ राम निवास, तहँई दिवसु जहँ भानु प्रकासु ।
 जौ पै सीय रामु बन जाहीं, अबध तुम्हार काजु कलु नाहीं ।
 गुर पितु मातु बन्धु सुर साई, सेइअहिं सकल प्रान की नाई ।
 रामु प्रानप्रिय जीवन जी के, स्वारथ रहित सखा सबही के ।
 पूजनीय प्रिय परम जहां तैं, सब मानिअहिं राम के नातैं ।
 अस जियँ जानि संग बन जाहू लेहु तात जग जीवन लाहू ।

❀ दोहा ❀

भूरि भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाउँ ।

जौ तुम्हरे मन छाड़ि छलु, कीन्ह राम पद ठाउँ ।

पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगतु जासु सुतु होई ।
 नतरु वाँझ भलि वादि विआनी, राम विमुख सुत ते हित जानी ।
 तुम्हरेहिं भाग रामु बन जाहीं, दूसर हेतु तात कछु नाहीं ।
 सकल सुकृत कर बढ फलु एह, राम सीय पद सहज सनेह ।
 रागु रोपु इरिषा मदु मोह, जनि सपनेहुँ इन्ह के बस होह ।
 सकल प्रकार विकार विहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई ।
 तुम्ह कहूँ बन सब भाँति सुपास, संग पितु मातु रामु सिय जास ।
 जेहि न रामु बन लेहहिं कलेस, सुत सोइ करेहू इहइ उपदेस ।

❀ लक्ष्मणा गुह गीता ❀

* क्रोध के त्याग का उपाय *

❀ अयोध्याकाण्ड ❀

काहु न कोउ सुख दुख कर दाता, निज कृत करम भोग सबु भ्राता
जोग वियोग भोग भल भंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा ।
जनमु मरनु जहँ लगि जग जालू, संपति विपति करमु अरु कालू
धरनि धामु धनु पुर परिवारू, सरगु नरकु जहँ लगि व्यवहारू ।
देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं, मोह मूल परमारथु नाहीं ।

❀ दोहा ❀

सपनें होइ भिखारि नृपु रंकु नाकपति होइ ।

जागे लाभु न हानि कछु तिभि प्रपंच जियँ जोइ ॥

अम विचारि नहिं कीजिअ रोसू, काहुहि वादि न देइअ दोसू ।
मोह निसाँ सबु सोवनिहारा, देखिअ सपन अनेक प्रकारा ।
एहिं जग जामिनि जागहिं जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी ।
जानिअ तवहिं जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा
होइ विवेकु मोह भ्रम भागा, तव रघुनाथ चरन अनुरागा ।
सखा परम परमारथु एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू ।
राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा ।
सकल विकार रहित गतभेदा, कहि नित नेति निरूपहिं वेदा ।

❀ केवट भक्त ❀

❀ अयोध्याकाण्ड ❀

मांगी नाव न केवट आना, कहइ तुम्हार मरसु मैं जाना ।
चरन कमल रज कहँ सबु कहई, मानुष करनि मूरि कछु अहई ।

छुअत सिला भइ नारि सुहाई, पावन तें न काठ कठिनाई ।
 तरनिउ मुनि घरिनी होइ जाई, वाट परइ मोरि नाव उड़ाई ।
 एहिं प्रतिपालउं सबु परिवारू, नहिं जानउं कहु अउर कवारू ।
 जौं प्रभु पार अवसि गा चहहु, मोहि पद पदमु पखारन कहहु ।

❀ छंद ❀

पद कमल धोई चढ़ाइ नाव न नाथ उतराई चहौं ।
 मोहि राम राउरि आन दसरथ सपथ सब साची कहौं ॥
 वरु तीर मारहुँ लखनु पै जब लगि न पाय पखारिहौं ।
 तव लगि न तुलसीदास नाथ कृपाल पाव उतारिहौं ॥

* सोरठा *

सुनि केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे ।

बिहसे करुनाएन चितइ जानकी लखन तन ॥

कृपासिंधु बोले मुसुकाई, सोइ करु जेहिं तव नाव न जाई ।
 वेगि आनु जल पाय पखारू, होत बिलम्बु उतारहि पारू ।
 जासु नाम सुभिरत एक वारा, उतरहिं नर भवसिंधु अपारा ।
 सोइ कृपालु केवटहि निहोरा, जेहिं जगु किय तिहु पगहु तं थोरा
 पद नख निरखि देवसरि हरपी, सुनि प्रभु वचन मोहं मति करपी ।
 केवट राम रजाथसु पावा, पानि कठवता भरि लेइ आवा ।
 अति आनन्द उमगि अनुरागा, चरन सरोज पखारन लागा ।
 वरपि सुमन सुर सकल सिहाहीं, एहि सम पुन्य पुन्ज कोउ नाही ।

❀ दोहा ❀

पद पखारि जल पान करि, आपु सहित परिवार ।

पितर पारु करि प्रभुहि पुनि, मुदिन गयउ लेइपार ॥

उतरि ठाढ़ भए सुरसरि रेतौ । सीय रामु गुह लखन समेतौ ॥
 केवट उतरि दडवत कीन्हा । प्रभुहि सकुच एहि नहिं कछु गीन्हा ॥
 पिय हिय की सिय जाननिहारी ! मनि मुदरी मन मुदित उतारी ॥
 केहेउ कृपाल लेहि उतराई । केवट चरन गहे अकुलाई ॥
 नाथ आज मै काह न पावा । मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥
 बहुत काल मै कीन्हि मजूरी । आजु दीन्ह विधि बनि भलि भूरि ॥
 अब कछु नाथ न चाहिअ मोरे । दीनदयाल अनुग्रह तोरे ॥
 फिरती बार मोहि जो देवा । सो प्रसादु मै सिर धरि लेवा ॥

❀ ज्ञान ❀

❀ बालकाण्ड ❀

❀ दोहा ❀

जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानि ।

बन्दुऊं सब के पद कमल, सदा जोरि जुगपानि ॥

सीयराम भय सब जग जानी । करऊं प्रनाम जोरि जुगपानी ॥

भगतिहि ग्यानहि नहिं कछु भेदा । उभय हरहि भव सम्भव खेदा ॥

नाथ मुनीस कहहि कछु अन्तर । सावधान सोउ सुनु विहगवर ॥

ग्यान विराग जोग विग्याना । ऐ सब पुरुष सुनहु हरि जाना ॥

पुरुष प्रताप प्रबल सब भाति । अबला अबल सहज जड जाती ॥

सुनहु तात यह अकथ कहानी । समुभक्त बनई न जाई बखानी ॥

ईश्वर अंस जीव अविनासी । चेतन अमल सहज सुख रासी ॥

मो माया वस भयऊ गोसाईं । बन्धयो कीर मरकटकी नाई ॥
 जड चेतनहि ग्रन्थि परि गई । जदपि मृपा छूटत कठिनई ॥
 तब ते जीव भयऊ संसारी । छूट न ग्रन्थि न होई सुखारी ॥
 श्रुति पुरान बहु कहेउ ऊपाई । छूट न अधिक अधिक अरुभाई ॥

❀ सोरठा ❀

एहि विधि लेसै दीप, तेज रासि विग्यान मय ।

जातहि जासु समीप, जरहि मदादिक सलभ सब ॥

मोहमस्मि इति वृत्ति अखंडा । दीप सिखा सोई परम प्रचंडा ॥
 आतम अनुभव सुख सुप्रकाशा । तब भव मूल भेद भ्रम नासा ॥
 प्रबल अविद्या कर परिवारा । मोह आदि तम मिटई अपारा ॥
 तब सोई बुद्धि पाई ऊंजिआरा । उर गृह वैठि ग्रन्थि निरुआरा ॥

* उत्तरकाण्ड *

ग्यान पन्थ कृपान कै धारा । परत खगेस होई नहि वारा ॥
 जो निर्भिन्न पन्थ निवंहई । सो कैवल्य परम पद लहई ॥
 अति दुर्लभ कैवल्य परम पद । सन्त पुरान निगम आगम बढ ॥
 ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विग्यानी । मोहिं परम अधिकारी जानी ॥
 लागे करन ब्रह्म उपदेशा । अज अद्वैत अगुन हृदयेसा ॥
 अकल अनीह अनाम अरुपा । अनुभव गम्य अखंड अनूपा ॥
 सनगोतीत अमल अविनासी । निर्धिकार निरवधि सुखरासी ॥
 मो तै ताहि तोहि नहि भेदा । बारिबीचिईव भावहि वेदा ॥
 ग्यानहि भगतिहि अन्तर केता । सकल कहहु प्रभु कृपानिकेता ॥

सुनि उरगारि बचन सुख माना । सादर बोलेउ काम सुजाना ॥

❀ बालकाण्ड ❀

सगुनहि अगुनहि नहिं कछु भेदा । गावहिं मुनि पुरान बुध वेदा ॥

अगुन अरूप अलख अज जोई । भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥

ओ गुन रहित सगुन सोइ कैसे । जलु हिम उपल बिलग नहिं जैसे ॥

जासु नाम भ्रम तिमिर पंतगा । तेहि किमि कहिअ बिमोह प्रसंगा ॥

राम सच्चिदानन्द दिनेसा । नहिं तहँ मोह निसा लवलेसा ॥

सहज प्रकासरूप भगवाना । नहिं तहं पुनि विग्यान बिहाना ॥

हरष विपाद् ग्यान अग्याना । जीव धर्म अहमिति अभिमाना ॥

राम ब्रह्म व्यापक जग जाना । परमानन्द परस पुराना ॥

जगत प्रकास्य प्रकासक रामू । मायाधीस ग्यान गुन धामू ॥

जासु सत्यता तें जड़ माया । भास सत्य इव मोह सहाया ॥

❀ दोहा ❀

रजत सीप महुँ भास जिमि जथा भानु कर वारि ।

जदपि मृषा तिहुँ काल सोइ भ्रम न सकइ कोउ टारि ॥

एहि विधि जग हरि आश्रित रहई । जदपि असत्य देत दुख अहई ॥

जौ सपनें सिर काटै कोई । विनु जागे न दूरि दुख होई ॥

जासु कृपां अस भ्रम मिटि जाई । गिरिजा सोइ कृपाल रघुराई ॥

आदि अन्त कोउ जासु न पावा । मति अनुमानि निगम अस गावा

विनु पद चलइ सुनइ विनु काना । कर विनु करम करइ विधि नाना ॥

अरदन रहित सकल रस भोगी । विनु बानी वक्रता वड़ जोगी ॥

तन विनु परस नयन विनु देखा । ग्रहइ ब्रान विनु वास असेपा ॥
असि सब भांति अलौकिक करनी । महिमा जासु जाइ नहिं वरनी ॥

—बालमीकि ने राम का निवास स्थान कहा—

* अयोध्याकाण्ड *

ॐ दोहा ॐ

पूँछेहु मोहि कि रहौं कहँ मैं पूँछत सकुचाऊँ ।

जहँ न होहु तहँ देहु कहि तुम्हहि देखावौं ठाऊँ ॥

सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने । सकुचि राम मन महुँ मुसकाने ॥
बालमीकि हंसि कहहि बिहोरी । बानी मधुर अमिअर रस वोरी ॥
सुनहु राम अब कहऊं निकेता । जहां बसहु सिय लखन समेता ॥
जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुभग सरिताना ॥
भरहि निरन्तर होहि न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहूँ गृहरूरे ॥
लोचन चातक जिन्ह करि राखे । रहहिं दरस, जलधर अभिलापे ॥
निदरहि सरित सिंधु सर भारी । रूप बिंदु जल होहिं सुखारी ॥
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक । बसहु बन्धुसिय सह रघुनायक ॥

* दोहा ॐ

जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु ।

सुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हियँ तासु ॥

प्रसु प्रसाद सुचि सुभग सुवासा । सादर जासु लहइ नित नासा ॥
तुम्हहि निवेदित भोजन करही । प्रसु प्रसाद पट भूपन धरही ॥

सीस नवहिं सुर गुरु द्विज देखी । प्रीति सहित करि विनय बिसेषी ॥
 कर नित करहिं राम पद पूजा । राम भरोस हृदयं नहि दूजा ॥
 चरन राम तीरथ चलि जाहीं । राम बसहु तीन्ह के मन माहीं ॥
 मंत्रराजु नित जपहि तुम्हारा । पूजहिं तुम्हहि सहित परिवारा ॥
 तरपन होम करहिं विधि नाना । विप्र जेवाई देहिं बहु दाना ॥
 तुम्ह तें अधिक गुरुहि जियं जानी । सकल भायं सेवहिं सनमानी ॥

❀ दोहा ❀

सबु करि मांगहिं एकु फलु राम-चरन-रति होउ ।

तिन्हके मन मन्दिर बसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥

काम कोह मद् मान न मोहा । लोभ न छोभ न राग न द्रोहा ॥
 जिन्ह के कपट दंभ नहि माया । तिन्ह के हृदय बसहु रघुराया ॥
 सब के प्रिय सब के हितकारी । दुख-सुख-सरिस प्रसंसा गारी ॥
 कहहिं सत्य प्रियवचन विचारी । जागत सोवत सरन तुम्हारी ॥
 तुम्हहि छांडि गति दूसरि नाहीं । राम बसहु तिन्ह के मन माहीं ॥
 जननी सम जानहि परनारी । धनु पराव विप ते विप भारी ॥
 जे हरपहि परसपति देखी । दुखित होहिं पर विपति विसेखी ॥
 जिन्हहिं राम तुम्हें प्राण पियारे । तिन्ह के मन सुभसदन तुम्हारे ॥

❀ दोहा ❀

स्वामि सखा पितु मातु गुरु जिन्ह के सब तुम्ह तात ।

मनमंदिर तिन्ह के बसहु सीयसहित दोउ भ्रात ॥

अवगुन तजि सब के गुन गहरी । विप्र-धेनु हित संकट सहरी ॥

नीतिनिपुन जिन्ह कह जग लीका । घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका ॥
 गुन तुम्हार समुझइ निज दोसा । जेहि सब भांति तुम्हार भरोसा ॥
 राम भगत प्रिय लागहि जेही । तेहि उर बसहु सहित वैदेही ॥
 जाति पांति धनु धरमु बड़ाई । प्रिय परिवार सदन सुखदाई ॥
 सब तजि तुम्हहि रहइ उर लाई । तेहि के हृदय रहहु रघुराई ॥
 सरगुनरकु अपवर्गु समाना । जहं तहं देख धरे धनु वाना ॥
 करम-वचन-मन राउर चेरा । राम करहु तेहि कें उर डेरा ॥

❀ दोहा ❀

जाहि न चाहिय कबहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु ।
 बसहु निरन्तर तासु मन सो राउर निजगेहु ॥

❀ कौसल्या भरत गीता ❀

जे अघ मातु—पिता—सुत मारें । गाइ गोठ महि—सुर—पुर जारें ॥
 जे अघ तिय-बालक बध कीन्हे । मीत महीपति माहुर दीन्हे ॥
 जे पातक उपपातक अहही । करम वचन-मन-भव कवि कहही ॥
 ते पातक मोहि होहुँ विधाता । जौ यहु होइ मोर मत माता ॥

❀ दोहा ❀

जे परिहरि हरि—हर—चरन भजहिं भूतगन घोर ।
 तेहि कह गति मोहि देउ विधि जौं जननी मत मोर ॥
 बेचहिं वेदु धरमु दुहि लेही । पिसुन पराय पाप कहि देहीं ॥
 कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी । वेद बिद्रूपक विरव विरोधी ॥
 लोभी लंपट लोलुप चारा । जे ताकहि परधनु परदारा ॥

पावउं मै तिन्ह के गति घोरा । जौं जननी येहु संमत मोरा ॥
जे नहि साधु संग अनुरागे । परमारथपथ विमुख अभागे ॥
जे न भजहिं हरि नरतनु पाई । जिन्हहि न हरि-हर सुजसु सुहाई ॥
तजि श्रुति पन्थु वामपथ चलही । बंचक बिरचि चेष जगु छलहीं ॥
तिन्ह कह गति मोहि संकर देऊ । जननी जौ एहु जानउं भेऊ ॥

मातु भरत के वचन सुनि सांचे सरल सुभायं ।

कहति रामप्रिय तात तुम्ह सदा वचन मन कायं ॥

राम प्रानहु तैं प्रान तुम्हारे । तुम्ह रघुपतिहि प्रानहु ते प्यारे ॥
विधु विष चवै स्रवै हिमु आगी । होइ वारिचर वारि विरागी ॥
भएँ ग्यानु बरु भिटै न मोहू । तुम्ह रामहि प्रतिकूल न होहू ॥
मत तुम्हार यहु जो जग कहही । सो सपनेहुँ सुख सुगति न लहही ॥
अस कहि मातु भरतु हियं लाए । थन पय स्रवहिं नयन जल छाए ॥
करत बिलाप बहुत एहि भांती । बैठैहि वीति गई सब राती ॥

❀ विशिष्ट भरत गीता ❀

(शोक करने योग्य कौन है)

❀ दोहा ❀

सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहेउ मुनिनाथ ।

हानि लाभु जीवनु मरनु जस अपजसु बिधि हाथ ॥

अस बिचारि कोहि देइअ दोसू । व्यरथ काहि पर कीजिअ रोसू ।
तात बिचारु करहु मन माही । सोच जोगु दसरथु नृपु नाहीं ॥
सोचिअ बिप्र जो वेद बिहीना । तजि निज धरमु बिषय लयलीना ॥

सोचिअ नृपति जो नीति न जाना । जेहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ।
 सोचिअ वयसु कृपन घनवानू । जो न अतिथि सिव भगति सुजानू ।
 सोचिअ सूद्रु विप्र अवमानी । मुखर मानप्रिय ग्यान गुमानी ॥
 सोचिअ पुनि पति वंचक नारी । कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी ॥
 सोचिअ बटु निजत्रतु परिहरई । जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥

❀ दोहा ❀

सोचिअ गृही जो मोह बस करइ करम पथ त्याग ।

सोचिअ जती प्रण्व रत विगत विवेक विराग ।'

वैसाखनस सोइ सोचै जोगू । तपु विहाइ जेहि भावइ भोगू ॥
 सोचिअ पिसुन अकारन क्रोधी । जननि जनक गुरवन्धुविरोधी ॥
 सब विधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ॥
 सोचनीय सबही विधि सोई । जो न छाडि छलु हरिजन होई ॥
 सोचनीय नहिं कोसलराहु । भुवन चारिदस प्रगट प्रभाऊ ॥
 भयउ न अहइ न अब होनिहारा । भूप भरत जम पिता तुम्हारा ॥
 विधि हरि हरु सुरपति तिसिनाथा । वरनहिं सब दसरथ गुन गाथा ॥

❀ सौरठा ❀

भरतु कमल कर जोरि धीर धुरंधर धीर धरि ।

बचन अमिअं जनु बोरि देत उचित उत्तर सबहि ॥

वादि बसन विनु भूपन भारू । वादि विरति विनु ब्रह्म विचारू ॥
 सरुज सरीर वादि बहु भोगा । विनु हरि भगति जायं जप जोगा ॥
 जायं जीव विनु देह सुहाई । वादि मोर सवु विनु रघुराई ॥

❁ श्री राम लक्ष्मण गीता ❁

—* अरण्यकाण्ड *—



(भक्ति का साधन)

एक बार प्रभु सुख आसीना । लछिमन बचन कहे छल हीना ॥
 सुर नर मुनि सचराचर साईं । मैं पूछऊं निज प्रभु की नाईं ॥
 मोहि समुझाइ कहहु सोइ देवा । सब तजि करौं चरन रज सेवा ॥
 कहहु ग्यान विराग अरु माया । कहहु सो भगति करहु जेहिं दया ॥

❁ दोहा ❁

ईश्वर जीव भेद प्रभु सकल कही समुझाइ ।

जातें होइ चरन रति सोक मोह भ्रम जाइ ॥

थोरेहिं महें सब कहउँ बुझाई । सुनहु तात मति मन चित लाई ॥

मैं अरु मोर तोर तैं माया । जेहिं बस कीन्हे जीव निकाया ॥

गो गोचर जहं लगी मन जाई । सो सब माया जानेहु भाई ॥

तेहि कर भेद सुनहु तुम्ह सोऊ । विद्या अपर अविद्या दोऊ ॥

एक दुष्ट अतिसय दुखरूपा । जा बस जीव परा भवकूपा ॥

एक रचइ जग गुन बस जाके । प्रभु प्रेरित नहि निज बल ताके ॥

ग्यान मान जहं एकउ नाही । देख ब्रह्म समान सब माही ॥

कहिअ तात सो परम विरागी । तृन सम सिद्धि तीनि गुन त्यागी ॥

❁ दोहा ❁

माया ईस न आपु कहूँ जान कहिअ सो जीव ।

बंध मोच्छ प्रद सर्वपर माया प्रेरक सीव ॥

धर्म ते विरति जोग तें ग्याना । ग्यान मोच्छाप्रद वेद बखाना ॥
जातें बेगि द्रवड मै भाई । सो मम भगति भगत सुखदाई ॥
सो सुतंत्र अवलम्ब न आना । तेहि आधीत ग्यान विग्याना ॥
भगति तात अनुपम सुखमूला । मिलइ जो सत होई अनुकूला ॥
भगति कि साधन कहउं बखानी । सुगम पन्थ मोहि पावबिं प्रानी ॥
प्रथमहिं विप्र चरन अति प्रीती । निज निज कर्म निरत श्रुति रीति ॥
एहि कर फल पुनि विषय विरागा । तव मम धर्म उपज अनुरागा ॥
श्रवणादिक नव भक्ति दृढाही । मम लीला रति अति मन माही ॥
संत चरन पंकज अति प्रेमा । मन क्रम बचन भजन दृढ नेमा ॥
गुरु पितु मातु बन्धु पति देवा । सब मोहि कहं जानै दृढ सेवा ॥
मम गुन गावत पुलक सरीरा । गदगद गिरा नयन वह नीरा ॥
काम आदि मद् दंभ न जाकै । तात निरन्तर बस मै ताके ॥

* दोहा *

बचन कर्म मन मोरि गति भजनु करहिं निःकाम ।

तिन्ह के हृदय कमल महुँ करउं सदा विश्राम ॥

❁ शबरि का नवधा भक्ति ❁

कह रघुपति सुनु भामिनि वाता । मानउ एक भगति कर नाता ॥
जाति पांति कुल धर्म बड़ाई । धन बल परिजन गुन चतुराई ॥

भगति हीन नर सोहइ कैसा । बिनु जल बारिद् देखिअ जैसा ॥
नवधा भगति कहउं तोहि पाही । सावधान सुनु धरु मन माही ॥
प्रथम भगति संतन्ह कर संगी । दूसरि रति मम कथा प्रसंगी ॥

* दोहा *

गुरु पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान ।

चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तजि ज्ञान ॥

मत्र जाप मम दृढ़ बिस्वासा । पंचम भजन सो वेद प्रकासा ॥
छठ दम सील बिरति बहु करमा । निरत निरन्तर सज्जन धरमा ॥
सातवं सम मोहि मय जग देखा । मोतें संत अधिक करि लेखा ॥
आठवं जथा लाभ सतोषा । सपनेहुँ नहिं देखि परदोषा ॥
नवम सरल सद्य सन छतहीना । मम भरोस हियं हरषन दीना ॥
नव महुँ एकउ जिन्ह कैं होई । नारि पुरुष सचराचर कोई ॥
सोइ अतिसय प्रिय भामिनी मोरैं । सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरैं ॥
जोगि बृन्द दुर्लभ गति जोई । तो कहुँ आजु सुलभ भइ सोई ॥
मम दरसन फल परम अनूपा । जीव पाव निज सहज सरूपा ॥

श्रीराम ने नारदजी को सन्तों के लक्षण कहे —

सन्तह के लच्छन रघुवीरा । कहहु नाथ भव भंजन भीरा ॥
सुनु मुनि सन्तन्ह के गुन कहउं । जिन्ह ते मै उन्ह के बस रहउं ॥
षट विकार जिन अनघ अकामा । अचल अकिचन सुचि सुखधामा ।
अमित बोध अनीह मित भोगी । सत्यसार कवि कोबिद जोगी ॥
सावधान मानद् मन हीना । धीरधर्म गति परम प्रवीना ॥

* दोहा *

गुनागर संसार—दुख—रहित विगत संदेह ।

तजि मम चरनसरोज प्रिय तिन्द कहूँ देह न गेह ॥

निज गुन श्रवन सुनत सकुचाही । परगुन सुनत अधिक हरषाहीं ॥

सम सीतल नहिं त्यागहिं नीती । सरल सुभाउ सवहिं सन प्रीती ॥

जप तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु-गोविन्द विप्र-प्रद प्रेमा ॥

श्रद्धा छमा मयत्री दाया । मुदिता मम पद प्रीति अमाया ॥

विरति विवेक विनय विग्याना । बोध जथारथ वेद पुराना ॥

दम्भ मान मद करहि न काऊ । भूलि न देहि कुमारग पाऊ ॥

गावहि सुनहिं सदा मम लीला । हेतु रहित पर-हित-रत-सीला ॥

मुनि सुन साधुन के गुन जेते । कहि न सकहिं सारद श्रुति तेते ॥

* छन्द *

कहि सक न सारद सेष नारद सुनत पद पंकज गहे ।

अस दीनबन्धु कृपालु अपने भगत गुन निज मुख कहे ॥

सिरु नाइ बारहिं बार चरनन्हि ब्रह्मपुर नारद गए ।

ते धन्य तुलसीदास आस विहाइ जे हरि रंग रंग ॥

* दोहा *

रावनारि जसु पावन गावहिं सुनहिं जे लोग ।

राम भगति दृढ पावहिं विनु विराग जप जोग ॥

दीप सखा मम जुबति तन मन जनि होसि पतंग ।

भजहि राम तजि काम मद करहि सदा सतसंगा ॥

भरत को राम ने संत असन्त के लक्षण कहे—

संत असंत भेद बिलगाई । प्रनतपाल मोहि कहहु बुझाई ॥
 संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अनगित श्रुति पुरान बिख्याता ॥
 सन असंतन्हि कै असि कग्नी । जिमि कुठार चन्दन आचरनी ॥
 काटइ परसु मलय सुनु भाई । निज गुण देइ सुगंध बसाई ॥

❀ दोहा ❀

ताते सुर सीसन्ह चढ़त जगबल्लभ श्रीखंड ।

अनल दाहि पीटत घनहिं परसु वदन यह दंड ॥

विषय अलंपट सीलगुनाकर । परदुख दुख सुख सुखदेखे पर ॥
 सम अभूतरिपु बिमद विरागी । लोभाभरण हरष भय त्यागी ॥
 कोमलचित दीनन्ह पर दाया । मन बच क्रम मम भगति अमाया ॥
 सबहि मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रानसम मम ते प्रानी ॥
 विगत काम मम नाम परायन । सांति बिरती विनती मुञ्जितायन ॥
 सीतलता सरलता मयत्री । द्विज-पद-प्रीति धरमजनयत्री ॥
 ये सब लच्छन बसहिं जासु उर । जानहु तात संत संतत फुर ॥
 सम दम नियम नीति नहिं डोलहिं । परूप बचन कबहूँ नहि बोलहिं ॥

—: दोहा :—

निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पदकंज ।

ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुनमंदिर सुखपुंज ॥

सुनहु असतन्ह केर सुभाऊ । भूलेहु संगति करिअ न काऊ ॥

तिन्ह कर संग सदा दुखदाई । जिमि कपिलहि घालइ हरदाई ॥
 खलन्ह हृदयँ अति ताप विसेखी । जरहिं सदा परसंपति देखी ॥
 जहँ कहँ निंदा सुनहि पराई । हरपहिं मनहुँ परी निधि पाई ॥
 काम-क्रोध-मद-लोभ-परायन । निर्दय कपटी कुटिल मलायन ॥
 वयर अकारन सब काहू सो । जो कर हित अनहित ताहू सो ॥
 भूठइ लेना भूठइ देना । भूठइ भोजन भूठ चवेना ॥
 बोलहिं मधुरवचन जिमि मोरा । त्वाहिइ महाअहि हृदय कठोरा ॥

— : दोहा :—

परद्रोही पर-दार-रत परधन परअपवाद ।

ते नर पाँवर पापमय देह धरें भनुजाद ॥

लोभइ ओठन लोभइ डासन । मिम्नोदर पर जम-पुर-त्रासन ॥
 काहू की जौ सुनहि वडाई । स्वास लेहिं जनु जूडी आई ॥
 जब काहू कै देखहि विपती । सुखी भये मानहुँ जगनृपति ॥
 म्धारथरत परिवारनिरोधि । लपट काम लोभ अतिक्रोधी ॥
 मातु पिता गुर विप्र न मानहिं । आपु गये अरु घालहि आनहि ॥
 करहिं मोह बस द्रोह परावा । संत संग हरि कथा न भावा ॥
 अवगुन मिधु मंदमति कामी । वेद विदूषक परधन स्वामी ॥
 विप्र द्रोह पर द्रोह विसेपा । दम कपट जियँ धरे सुवेपा ॥

ॐ दोहा ॐ

ऐसे अधम मनुज खल कृतजुग त्रेताँ नाहीं ।

द्वापर कछुक वृंद बहु होइहहिं कलिजुग माहिं ॥

परहित सरिस धर्म नहिं भाई । पर पीडां सम नहि अधमाई ॥
निर्नय सकल पुरान वेद कर । कहेउं तात जानहि कोबिद नर ॥
नर सरीर धरि जे पर पीरा । करहि ते सहहि महा भवभीरा ॥
करहि मोह बस नर अघ नाना । स्वारथ रत परलोक नसाना ॥
कालरूप तिन्ह कहँ मै भ्राता । सुभ अरु असुभ कर्म फल दाता ॥
अस बिचारि जे परम सयाने । भजहि मोहि ससृत दुख जाने ॥
त्यागहि कर्म सुभासुभ दायक । भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक ॥
संत असतन्ह के गुन भापे । ते न परहि भव जिन्ह लखि राखे ॥

❀ दोहा ❀

सुनहु तात माया कृत गुन अरु दोष अनेक ।
गुन यह उभय न देखिअहिं देखिअ सो अविबेक ॥

❀ विभिषण को राम वचन ❀

—❀ सुन्दरकाण्ड ❀—

कहु लकंम सहित परिवारा । कुसल कुठाहर बास तुम्हारा ॥
ग्वल मडली बसहु दिन राती । सखा धरम निबहइ केहि भाति ॥
मै जानउ तुम्हारि सब रीती । अति नय निपुन न भाव अनीती ॥
बरु भल वास नरक कर ताता । दुष्ट संग जनि हेइ विधाता ॥
अब पद देखि कुसल रघुराया । जौ तुम्ह कीन्हि जानि जन दाय ॥

❀ दोहा ❀

तव लागि कुसल न जीव कहँ सपनेहुँ मन विश्राम ।
जय लागि भजत न राम कहँ सोक धाम तजि काय ॥

तव लागि हृदयँ बसत खल नाना । लोभ मोह मच्छर मद माना ॥
जब लागि उर न बसत रघुनाथा । धरँ चाप मायक कटि भाथा ॥
ममता तरुन तमी अँधिआरी । राग द्वेष उलूक सुखकारी ॥
तव लागि बसति जीव मन माही । जब लागि प्रभु प्रताप रवि नाही ॥
अब मै कुसल मिटे भय भारे । देखि राम पद कमल तुम्हारे ॥
तुम्ह कृपाल जा पर अनुकूला । ताहि न व्याप त्रिविध भव मृला ॥
मै निसिचर अति अधम सुभाऊ । सुभ आचरनु कीन्ह नडि काऊ ॥
जासु रूप मुनि ध्यान न आवा । तेहि प्रभु हरपि हृदयँ मोहि लावा ॥

❁ दोहा ❁

अहोभाग्य मम अमित अति राम कृपा सुख पुंज ।

देखेउँ नयन विरंचि सिव सेव्य जुगल पद कंज ॥

सुनहु सखा निज कहँ सुभाऊ । जान सुसुंढि संभु गिरिजाऊ ॥
जौ नर होइ चराचर द्रोही । आवै सभय सरन तकि मोही ॥
तजि मद मोह कपट छल नाना । करउँ सद्य तेहि साधु समाना ॥
जननी जनक बधु सुत दारा । तनु धनु भवन सुहृद परिवारा ॥
सब कै ममता ताग बटोरी । मम पद मनहि बाँध वारं डोरी ॥
समदरसी इच्छा कछु नाही । हरप सोक भय नहि मन माही ॥
अस सज्जन मम उर बस कैसे । लोभी हृदयँ बमह धुनु जैसे ॥
तुम्ह सारिखे संत प्रिय मोरे । धरउँ देह नहि आन निहोरं ॥

❁ दोहा ❁

सगुन उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ।

ते नर प्रान समान मम जिन्ह कें द्विज पद प्रेम ॥

नीति

* बालकाण्ड *

संत कहिहिं असनीति प्रभु, श्रुति पुरान मुनि गाथ ।

होई न विमल विवेक उर, गुर सन किअँ दुराथ ॥

नहि कोउ अस जनमा जगमाही । प्रभुता पाई जाहि मद् नाही ॥

जौ विनु बोले जाहु भवानी । रहइ न सीलु सनेहु नकानी ॥

जदपि मित्र प्रभु पितु गुर गेहा । जाइअ विन बोलेहुँ न सँदेहा ॥

तदपि विरोध मान जहँ कोई । तहाँ गये कल्यानु न होई ॥

जधपि जग दारुन दुख नाना । सब तँ कठिन जाति अपमाना ॥

संत सभु श्रीपती अपवादा । गुनिय जहाँ तहँ असि मरजादा ॥

काटिअ तासु जीभे जो बसाई । श्रवन मूढ़ि नत चलिय पराई ॥

ममरथ कहँ नहि दोषु गोमाई । रवि पावक सुरमरि की नाइ ॥

जै वरु वरु कुलु होई अनूपा । करिअ भिवाहु सुता अनुरूपा ।

गुरु के बचन प्रतीति न जेही । सपनेहुँ सुगमन सुख सिधि तेही ॥

कन विधि सृजी नारी जग माही । पगधीन सपनेहुँ सुखु नाही ॥

❁ सोरठा ❁

तुलसी देखि सुवेषु, भूलहिं, मूढ न चतुर नर ।

सुंदर केकिहि पेखु, बचन सुधा सम असन अहि ॥

छठे श्रवन यह परत कहानी । नास तुग्रहार सत्य मम बानी ॥

बड़े सनेह लघुन्ह पर करही । गिरि निज सिरनी सदा तृन धरही ॥

जलधि अगाध मौलि वह फेनू । संतत धरनि धरत मिर रेनू ॥

* दोहा *

रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु करि गिनिअ न ताहु ।

अजहुँ देत दुख रवि ससिहि, मिर अवशेषित राहु ॥

व्यर्थ मरहु जनि गाल धजाई । मन मोदकन्हि कि मुख बुताई ॥

सिख हमरिं सुनि परम पुनीता । जगदंबा जानहु जियँ सीता ॥

जगत पिता रघुपतिहि विचारी । भरि लोचन छवि लेहु निहारी ॥

बधु लरिकनी पर घर आई । राखेहु नयन पलककी नाई ॥

* दोहा *

सीयकि पिय संगु परिहरिहि, लखनु कि रदिहहिं धाम

राजु कि भुँजव भरत पुर, नृपु कि जिइहि विनु राम ॥

सहज सुहृद गुर स्वामि सिख, जो न करइ सिर मानि ।

सो पछिताई अधाई उर, अवसि होई हित हानि ॥

मात पिता गुर स्वामि सिख, सिरधरि करहिं सुभायँ ।

लहेउ लाभु तिन्ह जनमकर, नतरु जनमु जगजायँ ॥

जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी । सो नृपु अवसि नरक अधिकारी ॥

आगे रामु लखनु बने पाछे । तापस वेप विराजित काछे ॥

उभय बीच सिय सोहति कैसें । ब्रह्म जीव बीच माया जैसे ।

सीय राम पद अँक वराएँ । लखन चलहिं मगु दाहिन लाएँ ॥

अेतना कहत छीक भई वाएँ । कहेउ सगुनिअन्ह खेत सुहाएँ ॥

बूढ़ एक कह सगुन विचारी । भरतहि मिलिह न होइहि रारी ॥
 रामहि भरतु मनावन जाही । सगुन कहई अस विग्रहु नाही ॥
 सुनि गुह कहई नीक कह बूढा । सहसाकरि पछिताहिं विमूढा ॥
 भरत सुभाउ सीलु बिनु बूमैं । बडि हितहानि जनि बिनु जूमैं ॥
 शुभ अरु अशुभ करम अनुहारी । इसु देई फलु हृदयँ विचारी ॥
 करइ जो करम पाव फलसोइ । निगम नीति असि कह सबु कोइ ॥

❀ बालकाण्ड ❀

सत्य नाथ पद गहि नृप भाषा । द्विज गुर कोप कहहु को राखा ॥
 राखई गुर जौं कोप बिधाता । गुर विरोध नहिं कोउ जग त्राता ॥

❀ दोहा ❀

सबके बचन श्रवन सुनि, कह प्रहस्त कर जोरि ।
 नीति विरोध न करिअ प्रभु, मंत्रिन्ह मति अति थोरि ॥

प्रिय बानी जे सुनहिं जे कहहो । ऐसे नर निकाय जग अहही ॥
 वचन परमहित सुनत कठोरे । सुनहि जे कहहि ते नर प्रभु थोरे ॥

❀ उत्तरकाण्ड ❀

गुर सिष्य बधिर अंधका लेखा । एक न सुनई एक नहिं देखा ॥
 हरई सिष्य धन सोक न हरई । सो गुर घोर नरकमहुं परई ॥
 अनुचित उचित काजु किछु होऊ । समुझि करिअ भल कह सब कोऊ ॥
 सहसा करि पाछें पछिताहीं । कहहि वेद बुध ते बुध नाही ॥

❀ दोहा ❀

मुखिआ मुझ सो चाहिये, खान पान कहूँ अके ।

पालई पोपई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक ॥

* अरण्यकाण्ड *

मेवक सुख चह मान भिखारी । व्यसनी धन सुभ गति न्यभिचारी ॥
 लोभी जसु चह चार गुमानी । नभ दुहि दूध चहत अे प्रानी ॥
 राजनीति विनु धन विनु धर्मा । हरिहि समर्पे विनु मतकर्मा ॥
 विद्या विनु विवेक उपजाए । श्रम फल पढें विए अरु पाए ॥
 सगते जति कुमंत्रते राजा । मानते ग्यान पानते लाजा ॥
 प्रीति प्रनय विनु मडते गुनी । नासहिं वेगि नीति अम सुनि ॥
 रन चहि करिअ कपट चतुराई । रिपु पर कृपा परम कडराई ॥
 तब मारीच हृदय अनुमाना । नवहिं विरोधे नहिं कल्याना ॥
 मखी मर्मा प्रभु सठ धनी । वैद वन्दि कवि मानम गुनी ॥
 इमि कुपंथ पग देत खगेसा । रह न तेज तन बुधि बल लेमा ॥
 साख सुचितित पुनि पुनि देखिअ । भूप सुसवित बस नहिं लेखिअ ॥
 राखिअ नारि जदपि उरमाही । जुवती साख नृपनि बस नाही ॥

* किष्किन्धाकाण्ड *

मेवक सठ नृप कृपन कुनारी । कपटी मित्र सूत सस चारी ॥
 अनुज बन्धु भगिनी सुत नारी । सुनु सठ कन्या सम पचारी ॥
 इन्हहि कुट्टी विलोकई जोई । ताहिं वधे कछु पाप न होई ॥
 उमा राम सम हित जगमाहीं । गुरु पितु मातु बन्धु प्रभु नाही ॥
 सुरनर मुनि सब कै यह रीती । स्वारथ लागि करहिं सब प्रीती ॥
 समिटि समिटि जल भरहि तलावा । जिमि सद्गुन सज्जन पहिं आवा ॥

❀ सुन्दरकाण्ड ❀

सुमति कुमति सबकें उर रहही । नाथ पुरान निगम अस कहही ॥
जहां सुमति तहें संपति नाना । जहें कुमति तहें विपति निदाना ॥

❀ दोहा ❀

सरनागत कहु जे तजहिं, निज अनहित अनुमानि ।

ते नर पाँवर पापमय, तिन्हहि विलोकत हानि ॥

वरु भल वास नरककर ताता । दुष्ट संग जनि देई विधाता ॥
सठ सन विनय कुटिल सन प्रीति । महज कृपन सन सुन्दर नीति ॥
ममता रत सन ग्यान कहानी । अति लोभी सन बिरती बखानी ॥
क्रोधिहि सन कामिहि हरिकथा । ऊमर बीज बए फल जथा ॥

❀ दोहा ❀

काटेहिंपई कदरी फरई, कोटि जतन कोउ सींच ।

विनय न मान खगोस सुनु, काटेहिं पई नव नीच ॥

ढोल गँवार सूद्र पसु नारी । ये सब ताइन के अधिकारी ॥

❀ लंकाकाण्ड ❀

संत कहहि असि नीति दसासन । चौथेपन जाइहि नृप कानन ॥
तासु भजन कीजिअ तह भर्ता । जो कर्ता पालक संहर्ता ॥
सोई रघुबीर प्रनत अनुरागी । भजहु नाथ ममता सब त्यागी ॥

❀ दोहा ❀

प्रीति विरोध समान सन, करिअ नीति असि आहि ।

जौं मृगपति बध मेडुकन्हि, भूलाक कहईं कोउ ताहि ॥

अहह कन्त कृत राम विरोधा । काल विवस मन उपज न बोधा ॥
 काल दंड गहि काहु न मारा । हरई धर्म बल बुद्धि विचारा ॥
 निकटं काल जेहि आवत साईं तेहि भ्रम होई तुम्हारिहि नाईं ॥
 तासु मुकुट तुम्ह चारि चलाए । कहहु तान कवनी विधि पाए ॥
 सुनु सर्वग्य प्रनत सुखकारी । मुकुट न होहि भूष गुन चारी ॥
 साम दान अरु दंड विभेदा । नृप उर वसहिं नाथ कह वेदा ॥
 नीति धर्मक चरन सुहाए । अस जिये जानि नाथ पहि आए ॥
 राम विमुख अस हाल तुम्हारा । रहा न कोउ कुल रोवनिहारा ॥
 तव बस विधि प्रपच सब नाथा । मभय दिसिप नित नावहि माथा ॥
 अब तव सिर भुज जंबुक खाही । राम विमुख यह अनुचित नाही ॥
 काल विवस पति कहा न माना । अग जगनाथु मनुज करिजाना ॥
 कह रघुबीर कहा मम मानहु । सीतहि सखा पयादे आनहु ॥
 देखहु कपि जननी की नाईं । विहसि कहा रघुनाथ गोसाईं ॥

❀ उत्तरकाण्ड ❀

❀ दोहा ❀

परद्रोही परदार रत, परधन पर अपवाद ।

ते नर पाँवर पापमय, देह धरें मनुजाद ॥

निज अनुभव अब कहउं खगेसा । विनुहरि भजन न जाहि कलेसा ॥
 रामकृपा विनु सुनु खगराई । जानि न जाई राम प्रभुताई ॥
 जाने विनु न होई परतीति । विनु परतीति होई नहिं प्रीती ॥

प्रीति बिना नहिं भगति दिढाइ । जिमि खगपति जल कै चिकनाई ॥

❀ सोरठा ❀

बिनु गुरु होइ कि ग्यान, ग्यान कि होई बिराग बिनु ।
गावहिं वेद पुरान, सुखकि लहिअ हरि भगति बिनु ॥
कोउ विश्राम कि पाव. तात सहज संतोष बिनु ।
चलै कि जल बिनु नाव, कोटि जनत पचि पचि मरिअ ॥
गुर बिनु भव निधि तरई न कोई । जौ विरंचि संकर सम होई ॥

❀ दोहा ❀

बिनु बिस्वास भगति नहिं, ते हि बिनु द्रवहिं न रामु ।
रामकृपा बिना सपनेहुँ, जीव न लह विश्रामु ॥

❀ सोरठा ❀

पन्नगारि असिनिति, श्रुति संमत सज्जन कहहिं
अति नीचहु सन प्रीति, करिअ जानि निज परम हित ॥
पाट कीटते होई । तेहिते पाटम्बर रुचिर ॥
कृमि पालइ सब कोई . परम अपावन प्राण सम ॥

❀ इश्वर नीति ❀

* बालकाण्ड *

❀ दोहा ❀

ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद ।
सो कि देह धरि होई नर, जाहि न जानन वेद ॥

हरि अवतार हेतु जेहि होई । इदमित्थं कहि जाय न सोई ॥
 राम अतर्क्य बुद्धि मन वानी । मत हमार अस सुनहिं मयानी ॥
 तदपि संत मुनि वेद पुराना । जस कछु कहहिं स्वमति अनुमाना ॥
 तस मै सुमृखि सुनावडं तोही । समुक्ति परई जम कारन मोही ॥
 जब जब होई धरम के हानी । वाढ़हि असुर अधम अभिमानी ॥
 करहिं अनीति जाई नहिं वरनी । सीदहिं विप्र धेनु सुर धरनी ॥
 तव तव प्रभु धरि विवध सरीरा । हरहिं कृपानिवि सज्जन पीरा ॥
 राम जनम के हेतु अनेका । परम विचित्र एक ते एका ॥
 वेगि सौ मै डारिहडं उखारी । पन हमार सेवक हितकारी ॥

❀ दोहा ❀

जेहि विधि होईहि परम हित, नारद सुनहु तुम्हार ।
 सोई हम करव न आन कछु, वचन मृपा हमार ॥
 द्वादस अच्छर मंत्र पुनि, जपहिं सहित अनुराग ।
 वासुदेव पद-पंक-रुह, दंपति मन अति लाग ॥
 करहिं अहार साक फल कंदा । मुमिरहिं ब्रह्म सच्चिदानन्दा ॥
 अगुन अखंड अनन्त अनादी । जेहिं चितहिं परमारथ वादी ॥
 नेति नेति जेहि वेद निरूपा । निजानंद निरूपाधि अनूपा ॥
 संभु बिंरची विष्णु भगवाना । उपजहिं जासु असतें नाना ॥
 ऐसेउ प्रभु सेवक बस अहइ । भगत हेतु लीलातनु गहई ॥
 आदि सकित जेहिं जग उपजाया । सोउ अवतरिहि मोरि यह माया ॥
 पुरउव मै अभिलाप तुम्हारा । सत्य सत्य पन सत्य हमार ॥

जाके हृदयँ भगति जसि प्रीति । प्रभु तहँ प्रगट सदा तेहिं रीति ॥
हरि व्यापक सर्वत्र समाना । प्रेम ते प्रगट होहिं मै जाना ॥
देस काल दिमि विदिसिहु माही । कहहु सो कहां जहां प्रभु नाही ॥
अगजगमय सत्र रहित विरागी । प्रेमतेँ प्रभु प्रगट जिमि आगी ॥

❀ दोहा ❀

व्यापक अकल अनीह अज, निगुन नाम न रूप ।

भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप ।

कहहु नाथ सुन्दर दोउ बालक । मुनिकुल तिलक कि नृपकुल पालक ॥
ब्रह्म जो निगम नेति कहि गावा । उभय बेष धरि की सोइ आवा ॥
जोरि पकरुह पानि सुहाए । बोले वचन प्रम जनु जाए ॥
राम करौ केहि भौति प्रससा । मुनि महेस मन मानसहंसा ॥
करहि जोग जोगि जेहि लागी । कोहु मोहु समता महु त्यागी ॥
व्यापक ब्रह्म अलखु अबिनासी । चिदानदु निरगुन गुनरासी ॥
मन समेत जेहि ज्ञान न बानी । तरकिन सकहि सकल अनुमानी ॥
महिमा निगमु नेति कहि कहई । जो तिहुँ काल एकरस रहई ॥

❀ अयोध्याकाण्ड ❀

— दोहा —

सुद्र सच्चिदानन्दमय, कंद भानु कुल हेतु ।

चरित करत नर अनुहरत, संसृति सागर सेतु ॥

भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुगहित लागि कृपाल ।

करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल ॥

प्रभु करुनामय परम बिबेकी । तनु तजि रहति छांड किमि छेकी ॥

❀ सौरठा ❀

राम सरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धिपर ।

अविगत अकथ अपार, नेति नेति नित निगम कहु ॥

तुम्हरिहि कृपां तुम्हहि रघुनन्दन । जानहिं भगत भगत उर चन्दन ॥

चिदानन्दमय देह तुम्हारी । विगत विकार जान अधिकारी ॥

❀ सुन्दरकाण्ड ❀

सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया । पाई जासु बल विरचति माया ।

जाके बल धिरंचि हरि ईसा । पालत मृजत हरत दस सीसा ॥

जा बल सीस धरत सहसानन । अंडकोम समेत गिरि कानन ॥

धरई जो विविध देह सुरत्राता । तुम्हसे एठ्ठ मिम्बावनु दाता ॥

हर कोदंड कठिन जेहि भंजा । तेहि समेत नृपदल मद गंजा ॥

खर दूपन त्रिसिरा अरु बाली । बधे सकल अतुलित बलसाली ॥

— दोहा —

जाके बल लव लेशते, जितेहु चराचर भारि ।

तासु दूत मैं जाकरि, हरि आनेहु प्रिय नारि ॥

❀ किष्किन्धाकाण्ड ❀

— दोहा —

निज इच्छाँ प्रभु अवतरई, सुर महि गो द्विज लागि ।

सगुन उपासक संग तहँ, रहहि मोच्छ सब त्यागि ॥

❀ उत्तरकाण्ड ❀

❀ दोहा ❀

कुलिसहु चाहि कठोर अति, कोमल कुसुमहि चाहि ॥

चित्त खगोस रामकर, समुक्ति परई कहु काहि ॥

प्रभु बंधन समुक्त बहु भांति । करत विचार उरगआराती ॥

व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा । माया मोह पार परमीसा ॥

सो अवतार सुनेउँ जग माहीं । देखेउँ सो प्रभाव कछु नाही ॥

सोई सच्चिदानन्दघन रामा । अज बिग्यान रूप बल धामा ॥

व्यापक व्याप्य अखड अनंता । अखिल अमोघ सक्ति भगवंता ॥

अगुन अदभि गिरा गोतीता । सबदरसी अनवध अजीता ॥

निर्मम निराकार निरमोहा । नित्य निरजन सुख संदोहा ॥

प्रकृति पार प्रभु सब उर बासी । ब्रह्म निरीह बिरज अविनासी ॥

इहा मोह कर कारन नाही । रवि सन्मुख तम कबहुँ कि जाही ॥

— दोहा —

भगतहेतु भगवान प्रभु, राम धरेउ तनु भूप ।

किए चरित पावन परम, प्राकृत नर अनुरूप ॥

जथा अनेक भेष धरि, नृत्य करई नट कोई ।

सोई सोई भाव देखावई, आपु न होई न सोई ॥

काम क्रोध मद लोभ रत्न, गृहासकत दुख रूप ।

ते किमि जानहिं रघुपतिहि, मूढ परे तम कूप ॥

निर्गुन रूप सुलभ अति, सगुन जान नहिं कोइ ।

सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होई ॥

सुनहु रामकर सहज सुभाऊ । जन अभिमान न राखहिं काऊ ॥

— दोहा —

प्राकृत मिसु इव लीला, देखि भयउ मोहि मोह ।

कवन चरित्र करत प्रभु, चिदानन्द संदोह ॥

एतना मन आनन अगराया । रघुपति प्रेरित व्यापी माया ॥

सो माया न दुखद मोहि काही । आन जीव इव संसृत नाहीं ॥

ग्यान अखंड एक सीतावर । माया बन्धु जीव मचराचर ॥

जौ सबके रह ग्यान एक रस । ईश्वर जीवहि भेद कहहु कस ॥

माया बन्धु जीव अभिमानी । ईस बन्धु माया गुन खानी ॥

परवस जीव स्ववस भगवंता । जीव अनेक एक श्रीकंता ॥

मुधार भेद जद्यपि कृत माया । विनुहरि जाई न कोटि उपाया ॥

तदपि तुम्हारि साधुता देखी । अरिहउं गहि पर कृपा विमेषी ॥

छमासील जे पर उपकारी । ते द्विज मोहि प्रिय जथा खरारी ॥

मौर श्राप द्विज व्यर्थ न जाइहि । जन्म सहस अवश्य यह पाईहि ॥

जनमत मरत दुमह दुख होई । एहि स्वल्पउ नहि व्यापिहि सोई ॥

कवनेउं जन्म मिटहि नहिं ग्याना । सुनहि सूद मम बचन प्रमाना ॥

सुनु मम बचन सत्य अत्र भाई । हरि तोपन व्रत द्विज सेवकाई ॥

अव जनि करहि विप्र अपमाना । जानेसु सत अनत समाना ॥

इंद्र-कुलिस मम सूल विसाला । कालदंड हरिचक्र कराला ॥

जो इन्ह कर मारा नहिं मरई । विप्र द्रोह पावक सो जरई ॥

❁ अरण्यकाण्ड ❁

अस्थि समूह देखि रघुराया । पूछी मुनिन्ह लागि अति शया ॥
जानतहूँ पृच्छिअ कस स्वामी । सबदरसी तुम्ह अंतरजामी ॥
निसिचर निकर सकल मुनि खाए । सुनि रघुवीर नयन जल छाए ॥

— दोहा —

निसिचर हीन करउँ महि भुज उठाइ पन कीन्ह ।
सकल मुनिन्ह के आश्रमन्हि जाइ जाइ सुख दीन्ह ॥

❁ रावण अंगद संवाद ❁

❁ लंकाकाण्ड ❁

❁ दोहा ❁

तेहि रावन कहँ लघु कहसि नर कर करसि बखान ।
रे ऋषि बर्बर खर्ब खल अब जाना तव ग्यान ॥
सुनि अंगद सकोप कह बानी । बोलु सँभारि अधम अभिमानी ॥
सहसबाहु भुज गहन अपारा । दहन अनल सम जासु कुठारा ॥
जासु परसु सागर खर धारा । बूड़े नृप अगनित बहु बारा ॥
तासु गर्व जेहि देखत भागा । सो नर क्यो दससीस अभागा ॥
राम मनुज कस रे सठ बंगा । धन्वी कामु नदी पुनि गंगा ॥
पसु सुरधेनु कल्पतरु रूखा । अन्न दान अरु रस पीयूपा ॥

वैनतेव खग अहि सहसानन । चिंतामनि पुनि उपल द्मानन ॥
सुनु मतिमद लोक वैकुण्ठा । लाभ कि रघुपति भगति अकुण्ठा ॥

* दोहा *

सेन सहित तव मान मथि वन उजारि पुर जारि ।

कम रे सठ हनुमान कपि गयउ जो तव सुत मारि ॥

कौल कामवस कृपित विमूढा । अति दग्धि अजमी अति वूढा ॥
सदा रोगवस संतत क्रोधी । विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी ॥
तनु पोपक मिदक अब खानी । जीवत सब सम चौदह प्रानी ॥
सॉचेहुँ मै लवार भुज वीहा । जौ न उपायिउँ तव द्म जीहा ॥
समुक्ति राम प्रताप कपि कोपा । सभा माक पन करि पद रोपा ॥
जौ मम चरन मकभि सठ टारी । फिरही रामु सीता मै हारी ॥
सुनहु सुभट सब कह दससीमा । पद गहि धरनि पछारहु कीसा ॥
कपि बल देखि सकल हिउँ हारे । उठा आपु कपि कें षरचारे ॥
गहत चरन कह :वालिकुमारा । मम पद गहे न तोर उवारा ॥
गहसि न रामचरन सठ जाई । सुनत फिरा मन अति सकुचाई ॥

ॐ सत्य ॐ

* अयोध्याकाण्ड *

रघुकुल रीति सदा चलि आई । प्रान जाहुं वरु वचनु न जाई ॥
नहिँ असत्य सम पातक पुँजा । गिरि समहोहिँ कि कोटिक गुजा ॥
सत्यमूल सब सुकृत सुहाए । वेद पुरान विदित मनु गाए ॥
सिबि दधीचि बलि जो कछु भापा । तनु धनु तजेउ वचन पनु राखा ॥

सिबि दधीच हरिचन्द नरेसा । सहे धरम हित कोटि कलेसा ॥
रतिदेव बलि भूप सुजाना । धरमु धरेड सहि संकट नाना ॥
धरमु न दूमर सत्य समाना । आगम निगम पुरान बखाना ॥
मै सोई धरमु सुलभ करि पावा । तजे तिहूँ पुर अप जसुद्धावा ॥

❁ मित्र के धर्म ❁

* किष्किन्धाकाण्ड *

जे न मित्र दुख होहि दुखारी । तिनहिं बिलोकत पातक भारी ॥
मित्र दुख गिरिमम रजकरि जाना । मित्रक दुख रज मेरु समाना ॥
जिनके असमति सहज न आई । ते सठ हठ कत करत मिताई ॥
कुपथ निवारि सुपन्थ चलावा । गुण प्रकटे अवगुणहि दुरावा ॥
देत लेत मन शङ्क न धरई । वल अमुमान सदा हित करई ॥
विपत्ति कालकर सतगुण नेहा । श्रुति कह सन्त मित्रगुण एहा ॥
आगे कह मृदु बचन बनाई । पाछे अनहित मन कुटिलाई ॥
जाकरचित अहिगतिसम भाई । अस कुमित्र परिहरेहि भलाई ॥
सेवक सठ नृप कृपण कुनारी । कपटी मित्र शूल सम चारी ॥
सखा सोच त्यागहु बल मोरें । सब विधि घटव काज मै तोरे ॥

❁ रामेश्वर स्थापना ❁

* लंकाकाण्ड *

परम रम्य उत्तम यह धरनी । महिमा आमित जाई नहि बरनी ॥

करिहँडे इहां संसु थापना । मोरे हृदयँ परम कल्पना ॥
 मुनि कपीस बहु दूत पठाए । मुनिवर महल बोलि लै आए ॥
 लिंग थापि विधिवत करि पूजा मिव समान प्रिय मोहि न दूजा ॥
 मिव द्रोही मम भगत कहावा । मो नर सपनेहुँ मोहि न पावा ॥
 संकर विमुख भगति चह मोरा । मो नारकी मूढ पनि थोरौ ॥

❀ दोहा ❀

संकरप्रिय मम द्रोही सिव द्रोही मम डाम ।

ते नर करहि कल्प भरि चोर नरक महुँ वाय ॥

जे रामेश्वर दरसन करिहहि । ते तनु तजि मम लोक निवरिहहि ॥
 जो गंगाजलु आनि चटाइहि । सो माजुअ्य मुनि नर पाइहि ॥
 होइ अकाम जो छल तजिसेइहि । भगति मोरि तेहि संकर देइहि ॥
 मम कृत सेतु जो दरसन करिही । सो विनु श्रम भवसागर तरिही ॥

←❀❀❀ हनुमान भरत संवाद ❀❀❀→

❀ लंकाकाण्ड ❀

तान कुसल कहूँ सुखनिधान की । सहित अनुज अरु मातु जानकी ।
 कपि सव चरित समास बढाने । भयं दुखी मन महुँ पछिताने ॥
 अहह दैव मैं कत जग जायँडे । प्रभु के एकहुँ काज न आयँडे ॥
 जागि कुअवसरु मन धरि धीरा । पुनि कपि मन बोले बलवीरा ॥
 तान गहरु होइहि तोहि जाता । काजु नसाइहि होत प्रभाता ॥
 चहुँ मम साथक सैल समेता । पठवौ तोहि जहँ कृपानिकेता ॥

सुनि कपि मन उपजा अभिमाना । मोरैं भार चलिहि किमि बाना ।
राम प्रभाव विचारि बहोरी । बंदि चरन कह कपि कर जोरी ॥

— दोहा —

तव प्रताप उर राखि प्रभु जैहउँ नाथ तुरंत ।
अस कदि आयसु पाइ पद बंदि चलेउ हनुमंत ॥
भरत बाहु बल सील गुन प्रभु पद प्रीति अपार ।
मन महँ जात सराहत पुनि पुनि पवनकुमार ॥

❀ भ्रातृ प्रेम राम वचन ❀

* लंकाकाण्ड *

उहां राम लछिमनहि निहारी ; बोले वचन मनुज अनुमारी ॥
अर्ध राति गइ कपि नहि आयउ । राम उठाइ अनुज उर लायउ ॥
सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ । बंधु सदा तव मृदुल सुभाऊ ॥
मम हित लागि तजेहु पितु माता । सहेहु विपिन हिंस आतप बाता ॥
सो अनुराग कहां अब भाई । उठहु न सुनि मम बच बिकलाई ॥
जौ जनतेउँ बन बंधु बिछोहू । पिता वचन मनतेउँ नहि ओहू ॥
सुत बित नारि भवन परिचारा । होहि जाहि जग बारहि बारा ॥
अस विचारि जियँ जागहु ताता । मिलइ न जगत सहोदर भ्राता ॥
जथा पंख बिनु खग अति दीना । मनि बिनु फनि करिवर कर हीना ॥
अस मम जिवन बंधु बिनु तोही । जौ जड़ दैव जिआवै मोही ॥
जैहउँ अवंध कौन सुहु लाई । नारि हेतु प्रिय भाई गँवाई ॥

❀ अंगों की निष्फलता ❀

❀ बालकाण्ड ❀

जिन्ह हरि कथा सुनी नहि काना । श्रवन रंघ्र अहि भवन समाना ॥
 नयनन्हि संत दरस नहि देखा । लोचन मोर पंख कर लेम्बा ॥
 ते सिर कटु तुँवरि समनूला । जे न नमत हरि गुर पद मूला ॥
 जिन्ह हरि भगति हृदयं नहि आनी । जीवत सब समान तेंड प्रानी ॥
 जो नहिं करइ राम गुन गाना । जीह सो दादुर जीह समाना ॥
 कुलिस कठोर निठुर सोइ छाती । सुनि हरि चरित न जो ह्यपार्ती ॥
 गिरिजा सुनहु राम कै लीला । सुर हित दनुज विमोहनसीला ॥

❀ दाहा ❀

रामकथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानि ।
 सतसमाज सुरलोक सब को न सुनै अस जानि ॥

❀ ७ प्रश्नों का उत्तर काकभुषुण्डजी ने दिया ❀

❀ उत्तरकाण्ड ❀

पुनि सप्रेम बोलेउ खगराऊ । जौ कृपाल मोहि ऊपर भाऊ ॥
 नाथ मोहि निज सेवक जानी । सप्त प्रश्न मम कहहु बखानी ॥
 प्रथमहिं कहहु नाथ मतिधीरा । सब ते दुर्लभ कवन सरीरा ॥
 बड़ दुख कवन कवन सुख भारी । सोउ संक्षेपहिं कहहु विचारी ॥
 संत असंत म म तुम्ह जानहु । तिन्ह कर सहज सुभाव बखानहु ॥

कवन पुन्य श्रुति विदित बिसाला । कहहु कवन अघ परम कराला ॥
 मानस रोग कहहु समुझाई । तुम्ह सर्वग्य कृपा अधिकाई ॥
 तात सुनहु सादर अति प्रीती । मै संक्षेप कहउँ यह नीती ॥
 नर तन सम नहीं कबनिउ देही । जीव चराचर जाचत तेही ॥
 नरक स्वर्ग अपवर्ग निम्नेनी । ग्यान विराग भगति सुभ देनी ॥
 सो तनु धरि हरि भजहिं न जे नर । होहिं विषय रत मंद मंद तर ॥
 कांच किरिच बढ़ले ते लेही । कर ते डारि परस मनि देही ॥
 नहि दरिद्र सम दुख जग माही । संत मिलन सम सुख जग नाही ॥
 पर उपकार बचन मन काया । संत सहज सुभाउ खगराया ॥
 संत सहहि दुख पर हित लागी । पर दुख हेतु असत अभागी ॥
 भूर्ज तरु सम संत कृपाला । परहित निनि सह विपति बिसाला
 सन इव खल पर बधन करई । खाल कढ़ाइ विपति सहि मरई ॥
 खल विनु स्वारथ पर अपकारी । अहि मूषक इव सुनु उरगारी ॥
 पर संपदा विनासि नसाही । जिमि ससि हति हिम उपल बिलाही
 दुष्ट उहय जग आरति हेतू । जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतू ॥
 सत उदय संतत सुखकारी । विस्व सुखद जिमि इटु तमारी ॥
 परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा । पर निन्दा सम अघ न गरीसा ॥
 हर गुर निदक दादुर होई । जन्म सहस्त्र पाव तन सोई ॥
 द्विज निदक बहु नरक भोग करि । जग जनमइ बायस सरीर धरि ॥
 सुर श्रुति निदक जे अभिमानी । रौरव नरक परहि ते प्राणी ॥
 होहि उलूक संत निदा रत । मोह निसा प्रिय ग्यान भानु गत ॥
 सब कै निदा जे जड़ करही । ते चमगादुर होइ अबतरही ॥

सुनहु तात अत्र मानस रोगा । जिन्ह ते दुख पावहिं सत्र लोगा ॥
 मोहं सकल व्याधिन्ह कर मूला । तिन्ह ते पुनि उपजहिं बहु मूला ॥
 काम वात कफ लोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छाती जारा ॥
 प्रीति करहि जौं तीनिउ भाई । उपजइ सन्यपात दुखदाई ।
 विषय मनोरथ दुर्गम नाना । तें सत्र मूल नाम को जाना ।
 ममता दादु कंडु इरपाई । हरष विपाद गरह बहुताई ॥
 पर सुख देखि जरनि सोइ छई । कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलई ॥
 अहंकार अति दुखद डमरुआ । दभ कपट मद मान नेहरुआ ॥
 तृस्ना उद्वृद्धि अति भारी । त्रिविधि ईपना तमन तिजारी ॥
 जुग विधि ज्वर मत्सर अविशेका । कहँ लागि कहँ कुरोग अनेका ॥

❀ दोहा ❀

एक व्याधि बस नर मरहिं ए असाधि बहु व्याधि ।
 पीड़हिं संतत जीव कहँ मो किमि लहै समाधि ॥
 नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान ॥
 भेषज पुनि कोटिन्ह नहिं रोग जाहिं हरिजान ॥

एहि विधि सकल जीव जग रोगी । सोक हरष भय प्रीति बियोगी ॥
 मानस रोग कछुक मैं गाए । हहि सव के लखि विरलेन्ह हाए ॥
 जाने ते छीजहिं कछु पापी । नास न पावहि जन परितापी ॥
 विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे । मुनिहु हृदय का नर बापुरे ॥
 राम कृपां नासहि सव रोगा । जौ एहि भांति बनै संयोगा ॥
 सदगुरु वैद वचन विश्वासा । सजस यह न विषय कै आसा ॥

रघुपति भगति सजीवन मूरी । अनूपान श्रद्धा मति पूरी ॥
 एहि विधि भलेहि सो रोग नसाही । नाहि त जतन कोटि नहिं जाही ॥
 जानिअ तब मन बिरुज गोसाईं । जब उर बल बिराग अधिकाई ॥
 सुमति छुधा बाढ़इ नित नई । बिषय आस दुर्बलता गई ॥
 विमल ग्यान जल जब सो नहाई । तब रह राम भगति उर छाई ॥
 सिव अज सुक सनकादिक नारद । जे मुनि ब्रह्म बिचार बिसारद ॥
 सब कर मत खगनायक एहा । करिअ राम पद पंकज नेहा ॥
 श्रुति पुरान सब ग्रंथ कहाहीं । रघुपति भगति बिना सुख नाही ॥
 कमठ पीठ जामहिं बरु वारा । बंध्या सुन बरु काहुहि मारा ॥
 फूलहि नभ बरु बहुविधि फूला । जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला ॥
 चृषा जाइ बरु मृगजल पाना । बरु जामहिं सस सीस बिषाना ॥
 अंधकारु बरु रबिहि नसावै । राम विमुख न जीव सुख पावै ॥
 हिम ते अनल प्रगट बरु होई । विमुख राम सुख पावन कोई ॥

❀ दोहा ❀

चारि मथें घृत होइ बरु सिकता ते बरु तेल ।
 बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥
 मसकहि करइ विरंचि प्रभु अजहि मसक ते हीन ।
 अस विचारि तजि संसय रामहि भजहिं प्रवीन ॥



कलियुग के लक्षणा



❀ उत्तरकाण्ड ❀

❀ दोहा ❀

कलिमल ग्रसे धर्म सब गुप्त भये सदग्रंथ ।
दंभिन्ह निज मति कल्पि करि प्रगट किये बहु पंथ ॥
भये लोग सब मोह बस ग्रसे सुभ कर्म ।
सुनु हरिजान सु ग्याननिधि कहँ कछुक कलि धर्म ॥

वरन धरम नहि आखम चारी । छुति-विरंधरत सब नरनारी ॥
द्विज छुति वेचक भूप प्रजासन । कोउ नहिं मान निगम-अनु-मासन ॥
मारग सोई जा कहँ जोई भावा । पंडित सोई जो गाल बजावा ॥
मिथ्यारंभ दभरत जोई । ता कहँ सत कहहि सब कोई ॥
सोइ सयान जो पर-धन हारी । जो कर दभ सो वड़ आचारी ॥
जो कह भूठ मसखरी जाना । कलियुग सोई गुनवंत बखाना ॥
निराचर जो श्रुतिपथ त्यागी । कलियुग सोइ ग्यानी सो वैरागी ॥
जा के नख अरु जटा विसाला । सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला ॥

❀ दोहा ❀

असुभ वेष भूपन धरे भच्छाभच्छ जे खाहिं ।
तेइ जोगी तेइ सिद्ध नर पूज्यते कलियुग माहिं ॥

❀ सोरठा ❀

जे अपकारीचार तिन्ह कर गौरव मान्य तेइ ।
मन क्रम बचन लवार तेइ बकता कलिकाल महँ ॥

नारिविबस नर सकल गोसाईं । नाचहि नटमरकट की नाईं ॥
 सूद्र द्विजन्ह उपदेसहि ग्याना । मेलि जनेऊ लेहि कुदाना ॥
 सब नर काम लोभ-रत क्रोधी । देव-विप्र-श्रुति-संत-विरोधी ॥
 गुनमंदिर सुन्दर पति त्यागी । भजहिं नारि परपुरुष अभागी ॥
 सौभागिनी विभूपनहीना । विधवन्ह के सृंगार नवीना ॥
 गुरुसिप बधिर अंध का लेखा । एक न सुनहि एक नहि देखा ॥
 हरइ सिष्यधन सोक न हरई । सो गुरु दोर नरक महुँ परई ॥
 मातु पिता बालकन्हि बोलावहि । उदर भरइ सोइ धर्म सिखावहिं ॥

❀ दोहा ❀

ब्रह्म ज्ञानबित्तु नारि नर कहहिं न दूसरि वात ।
 कौडी लागि लोभवम करहिं विप्र-गुरु घात ॥

❀ सोरठा ❀

बादहिं सूद्र द्विजन्द सन हम तुम्ह तें कछु घाटि ॥
 जानइ ब्रह्म सो विप्रवर आँखि देखावहिं डाटि ॥

परत्रिय लपट कपट सयाने । मोह द्रोह ममता लपटाने ॥
 तेइ अभेदवादी ज्ञानी नर । देखा मै चरित्र कलियुग कर ॥
 आपु गये अरु तिन्हहु घालहि । जे कहूँ सतमारग प्रतिपालहि ॥
 कल्प कल्प भरि एक एक नरका । परहि जे दुखहि श्रुति करि तरका ॥
 जे वरनाधम तेलि कुम्हारा । स्वपच किरात कोल कलवारा ॥
 नारि मुई घर संपति नासी । मूँइ मुड़ाइ होहिं सन्यासी ॥
 ते विप्रन्ह सन आपु पुजावहिं । उभय लोक निज हाथ नसावहि ॥

विप्र निरच्छर लोलुप कामी । निराचार सठ वृषलीस्वामी ॥
सूद्र करहिं जप तप व्रत नाना । वैठि बरासन कहहिं पुराना ॥
सब नर कल्पित करहिं अचारा । जाह न बरनि अनीति अपारा ॥

* दोहा *

भए बरन संकर कलि भिन्नसेतु सब लोग ।
करहिं पाप पावहिं दुख भय रुज सोक वियोग ॥
श्रुति संमत हरि भक्ति पथ संजुत विरति विवेक ।
तेहिं न चलहि नर मोह बस कल्पहिं पंथ अनेक ॥

* छन्द *

बहु दाम सँवारहिं धाम जती । विषया हरि लीन्हि न रहि विरती
नपसी धनवंत दरिद्र गृही । कलि कौतुक तात न जात कही ॥
कुलवंति निकारहिं नारि सती । गृह आनहिं चेरि निवेरि गती ॥
सुत मानहिं मातु पिता तब लौ । अबलानन दीख नहीं जब लौ ॥
ससुरारि पिआरि लगी जब तें । रिंपुरूप कुटुम्ब भए तब तें ॥
नृप पाप परायन धर्म नहीं । करि दड विडंब प्रजा नितही ॥
धनवंत कुलीन मलीन अपी । द्विज चिन्ह जनेउ उधार तपी ॥
नहिं मान पुरानन वेदहिं जो । हरि सेवक संत सही कलि सो ॥
कबिबृंद उदार दुनी न सुनी । गुन-दूषक-व्रात न कोपि गुनी ॥
कलि बारहिं बार दुकाल परे । विनु अन्न दुखी सब लोग मरे ॥

* दोहा *

सुनु खगेस कलि कपट हठ दंभ द्वेष पापंड ।
मान मोह मारादि मद व्याधि रहे ब्रह्मंड ॥

तामस धर्म करहिं नर जप तप व्रत मख दान ।
देव न बरषहिं धरनीं बए न जामहिं धान ॥

❀ छंद ❀

अवला कच भूषन भूरि छुधा । धनहीन दुखी समता बहुधा ॥
सुख चाहहिं मूढ न धर्म रता । मति थोरि कठोरि न कोमलता ॥
नर पीडित रोग न भोग कही । अभिमान विरोध अकारनही ॥
लघु जीवन संबतु पंच दसा । कल्पांत न नास गुमानु असा ॥
कलिकाल बिहाल किए मनुजा । नहि मानत कौ अनुजा तनुजा ॥
नहि तोष बिचार न सीतलता । सब जाति कुजाति भए भगता ॥
डरिपा परुपाच्छर लोलुपता । भरि पूरि रही समता बिगता ॥
सब लोग बियोग विसोक हुए । वरनाश्रम धर्म अचार गए ॥
दम दान दया नहिं जानपनी । जड़ता परबचनताति घनी ॥
तनु पोषक नारि नरा सगरे । परनिंदक जे जग मो बगरे ॥

— दोहा —

सुनु ब्यालारि काल कलि मल अवगुन आगार ।

गुनउ बहुत कलियुग कर बिनु प्रयास निस्तार ॥

कृतजुग त्रेता द्वापर पूजा मख अरु जोग ।

जो गति होई सो कलि हरि नाम ते पावहिं लोग ॥

कृतजुग सब जोगी बिग्यानी । करि हरि ध्यान तरहिं भव प्रानी ॥

त्रेतां बिबिध जग्य नर करहीं । प्रभुहि समर्पि कर्म भव तरहीं ॥

द्वापर करि रघुपति पद पूजा । नर भव तरहि उपाय न दूजा ॥

कलिजुग केवल हरि गुन गाहा । गावत नर पावहि भव थाहा ॥
 कलिजुग जोग न जग्य न ग्याना । एक अधार राम गुन गाना ॥
 सब भरोस तजि जो भज रामहि । प्रेम समेत गाव गुन ग्रामहि ॥
 सोइ भव तर कछु संमय नाहीं । नाम प्रताप प्रगट कलि माहीं ॥
 कलि कर एक पुनीत प्रतापा । मानस पुन्य होहि नहि पापा ॥

❀ दोहा ❀

कलिजुग सम जुग आन नहिं जौं नर कर त्रिस्वास ।
 गाइ राम गुन गन त्रिमल भव तर चिनहि प्रयास ॥
 प्रगट चारि पद धर्म के कलि महुँ एक प्रधान ।
 जेन केन विधि दीन्हें दान करइ कल्याण ॥

❀ चौपाई-अनुष्ठान विधि ❀

(रेखा मंत्र)

सामभिरक्षय रघुकुल नायक । धृत वर चाप रुचिर कर सायक ॥

(पुत्र प्राप्ति के लिये)

प्रेम मगन कौसल्या निसदिन जात न जान ।

सुत सनेह बस माता बाल चरित कर गान ॥

(मुकदमा जीतने के लिये)

पवन तनय बल पवन समाना । बुद्धि विवेक विग्यान निधाना ॥

(विपत्ति नाश के लिये)

राजिव नयन धरं धनु सायक । भगत विपत्ति भंजन सुख दायक ॥

(विद्या प्राप्ति के लिए)

गुरु गृह गए पढ़न रघुराई । अल्पकाल विद्या सब आई ॥

(आकर्षण के लिए)

जेहि के जेहि पर संत्य सनेहू । सो तेहि मिलइ न कछु संदेहू ॥

(परीक्षा में पास होने के लिए)

जेहि पर कृपा करही जनु जानी । कवि उर अजिर नचावहीं बानी ॥

मोरि सुधारिहि सो सब भाती । जासु कृपा नही कृपा अघाती ॥

(लक्ष्मी प्राप्ति के लिए)

जिमी सरिता सागर भहुं जाहीं । जद्यपि ताहि कामना नाहीं ॥

तिमि सुख संपति विनहिं बोलाएं । धरम सील पही जाही सुभाएं ॥

(विघ्न नाश के लिए)

सकल विघ्न व्यापहिं नहिं तेहि । राम सु कृपा विलोक ही जेही ॥

❀ विधि ❀

चौपाई मंत्र का विधान यह है—रात के दस बजे के बाद अष्टांग हवन की सामग्री सहित माला लेकर एकान्त में बैठ जाना चाहिए अपना मुख काशी की ओर कर लेना चाहिए एक माला हवन करे चौपाई साथ पड़े इस तरह एक सौ आठ बार हवन करे मन्त्र सिद्ध हो जायगा फिर जब जिस कार्य की आवश्यकता हो इनका श्रद्धा पूर्वक पाठ करता रहे जब तक कार्य सिद्ध न हो ।

हवन सामग्री :—१—चन्दन का बुरादा २—तिल ३—शुद्ध

घी ४—शक्कर ५—अगर ६—तगर ७—कपूर ८—शुद्ध केशर
 ९—नागरमोथा १०—पन्च मेवा ११—जौ १२—चावल इत्यादि
 सभी चीजों को मिला कर हवन करें।

❁ गीता पाठ विधि ❁

श्रीमद्भगवद्गीता-पाठ विधानं हस्तलिखित ब्रह्माण्ड पुराणे ।

१ वन्धमोक्षकामश्चत्वारिंशद्विदिनपर्यन्तं प्रत्यहं प्रत्यहं संहारक्रमेण
 पाठत्रयं कुर्यान् वन्धमोक्षो भवति ।

यतीनाम् संहारक्रमः श्रेष्ठः मंकटे प्रसिद्धः-

२ श्रीकामः स्थितिक्रमेण पठेत् धनप्राप्तिर्भवेत् । गृहस्थानां
 स्थितिक्रमः श्रेष्ठः

३ विवाहकामः सृष्टिक्रमेण पठेत् ।

ब्रह्मचारिणाम् सृष्टि क्रमः श्रेष्ठः ।

१ संसार वन्धन मोक्ष की जो कामना योगी करे ।
 प्रति दिवस संहार क्रम से तीन पाठों को करे ॥
 चालीस दिन तक पाठ कर जब चित्त हो गोपाल में ।
 क्या ? कभी वह पड़ सके, संसार सागर जाल में ॥

संहारक्रमः

अठारह अध्याय से

प्रथम अध्याय तक

१८ , १७ , १६ , १५ , १४ , १३ , १२ , ११ ,

१० , ९ , ८ , ७ , ६ , ५ , ४ , ३ , २ , १ ,

२ श्री कामना से पाठ करना यदि किसी को इष्ट हो ।

स्थिति क्रम नियम धारण करे तब सकल दूर अनिष्ट हो ॥
सौख्य उसको नित मिले धन-धान्य की अति वृद्धि हो ।
पाठ करने से सदा कल्याण सुख सुमृद्धि हो ॥

स्थितिक्रमः

पांच अध्याय से अठारह अध्याय तक चार से एक तक
५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४,
१५, १६, १७, १८, १, २, ३, ४, ५,
३ ब्रह्मचारी धर्म निज पालन करे जो क्षेम से ।
उपरान्त धर्म गृहस्थ जब स्वीकार करता प्रेम से ॥
प्राप्त करता वही नर श्री रूप नारी लोक मे ।
सृष्टि क्रम से पाठकर होता कभी क्या ? शोक मे ।

सृष्टिक्रमः

प्रथम अध्याय से, अठारह अध्याय तक
१, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १०, ११, १२,
१३, १४, १५, १६, १७, १८, इति,

भीतनिवृत्त्यर्थ

स्थाने हृषीकेश इति, इस श्लोक को प्रतिदिन पढ़े । भय दूर हो ।
सब मनोरथो की सिद्धि के लिये ।

यत्र योगेश्वरः कृष्णोयत्र पार्थो धनुर्धरः

इस श्लोक से सपुटित कर पाठ करे १०० सौ आवृत्ति करने
पर मनोरथ सिद्ध होगा । सपुटित कर पाठ का क्रम उपरोक्त संसार
स्थिति सृष्टि है जिस वर्ग का हो, उसके अनुसार वह सपुटित पाठ करे ।

सर्वा बाधा निवृत्त्यर्थं दशमाध्यायमारभ्य संपुटित पठेत्

सब बाधाओं को दूर करने के लिए दसवें अध्याय से संपुटित कर पाठ करें ।

पाठक्रम

१०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८, ९, ३, २, १, इति ब्रह्माण्ड पुराणे ।

❁ भूत प्रेत राक्षस नाशक मंत्र ❁

ॐ नमो नारायणाय

ॐ स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या

जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।

रक्षांसि भीतानिदिशोद्रवन्ति

सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध सद्भाः

भीतानि दिशो द्रवन्ति

ॐ नरसिंहाय नमः ॐ प्रचक्राय स्वाहा

ॐ विचक्राय स्वाहा ॐ सुचक्राय स्वाहा

ॐ ज्वालाचक्राय स्वाहा ॐ असुरान्तक

चक्राय स्वाहा ॐ महासुर्शन चक्राय स्वाहा ॥

गी० अ० ११।३६ यह गीता श्लोक संपुट संयुक्त एक लाख पाठ करने से प्रेत पीड़ा दूर होती है और कामना भी पूर्ण होती है निष्काम को भगवद्दर्शन होता है ।

❁ अथ गरुडोपनिषत् ❁

ॐ भद्र कर्णेभिः शृणुयाम देवाः । भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा

स्थिरैरंगैस्तुष्टुवाँ स्स्तनूभिः । व्यशेभ देवहितं यादायुः । स्वस्ति न
इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वतिनः पूषा विश्ववेदाः । स्वस्तिनस्तादर्थो अरिष्ट-
नेभिः स्वस्तिनो वृहस्पतिर्दधातु ॥ ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः
॥ ५ ॥ प्र० उप० ॐ ब्रह्म विद्यां प्रवक्ष्यामि ब्रह्मा नारदा-
य नारदो बृहत्सेनाय बृहत्सेनो बृहस्पतये बृहस्पतिरिन्द्राय इन्द्रो
भरद्वाजाय भरद्वाजो जीवतु कामेभ्यः स्वशिष्येभ्यः प्रायच्छत् । ॐ
तत्कारी मत्कारी विषहारिणी विषदूषिणी त्रिषसर्पिणी विषनाशिनी
हतं विषं नष्टं विषं प्रणष्टं विषं हतं ते ब्रह्मणा विषं हतमिन्द्रस्य
वज्रेण स्वाहा ॥ १ ॥ नागानां सर्पाणां वृश्चिकानां लूतानां प्रलूतानां
गोधानां गृहगोधानां मूषकानां स्थावराणां जंगमानां यद्यनन्तक-
दूतस्त्वं यदि वानन्तकः स्वयम् यदि वासुकि-दूतस्त्वं यदिवासुकिः
स्वयम् यदि तक्षक-दूतस्त्वं यदिवातक्षकः स्वयम् यदि कर्कोटक-
दूतस्त्वं यदि वा कर्कोटकः स्वयम् यदि शंख-पुलकदूतस्त्वं यदि वा
शंखपुलकः स्वयम् यदि पद्मकदूतस्त्वं यदिवा पद्मकः स्वयम् यदि
महापद्मक दूतस्त्वं यदि वा महापद्मकः स्वयम् यद्येला पत्रक-दूतस्त्वं
यदिवैला पत्रकः स्वयम् यदि महैला पत्रकः दूतस्त्वं यदि वा महैला-
पत्रकः स्वयम् यदि कम्बला-श्वतर दूतस्त्वं यदि वा कम्बलाश्वतरः
स्वयम् यदि कालिक-दूतस्त्वं यदि वा कालिकः स्वयम् यदि कुलिक-
दूतस्त्वं यदि वा कुलिकः स्वयम् य इमां महाविद्याममावस्यायां
शृणुयाद् द्वादशवर्षेनत दशन्ति सर्पा य इमां महाविद्याममावस्याया-
मधीपानो धारयेद्यावज्जीवं नतं दशन्ति सर्पाः । अष्टौ ब्राह्मणान्प्रा-
हयित्वा तृणेन मौक्षयति भस्मना मौक्षयति शतं ब्राह्मणान्प्राहयित्वा

चक्षुषा मोक्षयति सहस्रत्राह्मणान्प्राहयित्वा मनसा मोक्षयति इत्याह
 भगवान् ब्रह्मा आह भगवान् ब्रह्मा इत्यथर्वणवेदे गारुडोपनिष
 त्समाप्ता ॐ भद्रं कर्णेभिरिति ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

⇐ दत्तात्रय के २४ गुरु ⇒

अवधूत महात्मा ने २४ प्राणियों के व्यवहार से शिक्षा
 ग्रहण की है ।

(१) पृथ्वी—पृथ्वी ने जमा और सहिष्णुता की शिक्षा ली
 है । लोग पृथिवी को खोदते उस पर मलमूत्र फेंकते हैं परन्तु पृथिवी
 तनिक भी विचलित न होकर सबको अपनी गोद में उठाए रहती
 है । विवेकी साधुपुरुष को भी पृथ्वी के समान सहनशील रहकर
 अपकार करनेवालों के साथ भी जमा का वर्ताव करना चाहिये ।

(२) पर्वत—पर्वतों से यह सीखा है कि साधुको विना
 किसी प्रत्युपकार की भावना के अपने जीवन की सब चेष्टाओं को
 परोपकार में ही लगा देना चाहिये ।

(३) वृक्ष—वृक्षों को काटने जलाने और उखाड़ने वालों
 को भी विना किसी सह्योच पत्ते, छाल, जड़, गोंद, फूल, फल, लकड़ी,
 कोयला और राख आदि से लाभ पहुंचाते हैं वैसे ही साधु को
 बुराई करने वालों के साथ भी भलाई ही करनी चाहिये ।

(४) वायु—वायु के समान, प्राणवायु केवल आहारमात्र
 की अपेक्षा रखकर रूप-रस आदि से कोई प्रयोजन नहीं रखता
 और वाह्यवायु गन्ध आदि गुणों तथा शीतोष्णधर्मों से युक्त होता

हुआ भी स्वयं निर्लिप्त रहता है, आत्मज्ञानी को भी शारीरिकधर्मों से युक्त होते हुए भी अपने आपको शारीरिक गुणदोषों से अतीत समझना चाहिये ।

(५) आकाश—आकाश घटादि में रहता हुआ भी अखण्ड निर्लिप्त और समन्वयरूप से व्यापक है ।

(६) मेघ—वायु आदि का आधार होता हुआ भी उनसे अलग है जैसे ही साधुपुरुष भी अपने आपको कालकृत तेज, जल, अन्नमय शरीर से अलग समझे ।

(७) जल—जल के समान स्वाभाविक स्निग्ध, निर्मल, मधुर तथा तीर्थतुल्य रहकर दर्शनस्पर्शन कीर्तन द्वारा लोगों को पवित्र करता रहे और सब का मल धोने का प्रयत्न करे ।

(८) अग्नि—अग्नि के समान तेजस्वी-ज्ञानी, तपी, भजनानन्दी, दीप्तिशाली और दुर्धर्ष रहकर स्वतः ही जो कुछ प्राप्त हो उसे पेट के पात्र में रखले, न अधिक की इच्छा करे और नहीं सञ्चय करे ।

(९) चन्द्रमा—जैसे अव्यक्तगति से काल के द्वारा चन्द्रमा की कलाएं घटते बढ़ते रहने पर भी चन्द्रमण्डल कभी घटता बढ़ता नहीं जैसे ही सब कालकृत अवस्थाएं देहकी हैं, आत्मा की नहीं और कालगति से शरीर ही उपजते तथा नष्ट होते हैं आत्मा नहीं ।

(१०) सूर्य—जिस प्रकार सूर्य पृथ्वी का जल खेचकर समया-नुसार वर्षा करता है, जैसे ही साधु महात्मा को भी विद्या और

ज्ञान को सीख कर संसार में फैलाना चाहिये ।

(११) कवूतर—अवधूतजी महाराज यदु से कहते हैं—

कवूतर—कवूतरी पक्षियों का एक जोड़ा बड़े स्नेह सुख से जंगल में रहता था । उनके यहां बच्चे पैदा हो गये । एक दिन दोनों पत्नी चोग चुगने गये हुए थे कि पीछे से चिड़ीमार ने आकर उनके बच्चों को पकड़ लिया । चिड़ीमार के जाल में बच्चे फंसे ही थे कि दोनों पत्नी वापिस आगये । बच्चों को जाल में तड़पते देखकर कवूतरी से न रहा गया वह भी जाल में गिर कर फंस गई और इसके बाद कवूतर भी परिवार के बिना अपना जीवन व्यर्थ जानकर जाल में आ फसा । कवूतरो के उस जोड़े से यह शिक्षा ग्रहण की कि जो व्यक्ति गृहस्थ के पालन में आसक्त रहते हैं वे कवूतर के समान दुःखित होकर कष्टों का शिकार होते हैं । यह मनुष्यजन्म मुक्ति का खुला हुआ द्वार है इसको पाकर भी जो लोग उस पत्नी की भांति विषयो में आसक्त होते हैं वे मूढ़ हैं और शास्त्र में उन्हें आरूढ़-च्युत कहा गया है ।

(१२) अजगर—से यह शिक्षा ली है कि सुखदुःख स्वयमेव ही प्राप्त होते रहते हैं ज्ञानीपुरुष को इनकी इच्छा न करनी चाहिये । देवाधीन जो थोड़ा बहुत, अच्छा बुरा नीरस सरस आप ही से मिल जाय उसे उदासीन भाव से खा लेना चाहिये अन्यथा निराहार दशा में भी बहुतकाल तक धैर्य धारण कर निरुत्थम पड़ा रहे, शरीर का भरणपोषण करने की चिन्ता न करें ।

(१३) सागर—मुनि महात्मा को सागर की भांति प्रशान्त गम्भीर, दुरवगाह अनतिक्रमणीय, अनन्तपार और अक्षोभ्य

रहना चाहिए ! सागर जिस प्रकार वर्षाऋतु की भरी हुई नदियों को पाकर फूलता नहीं और ग्रीष्मऋतु की नदियों को सूखी हुई देखकर कभी सूखता नहीं, वैसे ही आत्मज्ञानी साधु को भी समृद्ध-कामनाओं को पाकर प्रसन्न और कामनाओं के पूरा न होने पर लुभित न होना चाहिये ।

(१३) पतङ्ग—से यह सीखा है कि जो लोग इन्द्रियों से बश मे होकर रूप आदि पर मोहित हो जाते है वे नष्ट भ्रष्ट हो जाते है ।

(१४) भ्रमर—से यह सीखा है कि मुनि को उतना ही आहार करना चाहिये जिससे शरीर की शक्ति बनी रहे—शिथिल न हो । अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा अन्न लेकर खाना चाहिये । एक ही घर का आश्रय लेनेवाला उस भ्रमर के समान नष्ट होता है जो विशिष्ट गन्ध के लोभ से एक ही कमल में रहकर सूर्यास्त के समय कमल के सम्पुट मे फँस जाता है । जिस प्रकार मधुकर सर्वप्रकार के फूलों से सार वस्तु ग्रहण करता है वैसे ही महात्मा को सब शास्त्रों से साराश ग्रहण करना चाहिए । हाथ और पेट को ही पात्र बनाकर आहारमात्र से प्रयोजन रक्खे, दूसरे समय के लिये संचित न करे । संचित करनेवाला मधुमक्षिका के समान अपनी सम्पत्ति सहित नष्ट होता है । चाहे लकड़ी की स्त्री क्यों न हो भिक्षुक उसे पैर से भी स्पर्श न करे, अन्यथा हथनी के अंग-संग की लालसा करने वाले हाथी के समान गढे मे गिरकर पराधीनता मे जकड़ा जायगा ।

(१५) मधुहारी—के मक्षिकाओं का मधु ले जाने से यह

सीखा है कि जो लोग धन को दान पुण्य में नहीं लगाते उनका धन दूसरे ही खाते हैं।

(१६) हरिण—व्याध के मधुर गीतों को सुनकर हरिण उसके जाल में फंस जाता है। हरिणीपुत्र ऋष्यशृंग भ्रियो के ग्राम्यगीत सुनकर उनके चगुल में फंस गये। इससे यही शिक्षा ली है कि वनवासी यति ग्राम्यगीतों को सुनने की न आदत डालें। स्वाद के बस मीन मांस के टुकड़े में छुपे हुये कांटे को नहीं देखना और फंस जाता है, इसलिए ज्ञानीपुरुष रस का स्वाद न डालें। क्योंकि जबतक जिह्वा इन्द्रिय को नहीं जीता जाता तबतक अन्य इन्द्रियों को जीत लेने पर भी कोई जीतेन्द्रिय नहीं कहला सकता।

(१७) पिङ्गला—वेश्या आधी रात्रि तक किसी धनपति की प्रतीक्षा में जागती रही। जब कोई न आया तो उसे वैराग्य हो गया और उसने अपने पिछले कुकर्मों के लिये पश्चात्ताप करते हुये प्रतिज्ञा करली कि अब धन के बढ़ले धर्म न बेचूँगी। किन्तु सूखा सूखा खाकर अपने आत्मा में स्थित भगवान् से ही प्रेम करूँगी। उससे मैंने यह शिक्षा ली कि पुरुष के आशारूप सब बन्धनों को काटनेवाला वैराग्य ही है। बिना वैराग्य के देहबन्धन को काटने का दूसरा कोई उपाय नहीं।

(१८) कुररी—पत्नी बच्चों के मोह में कष्ट पाता है। उनसे अलग हो जाने पर उसे कोई कष्ट नहीं।

(१९) बालक—बालक से निश्चिन्तता और भोलापन सीखा है। भोलाभाला निरुद्यमी बालक और माया से अतीत ज्ञानी पुरुष ही निश्चिन्त और परमानन्द में मग्न रहते है।

(२०) कुमारी—धान कटते समय एक कुमारी कन्या के चूड़ियों को तोड़कर दो दो रख लेने पर भी शोर बन्द न हुआ। अन्त में उसने केवल एक एक चूड़ी रहने दी फिर शोर नहीं हुआ। इस से मैंने यह शिक्षा पाई कि बहुत लोगो का एकत्र रहना कलह और अनिष्ट का कारण है। साधु के लिये एकान्तवास ही लाभदायक हो सकता है।

(२१) वाण—बनाने वाले से चित्त को एकाग्र करना, आसन लगाना, श्वास को वश करना, वैराग्य से वशीभूत और अभ्यास से स्थिर करके मनको अपने लक्ष्य परमात्मा में लगाना सीखा है।

(२२) सर्प—से यह सीखा है कि मुनि अकेला ही विचरण करे, अपने रहने का स्थान नियत करे, गुहा आदि में पड़ रहे, हर समय सावधान रहे और अल्प-भाषी होकर इच्छानुसार घूमता रहे।

(२३) ऊर्णनाभि—से यह सीखा है कि एकमात्र नारायणदेव कल्प के आदि में अपनी माया से इस विश्व को प्रकट करते हैं और फिर प्रलयकाल में अपनी कालशक्ति द्वारा सब शक्तियों को अपने में लीन कर सर्वाधाररूप से एक अद्वितीय शक्ति अवशिष्ट रहते हैं। सब शक्तियां क्रमशः अपने अपने कारण में लीन होकर अन्त में सब परमकारण में समा जाती हैं। भगवान की इसी विशुद्ध-स्थिति को वेदों में कैवल्यमोक्ष कहा गया है। राजन् ! वही परमानन्द मोक्षरूप परमेश्वर अखण्ड आत्मानुभवरूप काल के द्वारा

अपनी त्रिगुणमयी माया को सचेष्ट करके सृष्टि के सूत्रस्वरूप महत्तत्त्व को प्रकट करते हैं। महत्तत्त्व से तीनो गुणों अर्थात् त्रिविधविश्व की सृष्टि करनेवाला त्रिविध अहंकार प्रकट होता है। सूत्रस्वरूप महत्तत्त्व मे ही यह विश्व ओतप्रोत है और अध्यात्म प्राणवायु महत्तत्त्व ही मे जीवात्मा संसार मे प्रवृत्त है। जैसे ऊर्णनाभि अपने मुख से जाला फैलाकर सृष्टि रचता और समेट लेता है वैसे ही भगवान् इस विश्व की सृष्टि स्थिति और लय करते है।

(२४) पेशस्कृत्— से यह सीखा है कि मनुष्य एकाग्रमन से जिस और ध्यान लगाता है उसी का रूप बन जाता है। हे राजन ! मैने अपने शरीर से भी बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण की है इमलिये इमे भी शिक्षादाता गुरु मानता हूँ। क्योकि यद्यपि यह शरीर अनित्य है पर मोक्ष का द्वार भी यह मनुष्य शरीर ही है।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।



श्री सद्गुरु की आरती



जय गुरुदेव दयानिधि दीनन हितकारी ।
जय जय मोह विनाशक भव बन्धन हारी ॥ जयदेव० ॥
ब्रह्मा विष्णु सदाशिव गुरु मूरति धारी ।
वेद पुराण बखानत गुरु महिमा भारी ॥१॥ जयदेवः ॥
जप तप तीरथ संयम दान विविध दीन्हे ।
गुरु बिन ज्ञान न होवे कोटि यतन कीन्हे ॥२॥ जयदेव० ॥
माया मोह नदी जल जीव बहैं सारे ।
नाम जहाज विठाकर गुरु पल मे तारे ॥३॥ जयदेव० ॥
काम क्रोध मद मत्सर चोर बड़े भारी ।
ज्ञान खड़ग ले कर में गुरु सब संहारी ॥४॥ जयदेव० ॥
नाना पन्थ जगत में निज निज गुण गावैं ।
सब का सार बताकर गुरु मारग लावैं ॥५॥ जयदेव० ॥
गुरु चरणामृत निर्मल सब पातक हारी ।
बचन सुनत तम नाशे सब संशय टारी ॥६॥ जयदेव० ॥
तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजे ।
स्वामीजी महाराज परम पद मोक्ष गती दीजे ॥७॥ जयदेव० ॥



ॐ प्रार्थना ॐ

दुःख भञ्जन आप कहाते हो । तो दास के दुःख हटा देना ॥
 है विपत्ती विभञ्जन नाम तेरा । तो सारी विपत्तीं मिटा देना ॥
 है नाम पतित पावन तेरा । हूँ पापी पवित्र बना देना ॥
 संकट मोचन कहलाते हो । मम संकट नाथ हटा देना ॥
 भव बन्धन आप मिटाते हो । यह बन्धन तुच्छ मिटा देना ॥
 श्रेरी लज्जा के साथ साथ । अपनी भी लाज बचा लेना ॥
 दाता आनन्द आप कहाते हो । इस घर में आनन्द मचा देना ॥
 सुख दाता आप कहाते हो । इस घर को सुखी बना देना ॥
 यदि दीन दयालु नाम तेरा । तो दया आप दिखला देना ॥
 दिन की तुम रात बना करके । अर्जुन का प्राण बचाया था ॥
 निज कर गोवरधन धारण कर । सब ब्रज को सुखी बनाया था ॥
 यह दीन 'हीन' असहाय नाथ । अति कठिन विकट दुःख पाता है ॥
 थों 'ओंकार' तब शरण पड़ा । अब आँसु धार बहाता है ॥
 हो जाय कृपा की कौर तनिक । तो दुःख सारा मिट जायेगा ॥
 मैं नाथ सुखी हो जाऊंगा । यश जगत तुम्हारा गायेगा ॥

पार्श्व



श्रीहरिः ञरणम्

—≡ प्रार्थना ≡—



गीताप्रेस, गोरखपुर

मुद्रक तथा प्रकाशक

धनश्यामदास जालान

गीताप्रेस, गोरखपुर

संवत् २००७ प्रथम संस्करण १०,२५०

संवत् २००८ द्वितीय संस्करण २०,०००

मूल्य ≡) तीन आना


पता—गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीहरिः

प्रार्थना-परिचय

प्रार्थना मनकी वस्तु है। उसके लिये बँधे-नपे नियमोकी, व्याकरणशुद्ध शब्दोंकी, छन्दोकी और कविताओंकी अनिवार्यता नहीं है। प्रगाढ़ विश्वासके साथ अपने भगवान्से अपनी भाषामे अपने मनकी सच्ची स्थितिके अनुसार सहज ही जो कुछ भी आवेदन-निवेदन किया जाय, वही प्रार्थना है। जीवनमें ऐसी प्रार्थनाएँ असंख्य बार हुई हैं, होती हैं—कभी शब्दोंमें, कभी मूक भाषामे और कभी केवल मनके संकल्पमात्रमे ही। इनमेंसे जो बहुत ही थोड़ी-सी लिपिबद्धरूपमे हुई, वे ही यहाँ छापी जा रही हैं। यह अपने प्रभुके साथ अपनी निजकी बातचीत है। यह न तर्ककी चीज है, न विचारकी ही। न इसमे बनावट ही है। यह तो मनके सहज भावोच्छ्वास हैं जो समय-समयपर मनकी जैसी स्थिति रही है, उसीके अनुसार प्रकट हुए हैं। इनमें सम्बद्धता, नियमितता तथा पूर्वापरकी एकताका कोई प्रश्न ही नहीं है। जो कुछ है, यथार्थ है। ये किसीके जीवनमें, उसकी समस्याओंके समाधानमें, कठिनाइयोंके दूर करनेमे और लक्ष्यकी प्राप्तिमें कुछ मार्ग निर्देश कर सकें, कुछ सहायक हो सकें तो बड़े आनन्दकी बात है।

—कोई एक



परमकारुणिको न भवत्परः

परमशोच्यतमो न च मत्परः ।

इति विचिन्त्य हरे मयि पामरे

यदुचितं यदुनाथ तदाचर ॥

हरे ! तुमसे बढ़कर परम कारुणिक और कोई नहीं एवं मुझसे बढ़कर परम शोचनीय और कोई नहीं । यदुनाथ ! यों समझकर मुझ पामरके, उचित हो, वही करो ।

परमकारुणिको न मत्परः
परमशोच्यतमो न च मत्परः ।
इति विचिन्त्य हरे मयि पामरे
यदुचित्तं यदुनाथ तदाचर ॥

हरे ! तुमसे बढ़कर परम कारुणिक और कोई नहीं एवं
मुझसे बढ़कर परम शोचनीय और कोई नहीं । यदुनाथ ! यों
समझकर मुझ पामरके लिये जो उचित हो, वही करो ।



.....

•

प्रार्थना



प्रार्थना

[१]

हे प्रभो !

मैं अधम हूँ, नीच हूँ, पामर हूँ, पापोंकी कालिमासे कलङ्कित हूँ । इतना सब होते हुए भी हूँ तो तुम्हारा ही न ? इस सत्यको, हे सत्य ! तुम अस्वीकार नहीं कर सकते । बस, इसी सत्यके आधारपर मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे मनको ऐसा बना दो जिसमें वह इस सत्यको सदा स्मरण रक्खे । क्या इस पतितकी, हे पतितपावन ! इतनी विनती भी नहीं सुनोगे ?

× × × × ×

हे प्रभो ! मैं तुमसे विमृख हूँ, संसारके जालमें फँसा हूँ, भूलकर भी कभी तुम्हारी ओर चित्त नहीं लगाता । परन्तु हे विश्वरूप ! मेरे लीलामय ! यह तो सत्य ही है कि सब कुछ तुम्हीं हो । फिर चाहे मैं किसी ओर देखूँ, किसी ओर जाऊँ, किसीमें मन लगाऊँ, तुम्हींको तो देखता हूँ, तुम्हारी ओर ही तो जाता हूँ, तुम्हींमें तो मन लगाता हूँ । बस, यही प्रार्थना है कि इस समझको प्रतिक्षण मेरे हृदयमें जमाये रक्खो मेरे स्वामी !

× × × ×

हे प्रभो ! मैं अपनी झूठी ऐंठमें अकड़ा रहता हूँ, और अपनेको बलवान्, धनवान्, संततिवान्, जनवान्, विद्वान् और बुद्धिमान् मानता हूँ । परन्तु हे सर्वेश्वर ! यह तो सत्य ही है कि मुझमें जो कुछ भी है सो सब तुम्हारा ही तो है । मैं भी तुम्हारी ही सम्पत्ति हूँ । हे सर्वलोकमहेश्वर ! बस, इस सत्य सिद्धान्तको मैं कभी न भूलूँ, यह वरदान दे दो मेरे मालिक !

× × × ×

हे प्रभो ! लोग कहते हैं जगत् सब स्वप्नवत् है, तुम्हारी मायासे विना ही हुए यह सब कुछ दीखता है परन्तु माया या स्वप्न पुरुषके आश्रित होनेके कारण यह तो, हे सत्यसंकल्प ! सत्य ही है न कि यह सारा प्रपञ्च तुम्हारे संकल्पपर स्थित है । प्रपञ्चमें ही मैं भी हूँ इसलिये मैं भी तुम्हारे संकल्पमें हूँ । मेरे-सरीखा कौन भाग्यवान् होगा जिसे तुम अपने मनमें रखते हो । बस, प्रभो ! मुझे तो अपने संकल्पमें ही रखो । और ऐसा बना दो कि मैं सब कुछ भूलकर—दुनियाकी सारी सुधि भुलाकर केवल यही याद रखूँ कि मैं तुम्हारे संकल्पमें ही स्थित हूँ ।

× × × ×

हे प्रभो ! कहाँ मैं क्षुद्र-सी परिधिमें रहनेवाला क्षुद्रतम कीट और कहाँ तुम अपने एक-एक रोममें अनन्त ब्रह्माण्डोंको धारण करनेवाले कल्पनातीत महामहिम महान् ! मैं तुम्हारी थाह कहाँ पाऊँ और कैसे पाऊँ ? परन्तु हे सर्वाधार ! यह तो

सत्य है कि अनन्त ब्रह्माण्डोंमेंसे किसी एक क्षु
क्षुद्रतम क्रीट होनेपर भी हूँ तो तुम्हारे ही द्र
हुआ न ? प्रभो ! बस, इस तत्त्वको कभी भूलन
सदा-सर्वदा अपनेको तुम्हारे ही आधारपर स्थित देखूँ,
अपनेको तुम्हारे ही अंदर समझूँ !

× × × ×

हे प्रभो ! मैं दुःखोंसे दबा हूँ, तापोंसे संतप्त हूँ, अभावोंसे
आकुल हूँ, व्यवस्थाओंसे व्याकुल हूँ, अपमानोंसे पीड़ित हूँ,
अपकीर्तिसे कलङ्कित हूँ, व्याधियोंसे ग्रस्त हूँ और भयोंसे
त्रस्त हूँ । मेरे समान दुखी दुनियामें दूसरा कौन होगा ?
सारे दुःखोंका पहाड़ मानो मुझपर ही टूट पड़ा है । परन्तु
हे मेरे प्रियतम ! क्या यह सच नहीं है कि यह सब तुम्हारी
ही भेजी हुई सौगात है ? तुम्हारा ही प्रेमसे दिया हुआ
उपहार है ? इस सत्यको जाननेपर भी हे मेरे प्यारे ! फिर
मुझे इनकी प्राप्तिमें असन्तोष क्यों होता है ? तुम्हारी दी हुई
प्रत्येक वस्तुमें तुम्हारे हृदयके निर्मल प्रेमको देखकर, ओ
मेरे हृदयधन ! तुम्हारे प्रत्येक विधानमें तुम्हारा कोमल कर-
स्पर्श पाकर मैं परम सुखी हो सकूँ । ऐसा प्रेमियोंका-सा विलक्षण
हृदय मुझे दे दो नाथ !

× × × ×

हे प्रभो ! मैं दिन-रात दुनियामें दुःखकी, शोककी,
पीड़ाकी, निराशाकी, असफलताकी, अपमानकी, अभावकी,

अकालकी, अकीर्तिकी, दरिद्रताकी, वियोगकी, गंगकी और मृत्युकी डरावनी सूरतोंको देख-देखकर भयभीत होता हूँ। परन्तु हे मेरे चतुर खिलाड़ी ! हे मेरे विलक्षण बहुरूपिये ! क्या यह सत्य नहीं है कि इन सब रूपोंको धारण करके एक तुम्हीं तो मुझसे खेलने आते हो ? और क्या यह भी सत्य नहीं है कि मैं तुम्हें न पहचाननेके कारण ही डरकर इनसे दूर भागना चाहता हूँ ? प्यारे ! मुझे ऐसी दिव्य आँखें दे दो कि फिर तुम्हें पहचाननेमें मैं कभी भूलूँ ही नहीं ! चाहे तुम किसी भी रूपमें आओ, मैं तुम्हें पहचान ही लूँ और तुम्हारे नये-नये खेलोंको देख-देखकर वैसे ही खिलता रहूँ, जैसे सूर्यकी किरणोंको देखते ही कमल खिल उठते हैं। दे डालो न प्रभु ! ऐसी पर्देके भीतरकी वस्तुको पहचाननेवाली पैनी नजर !

× × × ×

हे प्रभो ! मैं माताके स्नेहसे, पिताके वात्सल्यसे, मित्रकी मैत्रीसे, पत्नीके प्रेमसे, सन्तानके प्यारसे, सुकर्मोंकी कीर्तिसे और लक्ष्मीकी मोहिनीसे मुग्ध हो रहा हूँ। सदा अन्धा ही बना रहता हूँ। परन्तु ओ मेरे महामायावी ! क्या यह सत्य नहीं है कि तुम्हीं मा बनकर स्नेह करते हो, पिता बनकर पालते हो, मित्र बनकर मैत्री करते हो, पत्नी बनकर प्रेम करते हो, सन्तान बनकर अपनी तोतली वाणीसे मोहते हो, सुकर्म बनकर कीर्तिके रूपमें आते हो और मा लक्ष्मी बनकर मुझे अपना गुलाम बना लेते हो ? क्या इन

स्नेह, वात्सल्य आदिकी सारी धाराओंका मूलस्रोत तुम्हीं एकमात्र अखिल भावोंके महान् सागरसे ही नहीं निकल रहा है ? और क्या यह भाव-धारा पुनः लौटकर तुम समुद्ररूपमें ही मिलनेको नहीं जा रही है ? ओ मेरे मनचोर ! बस, इतनी कृपा करो कि मैं इन सचमें और इन सभीके सम्बन्धों और भावोंमें तुम्हींको देख-देखकर सदा मुग्ध होता रहूँ !

× × × ×

हे प्रभो ! बगीचेके रंग-बिरंगे फूलोंकी सुन्दरता और सुगन्ध, आकाशमें उड़नेवाले पक्षियोंकी चित्र-विचित्र वर्णोंकी बनावट और उनकी सुमधुर काकली, सरोवरोंमें और नदियोंमें इधरसे-उधर फुदकनेवाली मछलियोंकी मोहिनी स्वरत और पुष्पोंके रसपर मँडराती हुई तितलियोंकी कलापूर्ण रचना, सब मनको हरण किये डालती हैं । यह सुन्दरता, सौरभ, कला और यह मीठा स्वर, हे सौन्दर्य और माधुर्यके अनन्त सागर ! तुम्हारे ही तो जलकण हैं । बस, हे अखिल सौन्दर्य-माधुर्य-निधि ! ऐसी कृपा करो जिससे मैं इस बातको सदा स्मरण रख सकूँ और प्रत्येक सौन्दर्य-माधुर्यकी बहती धाराका सहारा लेकर तुम्हारे अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यका कुछ अंशोंमें तो उपभोग करूँ ।

× × × ×

हे प्रभो ! मेरे हृदयमें ऐसी आग लगा दो, जो सदा बढ़ती ही रहे । विषयोंकी सारी आसक्ति और कामना

उसका ईंधन बनकर उसे और भी प्रचण्ड कर दे और इतनी प्रचण्ड कर दे कि फिर वह तुम्हारी दर्शन-सुधा-वृष्टिके बिना कभी बुझे ही नहीं !

× × × ×

हे प्रभो ! जैसे सूर्यकान्तमणि सूर्यकी किरणोंका स्पर्श पाते ही जल उठती है, वैसे ही हे नाथ ! तुम्हारे भक्त साधुओंका जाने-अनजाने संग पाते ही मेरे मनमें तुम्हारे प्रेमकी आग भड़क उठे ! हे अनन्त ब्रह्माण्डोंमें अनन्त सूर्योंके प्रकाशक ! मेरे मनको सूर्यकान्तमणिके सदृश बना दो !

× × × ×

हे प्रभो ! जैसे चन्द्रकान्तमणि चन्द्र-किरणोंका योग प्राप्त करते ही द्रवित होकर रस बहाने लगती है, वैसे ही हे अनन्त सुधाकरोंको सुधा दान देनेवाले सुधासागर ! मेरा हृदय चन्द्रकान्तमणिके समान बना दो, जो तुम्हारे गुण-नामरूपी सुधाभरी शशि-किरणोंका संयोग पाते ही द्रवित होकर बहने लगे !

× × × ×

हे प्रभो ! चुम्बक उसी लोहेको अपनी ओर खींचता है, जो निखालिस होकर उसके सामने आता है । मुझे भी हे कृपासागर ! समस्त अभिमानोंके मिश्रणसे रहित कर दीन-हीन निखालिस लोहा बना दो, जो तुम्हारे आकर्षक कृष्ण नाम चुम्बकको पाते ही दौड़कर उसमें सदाके लिये चिपट जाय !

[२]

दयामय !

सुखी होनेके लिये मैंने कौन-सा काम नहीं किया ? विवाह किया, सन्तानें पैदा कीं, धन कमाया, यश-कीर्तिके लिये प्रयास किया, लोगोंसे प्रेम बढ़ाना चाहा और न मालूम क्या-क्या किया, परन्तु सच कहता हूँ मेरे स्वामी ! ज्यों-ज्यों सुखके लिये प्रयत्न किया, त्यों-ही-त्यों परिणाममें दुःख और कष्ट ही मिलते गये । जहाँ मन टिकाया वहीं धोखा खाया ! कहीं भी आशा फलवती नहीं हुई । चिन्ता, भय, निराशा और विषाद बढ़ते ही गये । कहीं रास्ता दिखायी नहीं दिया । मार्ग बंद हो गया ।

तुमने कृपा की; तुम्हारी कृपासे यह बात समझमें आने लगी कि तुम्हारे अभय चरणोंके आश्रयको छोड़कर कहीं भी सच्चा और स्थायी सुख नहीं है । चरणाश्रय प्राप्त

करनेके लिये कुछ प्रयत्न भी किया गया । अब भी प्रयत्न होता है । और यह सत्य है कि इसीसे कुछ सुख-शान्ति और आरामके दर्शन भी होने लगे हैं, परन्तु प्रभो ! पूर्वाम्यासवश बार-बार यह मन विषयोंकी ओर चला जाता है । रोकनेकी चेष्टा भी करता हूँ, कभी-कभी रुकता भी है, परन्तु जानेकी आदत छोड़ता नहीं ! तुम्हारे चरणोंके सिवा सर्वत्र भय-ही-भय छाया रहता है—दुःखोंका सागर ही लहराता रहता है, यह जानते, समझते और देखते हुए भी मन तुम्हें छोड़कर दूसरी ओर जाना नहीं छोड़ता ! इससे अधिक मेरे मनकी नीचता और क्या होगी मेरे दयामय स्वामी !

तुम दयालु हो, मेरी ओर न देखकर अपनी कृपासे ही मेरे इस दुष्ट मनको अपनी ओर खींच लो । इसे ऐसा जकड़कर बाँध लो कि यह कभी दूसरी ओर जा ही न सके । मेरे स्वामी ! ऐसा कब होगा ? कब मेरा यह मन तुम्हारे चरणोंके दर्शनमें ही तल्लीन हो रहेगा । कब यह तुम्हारी मनोहर मूरतिकी झॉकी कर-करके कृतार्थ होता रहेगा ।

अब देर न करो दयामय ! जीवन-सन्ध्या समीप है । इससे पहले-पहले ही तुम अपनी दिव्य ज्योतिसे जीवनमें नित्य प्रकाश फैला दो । इसे समुज्ज्वल बनाकर अपने मन्दिरमें ले चलो और सदाके लिये वहीं रहनेका स्थान देकर निहाल कर दो ।



दीनबन्धो !

इस मनके मनोरथोंको पूर्ण करनेके लिये मैंने क्या नहीं किया । जगह-जगह भटका, दर-दरकी धूल फाँकी, माँति-माँतिके नये-नये उद्योग किये; जिसने जौ बताया, उसीमें लग गया, प्रारब्धके संयोग और तुम्हारी कृपासे समय-समयपर धन-पुत्र और मान-यश भी मिलते ही रहे; परन्तु सब व्यर्थ, इस मनकी मुराद तो आजतक पूरी नहीं हुई, यह वैसा ही व्यस्त, वैसा ही अशान्त और चञ्चल बना है । बल्कि देखता हूँ— इसकी भूख और भी बढ़ गयी है । मालूम होता है, यह किसी ऐसी चीजकी खोजमें है, जो अभावोंसे सर्वथा रहित हो, जिसके मिल जानेपर फिर किसी चीजकी चाह रहे ही नहीं । संतलोग कहते हैं कि वैसी चीज तो बस, एक तुम ही हो । और तुम्हारी प्राप्ति होती है तुम्हारे ही शरण होकर श्रद्धा-प्रेमके साथ तुम्हारा भजन करनेपर ! परन्तु तुम्हारा भजन मुझसे बनता नहीं । सोचता हूँ—सदा तुम्हारे भजनमें ही लगा रहूँ, सदा-सर्वदा तुम्हारा नाम-गुण-कीर्तन और मधुर ध्यान ही करता रहूँ । परन्तु क्या बताऊँ, जब करने बैठता हूँ, तब निराश हो जाता हूँ । उस समय न मालूम कहाँ-कहाँके विचार, कैसी-कैसी भूत-भविष्यकी चित्र-विचित्र भावनाएँ मनमें आ खड़ी होती हैं कि जिनसे क्षणभरके लिये भी मन शान्त और एकाग्र नहीं

हो पाता । उन्हींके साथ-साथ उसी समय बाहरी कामोंका भी समूह आ डटता है । 'यह काम इसी समय न करनेसे अधर्म होगा,' 'आदर्श नष्ट होगा,' 'कर्तव्यकी अवहेलना होगी,' 'निन्दा होगी,' 'आर्थिक और सामाजिक हानि होगी' तथा 'करनेसे अमुक-अमुक लाभ होंगे'—इस प्रकारके भय और प्रलोभन भी उसी समय आकर उन कर्मोंमें बरबस लगा देते हैं । इस प्रकार मन और ज्ञानेन्द्रियोंके साथ-ही-साथ कर्मेन्द्रियोंमें भी हलचल मच जाती है ।

प्रभो ! मैं क्या करूँ, कैसे तुम्हारा भजन करूँ, कुछ समझमें नहीं आता । स्वामिन् ! मैं दुर्बल हूँ । जानता हूँ, मन-इन्द्रियाँ आत्मासे बलवान् नहीं हैं, तथापि मैं तो आत्मस्वरूपके अज्ञानके कारण उनसे दबा ही रहता हूँ । अब तो बस, एकमात्र तुम्हारी कृपाशक्तिका ही सहारा है । मेरे नाथ ! ऐसी शक्ति दो, जिससे तुम्हारे बलसे—तुम्हारी अमित महिमा, तुम्हारे अचिन्त्य सौहार्द, तुम्हारे प्रबल प्रभाव और तुम्हारी सहज दयाके बलसे मैं इन मन-इन्द्रियोंको जीतकर इन सबको, सब ओरसे, सब प्रकारसे केवल तुम्हारे भजनमें ही लगा दूँ और—जैसे गङ्गाकी धारा सारे बाधा-विघ्नोंको चूर-चूर करती हुई समुद्रकी ओर बिना रुके बहती रहती है, उसी प्रकार मेरे इस मनकी सारी वृत्तियाँ एकमुखी होकर बिना रुकावटके केवल तुम्हारी ही ओर बहती रहें । मैं तुम्हारा हो जाऊँ और तुम्हें अपना बनाकर धन्य हो जाऊँ ।

मेरे प्राणोंके प्राण !

भोगोंमें सुख नहीं है, यह अनुभव बार-बार होता है; फिर भी मेरा दुष्ट मन उन्हींमें सुख मानता है और बार-बार तुमको भूलकर उन्हींकी ओर दौड़ता है । बहुत समझानेकी कोशिश करता हूँ परन्तु नहीं मानता । तुम्हारे स्वरूप चिन्तनमें लगाना चाहता हूँ, कभी-कभी कुछ लगता-सा-दीखता भी है, परन्तु असलमें लगता नहीं । मैं तो जतन करके हार गया मेरे स्वामी ! अब तुम अपनी कृपा-शक्तिसे इसे खींच लो । मुझे ऐसा बना दो कि मैं सब प्रकारसे तुम्हारा ही हो जाऊँ । धन, ऐश्वर्य, मान, जो कोई भी तुम्हारी ओर लगनेमें बाधक हों, उन्हें बलात्कारसे मुझसे छीन लो । मुझे चाहे राहका भिखारी बना दो, चाहे सबके द्वारा तिरस्कृत करा दो, परन्तु अपनी पवित्र स्मृति मुझे दे दो । मैं बस, तुम्हारा स्मरण करता हुआ, तुम्हारे स्वरूप-गुणोंका चिन्तन करता हुआ निरन्तर सच्चे आनन्दमें निमग्न रहूँ ! मेरे सुख-दुःख, हानि-लाभ, सब कुछ तुम्हारी स्मृतिमें समा जायँ । वे चाहे जैसे आयें-जायें, मैं सदा तुम्हारे प्रेममें डूबा रहूँ । सबमें, सब अवस्थाओंमें, सब भावनाओंमें, सब क्रियाओंमें और सारे सृजन-संहारमें केवल तुम्हारा अनुभव

करूँ । तुम्हारा ही प्यारा स्पर्श पाकर सदा उल्लसित होता रहूँ ।

मेरे मनसे सब कुछ भुला दो, और उस सब कुछके बदलेमें एकमात्र अपनी मधुर स्मृतिको ही जगाये रखो । कोई ऐसा क्षण हो ही नहीं, जिसमें मन तुम्हें भूल सके । यदि हो तो बस, जैसे मछली जलके बिना छटपटाकर मर जाती है, वैसे ही यह मन भी मर जाय ।

मेरे प्राण सदा तुम्हारे साथ ही रहें, तुम्हारा विछोह कभी हो ही नहीं । यदि कभी ऐसा हो तो बस, उसी क्षण तेलके अभावमें दीपकके बुझ जानेकी भाँति शान्त होकर तुममें समा जायँ ।

मैं सदा अनुभव करूँ—तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ । तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ । तुम मुझे देख रहे हो, मैं तुम्हें देख रहा हूँ । तुम मुझे पकड़े हो, मैं तुम्हें पकड़े हूँ । तुम मुझे आलिङ्गन कर रहे हो, मैं तुम्हें आलिङ्गन कर रहा हूँ । तुम मुझमें समा रहे हो, मैं तुममें समा रहा हूँ । और तुम मुझमें हो, मैं तुममें हूँ ।

मेरे प्राणोंके प्राण ! अब देर न करो, बहुत समय बीत गया मुझे भटकते । तुम्हारा अपना ही होकर मैं जो इतनी दुर्दशामें पड़ा हूँ, यह तुमसे कैसे देखा जाता है ? भगवन् ! अब तो तुरंत दया करके अपनी परम दयाका अनुभव करा दो, मेरे स्वामी !



अन्तर्यामिन् !


मेरे मनकी कोई भी दशा तुमसे छिपी नहीं है । कितना गंदा है वह ! वृथा गर्व, दम्भ, काम, क्रोध, विषयासक्ति, ममता, मान, मद, लोभ आदि कोई ऐसा दोष नहीं है, जिसने उसमें अपना डेरा न जमा रक्खा हो । बुद्धि कहती है, इनका रहना अच्छा नहीं है । ये लोक-परलोक दोनोंको बिगाड़नेवाले बड़े बुरे वैरी हैं । परन्तु क्या करूँ, चेष्टा करनेपर भी ये मेरा पिण्ड नहीं छोड़ते । सर्वशक्तिमान् ! मैं तो हार गया हूँ इनसे, और अपने पुरुषार्थसे सर्वथा निराश

होकर तुम्हारी शरण आया हूँ । तुम्हारी शक्ति अतुल है । अब तो मेरे इन सदा दुःख देनेवाले दोषोंका शीघ्र ही नाश करके मनको पवित्र बना दो मेरे मालिक ! सचमुच मैं इनके मारे बेमौत मरा जा रहा हूँ, बचाओ—जल्दी बचाओ !

दीनबन्धो ! तुम्हें छोड़कर दीन-हीन और किसके दरवाजेपर जायँ ? ऐसा कौन है, जो दीन-हीन कंगाल कुर्मियोंपर स्नेह बरसाकर उन्हें आश्रय दे और अपनी कृपाशक्तिसे ही उनकी सारी दीनता, दरिद्रता, कुचेष्टा और कुप्रवृत्तिको मिटाकर उन्हें सुखी, सम्पन्न और सदाचारी बना दे ? मैं जो तुमसे यह प्रार्थना कर रहा हूँ यह भी असलमें तुम्हारी दयाका प्रभाव न समझनेका ही परिणाम है । तुम तो अहैतुक दयालु हो । मुझपर तो तुम्हारी असीम अनन्त दया है । मुझसे बदलेमें तुम कभी कुछ भी नहीं पाते, परन्तु तुम तो सभी तरहसे सदा-सर्वदा मुझपर अपनी दया बरसाते रहते हो । मैं कैसे सुखी और सदाचारी रहूँ, कैसे आनन्द और शान्ति प्राप्त करूँ, तुम रात-दिन वही कर रहे हो । अपने अवतकके जीवनकी घटनाओंको याद करता हूँ और अपनी नीचता एवं तुम्हारी नित्य एक-सी अनन्त दयालुताका विचार करता हूँ तो हृदय कृतज्ञतासे भर जाता है । कहाँ मैं दुर्विनीत, दुर्बुद्धि, दुराचारी, दुष्ट प्रकृतिका दरिद्र क्षुद्र प्राणी, और कहाँ तुम महामहिम सर्वलोकमहेश्वर साक्षात् भगवान् ! परन्तु तुमने तो मुझको कभी नहीं भुलाया,

कमी मेरा साथ नहीं छोड़ा । विपत्तियोंकी उन घड़ियोंमें जिस समय संसारमें सहारा देनेवाला मेरा कोई भी साथी नहीं था, कुविचारके उन क्षणोंमें, जब मैं पाप-प्रवृत्तिमें पड़कर अतल नरक-कुण्डमें गिरना ही चाहता था, तुमने किस विलक्षण कौशलसे, कितनी शीघ्रतासे मुझे सहारा दिया— बचाया और उठाकर अपनी स्नेह-सुधासे सींचकर सुखी कर दिया । एक बार नहीं बार-बार; यह कोई पुरानी बात नहीं । अब भी तो रोज-रोज तुम यही कर रहे हो ! मैं अपने पाजीपनसे बाज नहीं आता और तुम अपने अनोखे विरुद्धसे कमी विच्युत नहीं होते ! धन्य मेरे स्वामी !

दयामय ! मैं कितना नीच हूँ, जो तुम्हारी इतनी और ऐसी अहैतुकी दयाको देख-देखकर भी भूल जाता हूँ । तुम्हारे चरणोंमें लोटकर केवल उन्हींको अपने प्राणोंके प्राण, जीवनके जीवन नहीं बना लेता ! तुम मेरी नीचताकी ओर न देखना ! कहाँ देखते हो ! मुझ-सा नीच कौन होगा ? मेरी नीचताकी ओर देखते तो इतना स्नेह, इतना प्यार कैसे दे सकते । अब तो प्रभो ! यह करो और तुरंत ही करो—(क्योंकि पता नहीं यह क्षुद्र-सा मेरा जीवन-दीपक किस क्षण बुझ जाय) कि मैं तुम्हारी कृपाको कमी भूँ ही नहीं, और प्रतिक्षण कृतज्ञतापूर्ण हृदयसे तुम्हारे पावन चरणोंका स्मरण करता हुआ तुम्हारे दरवाजेपर ही पड़ा रहूँ ।



मेरे स्वामी !

जीवनके दिन तो बीते चले जा रहे हैं । वह दिन कब होगा जब मैं तन-मन-धन, घर-संसार—सबकी परवा छोड़कर केवल तुम्हारे भजनमें ही लगा रहूँगा । बहुत बार ऐसा सोचता हूँ, परन्तु कर नहीं पाता । समय बीत रहा है । सब ओर, सभी वस्तुओं और स्थितियोंमें परिवर्तन हो रहा है । जो आज है, वह कल नहीं दीखता । किसी भी स्थितिमें सच्चे सुखके दर्शन नहीं होते । अपनी भावनाके अनुसार निरन्तर कल्पित सुख-दुःखके सागरमें डूबता-उतराता रहता हूँ । जानता हूँ—खूब समझता हूँ कि यह सब कुछ विनाशी है; तथापि इससे मुँह मोड़कर तुम्हारे नित्य-नव सुन्दर स्वरूप, नित्य कल्याणमय नाम और नित्य सत्य निर्भय पदका आश्रय नहीं ले पाता । प्रभो ! मेरी यह मोह-निद्रा कब भङ्ग होगी ? दिन-रात चित्त अशान्त रहता है, नाना प्रकारकी कल्पनाएँ मनको सर्वथा वैसे ही क्षुब्ध बनाये रखती हैं जैसे भीषण तूफानके कारण आकाशमें उछलती हुई ऊँची-ऊँची तरङ्गें समुद्रको !

मेरे स्वामी ! मैं इस अशान्तिसे कब छुटकारा पाऊँगा ? कब मैं जाति, कुल, विद्या, रूप, कीर्ति, सम्पत्ति, स्थिति और साधनाके अभिमानसे छूटकर तुम्हारे चरणोंपर अपनेको न्योछावर कर सकूँगा ! तुम्हारे ही परम बलसे बलवान् और

परम धनसे धनवान् होकर कब मैं सारे अभावोंके अभावका शान्तिमय अनुभव कर सकूँगा ?

दीनबन्धो ! मैं यह पढ़ता-सुनता हूँ, कहता हूँ, और कभी-कभी विवेकके जागनेपर ऐसा देखता भी हूँ कि सर्वत्र, सभी स्थानों, स्थितियों और क्रियाओंमें तुम्हीं भरे हो । तुम्हारी ही स्वरूपभूता मङ्गलमयी अनिच्छामयी इच्छासे यह सारा खेल हो रहा है । मोहभरी आँखोंसे जहाँ अमङ्गल दीखता है, वहाँ भी तुम्हारा मङ्गलमय विधान ही काम कर रहा है । जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख, संयोग-वियोग, लाभ-अलाभ, अनुकूलता-प्रतिकूलता—सभीमें तुम्हारा मङ्गलमय करस्पर्श प्राप्त होता है । सब कुछ तुमसे ही निकला है, तुममें ही वर्तमान है और तुम्हींमें लय हो जायगा । आगे, पीछे और अभी बीचमें केवल तुम-ही-तुम हो । तुम्हारी स्वाभाविकी स्वरूपमयी करुणा सभी जीवोंपर सदा बरस रही है और उनका महामङ्गल कर रही है; परन्तु नाथ ! मैं इस सत्यको यथार्थरूपमें ग्रहण नहीं कर पाता ! वरं अज्ञानवश नाना प्रकारकी कल्पना करके सुखी-दुखी होता रहता हूँ ।

प्रभो ! अब ऐसी कृपा हो जिससे मेरे इस अज्ञानका पर्दा फट जाय, मोहका आवरण हट जाय और मैं तुम्हारे स्वरूप और तुम्हारे खेलको समझकर तुम्हारा अपना बन जाऊँ । नहीं तो, प्रभो ! यही कर दो कि मेरे मनमें भली-चुरी कोई इच्छा ही न रहे, मैं कुछ भी न चाहूँ । तुम्हारी इच्छा हो सो करो, तुम जो चाहो सो होने दो; और मैं, तुम जिस स्थितिमें जैसे भी रखो, उसीमें रहकर सदा तुम्हारा नाम रटता रहूँ !

[७]

भगवन् !

मैंने सुना है, तुम्हारे चरणोंकी शरणमें बड़ा ही सुख है, जो शरण हो जाता है उसे विनाशका, वियोगका, अभावका, शत्रुओंका, पाप-तापका, देव-दानवका, कल्पना-जल्पनाका, माया-मोहका, अहंता-ममताका, आसक्ति-कामनाका, क्रोध-लोभका, किसी प्रकारका भय नहीं रह जाता— यहाँतक कि वह भयकी कल्पनासे ही मुक्त हो जाता है; दुःख तो सारा भयमें ही है । सुना है प्यारे ! तुम्हारे सुसज्जाते हुए मनोहर मुखकी अनुपम छटाकी वात तो दूर रही, जो तुम्हारे चरणतलसे अङ्कित भूमिके दर्शन कर पाता

है, वही आनन्दसागरमें निमग्न हो जाता है; और तुम्हारे वे चरणतल चाहनेपर ही मिल सकते हैं । ऐसा होनेपर भी, हे मेरे सर्वस्व ! क्या बात है जो परम सुखदायक तुम्हारे चरणोंकी शरण छोड़कर और परम आनन्दमय तुम्हारे चरणतलकी चाह छोड़कर मनुष्य इधर-उधर भटकता है, धक्के खाता है, नरकोंमें जाता है, और दुःखका भीषण भार उठाता है ? समझा—प्रभो ! मनुष्यका अज्ञान ही इसमें प्रधान कारण है । पर क्या कभी यह अज्ञान मनुष्यके मिटाये सहज ही मिट सकता है ? मेरी तुच्छ समझमें तो यही आता है कि जब तुम इस अज्ञानको हरना चाहोगे, तभी इस अज्ञानका नाश होगा । फिर यह अज्ञान तुम अभी हर क्यों नहीं लेते । तुम्हारा इसमें जाता ही क्या है ? भूल गया—नाथ ! ऐसी प्रार्थना करके तो मैं मानो अपनेको तुमसे अधिक बुद्धिमान् और दयालु सिद्ध करना चाहता हूँ । मानो मनुष्योंके दुःखभारसे मैं ही व्याकुल हूँ, तुम्हें इसकी कोई खबर ही नहीं ! पर क्या करूँ ? मुझको भासनेवाली तुम्हारी उदासीनता ऐसा करनेको मजबूर कर रही है । अवश्य ही यह भी मेरा अपराध है ! जो कुछ भी हो, इस अपराधसे छूटना बहुत कठिन है । कोई बात नहीं, प्रभो ! इस भयानक अपराधके लिये मुझे मनमाना दण्ड दे दो, परन्तु अपराधीकी कातर प्रार्थनाको सुनकर दुःख-तापसे तपते हुए जीवोंके अज्ञानको हरकर उन्हें अपने चरणोंकी शरणमें ले लो और उनके मनोमें ऐसी चाह उत्पन्न कर दो कि वे सब कुछ भूलकर केवल

तुम्हारे ऋषि-मुनिदुर्लभ चरणतलोंके दर्शनकी ही चाह करने लगें ।

प्रभो ! हमारी ओर देखनेसे—हमारे साधन और पुरुषार्थकी प्रतीक्षामें चुप रहनेसे तो हमारा कभी इस दुःखभारसे छुटकारा नहीं होगा । तुम अपनी ओर देखो, अपने विरुद्धकी ओर देखो और अपनी कृपा-सुधा-चारिसे ही हमारे कलुषित हृदयको धोकर उसे अमृतमय बना दो । यह सच है कि हम वस्तुतः साधनहीन होकर भी अपनेको सिद्ध मानते हैं, कम-से-कम स्वीकार तो कर ही लेते हैं । यह हमारा अपराध है, इस अपराधकी ओर देखोगे तो हम कभी तुम्हारी ओर ताक भी नहीं सकेंगे । यह एक ही क्यों, हमारे तो सहस्रों अपराध हैं, हम तो अपराधोंके समुद्र ही हैं । हमने अबतक और किया ही क्या है ? ये अपराध तो तुम्हें जला देने पड़ेंगे अपनी कृपा-ज्योतिसे ही । मैंने सुना है कि तुम्हारी कृपा हमपर असीम है—और वह कृपाज्योति हमारे पापोंको जलाकर हमारे काले हृदयको ज्योतिर्मय बना ही रही है; परन्तु क्या करें, इसपर हमें विश्वास कहाँ होता है ?

जो कुछ भी हो, प्रभो ! ऐसा करो कि इन सभी बातोंके लिये अब तो मैं सब तरहसे तुम्हारे ही चरणोंपर निर्भर रहूँ । तुम जो चाहो, जैसे चाहो वही वैसे ही करो । वस, यही वरदान दो कि मेरी यह—इस समयकी धारणा—तुम्हारे चरणोंकी निर्भरता अजर-अमर हो जाय !

[८]

करुणामय !

तुम्हारा स्मरण, भजन और ध्यान करना चाहता हूँ, कई बार बुद्धि ऐसा निश्चय-सा करती है कि अब तमाम जीवन तुम्हारे भजन-स्मरणमें ही बिताना चाहिये । इस निश्चयके अनुसार चेष्टा करता हूँ, भजन-स्मरण आरम्भ करता हूँ, परन्तु थोड़े ही क्षणोंमें देखता हूँ, चित्त कहीं-का-कहीं चला गया है । कुछ खेद भी होता है, परन्तु उत्साह टूट जाता है, उधर संसारकी वासनाएँ खींचती ही हैं, भजन-स्मरण कुछ नहीं बनता । दीनबन्धो ! तुम्हीं कृपा करके ऐसी

शक्ति दो, जिससे तुम्हारा भजन-स्मरण ही मेरे जीवनका एकमात्र कार्य हो जाय ।

भगवन् ! जब किसीके मरनेकी बात सुनता हूँ, तब कुछ कालके लिये मनमें वैराग्य-सा आता है; सोचता हूँ, मैं भी ऐसे ही मर जाऊँगा । विषयोंसे निराशा-सी होती है, तुम्हारी ओर बुद्धि जाती है, परन्तु क्या कहूँ मेरे अन्तर्यामी ! तुम तो सब कुछ जानते ही हो, कुछ ही समयके बाद वैराग्यका कहीं नाम भी नहीं रहता, मन पूर्ववत् विषय-सेवनमें लग जाता है । हे नाथ ! तुम कृपा करके ऐसी शक्ति दो जिससे मैं विषयासक्तिसे पिण्ड छुड़ाकर तुम्हारी ओर अपने मनको निरन्तर लगाये रख सकूँ, तुम्हारा चिन्तन ही मेरे जीवनका आधार बन जाय ।

करुणामय ! तुम जानते हो, मैं कितना दुखी हूँ, दिन-रात अशान्तिकी आगमें जलता हूँ, प्राप्तके विनाशकी चिन्ता और अप्राप्तको प्राप्त करनेकी अभिलाषा दिन-रात मेरे हृदयमें ज्वाला-सी जलाये रखती है । मैं जब कुछ याता हूँ, तब तो आग उलटी बढ़ जाती है । प्रभो ! मेरी इस सदा संताप देनेवाली आगको बुझाकर मुझे शान्ति दो । आग जले भी तो बस तुम्हारे विरहकी ही । मैं दिन-रात हे मेरे जीवनधन ! तुम्हारे आगमनकी प्रतीक्षामें, तुम्हारे सौन्दर्य-माधुर्य-रसपूर्ण मुखड़ेको निरखनेकी आशामें ही प्रत्येक क्षण तुम्हारा स्मरण करता हुआ जीवन धारण करूँ ।

हे मेरे राम ! तुम तो मेरे मनमें भी रम ही रहे हो । खूब जानते हो कि मेरी इस प्रार्थनामें कितनी सचाई है और कितना दम्भ है । सचाई होती तो हे सत्य ! हे सत्यप्रिय ! तुम मुझे दर्शन देनेमें इतना विलम्ब ही क्यों करते ? हे असुरारी ! मेरे हृदयमें निवास करनेवाले इस दम्भासुरका शीघ्र-से-शीघ्र विनाश क्यों नहीं कर देते ? फिर तो तुम्हारे लिये मनमें सचाई आवेगी ही और फिर यह जीवन तुम्हें पाकर कृतार्थ भी हो जायगा ।

मेरे सर्वस्व ! मैं बस तुम्हें ही जीवनका सर्वस्व मानूँ ! तुम्हें ही अपने आत्माका आत्मा, ईश्वरोंका ईश्वर, गुरुओंका गुरु, धर्मोंका धर्म, सत्यका सत्य, ज्ञानका ज्ञान, वैराग्यका वैराग्य, ऐश्वर्यका ऐश्वर्य, माधुर्यका माधुर्य, सौन्दर्यका सौन्दर्य मानूँ और सब प्रकारसे तुम्हारे ही लिये तरसूँ । अथवा तुम प्राप्त होओ या न होओ, अपना मोहन मुखड़ा दिखलाओ या न दिखलाओ, मैं बिना किसी उकताहटके, बिना किसी शर्तके, बिना किसी आशाके, बिना किसी अधैर्यके तुम्हारा, बस, तुम्हारा ही स्मरण करता रहूँ और इस बातकी कभी सुधि ही न आवे कि स्मरण क्यों करता हूँ । बस, यही वरदान दो मेरे स्वामी !

तन मन धन अर्पन कियौ, सत्र तुमपै ब्रजराज ।

मन भावे सोई करौ, हाथ तुम्हारे लाज ॥

मेरे कृपामय स्वामी !

तुम्हारी कृपासे जिस समय मैं पहले-पहल साधनामें लगा था, उस समय मेरा भाव बहुत सुन्दर था। मैं समझता-सोचता था—‘सारा संसार भगवान्से भरा है। सब कुछ उन्हींकी प्रेरणासे होता है और सर्वत्र उन्हींकी शक्ति काम करती है। भगवान् ही मेरे जीवनके एकमात्र लक्ष्य हैं। मैं निरन्तर भगवान्का स्मरण करता हुआ अपने सारे कर्म केवल भगवान्के लिये ही करूँगा। मेरी बुद्धि, मेरा मन और मेरी सारी इन्द्रियाँ केवल भगवान्की सेवामें ही लगी रहेंगी और मैं पल-पलमें भगवान्के मधुर प्रेमका दिव्य स्वाद ले-लेकर मस्त होता रहूँगा।’ परन्तु आज तो कुछ दूसरी ही बात हो गयी है ! तुम्हारे विराजनेके पवित्र आसनपर मैं मोहवश अपने इन अनित्य, अपवित्र और पाप-कलुषित नाम-रूपको बैठकर उन्हींकी पूजा करना-कराना चाहता हूँ। मेरी प्रत्येक चेष्टामें आज ममता, अभिमान और आसक्तिका नंगा नाच हो रहा है। संसारके भोगोंमें मेरे मन-प्राण इतने रम गये हैं कि उनमें कभी दोषबुद्धि भी नहीं होती, फिर असत्-बुद्धि तो कहाँसे होती ! जब तुम्हारा प्यारा स्मरण करने बैठता हूँ, तभी भोगोंके विचित्र-विचित्र चित्र चित्तके सामने दल-के-दल आ जाते हैं और मैं तुम्हें भूलकर उन्हींको देखने लगता हूँ, और उन्हींमें रम जाता हूँ। भगवन् ! ऐसा क्यों हो गया ? सचमुच प्रभो ! मैं पतनकी ओर बढ़ा जा रहा हूँ। विद्या, बुद्धि और ज्ञानका अभिमान मुझसे न मालूम

कितनी बार पूजनीयोंका अपमान कराता है ! अधिकार, प्रतिष्ठा, सम्मान और सुख्यातिके जादूने इतना प्रभाव जमाया है कि तुम्हारे पवित्र स्मरणकी भी आवश्यकता मन नहीं अनुभव करता और न तुम्हें भूल जानेपर वह कभी पश्चात्ताप ही करता है । दुःख तो यह है, कभी-कभी यह सब 'ज्ञान' के नामपर होता है ! मेरी धृष्टता और नीचताका पार नहीं है । प्रभो ! मेरी यह दुर्दशा कबतक रहेगी ? हाय ! हाय ! मेरे मालिक ! मुझे बचाओ, मेरी इस दयनीय दशाकी ओर दयादृष्टिसे देखो । दया करो ! मेरा सारा पुरुषार्थ व्यर्थ हो गया । संसारके सुख, धन, मान, कीर्ति आदिके प्रलोभनोंने मेरी साधनाको नष्ट कर डाला । मैं आज पुरुषार्थहीन हूँ । अब बस, तुम्हारा ही भरोसा है । मैं जान गया, जो कुछ भी होगा तुम्हारी कृपासे ही होगा । तुम अपनी कृपाशक्तिसे मेरे सारे अनर्थकारी मनोरथ-महलोंको ढहा दो; मेरे सारे अभावोंके अनुभवोंका सर्वथा अभाव कर दो । मेरा मन नित्य-निरन्तर तुम्हारे मधुर रूप, अप्रतिम गुण और पावन नामपर मतवाला हुआ रहे । मेरी बुद्धि सदा-सर्वदा तुम्हारे तत्त्वचिन्तनमें ही लगी रहे । मेरी इन्द्रियाँ सर्वत्र सब ओरसे केवल तुम्हारी ही सेवामें संलग्न रहें । मेरी सारी ममता, सारी आसक्ति सब ओरसे सिमटकर एकमात्र तुम्हींमें आकर स्थिर हो जाय । असलमें मेरे मन, बुद्धि और इन्द्रियोंपर, अहङ्कारपर और आत्मापर—सबपर, सब कुछपर एकमात्र तुम्हारा ही अधिकार हो जाय । तुम मुझे सब प्रकारसे अपना लो मेरे कृपामय स्वामी !

कृपासिन्धो !

तुम्हारी कितनी असीम कृपा है जीवोंपर । कभी चुपके-से प्रेरणा करते हो, कभी झलक-सी दिखाकर बुलाते हो, कभी हाथ पकड़कर खींचते हो, कभी जोरसे थप्पड़ लगाकर अपनी ओर मुँह कराना चाहते हो, कभी पुचकारते हो, खुशामद करते हो, कभी माकी तरह लालच देकर पास बुलाना चाहते हो, कभी सोनेका स्वाँग भरते हो, कभी गाढ़े मित्रकी तरह समझा-बुझाकर कुपथसे हटाकर अपने मार्गपर लाना चाहते हो और कभी दुःख-क्लेशकी विजली कड़काकर सचेत करते हो । पता नहीं, कब-कब किस-किस तरहसे तुम मुझको अपनी सन्निधिमें लेना चाहते हो; पर मैं ऐसा नीच और नालायक हूँ कि सदा तुमसे आड़े-कतरे ही रहता हूँ, तुम कभी सामने आ भी जाते हो, तो मैं चोरकी भाँति आँख बचाकर भाग निकलना चाहता हूँ । मालूम होता है, तुम कहीं फँसा लोगे तो मेरा सोनेका संसार नष्ट

हो जायगा । हाथ रे नीच मन ! जो सदा-सर्वदा चारों ओरसे देना चाहता है, उसके प्रति कृतज्ञ होना तो दूर रहा, उसका भजन-सेवन करना तो दूर रहा, उसकी कृपासरिताके प्रवाहको सीधा अपनी ओर आने भी नहीं देता ! कितनी-कितनी अड़चनें डालता है, कैसे-कैसे बहाने बनाता है, कैसी-कैसी भयानक कल्पनाओंकी सृष्टि करके भयङ्कर भयके भूत खड़े कर देता है । प्रभो ! इस मेरे कुटिल और कुत्सित मनसे कैसे छुटकारा मिले । तुम्हारी कृपाका ही भरोसा है । मैं तो नीचातिनीच हूँ, तुम्हारी कृपाकी अवहेलना ही करता हूँ, उसके प्रवाहको रोकनेके लिये नित नये बाँध ही बाँधा करता हूँ । पर जो महाभाग पुरुष तुम्हारा भजन करते हैं, तुम्हारा आराधन करते हैं, तुम्हारी सेवा करते हैं, वे क्या तुम्हारी कृपाके बदलेमें उसी प्रकारके महत्त्वकी कोई वस्तु दे पाते हैं ? नहीं, नहीं ! कदापि नहीं ! मनुष्यके पास है ही क्या, जिसे देकर वह बदलेमें तुम्हारी महान् महनीय कृपाको पानेका दावा करेगा । यह तो तुम्हारी कृपाशक्ति ही है, जो कहीं जरा-सा भी मार्ग मिल जाता है तो स्वयमेव ही कृतार्थ करनेके लिये आ पहुँचती है । मानो, वह प्रतिक्षण प्रतीक्षा ही करती रहती है । कृपानाथ ! तुम्हारा श्रीविग्रह कृपासे ही बना हुआ है । उसमें कृपा-ही-कृपा भरी है । इस नीच अधम दम्भके पुतलेको बस, एकमात्र तुम्हारी अहैतुकी कृपाका ही भरोसा है नाथ !

मेरे नाथ !

लड़कपनसे अवतककी बातें याद करता हूँ तो अपने पापोंकी, अपराधोंकी, गुनाहोंकी, मूर्खताकी, विषयासक्तिकी, क्राम-क्रोध-लोभके वशमें होकर पतित होनेकी और मृत्युके समीप पहुँचानेवाली घटनाओंकी—कितनी ही बातें याद आती हैं। साथ ही यह भी याद आता है, तुमने किस आश्चर्यजनकरूपसे, किस त्वरासे, किस आत्मीयतासे मेरी प्रायः सभी जगह रक्षा की। एक बार तो पतित हो ही गया था; तुम यदि क्षणभर भी विलम्ब करते तो पता नहीं, मेरी कैसी बुरी दशा होती। बड़े-बड़े प्रलोभनोंसे तुमने कैसे मुझे बचाया। नाथ ! तुम्हारी दया और प्रेमकी एक-एक बात ऐसी है कि उन्हें याद करके हृदय गद्गद हो जाता है। आँखें मूँदे विषय-विलासकी ओर दौड़े जाते हुए मुझको तुमने कैसे रोका। वहने जा रहा था अत्यन्त तीव्र धारावाली लोभकी नदीमें, कूद चुका था और धाराके समीप जा पहुँचा था। परंतु तुमने किस कौशलसे तुरंत वहाँ बाँध बाँध दिया और धीरेसे गोदमें उठाकर मुझे उबार लिया। उस बार कैसी भीषण आँधी थी। चारों ओर अन्धकार-ही-अन्धकार था।

हाथको हाथ नहीं सझ रहा था । मैं कितना व्याकुल था उस समय । कितना असहाय और दीन था । अहा ! तुम कितने दयालु हो, पता नहीं कैसे उसी क्षण वहाँ पहुँच गये और अपने दिव्य प्रकाशसे तुरंत सारे अन्धकारका नाश करके मुझे भीषण मृत्युके मुखसे बचा लिया । तुम न आते तो मैं कभीका डूब गया होता !

मेरे स्वामी ! तुम्हें तो याद है ही । मेरा विश्वास किस प्रकार हिल गया था । मैं क्या करनेपर उतारू हो गया था । यदि जरा भी विलम्ब तुम्हारी ओरसे होता तो पता नहीं, मैं क्या कर बैठता और फिर सिवा पश्चात्तापकी आगमें जलनेके और कोई भी उपाय नहीं रह जाता !

मैं तो जालमें फँस ही गया था, तुमने कैसी-कैसी करामात करके मुझे निकाला । तुम्हारी उस समयकी वह मोहिनी और भयावनी आकृतियाँ मुझे जब-जब याद आती हैं, मेरा रोम-रोम नाच उठता है । मैं क्या बताऊँ ? मेरे समान नीच, दुरात्मा, कृतघ्न, बेईमान और स्वामिद्रोही और कौन होगा । पर मेरे नाथ ! तुम्हारे समान दयालु और क्षमाशील तो दूसरा कोई कहीं भी नहीं है, और न हो ही सकता है । बार-बार वही भूलें, वही अपराध, वही पाप, वही बेईमानी और वही अश्रद्धा—पर तुमने मानो इनकी ओर देखना ही छोड़ रक्खा है । सब प्रकारसे, सब ओरसे, सदा-सर्वदा मानो मेरी बिगड़ी बनानेमें ही लगे रहते हो ।

कभी क्षणभरके लिये असावधान नहीं रहते । मैं घरमें, राहमें, देशमें, परदेशमें, दिनमें, रात्रिमें, मनसे, वाणीसे, शरीरसे, पता नहीं, कब कैसी क्या भूल कर बैठता हूँ । पर देखता हूँ, भूल हुई कि तुम उसे सुधार करनेको तैयार ! दाग जमने नहीं पाता कि उससे पहले ही उसे तुम धो डालते हो !

अपराध करना स्वभाव मेरा, क्षमा तुम्हारा है सहज वाना ।

अनादि युगसे यह चाल मेरी, अपराध करना औ क्षमा पाना ॥

पर नाथ ! मैं एक बात पूछता हूँ; मैं वारंवार अपराधकी कालिमा लगाता हूँ और वार-वार तुम उसे धोते हो ! क्या इससे यह अच्छा नहीं कि मैं अपराध करूँ ही नहीं । तुम कहोगे—‘मत करो, कौन कहता है करो ।’ पर नाथ ! यह जानते हुए भी कि मेरे दयालु स्वामी मुझ नगण्यको धोया-पौछा रखनेके लिये कितने सतत सावधान और प्रयत्नशील रहनेको वाध्य होते हैं, मैं स्वभाववश अपराध करता ही रहता हूँ । दयामय ! अब यह तुम्हारे ही किये दूर होगा । मेरी तुमसे यह कातर प्रार्थना है । प्रभो ! अपनी कृपाशक्तिसे मेरे अपराध-संस्कार-वृक्षकी जड़ ही काट डालो, जिससे सदा-सर्वदा मेरा हृदय इतना स्वच्छ, पवित्र और सुन्दर रहे कि तुम उसमें निर्वाध तथा सुखपूर्वक सदा विराजित रह सको । मेरी यह प्रार्थना अवश्य पूरी कर दो मेरे दयार्णव !



मेरे प्राणदेवता !

मेरे जागतिक अभावोंकी तो कोई सीमा नहीं है, दिन-रात उन अभावोंके दूर करनेमें ही लगा रहता हूँ, पर यह सब करना पड़ता है बाध्य होकर रूखे चित्तसे ! लेकिन रात-दिन इसीमें बीत जाते हैं । समय ही नहीं मिलता कि जिसमें कुछ देर एकान्तमें बैठकर तुम्हारी बातें सोचूँ, तुम्हारी गुणावलीका श्रवण-कीर्तन करूँ, ध्यानमें तुम्हें बुलाकर अपनी बात सुनाऊँ और तुम्हारी सुनूँ । मन बहुत करता है, पर अभावोंकी पूर्तिके प्रयासमें अवकाश ही जो नहीं मिलता । क्या करूँ ? जिन विषयोंके लिये इतना प्रयत्नशील हूँ, उनके प्रति कोई आसक्ति या प्रीति नहीं है, मनका फँसाव या खिंचाव भी नहीं है । इतना होनेपर भी मैं उन्हींमें लगा हूँ । मालूम होता है, यह सब तुम्हारी ही करामात है ! तुम्हींने बाध्य किया है उनमें लगे रहनेको । पर बार-बार तुम्हारी याद तो आती ही है । यह भी निश्चित दीखता है कि तुम यदि मिल जाते तो यह सारी प्रपञ्चकी बातें सहज ही छूट जातीं । असलमें, भई ! तुम्हारे मुखकी ओर देखकर ही तो मैं तुम्हारे संसारमें लग रहा हूँ । हाँ, यह अवश्य मेरी त्रुटि

है कि मैं तुम्हारे इस संसारको सदा-सर्वदा तुमसे भरा हुआ, तुम्हारे आनन्दसे भरा हुआ, तुम्हारी मधुरतासे भरा हुआ नहीं देख पाता; इसे यदि मैं तुम्हारे साथ मिलाकर देख पाता, या इसके रूपमें तुम्हींको देख पाता, तब तो फिर यह प्रपञ्च या झंझट प्रतीत ही क्यों होता ? फिर तो यह सुखमय, आनन्दमय, मधुमय ही हो जाता । मैं समझता हूँ, संसार तुम्हींसे बना है, और तुम्हींसे सना है । इसको तुमसे अलग देखना उचित नहीं है, इसे यथार्थरूपमें देखना नहीं है । संसारमें भी तुम्हारे माधुर्यको, तुम्हारे सौन्दर्यको, तुम्हारे ऐश्वर्यको, तुम्हारी शान्तिको देखना चाहिये, तभी तुम्हारे सर्वत्र दर्शन सिद्ध होते हैं । पर सत्य कहता हूँ, मुझसे ऐसा हो नहीं पाता । मैं चौबीसों घंटे संसारमें रहता हूँ, पर संसार मुझको तुमसे पृथक्, एक जंजाल, एक छलना, एक यातना, एक क्लेश-सा दिखायी देता है । इसमें कोई रस नहीं आता । तुम चाहते हो, इसलिये मैं संसारमें हूँ । तुम न चाहते तो कैसे रहता ? पर मेरा मन तो यही चाहता है कि तुम मिल जाओ और यह जंजाल छूट जाय ! क्या करूँ, मेरा 'अहम्' और मेरा 'मम' मुझसे नहीं छूटता । मेरे प्राणदेवता ! अब तुम्हीं इसका कोई उपाय करो । दोमेंसे एक जरूर करो, या तो संसारसे अलग करके मुझे अकेले अपनी सन्निधिमें ले लो । नहीं तो, संसारके कण-कणमें सदा-सर्वदा अपने स्वरूपका दर्शन करा दो । फिर, तुम्हें कोई उलाहना नहीं दूँगा मेरे स्वामी !

मेरे प्राणधन !

तुम्हारी कितनी कृपा है, कितनी प्रीति है और कितनी स्नेहभरी आत्मीयता है मुझपर ! मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ, भूल जाता हूँ । 'सुत-वित-दार-भवन-ममता-निसि'में गाढ़ी नींदके खुराटे लेने लगता हूँ; जगत्के धन-जन, मान-प्रतिष्ठा, पद-गौरवके रौरवमें डूबकर उसीमें सुख मान लेता हूँ और तुम्हें कभी भूलकर भी याद नहीं करता; परन्तु तुम ऐसे चतुर सुहृद् हो कि जाने कैसे कहाँसे सहसा सामने आ जाते हो । ऐसे भयानक वेशमें आते हो कि मैं डरकर सहम जाता हूँ । विपत्तियोंके समुद्रकी उत्ताल तरङ्गें उछलने लगती हैं, घनघोर घटा छा जाती है, चारों ओर भीषण अन्धकार फैल जाता है, हाथको हाथ नहीं सूझता, बिजली कड़कने लगती है, चारों ओरसे पत्थर बरसने लगते हैं, मेरा बड़े जतनसे बनाया हुआ घर चूर-चूर होने लगता है । मैं रोता हूँ, चिछाता हूँ, पर मुझे उस समय कहीं कोई सहायक नहीं दीखता । जिस सांसारिक सम्पत्तिको मैं सुख-शान्ति समझे हुए था, जिसमें तन्मय हो रहा था, उस सारी सम्पत्तिको—सारे धन-मानको पलक मारते-मारते हरकर तुम बड़े भीषण रूपमें सामने खड़े हो जाते हो, बड़ा भय दिखलाते हो । एक बार तो ऐसा मालूम होता है—सहसा मुँहसे निकल पड़ता है कि तुम बड़े अन्यायी

हो, कितना अत्याचार करते हो। मेरे नन्हें-से बगीचेकी हरियाली तुम्हें नहीं सुहायी। तुमने क्षणोंमें उसे उजाड़ दिया ! मेरे लिये तो मानो महाप्रलय ही हो गयी ! मेरा धन, मेरा मान-सम्मान, मेरा प्यारा परिवार सब छीन लिया तुमने, तुम बड़े ही क्रूर हो, निर्दय हो, स्वेच्छाचारी हो। पर इसी व्याकुलतामें, इसी घने अन्धकारमें सहसा तुम्हारी स्निग्ध मधुर नखज्योतिकी सितसुधामयी किरणछटा दिखलायी देती है। देखते-ही-देखते हे नित्य सुन्दर, नित्य मधुर ! तुम्हारी प्रेमोज्ज्वल प्रसन्न मूर्ति प्रकट हो जाती है, तुम बड़े ही मधुर वेशमें सितसुन्दर प्रफुल्लवदनसे स्नेहपूर्ण मधुर दृष्टिसे मेरी ओर देखते हुए मेरे चिबुकपर सहसा अपना कोमल करस्पर्श कराकर मुझे सान्त्वना देने लगते हो। कहते हो, 'तुम मुझे भूल गये थे भैया ! कहाँ किस प्रतिकूल प्रवाहमें बहे जा रहे थे। दुःखको सुख मान लिया था तुमने, पतनमें तुम्हारी बुद्धिको उत्थानका भ्रम हो रहा था। नरकानलमें दग्ध होनेका जा रहे थे तुम और मान रहे थे मानो सहज ही सुन्दर स्वर्ग-सुखकी प्राप्ति हो जायगी। मुझसे यह नहीं देखा गया। इसीसे मैंने तुम्हारे उस भ्रमके किलेको तोड़नेके लिये ही यह सब किया। तुम मेरे प्यारे हो भैया ! तुम भूल जाते हो, पर मैं कैसे भूँ ? कैसे तुम्हें दुःखसागरमें डूबनेको खुला छोड़ दूँ।' यों कहकर तुमने मुझे हृदयसे लगा लिया। मेरा सारा भय-विषाद तुरंत भाग गया। मैं निहाल हो गया। तुम-जैसे सुहृद्को देखकर मैं अपनेको धन्य मानने लगा।—

मेरे स्वामी ! तुम्हारा स्वभाव बड़ा विलक्षण है । सब लोग सफलताके साथी हैं, सफलताके पुजारी हैं । तुम असफलतामें अपना आत्मीयत्व प्रकट करते हो । पुण्यमें सब भाग चाहते हैं, पापमें कोई नहीं; परन्तु तुम तो पापीको ही गले लगाते हो ! पतितपावन जो ठहरे ! संसारमें सती-साध्वीका मान सभी करते हैं, कुलटाको कौन पूछता है ! तुम ही एक ऐसे हो, जो कुलटा कलङ्किनीका भी आदर करना चाहते हो । व्यभिचारिणीको प्रेमके द्वारा सती-साध्वी बनाना तुम्हींको आता है । अपनी दशाका अब मुझे पता लग रहा है, क्योंकि तुमने दया करके मेरी आँखें खोल दी हैं ! उस समय मैं भूला हुआ था । मैंने अपनी बहिर्मुखी बिगड़ी इन्द्रियोंकी तथा पतित मनकी परितुष्टिके लिये जाने कितने दुधमुँहे विषभरे पदार्थोंकी शरण ले रखी थी । तुम कृपामयी वज्रवेदना देकर मुझे न प्रबोधित करते तो पता नहीं, मैं किस घोर नरकमें जाकर वहाँकी भीषण यन्त्रणा भोगता । तुम्हारा कैसे क्या उपकार मानूँ । पर एक बात पूछता हूँ । जब तुम्हारा मेरे प्रति इतना अपरिमित प्रेम है, इस पथकी नगण्य धूलके प्रति इतना स्नेह है, तब फिर सदाके लिये इसे अपने चरण-प्रान्तमें क्यों नहीं बसा लेते ? इतने भूल-विभ्रममें क्यों रखते हो ? क्यों इतना भरमाते-भटकाते हो ? कृपा करो नाथ ! मैं बहुत भोग चुका, अब तो सदाके लिये मुझे अपनी चरण-रज बनाकर निहाल कर दो ! मेरी यही तुम्हारे चरणोंमें आर्त प्रार्थना है ।



श्यामसुन्दर !

मेरी कोई भी बात तुमसे छिपी नहीं है । जीवनमें क्या-क्या किया, कैसे-कैसे सुकर्म-दुष्कर्मोंके प्रवाह आये । सब तुम जानते हो । भक्तिकी, ज्ञानकी, वैराग्यकी बातें खूब कहीं-सुनीं । पर सब नाटकवत् ही ! कभी-कभी मनमें भक्तिकी, तुम्हारे प्रेमकी इच्छा-सी भी हुई, लेकिन वह फलवती नहीं हुई । होती कैसे ? उस इच्छामें कितनी मन्दता थी और भोगोंकी इच्छामें कितनी तीव्रता और महानता थी । तुम एक-एक बातको देख रहे थे । कुछ लोग मुझे भक्त मानते हैं— प्रेमी कहते हैं और मैं खल-मति उसे अस्वीकार करता हुआ भी हाव-भावसे, शब्द-जालसे स्वीकार कर लेता हूँ । कितना प्रमाद है यह मेरा । इस मिथ्या अभिमानकी भी कोई सीमा है ? जिसके हृदयमें भक्ति या प्रेमकी कहीं लेश गन्ध भी न हो, वह अपनेको भक्त और प्रेमी माने ! ऐसा मानकर, प्रभो ! मैं पापात्मा तुम्हारे भक्तों और प्रेमियोंपर कलङ्क ही तो लगा रहा हूँ । जिसका मन भाँति-भाँतिके प्रलोभनोंसे पूर्ण है, जो विविध कामना-वासनाओंका क्रीतदास है, उस मनको लेकर क्या कोई भक्त या प्रेमी बन सकता है । कैसी विडम्बना है प्रभो ! कभी-कभी मनमें आती है— तुमसे प्रार्थना भी करता हूँ कि नाथ ! मुझे अपनी सच्ची भक्ति और सच्चा प्रेम दो; कभी-कभी अपने इस दम्भपूर्ण जीवनपर घृणा भी होती है, इसे धिक्कार भी देता हूँ । पर कितने क्षण ! लोगोंसे कहता हूँ— अहर्निश मनसे भगवान्का चिन्तन, भगवान्का नाम-स्मरण

तथा जिह्वासे भगवान्का नाम-जप किया करो—परन्तु मैं स्वयं कितना क्या करता हूँ सो तो तुमसे छिपा नहीं है ।

कभी-कभी बड़ा आश्चर्य होता है, यह देखकर कि इस नीचातिनीच, परम अधमपर तुम इतनी कृपा करते हो। मालूम होता है, यह तुम्हारा स्वभाव ही है। गोस्वामी तुलसीदासजीने ठीक ही कहा है—‘प्रभुमूरति कृपामयी है।’ पर तुम्हारा ऐसा स्वभाव है—इस बातको कहता-सुनता और कभी-कभी अनुभव करता हुआ मैं तुम्हारे चरणोंकी धूल तो नहीं बन जाता, सदाके लिये तुम्हारे अरुण-चरणकमलोंपर लुट तो नहीं पड़ता। कितना नीच और दुष्टहृदय हूँ मैं ! तुम्हारी इस सहज स्वाभाविक कृपाका भी मैं दुरुपयोग करता हूँ। ऐसी चेष्टा करता हूँ कि जिसमें लोग यह समझें कि यह तो बस, भगवान्की कृपाका ही अनन्य आश्रित है। इतना सब होनेपर भी तुम्हारी कृपामें जरा भी अन्तर नहीं। वह तो मानो दिनोंदिन बढ़ ही रही है। इस अप्रार्थित कृपाका ही इस पतित अधमको भरोसा है। तुमने इस नीचपर सदा ही कृपा की है, करते हो और करते ही रहोगे। तुम कृपा किये बिना रह ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा स्वभाव ही कृपापरवशता है।

नाथ ! तुम्हारी कृपामें जो यह विश्वास है, यह कभी घटे नहीं, बढ़ता ही रहे, यही प्रार्थना है। प्रभो ! मेरी बुरी भावनाओंपर तो तुम ध्यान देते ही नहीं। कभी-कभी क्षणभरके लिये जो सच्चे मनसे मैं विषयोंमें वैराग्यकी और तुम्हारी भक्ति और प्रेमकी इच्छा करता हूँ, बस, उसीको पकड़कर पूर्ण कर देना—यह विनीत प्रार्थना है।

अखिलरसामृतसिन्धु !


तुम कैसे हो, क्या हो, कौन जानता है । लोग भाँति-भाँतिसे तर्क करते हैं । प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द-प्रमाणोंसे तुम्हारे तत्त्व-स्वरूपकी स्थापना करते हैं, परन्तु तुम्हारा यथार्थ स्वरूप किसीके भी तर्कमें नहीं आता । तुम तर्कसे परे जो ठहरे ! परन्तु तुम मेरे हो, यह तो परम सत्य ही है । मैं तुमको जानता हूँ और तुम तो मुझको जानते ही हो । गहरी रात्रिमें जब सारा संसार सो जाता है, उस समय यत्र-तत्र फैले हुए वादलोंकी आड़से जब चन्द्रमाकी चाँदनी छिप-छिपकर अपनी झाँकी दिखाती है, तब हे मेरे प्राणोंके प्रकाश ! तुम्हारी बड़ी मीठी स्मृति जाग उठती है । वही मोहिनी छिपी हँसी, वही अकेलेमें खेलना,—उस नित्य मधुमयी आनन्दरसलीलाको याद करते-करते मैं अपनेको भूल जाता हूँ । वहाँ किसी भी विचार-वितर्कके लिये स्थान नहीं रहता । दार्शनिक सिद्धान्तोंकी सारी विभिन्न धाराएँ वहाँ मेरी इस आनन्द-सुधाकी महान् धारामें वह जाती हैं । मेरे अन्तरात्मा ! यह तुम्हारी ही अतुलनीय अचिन्त्य लीला है । मैं अपनी इस अनुभूतिका क्या गौरव करूँ, सारा गौरव तो तुम्हारा है । मैं जो तुम्हारी लीलावली देख-देखकर नित्य मुग्ध होता रहता हूँ, इसमें मेरा क्या है । यह भी तुम्हारी ही कृपाकी महिमा है । लोग विभिन्न विचित्र

रसोंके द्वारा तुम्हारी उपासना करते हैं। वे उस रसके आश्रय हैं और तुम उस रसके विषय हो। परन्तु हे रसमय ! रस तो एक ही है, अतएव तुम्हीं रसके आश्रय हो और तुम्हीं विषय भी हो। इतना होनेपर भी तुम लीलारसमय हो। इसीलिये तुम हो, और मैं भी हूँ। नहीं तो, सब कुछ तुम्हीं हो। रसिकेन्द्र-शिरोमणि ! प्रत्येक रसमें जबतक तुमको नहीं देखा जाता, तबतक न तुम्हारा पता लगता है और न मुझको मेरी ही पहचान होती है। मैं कौन हूँ, इस जानकारीसे पहले यह जानना होगा कि तुम कौन हो। परन्तु हे सौन्दर्य-माधुर्य-सुधा-रसके अनन्त असीम अपरिमेय महार्णव ! जब रस-रसमें तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे अंदरसे मेरा अनुसन्धान करने लगता हूँ, तब आनन्दरस-सागरकी एक-एक लहरीमें मेरा समस्त अनुसन्धानका प्रयास चरितार्थ हो उठता है। तब यह प्रत्यक्ष अनुभूति होती है कि तुममें और मुझमें एक नित्य अखण्ड अटूट मधुर रसपूर्ण सम्बन्ध है। उस सम्बन्धका प्रत्यक्ष अनुभव होते ही मैं सारे विश्वको, विश्वके कारणको और अपनेको भूल जाता हूँ, सब तुम्हारे अंदर विलीन हो जाते हैं। हे मेरे नित्य सत्य, नित्य मङ्गलमय, नित्य मधुर, नित्य सुन्दर रसघन-विग्रह ! मैं सदा तुम्हारा हूँ और तुम सदा मेरे हो। यह तुम्हारा और मेरा सम्बन्ध सदा बना ही है, बना ही रहेगा। यही विश्वास है और यह विश्वास नित्य सत्य सिद्ध हो, यही तुमसे हृदयकी विनीत प्रार्थना है !

मेरे प्रभो !

मैं जानता हूँ—तुम आनन्दमय हो, ज्ञानमय हो, ज्योतिर्मय हो । जो कुछ भी दुःख, अज्ञान और अन्धकार है, सब तुम्हें भूल जानेसे, छोड़ देनेसे, या पीठ देनेसे ही है । मैं जानता हूँ कि मैं दीपशिखाकी लपटकी ओर लपकनेवाले पतङ्गकी तरह बड़े वेगसे मृत्युकी ओर दौड़ा जा रहा हूँ । जानता हूँ, यहाँसे निश्चित ही चले जाना है, यहाँका कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी साथ नहीं जायगा । यह भी जानता हूँ कि तुम्हें याद रखनेसे, तुम्हारी ओर जीवनको मोड़ देनेसे ही सुख-शान्ति अपने-आप आ जाते हैं । इतना सब होनेपर भी तुम्हारी ओर

जीवन लग नहीं रहा है। तुम्हारी स्मृति अन्य सारी स्मृतियोंको तुरंत आत्मसात् नहीं कर पा रही है। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभो ! यहाँका यह धन-ऐश्वर्य, मान-सम्मान, पद-अधिकार मेरे क्या काम आयेगा ? दस ही मिनट बाद जिसको फाँसीके काठपर झूलना है, उसको त्रैलोक्यकी सम्पत्ति दी जाय तो वह उससे कैसे तृप्त हो सकेगा ? उसी प्रकार मृत्युके मुँहका शिकार होकर भी मैं पूर्णरूपसे केवल तुम्हारा चिन्तन न करके क्षण-विनाशी विषयोंका ही चिन्तन करता हूँ ! यह क्या बात है ? तो क्या नाथ ! मैं तुमको प्राप्त करना नहीं चाहता ? क्या मैं तुम्हारे बिना रहना पसन्द करता हूँ ? ऐसी बात तो नहीं मालूम होती। मुझे यदि तुम मिल जाओ तो फिर जगत्में ऐसी कौन-सी वस्तु है, जिसकी मैं चाह करूँगा। तुम क्या इस बातको नहीं जानते मेरे स्वामी ! तुम मेरी प्रार्थना सुन लो ! अपनी सेवामें मुझे सदाके लिये बिना कौड़ी-पैसेका गुलाम बनाकर रख लो ! मैं सत्य कहता हूँ, फिर मैं तुमसे इस लोक या परलोककी कोई भी चीज नहीं चाहूँगा। मोक्ष भी नहीं माँगूँगा। मैं तो बस, केवल तुम्हींको चाहता हूँ। तुम्हारा मधुर मनोहर रूप-माधुर्य, तुम्हारी मधुर मनोहर मुरली-ध्वनि, तुम्हारा मधुर मनोहर विरुद और स्वभाव तथा तुम्हारी अप्रतिम अचिन्त्यानन्त मधुर मनोहर गुणावली मेरे मनको बार-बार खींचे ले रही है। मुझे इनका प्रत्यक्ष साक्षात् करा दो कृपा करके मेरे अन्तरके प्रभु !



मेरे सर्वशक्तिमान् स्वामी !

यह सच है कि तुम्हारी दया सभी जीवोंपर समान है और वह है असीम । परन्तु मैं इतना अभागा हूँ कि तुम्हारे उस करुणामृतकी वर्षामें सदा नहा नहीं पाता । जब अपने अनुकूल कोई बात देखता हूँ तब तो कभी-कभी तुम्हारी दया मान भी लेता हूँ परन्तु प्रतिकूलमें तो कभी मानता ही नहीं ! यह भी जानता हूँ कि तुम्हारी दया दोनों ही रूपोंमें आती है और आती है मेरा कल्याण करनेके लिये ही, परन्तु प्रतिकूलताके रूपमें मन उसे स्वीकार नहीं करता । प्रभो ! वह दिन कब होगा जब मैं अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनोंको ही तुम्हारी कृपा-सुधा समझकर बड़े आनन्दसे पी जाऊँगा । कब मैं अपमान-मान, तिरस्कार-पुरस्कार, प्रशंसा-निन्दा, लाभ-हानि, सुख-दुःख और जीवन-मरण सभीमें तुम्हारी दयाके दर्शन कर परम शान्ति और सन्तोषका अनुभव करूँगा ?

मेरे प्रभो ! इस समय इस बातसे मनमें बड़ी ही पीड़ा हो रही है कि मैं तुम्हारा कहलाकर भी वस्तुतः अपनेको

तुम्हारा बना नहीं पाया । देखता हूँ—स्पष्ट देख पाता हूँ कि मुझपर अब भी विषयोंका अधिकार है । कभी-कभी तो बड़ी ही बुरी तरहसे विषय-वासना अपना प्रभुत्व प्रकट करती है और बाध्य करना चाहती है अपनी गुलामी करानेके लिये ! उस समय बड़ी व्यथा होती है—बस, तुम्हारी कृपा ही उस समय बचाती है । देखता हूँ—तुम्हारी कृपाके द्वारा क्षणमें ही उस वासनाका विनाश हो जाता है । इतना होनेपर भी मैं सर्वथा तुम्हारा ही नहीं बन पाता हूँ !

मेरे सर्वशक्तिमान् स्वामी ! मालूम होता है मेरे प्रयत्नसे कुछ नहीं होगा । अब तो तुम्हीं अपनी शक्तिसे इस अधमको उठाकर हृदयसे चिपका लो । यह तुम जानते ही हो कि कभी-कभी तो मेरे प्राण तुम्हारे लिये छटपटाते ही हैं । बुद्धिका निर्णय भी यही होता है कि तुम्हारा ही बन जानेमें मेरा कल्याण है । परन्तु दुष्ट मन नहीं मानता । मेरे प्राणोंकी छटपटाहटपर विचार कर मेरे प्रभो ! तुम्हीं अपनी कृपासे मुझे बचाओ । ऐसा न करो तो यही कर दो कि मुझे न तो कभी कोई चाह हो और न मैं बार-बार प्रार्थना करके उसके लिये तुम्हें सताऊँ ही । तुम जो करो, जैसे करो, जब करो, मुझे किसी भी हालतमें कैसे भी रक्खो—मैं उसीमें सन्तुष्ट रहूँ और इस बातका अनुभव करता रहूँ कि यह सब तुम्हारी ही कृपा है । तुम्हारे अज्ञानमें कुछ नहीं हो रहा है । तुम सोच-समझकर ही मुझे इस स्थितिमें रक्खे हुए हो—और सचमुच इसीमें कल्याण है ।

मेरे प्राणनाथ !

पता नहीं, लोग तुमसे अपने भोग-विलासके लिये, सुख-समृद्धिके लिये क्या-क्या चाहते हैं ! तुम उन सबको वे वस्तुएँ देना चाहते हो, देते हो; नहीं देना चाहते, नहीं देते । पर तुम जानते हो, मैं तुमसे यह सब कुछ भी नहीं चाहता । मुझे इन वस्तुओंसे न कोई प्रयोजन है और न इनसे मुझे कोई शान्ति ही मिलती है । मेरे सुखकी सामग्री तो वस, एक तुम हो, तुम्हारी प्यारी मीठी स्मृति है ! जब यह मन भटक-भटका कर घर लौट आता है और स्वस्थ होकर तुम्हारे अरुण-चरणोंकी ओर देखने लगता है, उस समय कितना आनन्द मिलता है मुझे ! हाय ! हाय ! उस आनन्दकी कहीं तुलना भी है ? कैसा मधुर, कैसा सुन्दर, कैसा निर्मल, कैसा विलक्षण है वह आनन्द ! फिर जब तुम अपनी लीलामाधुरीके पट खोलने लगते हो, अपने ब्रजकी, अपने सखाओंकी, अपनी निकुञ्जमाधुरीकी एक-एक सुमधुर सुधामयी झाँकी दिखाने लगते हो, तब तो वस, आनन्द सीमा पार कर जाता है । फिर

उसके सामने ब्रह्मानन्द भी तुच्छ और नगण्य प्रतीत होता है । जगत्, जगत्के पदार्थ, दुःख-सुख, भोग, मोक्ष, किसी भी वस्तुका पता नहीं रहता उस समय । मन-बुद्धि रहते होंगे, परन्तु उनका भी कहीं पता नहीं लगता । कभी-कभी तो यहाँतक हो जाता है कि बस, तुम्हारी मधुर मनोहर झाँकी ही रह जाती है । देखनेवाला भी खो जाता है । उस समयके आनन्दकी जाति और परिमाणका पता कौन बताये ? आनन्दके सिवा अन्य कोई हो तो ?

पर मेरे प्राणनाथ ! इस अवस्थामें फिर परिवर्तन क्यों होता है ? तुम अपनी सारी मधुर झाँकियोंको छिपा क्यों लेते हो ? पहले तो मेरा कहा मान लेते थे । मेरे कहनेपर— आग्रह करनेपर अपनी रूप-लीला-पिटारीको जब-तब खोल दिया करते थे, पर अब मुझसे ऐसा कौन-सा महान् अपराध बन गया कि तुम मेरी बात सुनकर भी अनसुनी-सी कर देते हो, बस, मुसकराकर रह जाते हो । कभी-कभी चित्तमें बड़ी व्याकुलता होती है, पर मेरे हाथमें तो कुछ है ही नहीं । उस बार बड़ी दया की थी तुमने, जब मेरी दयनीय दशा देखकर तुम्हारा हृदय पिघला था और तुमने बड़ी उदारताके साथ नयी-नयी लीलाओंके मधुर दर्शन कराये थे । और फिर कई दिनोंतक लगातार कराते ही रहे थे । मैंने समझा था—अब तो जीवनके शेष क्षणतक यही क्रम चलेगा, इसमें विराम होगा ही नहीं । पर इस विचारके कुछ ही समय बाद, पता नहीं,

तुमने क्यों अपनी लीलाधाराके प्रवाहमें बाँध-सा लगा दिया । प्रभो ! इस वञ्चनाका क्या कारण है ?

आनन्द-लीला-रस-सुधा-विग्रह ! तुम जानते हो, आजकल मैं कितना अशान्त हूँ, कितना आकुल हूँ । और इस सारी अशान्ति और आकुलताका कारण भी तुम अन्तर्यामीसे छिपा नहीं है । क्या मेरी अब यही दशा रहेगी ? यों ही तड़पाना था तो फिर उस रस-सुधाका पान ही क्यों कराया ? कहते हैं कि भक्तोंकी रसास्वादन-आकाङ्क्षाको बढ़ानेके लिये भगवान् ऐसा किया करते हैं; क्योंकि बड़ी हुई आकाङ्क्षाकी पूर्तिमें विशेष आनन्द प्राप्त होता है । पर मेरे नाथ ! तुम जानते हो, मैं तो भक्त नहीं हूँ, भक्तोंके चरण-रेणु-कणका भी अधिकारी नहीं हूँ । यह तो तुम्हारी अहैतुकी कृपा है और अत्युक्ति न समझी जाय तो यह भी कहा जा सकता है—यह तुम्हारा यथेच्छाचार है, जो तुम मुझ-सरीखे सर्वथा अनधिकारीको अपनी इस गुह्यतम लीलामाधुरीके दर्शन कराते हो ! पर जब तुम कराते ही हो, तब मैं अनधिकारी भी कैसे रहा !

जो कुछ भी हो, अब पुनः कृपा करो । कृपा तो तुम्हारी सदा है ही, कृपाका साक्षात् कराओ उस बाँधको सर्वथा तोड़कर ! यदि कोई अपराध हुआ है तो उसे बता दो । पर फिर वैसा अपराध न बने, इसकी व्यवस्था भी तो तुम्हींको करनी पड़ेगी । मैं पङ्गु भला, क्या करने योग्य हूँ ।



प्रियतम !

तुम तो मेरे अन्तरकी एक-एक बात जानते हो । तुम्हीं मेरे अन्तरतम प्रियतम हो । बताओ, मैं तुमसे कभी अपने लिये कुछ चाहता हूँ क्या ? मेरे तो सुखस्वरूप बस, एक तुम्हीं हो । हृदयेश्वर ! तुमसे क्या छिपा है । मेरे हृदयके अन्तस्तलकी वासना एकमात्र यही तो है कि मैं सदा-सर्वदा तुम्हारी सन्निधिमें ही रहूँ । सब कुछ छोड़कर नित्य-निरन्तर तुम्हारी चाकरीमें ही मेरे जीवनका प्रत्येक क्षण लगा रहे । क्या मेरा यही मनोरथ नहीं है ? पर यदि यही मनोरथ है तो फिर इस विडम्बनाका क्या अर्थ है ? कुछ भी तो समझमें नहीं आता । तो नाथ ! क्या यह मनका धोखा है—आत्मवञ्चना है ? ऐसा तो नहीं होना चाहिये । तुम्हारे लिये मन सदा तड़पता रहता है, बार-बार तुम्हारी स्मृति होती है और मेरी आँखें छलक उठती हैं । कोई देख न ले, इसलिये मुँह फेरकर आँसुओंको पोंछ डालता हूँ । तुम तो सदा यह सब देखते ही हो !

मन कहता है, आठों पहर तुम्हारे चरणतलमें ही रहूँ, बस, निरन्तर तुम्हारी रूप-सुधा-माधुरीका पान करता रहूँ ।

पर ऐसा होता क्यों नहीं ? क्यों सब कुछ छोड़कर, सबसे नाता तोड़कर तुम्हारी सेवामें नहीं लग जाता ? मालूम होता है, मुझे भ्रम हो रहा है । तुम्हारे नामपर कहीं आत्मसुखकी कोई वासना मनमें छिपी है और वही मुझे प्रताडित कर रही है । केवल मनकी ऊपरी लालसासे क्या होता है ? यदि तीव्र और अनन्यलालसा होती तो तुम्हारी माधुरीके नित्य आस्वादनसे मैं क्यों वञ्चित रहता ? सत्य है—मेरी रति असती है, मेरी प्रीति व्यभिचारिणी है, मेरी मति अव्यवसायात्मिका है परन्तु नाथ ! इनका सुधार भी तो तुम्हारी ही अहैतुकी कृपासे होगा । तुम्हारी कृपासे मूक वाचाल हो जाता है, पङ्खु पहाड़ लॉघ जाता है, फिर क्या उस कृपाके द्वारा मेरी यह वासना—शुद्ध होकर—पूर्ण नहीं होगी ?

मैं जैसा हूँ, जो कुछ हूँ, तुम्हारे सामने हूँ । मेरी त्रुटियाँ, जिनका मुझे बोध नहीं है, तुम्हारे सामने एक-एक प्रत्यक्ष है । उन त्रुटियोंको पूरी भी तुम्हीं करोगे । मुझे तो उनमेंसे बहुतोंका पतातक नहीं है । त्रुटियाँ हैं, इसका विश्वास इसीसे होता है कि मेरा मनोरथ—तुम्हारी माधुरीके नित्य आस्वादनका मनोऽभिलाष पूर्ण जो नहीं हो रहा है !

मेरे प्राणोंके प्राण, नित्य मधुर प्रियतम ! जो कुछ भी कमी हो, उसे अपनी कृपादृष्टिसे पूरी कर दो और अपने रससमुद्रमें सदाके लिये डुबोकर निहाल कर दो !



लीलामय !

तुम्हारी लीलाका रहस्य कौन जान सकता है ? कब तुम किस क्रीडामें रत रहते हो, और उससे संसारमें कैसे-कैसे अचिन्त्य परिवर्तन हो जाते हैं, इस बातको कोई भी नहीं जान सकता । आज जगत्में जो कुछ हो रहा है, इसका क्या परिणाम होगा, और इस खेलका कब दूसरा दृश्य आयेगा, कोई नहीं कह सकता । कितना परिवर्तन हो गया ? विद्वान् कहलानेवाले लोग तुम्हें स्वीकार करनेमें भी सकुचाने लगे हैं ! कुछ उच्चशिक्षित लोग तो तुम्हारा नाम ही मिटानेको कसर कसे हुए हैं । इधर अविश्वासी पुजारी प्रायः तुम्हारे नामपर लोगोंको ठगनेमें लगे हैं । मन्दिर, मठ, मस्जिद, आश्रम, गिर्जा, विहार, तीर्थ किसीमें भी आज वह पहले-सा सरल विश्वास नहीं दिखायी देता; कथा बाँचनेवाले दूसरोंको सिद्धान्त बतलाते हैं, पर स्वयं शङ्काशील हैं; उपदेशक, आचार्य, संपादक, कवि और वक्ता लोगोंको ईश्वर, धर्म, कर्म, देशसेवा आदि जिन कार्योंके लिये बड़े-बड़े सुन्दर और जोशीले शब्दोंमें उत्साहित करते हैं, स्वयं उन्हीं कार्योंमें सच्चे हृदयसे कुछ भी करना नहीं चाहते, बल्कि अंदर-ही-अंदर विपरीत आचरण करते हैं । तुलसी-सूर, ज्ञानदेव-एकनाथ, कबीर-पलटू मीरा-सहजो प्रभृति महान् आत्माओंकी कविताओं और भावनाओंसे बढ़कर कविता और भावनाका

रूप सामने रखा जाता है, परन्तु उनका-सा हृदय आज व हीं हूँ भी नहीं मिलता; फिर भी कहा जाता है कि हमारी उन्नति हो रही है, क्रमशः हम विकासको प्राप्त हो रहे हैं ! यह उन्नति या विकास दैवी है या आसुरी, आत्माका है या अनात्माका, इस बातका निर्णय तो कौन करे, परन्तु इतना अवश्य कहा जा सकता है कि यह सब तुम्हारी लीला है, तुम्हारे अभिनयका एक सीन है ।

खेलो ! खूब खेलो, खिलाड़ी ! सबको अपने साथ खेलाते रहो, यही तो तुम्हारा काम है । आप ही सब कुछ बनकर, आप ही सदा सब कुछको लेकर 'सब कुछ'में खेलते हो और अलग रहकर देखते भी रहते हो; तुम्हारे खेलमें क्यों विराम हो ? नये-नये पर्दे पड़ते रहें, सीन बदलते रहें, तुम्हारा लीला-प्रवाह सदा अविच्छिन्न गतिसे चलता रहे; इसमें हम क्यों आपत्ति करें ? तुम जबतक चाहो, हमें अपने संकल्पसे अलग कल्पित कर हमसे खेलते रहो, पर हमारी इतनी आँखें जरूर खोल दो कि तुम्हारे इस संकल्पके आधारपर टिके हुए अपने भिन्न अस्तित्वके सिवा शेष सब खेलोंमें, खिलौनोंमें, सबमें सब समय केवल तुम्हारी ही छवि दीख पड़े, तुम और हम दो ही रह जायँ, तुम हमें जानो और हम तुम्हें, तुम हमें देखो और हम तुम्हें !

वस, यही एक प्रार्थना है !

मेरे अन्तरात्मन् !

मैं यह जानता हूँ कि मेरेद्वारा जो कुछ भी हो रहा है, सबमें तुम्हारा मङ्गलमय हाथ है। और मुझे जो कुछ भी देखने, सुनने, समझने और ग्रहण करनेको मिल रहा है, सबमें तुम्हारा मङ्गलविधान काम कर रहा है। जिस समय इसका प्रत्यक्ष अनुभव होता है, उस समय न तो अभिमान, अहङ्कार, ममता और आसक्ति रहती है और न हर्ष-शोक, राग-द्वेष, आकाङ्क्षा-अपेक्षाके द्वन्द्व ही रहते हैं। रहता है—केवल तुम्हारा, तुम्हारे आत्मीयत्वका, तुम्हारे सौहार्दका और तुम्हारे प्रेमका दिव्य साक्षात्कार ! सारे कार्योंमें, सारी अनुभूतियोंमें और सारे जगत्में उस समय तुम्हारी मधुर दिव्यता प्रसरित दीखती है—सब ओर तथा सर्वथा। मैं चाहता हूँ, यह स्थिति सर्वदा बनी रहे। क्योंकि यही सत्य है। जगत् तो तुम्हारा खेल है और वह तुम खेलनेवालेसे सर्वथा अभिन्न है। तुम्हीं खेलकी सामग्री हो, तुम्हीं खेल हो और तुम्हीं खेलनेवाले हो।

इस प्रकारकी स्थितिमें जगत्का कोई भी कार्य न भार प्रतीत होता है, न बन्धन। तुम्हारी ही सत्ता, तुम्हारी ही सामग्री, तुम्हारी ही पूजा और तुम्हीं पूजाके प्रेरक ! उस समयके आनन्दकी जाति भी दिव्य होती है और होती है वह तुम्हींसे मिली हुई। मेरे अन्तरात्मा ! यह स्थिति निरन्तर बनी रहे। मेरेद्वारा जगत्में जो कुछ भी हो, केवल तुम्हारा ही कार्य हो, तुम्हारी ही पूजा हो और बिना किसी

अभिमान-अहङ्कारके मुझको इसका पता रहे, जिससे तुम्हारे अचिन्त्यानन्त माधुर्यका दिव्य आस्वाद मुझे मिलता रहे !

नाथ ! मैं तुम्हारा हूँ, तुम स्वीकार कर चुके हो; मैं भी मान चुका हूँ । इतना होनेपर भी कभी-कभी इसमें व्यतिक्रम-सा क्यों दीखता है ? मालूम होता है—यह तुम्हारा खेल है रसास्वादनकी वृद्धिके लिये ही तुम ऐसा करते होओगे ! मुझे प्रतीत भी होता है—जब-जब किसी भूलकी स्थितिके बाद मैं यथार्थ स्थितिमें आता हूँ, तब-तब विशेष आनन्द होता है—जैसे किसी खोये हुए अमूल्य रत्नके मिल जानेपर विशेष आनन्द हुआ करता है । उस समय एक विलक्षण उल्लास-समुद्रमें मानो नयी-नयी तरङ्गें उछलने लगती हैं ।

परन्तु प्राणप्रियतम ! मैं चाहता हूँ कि निरन्तर यथार्थ स्थिति भी रहे और उसमें उत्तरोत्तर नयी-नयी उल्लास-लहरियाँ भी उठती तथा बढ़ती रहें । यह है भी सत्य, क्योंकि जब तुम नित्य नवीन हो, नित्य नवीन आनन्दमय हो, नित्य नवीन माधुर्य और सौन्दर्यके अपार पारावार हो, तब तुम्हें और तुम्हारे मङ्गलमय विधानको देखनेवालेके हृदयमें नित्य नूतन आनन्दानुभूतियाँ होनी ही चाहिये ।

मेरे प्राणोंके प्राण ! तुम चाहो तो सब कुछ हो सकती है । मुझसे कुछ नहीं होगा । तुम स्वयं ऐसी विलक्षण परिस्थितिका निर्माण कर दो, जिसमें अन्य सारी परिस्थितियाँ समा जायँ और मुझे तुम्हारे मधुर तथा दिव्य स्वरूपका तथा तुम अकर्ताके सर्व-कर्तृत्वका दर्शन होता रहे !



मैं हरि पतित-पावन सुने ।
मैं पतित तुम पतित-पावन दोउ वानक बने ॥
व्याध गनिका गज अजामिल साखि निगमनि भने ।
और अधम अनेक तारे जात कापै गने ॥
जानि नाम अजानि लीन्हें नरक सुरपुर मने ।
दासतुलसी सरन आयो, राखिये आपने ॥

—बिनय-पत्रिका



:: आरोग्य-पथ-प्रदर्शक ::

‘भावना से कर्तव्य श्रेष्ठ’



प्रकाशक —

स्वामी प्रकाशानन्द संन्यासी

सार्वभेशिक दयानन्द संन्यास धानप्रस्थ मण्डल
पो० ज्वालापुर (हरिद्वार)

प्रति }
१००० }

मूल्य =) आना

{ वि० सं०
२००६ }



आर्य-समाज के नियम



- १—सब सत्यविद्या और जो पदार्थविद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है।
- २—ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयानु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है। उसी की उपासना करनी योग्य है।
- ३—वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है।
- ४—सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए।
- ५—सब काम धर्मानुसार अर्थात् सत्य और असत्य को विचार कर करने चाहिये।
- ६—संसार का उपकार करना आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात् शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना।
- ७—सब से प्रीति-पूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिये।
- ८—अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए।
- ९—प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट न रहना चाहिए, किन्तु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए।
- १०—सब मनुष्यों को सामाजिक सर्व हितकारी नियम पालने में परतन्त्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतन्त्र रहें।

ब्राह्ममुहूर्त



‘यतोऽभ्युदयनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः’

रात को ठीक समय पर सोने और सबेरे ठीक समय पर उठने पर ही मनुष्य के जीवन की सारी सफलता है। संसार में जितने भी महापुरुष, ऋषि-मुनि, पंडित, धनवान्, धर्मात्मा और देश-भक्त हुए हैं, अथवा इस समय मौजूद हैं, वे सब प्रातः-काल स्वयं उठते रहे हैं, और उठते हैं, तथा ऐसा ही उनका उपदेश भी है। मनुजी इस विषय में लिखते हैं :—

ब्राह्मो मुहूर्ते बुध्येत धर्माथो चानुचिन्तयेत् ।

कायक्लेशाश्च तन्मूलान् वेदतत्त्वार्थमेव च ॥

मनु०

अर्थात् ब्राह्ममुहूर्त में उठकर धर्म और अर्थ का चिन्तन करे। शरीर में यदि कोई कष्ट हो, तो उसके कारण को सोचे, और ‘वेदतत्त्वार्थ’ अर्थात् परमेश्वर का ध्यान करे।

‘ब्राह्ममुहूर्त’ चार घड़ी तक के लगता है, जब कि पूर्व की ओर क्षितिज में सूर्य की थोड़ी थोड़ी लाल आभा दिखाई देती है, और दो चार नक्षत्र भी आकाश में दिखाई देते रहते हैं। यही उठने का ठीक समय है। इसको अमृतबेला भी कहते हैं। जो मनुष्य अपने जीवन में इस बेला को साध लेता है, उसके अमर होने में कोई सन्देह नहीं। अर्थात् वह अपनी पूरी आयु भोग करके अपने सत्कार्यों से संसार में अजरामर हो जाता है।

निद्रा का विश्राम लेकर जब प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त में मनुष्य उठता है, तब उसकी सब इन्द्रियाँ और बुद्धि स्वच्छ और ताजी हो जाती हैं। उस समय वह जो कार्य प्रारम्भ करता है, दिन भर उसमें सफलता ही होती है, और प्रातःकाल उठनेवाले मनुष्य को समय भी खूब मिलता है। जो लोग सूर्य उदय होने तक सोते रहते हैं, उसकी बुद्धि और इन्द्रियाँ मन्द पड़ जाती हैं, शरीर में आलस्य भर जाता है, उनका चेहरा फीका पड़ जाता है। तेज जाता रहता है और चेहरे पर मुर्दनी-सी छाई रहती है। दिन भर जो कुछ काम वे करते हैं, उसमें उनको उत्साह नहीं रहता और न किसी कार्य में सफलता ही होती है। अतएव सुबह देर से उठनेवाला मनुष्य सदैव दरिद्र रहता है। किसी कवि ने ठीक ही कहा है :—

बुचैलिनं दन्तमलावधारिम् ।

वहाशिनं नित्यकठोरभाषिम् ॥

सूर्योदये चास्तमये च शायिनम् ।

विमुञ्चति श्रारपि चक्रपाणिम् ॥

अर्थात् जिनके शरीर और वस्त्र मैले रहते हैं, दाँतों पर मैला जमा रहता है, बहुत अधिक भोजन करते हैं; और सदैव कठोर वचन बोलते रहते हैं तथा जो सूर्य के उदय और अस्त के समय सोते हैं, वे महा दरिद्र होते हैं—यहाँ तक कि चाहे 'चक्रपाणि' * अर्थात् बड़े भारी सौभाग्यशाली लक्ष्मी-धर विष्णु ही क्यों न हो, परन्तु उनको भी लक्ष्मी छोड़ जाती है। इसलिये सूर्योदय तक सोते रहना बहुत हानिकारक है।

* यहाँ 'चक्रपाणि' शब्द में कवि ने श्लेष रखा है। इसके दो अर्थ हैं। अर्थात् सामुद्रिक के अनुसार जिसके हाथ में दस चक्र होते हैं, वह राजा होता है; और दूसरा अर्थ, चक्र धारण करनेवाले विष्णु।

अस्तु ! अब यह देखना चाहिए कि प्रातःकाल खूब तड़के उठकर मनुष्य क्या करे । मनुजी ने उपर्युक्त श्लोक में कहा है कि पहले धर्म का चिन्तन करे—अर्थात् अपने मन में परमात्मा का ध्यान करके यह निश्चय करे कि हमारे हाथ से दिन भर सब कार्य धर्मपूर्वक ही हो, कोई कार्य अधर्म अथवा अन्याय का न हो, जिससे हमको अथवा दूसरे किसी को दुःख हो । अर्थ के चिन्तन से यह मतलब है कि हम दिन भर उद्योग करके सच्चाई के साथ धन उत्पन्न करें, जिससे स्वयं सुखी रहे और परोपकार कर सकें । शरीर के कष्ट और उनके कारणों का चिन्तन इसलिए करे कि जिससे आरोग्य रहें, क्योंकि आरोग्यता ही सब धर्मों का मूल है । कहा भी है कि,

शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्

फिर सब वेदों का सार जो ओंकार परमात्मा है, उसका ध्यान करे; क्योंकि वही सब में रम रहा है और सारा संसार उसमें रम रहा है । वही हमारे सब कर्मों को देखनेवाला और हमारा साक्षी है ।

प्रायः प्राचीन लोगों में यह चाल देखी जाती है कि प्रातःकाल उठकर परमात्मा का स्मरण करते हुए पहले अपनी हथेली का दर्शन करके उसको चूमते हैं और साथ ही यह श्लोक भी पढ़ते हैं—

कराग्रं वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती ।

करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते करदर्शनम् ॥

इसका भी तात्पर्य वही है, जो मनु महाराज ने बतलाया है । प्रातःकाल करदर्शन इसीलिए किया जाता है, जिससे दिन भर हमारे हाथ से शुभ कर्म हो । ऊपर के श्लोक में हथेली में तीन देवताओं का वास बतलाया है । हथेली के आगे लक्ष्मी, जो द्रव्य का देवता है; हथेली के बीच में सरस्वती, जो विद्या का देवता है

और हथेली के पीछे ब्रह्मा, जो बलवीर्य और उत्पत्ति का देवता है। सारांश यही है कि सुबह उठकर मनुष्य को परमात्मा का चिन्तन करते हुए अपने दिनभर के उन कार्यों का विचार करना चाहिए कि जो हमारे चारों पुरुषार्थों—अर्थात् धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से सम्बन्ध रखते हैं। इसका विचार करने के बाद तब चारपाई से कदम नीचे रखना चाहिए। जब हम चारपाई से नीचे पैर रखते हैं, तब धरती पर हमारा पैर पड़ता है। धरती हम सब की माता है। इसी ने हमको, माँ के पेट से नीचे गिरने पर, अपनी गोद में लिया है। इसी पर हम खेले, खाये और बड़े हुए हैं। यही हमको नाना प्रकार के फल-फूल, अन्न देकर हमारा पालन करती है और अन्त में—मृत्यु समय भी—हमें यही अपनी गोद में विश्राम देती है। इसलिए हमारे बड़े-बूढ़े लोग सुबह जब चारपाई से पैर नीचे रखते हैं, तब यह श्लोक कहकर धरती माता को भी नमस्कार करते हैं और पैर रखने के लिए क्षमा माँगते हैं:—

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमंडले !

विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे ॥

अर्थात् हे देवी, समुद्र ही तुम्हारी साड़ी है और पर्वत तुम्हारे स्तनमण्डल हैं, तुम विष्णु अर्थात् सब के पालन करने वाले भगवान् की पत्नी हो, अतएव हमारी माता हो, अब हम जो तुम्हारे शरीर में अपना पैर छुआते हैं—क्या करे छुआना लाचारी है—इसके लिए माता ! हमको क्षमा करो। कैसा सुन्दर भाव है !

इतना करने के बाद फिर हमको अपने नित्यकार्यों में लग जाना चाहिए। शौच, दन्तधावन, स्नान-संध्या, खुली हवा में व्यायाम इत्यादि सुबह के मुख्य कर्म हैं। ये सब कार्य स्वच्छ और खुली हवा में प्रातःकाल करने चाहिए। प्रातःकाल जो वायु चलती है वह शरीर और मन को प्रसन्न करके प्रफुल्लित कर देती

है और आरोग्यता को बढ़ाती है। यह वायु सूर्योदय के पहले दो घण्टे चलती है, सूर्योदय के बाद हवा दूसरी हो जाती है। इसी वायु के गुण का वर्णन करते हुए किसी हिन्दी कवि ने कहा है :—

प्रातः-समय की वायु को सेवन करत सुजान ।

ताते मुख-झ्रविं बढती है, बुद्धि होती बलवान् ॥

अतएव बालक से लेकर बूढ़े तक, स्त्री-पुरुष सबको, इस अमृतबेला का उचित रीति साधन करना चाहिए ।

व्यायाम



भोजन को पचाने और शरीर को हृष्टपुष्ट रखने के लिए मनुष्य को व्यायाम की आवश्यकता है। व्यायाम से क्या लाभ होता है, इस विषय में आयुर्वेद के आचार्य महर्षि वाग्भट्टजी कहते हैं :—

लाघवं कर्मसामर्थ्यं दीप्तिमैर्दसःक्षयः ।

निभक्तघनगात्रत्वं व्यायामादुपजायते ॥

अष्टांगहृदय

व्यायाम से फुर्ती आती है, कार्य करने की शक्ति बढ़ती है, पेट की आग बढ़ती है, चर्बी अर्थात् शरीर का बलगमनाश हो जाता है, शरीर के सब अङ्ग-प्रत्यङ्ग यथोचितरूप से सुदृढ़ मज्जवृत्त हो जाते हैं। जो लोग रबड़ी-भलाई पकवान इत्यादि गरिष्ठ अन्न खाते हैं और शारीरिक परिश्रम के कार्य करने का जिनको विलकुल मौका नहीं मिलता, उनके लिए तो व्यायाम अत्यन्त आवश्यक है :—

विद्वं वा विदग्धं वा भुक्तं शीघ्रं विपच्यते ।

भवति शीघ्रं नैतस्य देहं शिथिलतोदयः ॥

अष्टांगहृदय

अर्थात् ऐसे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध गरिष्ठ भोजन करते हैं, उनका भोजन भी व्यायाम से पच जाता है और शरीर में शीघ्र शिथिलता नहीं आने पाती। जिन लोगों की चर्बी बेतरह बढ़ रही हो और शरीर बेडौल मोटा हो रहा हो, उनके लिए व्यायाम एक बड़ी भारी औषधि है :—

य चैनं सहसाक्रम्य जरा समविरोहति ।

न चास्ति सदृशं तेन किञ्चित्स्थौल्याफ़र्षम् ॥

भावप्रकाश

व्यायाम करने से जल्दी बुढ़ापा नहीं घेरता और यदि व्यायाम बराबर करता रहे, तो मनुष्य मृत्युपर्यन्त अजर, अर्थात् युवा रह सकता है और जो लोग बेडौल मोटे हो जाते हैं, उनका मोटापन भी छूट जाता है । परन्तु सब लोगो के लिए सदैव व्यायाम हितकर भी नहीं है । आजकल आयुर्वेद के नियम जाने बिना सब तरह के लोग जो बेतरह और असमय-कुसमय व्यायाम करने लग जाते हैं, इससे बड़ी हानि होती है :—

भुक्त्वान्कृतसंभोग कासी श्वासी कृश क्षयी ।

रक्तपित्ती क्षती शोषी न तं कुर्यात् कदाचन ॥

भावप्रकाश

जो अभी हाल ही में भोजन अथवा स्त्री-प्रसंग कर चुका है, अर्थात् जो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन नहीं करता, जिसको खाँसी या श्वास का रोग है, जो बहुत कमजोर है, जिसको क्षय, रक्तपित्त, क्षत, शोष का रोग है इनको व्यायाम कभी न करना चाहिए । हाँ, यदि हो सके तो खुली हवा में धीरे-धीरे टहलने का व्यायाम ये लोग भी कर सकते हैं । अत्यन्त कठोर व्यायाम तो सभी के लिए हानिकारक है । जितना व्यायाम शरीर से सहन हो सके उतना ही व्यायाम करना चाहिए । अति सब जगह वर्जित है :—

तृष्णाक्षयः प्रतमको रक्तपित्तं श्रमः क्लमः ।

अतिव्यायामतः कासो ज्वरश्छर्दिश्च जायते ॥

अष्टांगहृदय

बहुत व्यायाम करने से शरीर में खुशकी बढ़ती है, तृषा का रोग हो जाता है, क्षय, श्वास, रक्तपित्त, ग्लानि, खाँसी इत्यादि के रोग हो जाते हैं।

इसलिए अधिक व्यायाम न करना चाहिए। व्यायाम का इतना ही मतलब है कि शरीर से परिश्रम किया जाय, जिससे भोजन पचे और दृढ़ता आवे। व्यायाम अनेक प्रकार के हैं; परन्तु अनुभव से जाना गया है कि खुली हवा में, बस्ती के बाहर, प्रकृति-सौन्दर्य से पूर्ण हरे-भरे जङ्गल अथवा पहाड़ों इत्यादि में खूब तेजी के साथ भ्रमण करना सबसे अच्छा व्यायाम है। भ्रमण करते समय हाथ विलकुल खुले छोड़ देना चाहिए और शरीर के सब अंग-प्रत्यंगों का सञ्चालन स्वाभाविक रूप से होने देना चाहिए। श्वास को रोकने का प्रयत्न न करना चाहिए और मुख से श्वास कभी न लेना चाहिए। किसी प्रकार का भी व्यायाम हो, सदैव नासिका से ही श्वास लेना और छोड़ना लाभदायक है।

आजकल हमारे विद्यार्थियों में अँग्रेजी व्यायाम की प्रथा चल पड़ी है। यह बहुत ही हानिकारक है। दण्ड, मुगदर, कुश्ती, दौड़, कबड्डी इत्यादि देशी व्यायाम का समय सुबह और शाम बहुत अच्छा है। असमय में भूखे-प्यासे विद्यार्थियों को व्यायाम कराना मानो उनको जान-बूझकर मृत्यु के मुख में देना है।



भोजन



भोजन शरीर के लिए आवश्यक है। परन्तु भोजन ऐसा ही करना चाहिए कि जो शुद्ध हो। क्योंकि जैसा हम भोजन करेंगे, वैसी ही हमारी बुद्धि, मन और शरीर बनेगा। अर्थात् भोजन की शुद्धि पर ही हमारे जीवन की शुद्धि अवलम्बित है। महाभारत उद्योगपर्व में लिखा है :—

यच्छक्यं प्रसितुं प्रास्यं प्रस्तं परिणमेच्च यत् ।

हितं च परिणामे यत्तदाद्यं भूतिमिच्छता ॥

महाभारत, उद्योगपर्व

जो पदार्थ भोजन करने योग्य हो, पचने योग्य हो तथा परिणाम में गुणकारी हो उन्हीं पदार्थों का भोजन, आरोग्यता की इच्छा रखने वालों को करना चाहिए। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के अनुसार तीन प्रकार के आहार, जो गीता में बतलाये गये हैं, उनमें से सतोगुणी लोगों को जो प्रिय हैं, उन्हीं आहारों को ग्रहण करके अन्य दो प्रकार के आहारों का त्याग करना चाहिए। सतोगुणी आहार इस प्रकार बतलाया गया है :—

आयुः सत्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धना ।

रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहाराः सात्विकप्रियाः ॥

गीता, अ० १७

अर्थात् आयु, जीवन की पवित्रता, बल, आरोग्य, सुख, प्रेम को बढ़ाने वाले सरस, चिकने, पुष्टिकारक, रुचिकारक आहार

सात्विक लोगों को प्यारे होते हैं। बस यही गुण जिन पदार्थों में हों, उन्हीं का भोजन करना चाहिए। अब रजोगुणी और तमोगुणी आहार, जिनका त्याग करना चाहिए, बतलाते हैं :—

कट्वम्बलवणतीक्ष्णरूजविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥

गीतां, अ० १७

कड़वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे और कलेजे को जलाने वाले आहार राजसी मनुष्यों को पसन्द आते हैं। ये दुःख, शोक और रोग उपजाते हैं। अतएव इनको त्यागना चाहिए। अब तमोगुणी आहार देखिये :—

यातयाम गतरसं प्रतिपर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसत्रियम् ॥

गीता, अ० १७

एक पहर का रक्खा हुआ, नीरस, सड़ा-बुना, जूठा और अशुचि (मांसादि) तमोगुणी लोगों का भोजन है। इस भोजन को भी अत्यन्त निकृष्ट और त्याज्य समझना चाहिए।

इसके अतिरिक्त देश-काल का भी विचार करके जहाँ जिस समय जैसा आहार मिलता हो उसमें से सात्विक और अपने लिये हितकर आहार ग्रहण करना चाहिए। भोजन बहुत अधिक नहीं करना चाहिए; किन्तु पेट को कुछ खाली रखना चाहिए। भगवान् मनु कहते हैं :—

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्ग्यं चातिभोजनम् ।

अपुण्य लोकविद्विष्टं तस्मान्नात्परिवर्जयेत् ॥

मनु०, अ० २

बहुत भोजन करना आरोग्य, आयु और सुख के लिए हानिकारक है। इससे पुण्य भी नहीं और लोगों में निन्दा होती है। इसलिए बहुत भोजन नहीं करना चाहिए।

भोजन के पहले और पीछे हाथ-पैर और मुख भलीभाँति धो डालना चाहिए। भोजन ठीक समय पर करना चाहिए। प्रातःकाल १० बजे और सायंकाल को सूर्य डूबने के पहले भोजन कर लेना चाहिए। भोजन सिर्फ सायं-प्रातः दो ही बार करना चाहिए। बीच में जल के अतिरिक्त और कुछ नहीं ग्रहण करना चाहिए। महाभारत में कहा है :—

सायंप्रातर्मनुष्याणामशनं , देवनिर्मितम् ।

नान्तरा भोजनं दृष्टमुपवासी तथा भवेत् ॥

महाभारत, शान्तिपर्व

सुबह शाम दो ही बार भोजन करना मनुष्यों के लिये देवताओं ने बनाया है, बीच में भोजन नहीं करना चाहिए। इससे उपवास का फल होता है।

पीने के लिये शुद्ध जल से उत्तम पदार्थ और कोई भी नहीं है। गौ का शुद्ध ताजा दूध भी प्रातःकाल ७ बजे के लगभग ग्रहण किया जा सकता है। परन्तु बहुत लोगो की सम्मति है कि दुग्ध इत्यादि भी भोजन के साथ ही लेना चाहिये, अलग पीने की आवश्यकता नहीं। बीच-बीच में तो केवल शुद्ध जल ही ग्रहण करना चाहिए। आयुर्वेद के आचार्य महर्षि सुश्रुतजी शुद्ध जल का लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं :—

निर्गन्धमव्यक्करसं तृष्णाघ्नं शुचि शीतलम् ।

अच्छं लघु च हृद्यं च तोयं गुणवदुच्यते ॥

सुश्रुत, सूत्रस्थान, अ० ४५

जिसमें किसी प्रकार की सुगन्ध या दुर्गन्ध न हो, किसी प्रकार का विशेष स्वाद न जान पड़े, जिससे प्यास मिटे, पवित्र हो, शीतल हो, अच्छा हो, हलका हो, प्रिय हो, ऐसा जल गुणकारी माना गया है। इसी प्रकार का जल सेवन करना चाहिए। भोजन के सम्बन्ध से जल का सेवन इस प्रकार बतलाया गया है :—

अजीर्णं भेषजं वारि जीर्णं वारि वलप्रदम् ।

भोजने चामृतं वारि भोजनान्ते विषप्रदम् ॥

चाणक्यनीति

अजीर्ण में जल औपधि का काम करता है और भोजन पच जाने पर जल बलदायक होता है। भोजन करते समय बीच में थोड़ा-थोड़ा जल पीते रहने से वह अमृत की तरह लाभदायक होता है। परन्तु भोजन के अन्त में बहुतसा जल एकदम पी लेने से वह विष की तरह हानिकारक होता है।

प्रथम तो भोजन अपने घर का ही, शुद्धता के साथ बना हुआ, ग्रहण करना चाहिए। फिर जिनके यहाँ का हमको विश्वास हो, जो पवित्र मनुष्य हों, जिनका व्यवसाय पवित्र हो, मद्य, मॉस का सेवन न करते हों, धर्मात्मा हों, ऐसे लोगो के यहाँ भी भोजन ग्रहण करने में कोई हानि नहीं।

इसके सिवाय भक्ष्याभक्ष्य में अफीम, गाँजा, भांग, चरस, मद्य, ताड़ी, वीडो-सिगरेट, चाय इत्यादि सबका निषेध है। अर्थात् जितनी नशीली चीजे हैं, उनका कभी सेवन न करना चाहिए। नशीली चीज का लक्षण आयुर्वेद में इस प्रकार दिया गया है :—

बुद्धिं लुम्पति यद्द्रव्यं मदकारी तदुच्यते ।

शाङ्गधर, अ० ४

अर्थात् जिस चीज के सेवन से बुद्धि का नाश होता है, वही चीज नशीली है। उसका सेवन न करना चाहिए।

ब्रह्मचर्य



ब्रह्म का अर्थ है—ईश्वर, अथवा विद्या । सो ईश्वर अथवा विद्या के लिए जो आचरण किया जाय, उसका नाम है ब्रह्मचर्य परन्तु ब्रह्मचर्य का साधारण अर्थ आजकल वीर्यरक्षा से लिया जाता है । इसलिए यहाँ पर हमें वीर्यरक्षा का ही विचार करेंगे । विद्यार्थियों से सम्बन्ध रखनेवाले विशिष्ट ब्रह्मचर्य पर हम आश्रम-धर्म में लिख चुके हैं ।

वीर्यरक्षा मनुष्य का प्रधान धर्म है । मनुष्य जो कुछ भोजन करता है, उसके कई प्रकार के रस तैयार होने के बाद मुख्य धातु या वीर्य तैयार होता है । यह वीर्य शरीर का राजा है । इसी से मनुष्य की शक्ति और ओज कायम रहता है । मनुष्य के शरीर से जब ओज नष्ट हो जाता है, तब वह जीवित नहीं रहता । आयु-वेद में इसका इस प्रकार वर्णन किया गया है :—

ओजस्तु तेजो धातूनां शुक्रान्ताना परं स्मृतम् ।

हृदयस्थमपि व्यापि देहस्थितिनिबन्धनम् ॥

अर्थात् शुक्र आदि शरीर के अन्दर जितनी धातुएँ हैं, उन सब से एक अपूर्व तेज प्रकट होता है और उसी को ओज कहते हैं । यह यद्यपि विशेषकर हृदय में ही स्थिर रहता है, परन्तु उसका प्रभाव सारे शरीर में व्याप्त रहता है, और यही शरीर की स्थिति कायम रखता है । अर्थात् इसका जब नाश हो जाता है, तब शरीर नष्ट हो जाता है ।

इससे पाठको को मालूम हो जायगा कि, मनुष्य के लिए वीर्यरक्षा की कितनी आवश्यकता है । मनुष्य यदि अपने वीर्य

को अपने शरीर के अन्दर धारण किये रहता है, तो उसकी शारीरिक उन्नति और मानसिक उन्नति बराबर होती रहती है। शरीर और मन में नवीन स्फूर्ति सदैव बनी रहती है। वीर्यरक्षा करने वाले मनुष्य का कोई विचार निष्फल नहीं जाता। वह जो कुछ सोचता है, करके ही छोड़ता है। आज तक जितने महा-पुरुष संसार में हो गये हैं, वे सब ब्रह्मचारी थे। ब्रह्मचर्य के बल पर ही उन्होंने कठोर से भी कठोर कार्य सिद्ध किये थे। यहाँ तक कि वेद में कहा है कि—

ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युमुपाप्नत ।

अर्थात् ब्रह्मचर्य और तप के बल पर ही देवता लोग मृत्यु को जीत लेते हैं। भीष्म पितामह की कथा सब को मालूम है। ब्रह्मचर्य के बल पर ही उनको इच्छामरण की शक्ति प्राप्त थी, उन्होंने मृत्यु को जीत लिया था। बाणों के विद्रोह होने पर भी, अपनी इच्छा से, बहुत दिन तक जीवित रहे। उसी दशा में सब को धर्मोपदेश दिया, और जब उन्होंने इस संसार में रहना आवश्यक न समझा, तब स्वेच्छा से शरीर का त्याग किया। परशुरामजी, हनुमानजी, इत्यादि अनेक बालब्रह्मचारी भारतवर्ष में हो गये हैं, जो हमारे लिए ब्रह्मचर्य के आदर्श हैं। वर्तमान समय में भी स्वामी दयानन्दजी आदर्श ब्रह्मचारी हो गये हैं, जिन्होंने भारतवर्ष को घोर निद्रा से जगाया और उनका कोई भी उपदेश अथवा कार्य निष्फल नहीं गया। भारतवासी धीरे-धीरे उन्हीं के उपदेश पर आ रहे हैं।

आजकल प्रायः देखा जाता है कि हमारे स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थी वीर्यरक्षा पर विलकुल ध्यान नहीं देते। कई प्रकार से—मुष्टिमैथुन इत्यादि की कुटेव से—अपने वीर्य को नाश किया-

करते हैं। हाय ! उनको नहीं मालूम कि, हम अपने हाथ से अपने जीवन पर कुठाराघात कर रहे हैं। वीर्य का एक-एक बूँद मनुष्य का जीवन है। कहा है कि—

मरणं बिन्दुपातेन जीवनं बिन्दुधारणात् ।

अर्थात् वीर्य का एक बूँद भी शरीर से गिरा देना मरण है और एक बूँद की भी अपने अन्दर रक्षा कर लेना जीवन है। स्वामी रामतीर्थजी ने लिखा है कि, मनुष्य के शरीर के अन्दर दो रक्त होते हैं। एक लाल रक्त जो मामूली रक्त है और एक सफेद रक्त जो वीर्य है। जब एक बूँद भी रक्त मनुष्य के शरीर से किसी कारण निकल जाता है, तब तो उसको बड़ा पश्चान्ताप होता है कि, हाय ! इतना रक्त मेरा निकल गया। पर सफेद रक्त (वीर्य) जो शरीर का राजा है, उसको व्यर्थ ही हम जान-बूझकर, क्षणिक सुख के लिए, शरीर से निकाल दिया करते हैं। यह कितने दुःख की बात है।

आह ! वीर्यक्षय से आज न जाने कितने होनहार नवयुवक अकाल ही काल के गाल में चले जा रहे हैं। आयुर्वेद में स्पष्ट लिखा हुआ है :—

आहारस्य परंधाम शुक्रं तद्द्रव्यमात्मन ।

क्षये ह्यस्य बहून् रोगान् मरणं वा नियच्छति ॥

अर्थात् मनुष्य जो प्रतिदिन नियमित आहार करता है, एक मास के बाद उसका अन्तिम रस अर्थात् वीर्य तैयार होता है— उसकी पूर्ण यत्न से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उसके क्षय होने पर अनेक रोग आ घेरते हैं। यही नहीं बल्कि मनुष्य की जीवन-लीला की अन्तिम यवनिका भी पतन हो जाती है। इसलिए मनुष्य को ब्रह्मचर्य की रक्षा प्रत्येक दशा में करनी चाहिए। पतंजलि ऋषि ने अपने योगसूत्रों में लिखा है :—

ब्रह्मचर्यप्रतिष्ठायां वीर्यलाभः ।

योग०

ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा से बल-वीर्य की प्राप्ति होती है । वीर्य को नाश करने वाले आठ प्रकार के मैथुन विद्वानों ने बतलाये हैं :—

दर्शनं स्पर्शनं केलिं प्रेक्षणं गुह्यभाषणम् ।

संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिष्पत्तिरेव च ॥

एतन्मैथुनमष्टांगं प्रवदन्ति मनीषिणः ।

विभरीतं ब्रह्मचर्यं जह्यात्तन्न कदाचन ॥

अर्थात् दर्शन, स्पर्श, केलि, नेत्रकटाक्ष, एकान्त में भाषण, संकल्प, प्रयत्न, कार्यनिष्पत्ति ये आठ प्रकार के मैथुन (स्त्री-प्रसङ्ग) विद्वानों ने बतलाये हैं । इनसे वचना ही ब्रह्मचर्य है, जिसको कभी छोड़ना न चाहिए । ब्रह्मचर्य छोड़ने से और क्या-क्या हानि होती है, इस विषय में गौतम ऋषि का वचन लीजिये :—

आयुस्तेजो बलं वीर्यं प्रजा श्रीश्च महद्यशः ।

पुण्यं च सुप्रीतिमत्वं च हन्यतेऽब्रह्मचर्यया ॥

अर्थात् ब्रह्मचर्य न धारण करने से आयु, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी और तेज, महायश, पुण्य, प्रेम इत्यादि सब अच्छे-अच्छे गुणों का नाश हो जाता है ।

यह नहीं कि विवाह करने के पहले ही मनुष्य ब्रह्मचारी रहे, बल्कि विवाह कर लेने के बाद, अपनी स्त्री के साथ भी, ब्रह्मचारी रहना चाहिए । हम यह नहीं कहते कि, वह स्त्री का सर्वथा त्याग कर दे; किन्तु हमारा तात्पर्य इतना ही है कि, स्त्री के रहते हुए भी उसको वीर्यरक्षा का ध्यान रखना चाहिए । स्त्री-संग सिर्फ सन्तान-उत्पत्ति के लिए है । इन्द्रिय-सुख के लिये वीर्य का नाश न करना चाहिए ।

रामायण के पढ़ने वालों को मालूम है कि, महावली मेघनाद को मारने की किस्ती में शक्ति न थी। उस समय भगवान् रामचन्द्रजी ने कहा कि, इस महावली राक्षस को वही मार सकेगा, जिसने बारह वर्ष अखण्ड ब्रह्मचर्य का साधन किया हो। लक्ष्मणजी श्री रामचन्द्रजी के साथ वन में बारह वर्ष से पूर्ण ब्रह्मचारी थे। इनके मन में कभी कोई अपवित्र भाव नहीं उठा था। इसलिए लक्ष्मणजी ने ब्रह्मचर्य के सहारे ही मेघनाद पर विजय प्राप्त की। इसी प्रकार महाभारत में चित्ररथ गन्धर्व के अर्जुन द्वारा जीते जाने की कथा है। उसमें लिखा है कि, महावीर अर्जुन ने जब चित्ररथ को जीत लिया, तब चित्ररथ ने कहा :—


ब्रह्मचर्यं परो धर्मः स चापि नियतस्त्वयि ।

यस्मात्तस्मादहं पार्थ ! रणेऽस्मिन् विजितस्त्वया ॥

अर्थात् हे पार्थ ! ब्रह्मचर्य ही परम धर्म है। इसका तुमने साधन किया है और इसी कारण तुम मुझको युद्ध में पराजित कर सके हो।

कहाँ तक कहे, ब्रह्मचर्य की जितनी महिमा कही जाय, थोड़ी है। इसलिए ब्रह्मचर्य अर्थात् वीर्य की रक्षा करके मनुष्य को अपना जीवन सफल करना चाहिए।

स्वामी दयानन्द के विषय में लोग क्या कहते हैं ?



महात्मा गांधी

‘महर्षि दयानन्द भारत के आधुनिक ऋषियों में, सुधारकों में, श्रेष्ठ पुरुषों में एक थे, उनका ब्रह्मचर्य, उनकी विचार-स्वतंत्रता, उनका सबके प्रति प्रेम, उनकी कार्यकुशलता इत्यादि गुण लोगों को मुग्ध करते थे ।’

माता कस्तूरी बाई

‘स्वामी दयानन्द केवल आर्य-मजाजियों के लिए ही नहीं, बरन् सारी दुनियां भर के लिए पूज्य है ।’

पंजाब-कैसरी ला० लाजपतराय

‘स्वामी दयानन्द मेरे गुरु हैं, मैंने संसार में केवल उन्हीं को एकमात्र अपना गुरु माना है ।’

राजा श्री दुर्गानारायणसिंह बहादुर

‘स्वामी दयानन्द नवीन युग के पथप्रदर्शकों में से एक हैं । यदि उन्हें इय गणना में सर्वोच्च स्थान दे तो लेशमात्र भी अतिशयोक्ति न होगी ।’

राजा मोतीचन्द सी. आई. ई.

‘मैं स्वामी जी को हिन्दू जाति का रक्षक मानता हूँ, उन्होंने गिरती हुई जाति को बचा लिया, लोगों की आंखें खोल दी ।’

रेवरेण्ड टी. डी. सले

‘जिसे स्वामी दयानन्दजी ने सचाई समझा उसे स्वतन्त्रता-पूर्वक स्वीकार किया, जिसे निकृष्ट और मिथ्या समझा उसे निर्भयतापूर्वक सब के सामने रख दिया ।’

कवि-सम्राट् रवीन्द्रनाथ ठाकुर

‘आलस्य और प्राचीन ऐतिहासिक तत्त्व के अज्ञान से मुक्त कर भारत को सत्य और पवित्रता की जागृति में लाने वाले गुरुवर दयानन्द को बार-बार प्रणाम है ।

श्री एन० सी० केलकर

‘स्वामी दयानन्द जैसे परमोदार पर संकीर्णता का दोष लगाना भ्रमात्मक और अयुक्त है । मैं आर्य समाज को आदरणीय समझ उसे पूज्य दृष्टि से देखता हूँ ।’

ला० हरदयाल एम० ए०

‘स्वामी दयानन्द ने हिन्दू युवकों के हृदय में त्याग, परोपकार और देश भक्ति की ज्योति जगा दी । हिन्दू जाति को जो धर्म शिक्षा इस समय मिली है, उसका सारा श्रेय स्वामीजी को है ।’

श्री माधवराव सप्रे

‘इसमें सन्देह नहीं कि महर्षि दयानन्द की दिव्य-प्रेरणा से भारतवर्ष में आर्य-समाज ने बहुत प्रशंसनीय कार्य किया है ।’

डाक्टर पी. सी. राय

‘आर्य-समाज ने हमारी मातृभूमि के उद्धार के लिए बहुत कुछ किया है, अतएव वह हमारी चिरकृतज्ञता का पात्र है ।’

श्री पीरमुहम्मद यूनिस्

‘महर्षि दयानन्द ने अपने विद्याबल, कर्म-बल और तपोबल से सारी निर्बलताओं, अकर्मण्यताओं और बुराईयों को दूर कर दिया । हिन्दुओं को सच्चा और वेदात्प्रायी बनाया ।’

सर एडवर्ड डगलस-मैकजेगन (भूतपूर्व गवर्नर पंजाब)

‘पंजाब में जितने समाज हैं उन सब में आर्यसमाज सर्वोत्कृष्ट है। इसका संगठन बड़ा उत्तम है। यह राजनैतिक संस्था अपितु धार्मिक समाज है।’

मौलाना अब्दुल बारी

‘स्वामी दयानन्द ने हिन्दू धर्म को हमारे सामने इस भाँति रक्खा कि हम उस पर बुद्धि से विचार कर सकें।’

पाल रिचर्ड

‘स्वामी दयानन्द निस्सन्देह ऋषि थे। उन्होंने अपने महान् भूत और महान् भविष्य को मिला दिया। वह राष्ट्र को पुनर्जीवित करने वाले थे।’

कर्नल आल्काट

‘निःसन्देह स्वामी जी एक महान् पुरुष, संस्कृत के गम्भीर विद्वान्, उत्कृष्ट साहस और स्वावलम्बन से युक्त तथा मनुष्यों के नेता थे।’

महात्मा एन्ड्रयूज

‘स्वामी दयानन्द मृत्युपर्यन्त निर्भय रहे और मृत्यु आई तो उन्होंने मुस्कराते हुए उसका स्वागत किया। प्रसन्नतापूर्वक चोटों को सहते, पर किसी दूसरे को चोट पहुँचाने से घृणा करते थे।’

प्रोफेसर मोक्षमूलर

‘स्वामी दयानन्द एक विद्वान् थे जो अनेक देशों के धार्मिक साहित्य से पूर्ण अभिज्ञ थे। उनके धर्म नियमों की नींव ईश्वरकृत वेदों पर थी। उनका वेद कण्ठाग्र थे, उन के मन व मस्तिष्क में वेदों ने घर किया हुआ था।’

मैडम बलैवटस्की

‘यह सत्य है कि स्वामी शंकराचार्य के अनन्तर भारत में स्वामी दयानन्द से अधिक संस्कृत का विद्वान्, उनसे बढ़ कर प्रत्येक बुराई को उखाड़ने वाला, उन से अधिक कथनशक्तिवाला दार्शनिक उत्पन्न नहीं हुआ ।’

लो० बालगङ्गाधर तिलक

‘स्वामी दयानन्द विचित्र प्रतिभाशाली पुरुष थे, हिन्दू समाज में विशेषकर उत्तरीय भारत में समस्त जागृति का श्रेय उनको है ।’

जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे

‘स्वामी दयानन्द पूर्व जन्म के संस्कारी आत्मा थे । आर्य धर्म के तत्त्व को यथार्थ रूप में संसार के सन्मुख रखने में स्वामी जी ने कुशाग्र बुद्धि का परिचय दिया है । हिन्दू समाज इस विषय में सदैव उनका कृतज्ञ रहेगा ।’

महामना गोपालकृष्ण गोखले

‘वेदों के विषय में स्वामीजी का मत कितना ग्राह्य है मैं कह नहीं सकता, किन्तु मैं उनको (Greatest Social Reformer) सबसे श्रेष्ठ समाजसुधारक मानता हूँ ।’

शिवकुमारजी शास्त्री महामहोपाध्याय

‘इस युग में देववाणी का उद्धार स्वामी जी ने ही किया है—इससे भारतवर्ष में क्रांति हो रही है ।’

योगी अरविन्द घोष

‘वेदों के भाष्य के विषय में हमें विश्वास है कि अन्तिम सर्वागसम्पूर्ण भाष्य चाहे जो हो परन्तु वेद भाष्य की सच्ची चाबी

के आविष्कर्ताओं में श्री स्वामी दयानन्दजी को सब से प्रथम मान दिया जायगा ।'

डा. स्टाक. डी. डी. ने शिकागो (अमरीका) की धार्मिक प्रदर्शनी में कहा—

'वर्तमान समय में संस्कृत का एक ही बड़ा विद्वान, साहित्य का पुतला, वेदों के महत्व को समझने वाला, अत्यन्त प्रबल नैयायिक यदि भारतवर्ष में हुआ है तो वह सड़िपि दयानन्द सरस्वती था ।'

वेद-पथ

वैदिक आचार-विचार-व्यवहार का प्रचारक एकमात्र

मासिक-पत्र

प्राहक बनिये और बनाइये !

वार्षिक मूल्य ५३)

पता :—

स्वामी वेदानन्द तीर्थ
अध्यक्ष

सर्वदेशिक दयानन्द संस्थासी वानप्रस्थ मंडल
ज्वालापुर, हरिद्वार जिले सहारनपुर

तांत्रिक संध्यापासन

आर

श्री देव्याः स्तुति

“माथुर ट्रेडिंग कम्पनी राजपूताना लि०”

अजमेर

ने

संशोधन करके प्रकाशित किया

मुद्रक

दि काइन आर्ट प्रिन्टिंग प्रेस, अजमेर.

प्रकाशित
१९३४

१९३४

मूल्य १।

श्री गणेशाम्बिकाभ्यां नमः

श्री गुरवे नमः ॥

अथ संध्यावन्दनं लिख्यते ॥

आसन हेटे जलसूं त्रिकोण कर प्रार्थना कीजै ॥

पृथिव त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता ।
त्वं च धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम् ॥

आसन कै जल को छोटो दीजै ॥ प्रार्थना कीजै

पद्मासनाय नमः विमलासनाय नमः

दर्भासनाय नमः इति ॥

पाछै हाथ जोड़ चारुं दिसां ने नमस्कार कीजै ॥

पूर्वे इन्द्राय नमः । आग्नेये अग्नेये नमः ।

दक्षिणे यमाय नमः । नैऋत्ये राक्षसाय नमः ।

पश्चिमे वरुणाय नमः । वायव्ये पवनाय नमः ।

उत्तरे कुबेराय नमः । ईशाने ईश्वराय नमः ।

ऊर्ध्वे ब्रह्मणे नमः । अधः अनन्ताय नमः ।

भस्ममूलेन हृदि ललाटे वाह्वौ हस्तौ नाभौ पादौ
सर्वांगे च धारयेत् ॥

विभूती ने हाथ में ले मंत्र पढणो ॥

ॐ भ्रां भ्रीं भूं भ्रैं भ्रों भ्रूः भस्मांगी हुं फट्
स्वाहा ॥

पाछें मूल मंत्र सूं धारण करणो ॥ पाछें त्रिआचमन ॥

ऐं आत्म तत्वाय स्वाहाः ॥ १ ॥ क्लीं विद्या
तत्वाय स्वाहाः ॥ २ ॥ सौः शिव तत्वाय स्वाहाः ॥ ३ ॥

संकल्प भरणो ॥

ॐ विष्णुः २ अद्य ब्रह्मणो द्वितीये परार्द्धे
श्री श्वेतवाराहकल्पे जंबूद्वीपे भरतखंडे रामराज्ये
मासानां मासोत्तमे मासे अमुक मासे अमुक पक्षे
अमुक तिथौ अमुक वासरे अमुक गोत्रो अमुक
नाम वर्माहं उपपातकदुरित क्षयार्थे श्री बाला
त्रिपुर सुन्दरी प्रसन्नार्थे प्रातः तथा मध्यान्ह तथा
सायं तांत्रिक संध्योपासनमहं करिष्ये ॥ इति ॥

पुनः जलपूरित दूसरा पात्र पर अंकुश मुद्रा कर श्लोक
बोलणो ॥

गंगे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति ।

नर्मदे सिंधु कावेरि जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥

पश्चात् वाम हाथ में जल लेकर हं यं रं लं वं इस मंत्र को उस जल पर बोलकर दाहिने हाथ में लेकर अपने बांये नासिका से यं १६ बार पूरक फिर दोनूं नासिका अंगूठे और उंगलियो से बंद करके रं ६४ बार फिर बांये नासिका को दबा कर लं ३२ बार जप के अपने बांये अंग की तरफ वज्र शिला चिंतवन कर पाप पुरुष के दहन करने के लिये वह जल क्रोध दृष्टी से छोड़ देणा फिर हस्त प्रक्षालित करके मूल मंत्र से पूर्वोक्त तीन आचमन करना पाछै वाम हात में इंपात्र का जल लेकर दाहिने हात के अंगूठे अनामिका सूं ७ बार शिर पर मूल मंत्र सूं छांटा देणा । पाछै आचमनी भर विनियोग बोलणो ॥

अस्य श्री दक्षिणा भूर्ति ऋषिः पंक्ति छंदः
श्री बाला त्रिपुर सुंदरी देवता ऐं बीजं क्लीं कीलकं
सौः शक्तिः ममेष्ट सिद्धयर्थे आवाहने जपे विनि-
योगः इति ॥

पाछै न्यास करणा ॥

दक्षिणा भूर्ति ऋषये नमः शिरसि ॥ पंक्ति
छंदसे नमः मुखे ॥ श्री बाला त्रिपुर सुंदरी
देवतायै नमः हृदये ॥ ऐं बीजाय नमः गुह्ये ॥ सौः

शक्तये नमः पादयोः ॥ क्लीं कीलकाय नमः सर्वगि ॥
 ऐं अंगुष्ठाभ्यां नमः ॥ क्लीं तर्जनीभ्यां नमः ॥ सौः
 मध्यमाभ्यां नमः ॥ ऐं अनामिकाभ्यां नमः ॥ क्लींः
 कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ सौः करतलकरपृष्ठाभ्यां
 नमः ॥ ऐं हृदये बीजाय नमः ॥ क्लीं शिरसे स्वाहा ॥
 सौः शिखायै वषट् ॥ ऐं कवचाय हुं ॥ क्लीं नेत्र-
 त्रयाय वौषट् ॥ सौः अस्त्राय फट् ॥

अथ ध्यानं ॥

बालार्क मण्डला भासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनाम्
 पाशांकुशधनुर्वाणं धारयन्तीं शिवां भजे ॥

पाछै अर्घ देणो तीन बार ॥

ऐं वागीश्वरी विद्महे क्लीं कामेश्वरी धीमहि ॥
 सौः तन्नः शक्तिः प्रचोदयात् ३ ॥

पाछै ३ समय अर्घ, गायत्री को देणा ॥

प्रातः ॥ ऐंः त्रिपुरादेवी विद्महे ॥ नागीश्वरी
 धीमही । तन्नः वागीश्वरी प्रचोदयात् ३ ॥

मध्यान्ह ॥ क्लीं त्रिपुरादेवी विद्महे कामेश्वरी
धीमहि । तन्नः कामेश्वरी प्रचोदयात् ३ ॥ सायं
सौः त्रिपुरा देवी विद्महे शक्तीश्वरी धीमहि ।
तन्नः अमृता प्रचोदयात् ३ ॥

तीनूं समय उपर लिखा मूजिव अर्घ देवता ने और सूर्यने ॥

ॐ ह्रां ह्रीं हूं ह्रौं ह्रूं ह्रः मातर्तड भैरवाय

प्रकाशशक्तिसहिताय एष तेर्ध्य स्वाहा ॥

अर्ध्य देणा पाछै हात जोड़ ध्यान करणो ॥

सूर्य मंडलमध्यस्थे गायत्रि पररूपिणि ।

आगच्छ वरदे देवि प्रवेश हृदये मम ॥ इति ॥

पाछै मुद्रा दिखाणो ॥

शंख, चक्र, गरुड़, मत्स्य, धेनु, अंकुश, योनी ॥

पछै गायत्री १० मूल मंत्र १०८ माला सूं जपणो फेर
गायत्री १० पछै जल ईं मंत्र सूं देवता कै डावां वाजू आपके
जीवणी वाजू छोड़णा ॥

गुह्याति गुह्य गोपत्रीत्वं गृहाणास्मत् कृतं जपं ।


सिद्धिर्भवतुमे देवि त्वत् प्रसादन्महेश्वरि ॥

पछै पाठ स्तोत्र को कर धेनुयोनी मुद्रा सूं नमस्कार करणो
प्रर्थना करणी ॥

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरि ।
 यत्पूजितं मया देवि परिपूर्णं तदस्तु मे ॥
 पापोहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभव ।
 त्राहिमां पुंडरीकाक्ष सर्व पापहरो भव ॥

पञ्च आसन के हैटै की मुद्रा जल सूं विगाड़णी ॥ इति संध्या ॥

अथ प्रथमा शोधनं ॥

विदुत्रिकोण यंत्र  कर ऊपर मूल १० जपजे ऊपर
 आधार रख के मूल १० जपजे ऊपर तीर्थ को घट रख कर
 अक्षत तथा जल का छांटा सू

ओं व्रां व्रीं व्रँ व्रौं व्रः ब्रह्मशापविमोचनाय
 सुधादेव्यै नमः ३ वार ॥ ओं रां रीं रूं रँ रौं रः
 रुद्र शापविमोचनाय सुधादेव्यै नमः ३ वार ॥
 ओं स्वां स्त्रीं स्त्रँ स्त्रौं स्त्रः शुक्रशापविमोचनाय
 सुधादेव्यै नमः ३ वार ॥ ओं क्रां क्रीं क्रँ क्रौं क्रः
 कृष्णशाप विमोचनाय सुधा देव्यै नमः ३ वार ॥
 जपणों ॥ गायत्री ॥ ओं ऐं सुधा देव्यै विद्महे
 ओं क्लीं अमृतेश्वरी धीमहि ॥ ओं सौः तन्न
 अर्द्धनारीश्वरी प्रचोदयात् ॥ ३ वार इति ततो
 मूलं ऐं क्लीं सौः १० जपेत् ॥ धेनु मुद्रां प्रदर्शयेति
 प्रथमा शोधनं ॥

अथ द्वितीया ॥

तीर्थ का छांटा दे कर गायत्री तीन बार ॥

ओं ऐं वनचराय विद्महे ओं क्लीं तीक्ष्ण-
शृंगाय धीमहि ओं-सौः तन्नः पशू प्रचोदयात् ॥

मूल १० जपणो । इति द्वितीया शोधनं ॥ २ ॥

तृतीया ॥

तीर्थ को छांटो दे कर गायत्री तीन बार जपणो ॥

ऐं जलचराय विद्महे मत्स्यरूपाय धीमहि
तन्नः मीनं प्रचोदयात् ॥

मूल १० जपणो ॥

ततो चतुर्थी ॥

तीर्थ को छांटो देकर गायत्री ३ बार ॥

ऐं गोधूमाय विद्महे महा पिष्टाय धीमहि
तन्नः मुद्रा प्रचोदयात् ॥

मूल १० जपणो ततो तर्पणं

आसनो पविश्य तीर्थं द्वितीया मूलेन संशोध्य ॥



यंत्र यथा विलिख्यैतदुपरि आधारं
तदुपरि पात्रं सविंदु स्थापयेत् मूल
१० जपेत् शिरसि पुष्पांजलिं ॥

श्रीनाथादिगुरु त्रयं गणपतिं पीठ त्रयं भैरवं ।
सिद्धौघं बहुकृ त्रयं पदयुगं द्विति क्रमं मंडलं ॥
वीरान्द्विष्ट चतुष्ट षष्ट नवकं वीरावली पंचकं ।
श्री मन्मालिनिमंत्र राज सहितं वंदे गुरो मंडलं ॥
नमस्कृत्य ॥

अथ पात्रवंदनविधिः ॥

श्रीमत्छंकर शेखर प्रविलसच्छंद्रामृतं प्लावितं ।
क्षेत्राधीश्वरयोगिनी गणमहासिद्धैः समाराधितं ॥
आनंदागमनं नवात्मकमिदं साक्षात् त्रिखंडामृतं ।
पात्रं तत्प्रथमं करांबुजगतं वंदे सुरासिद्धिदं ॥१॥

ॐ ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि स्वाहा ॥ १ ॥

सर्वाम्नाय कलाकलाप कुतुकं कौतूहलांदोलितं
इंद्रोपेंद्रमहेंद्रचंद्रकिरणं ब्रह्मादिभिः सेवितं ॥

ध्यानं देव तवांघ्रिपंकजयुगं मोक्षार्थिभिः सर्वदा ॥
 लोकानां शुभवृद्धिदायकमिदं पात्रं द्वितीयं भजे ॥
 ओं ह्रीं सर्वतत्त्वं शोधयामि स्वाहा ॥ २ ॥

हैमं सिद्धिरसावहं दयितया दत्तं च पेयादिकं ।
 किञ्चिच्चंचलरक्तपंकजदृशा तस्मै रमानंदया ॥
 वामे स्वादुविशुद्धतत्वसहितं पाणौ निधायात्मने ॥
 वंदे पात्रमहं तृतीयमधुनाज्ञानैकसंबर्द्धनं ॥ ३ ॥
 ओं क्लीं शक्तितत्त्वं शोधयामि स्वाहा ॥ ३ ॥

मद्यं मीनरसावहं हरिहरब्रह्मादिभिः सेवितं ।
 मुद्रा मैथुनधर्मकर्मसहितं क्षाराम्लतिक्ताश्रयं ॥
 आचार्याष्टकसिद्धभैरवकलामांसेन संशोधितं ।
 पायात् पंचमकारतत्वसहितं पात्रं चतुर्थं च तत् ॥
 सर्वतत्त्वं शोधयामि स्वाहा ॥ ४ ॥

गणेशं पंचमं पात्रं भुक्तिमुक्तिप्रदायकं ।
 गन्धपुष्पार्चितो देवगङ्गायां कृतनिर्मलं ॥
 सर्व धर्मकलागमादिकपरं वेदैर्मुखे भाषितं ।
 देवानामपि दुर्लभं सुखकरं गुप्तं रहस्यान्वितं ॥

आनंदोद्भवनादविंदुपरया शक्त्या लसद्भैरवं ।
पीतं ब्रह्मरसं सदोदितमयं पात्रं सुधापंचमं ॥
आनन्दतत्त्वं शोधयामि स्वाहा ॥ ५ ॥

छत्रं चामरभद्रपीठपरमानन्दादिकं दायनं ।
वामा राज्यमनोहरं सुखकरं सायुज्यसाम्राज्यदं ॥
नानाव्याधिभवांधकारहरणं जन्मान्तरच्छेदनं ।
श्रीमत्सुन्दरितर्पणं द्रविरसं पात्रं सुधापष्टमं ॥
उन्मुनीदेहं शोधयामि स्वाहा ॥ इति पष्टमं ॥ ६ ॥
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितूर्यसहितं चैतन्यसाक्षिप्रदं ।
विद्युद्भास्करवन्हिचंद्रधनुषं ज्योतिःकलाव्यापितम्
इडा पिंगल मध्यगात्रि वलिता शतकुंडलीचोर्ध्वका
पात्रं सप्तमपूरणेन त्वरिता नंदादिकं पातुं मां ॥
गुरुतत्त्वं शोधयामि स्वाहा ॥ इति सप्तमं ॥ ७ ॥
खड्गं पादुकमंजनं च गुटिका सारस्वतं सम्प्रदं ।
मद्यं सप्तसमुद्रवारिपिशितं देहस्थितेः कारणं ॥
वांछासिद्धिकरं मनःस्थितिकरं वश्यं जगद्योपितं ।

पात्रंचाष्टममष्टसिद्धिकरणं प्रौढप्रतापोदितं ॥

आनन्ददेहं शोधयामि स्वाहा ॥ इति अष्टमं ॥ ८ ॥

गोरक्षत्रादिनवनाथतपोधनायां ।

पीत्वा तु सायनसुधापिशितार्पितायां ॥

सायुज्यताय सखलापददायनायां ।

यस्य प्रदाय नव पात्रमिदं गृहीत्वा ॥

सच्चिदानन्ददेहं शोधयामि स्वाहा ॥

इति नवमं ॥ ९ ॥ पूर्णाहुति ॥


पूर्णाहुतिं महापूर्णा पूर्णाद्या पूर्णमेव च ।

पूर्णपूर्णपराध्याये पूर्णपात्रं पिवाम्यहं ॥

श्री गुरु आनन्दानन्ददेहं शोधयामि स्वाहा ॥

इति पात्रवन्दनं ॥ पात्रं प्रक्षाल्य ॥

गुरवे निवेदयेत् ॥



अथ श्री जी की स्तुत्यांलिखते ॥

प्रथम श्री रघुनाथ स्तुति

राग काफ़ी ॥

श्री गुरु चरण सरोज अली चितछाड़ भ्रमत किन श्री गुरु चरण
सरोज ॥ टेक ॥ अति कोमल सुचिरु चिर प्रफुल्लित छवि पराग की
चोज ॥ अली चित छा० ॥ १ ॥ अमल मधुर मधु वारि प्रज्ञा रित
हरत ताप त्रिय ओज ॥ अली चित छा० ॥ २ ॥ सौरभ चारु
पदारथ फैलित तहां करी सुख मुख मोज ॥ अली चित छा० ॥ ३ ॥

श्री गणपति स्तुति

राग भैरूं ॥

गणेश गरवो माथै मरवो घुंमतडो घर आवै लौं ॥ रिद्धि सिद्ध
वाके लार कही जे पंछी चंवर दुलावे लौं ॥ मूपक वाहन भाल चंद्रमां
मोदक भोग लगावे लौं ॥ गणेश गरवो माथै मरवो घुं० ॥ १ ॥
ऐक दन्त लम्बो दर शोभित दीर्घ सूंड दरसावै लौं ॥ गणेश गरवो
माथै मरवो० ॥ २ ॥

अथ शिवस्तुति

राग भैरूं तितालो चरचरी ॥

शंकर महादेव देव सेवक सब ज्याके ॥ टेक ॥ भस्मी अंग
शीश गंग वाहन अति बल प्रचंड गिरजा अरधंग संग भंग रंग

झाके ॥ शंकर महादेव देव सेवक० ॥ १ ॥ लपट झपट जात व्याल
 ओढण तन जरद खाल रुंड माल चंद्र भाल द्रग विशाल वाके ॥
 शंकर० ॥ २ ॥ पावत नहीं पार शेष ध्यावत सुर नर मुनेश गावत
 हैं गुन गणेश ब्रह्मादिक ताके ॥ शंकर० ॥ ३ ॥ दानव कुल प्राण
 हरे डमरू पर ध्यान धरे ऐसे बहु भेष करे नील कंठ वाके ॥ शंकर०
 ॥ ४ ॥ तान सेन अति अनूप शंकर को देख रूप वारूँ कोटेक
 भूप चरनों पर याके ॥ शंकर० ॥ ५ ॥

राग भैरूँ ॥

मैं तोरे शरणाई अम्बे मैं तोरे शरणाई ॥ टेरे ॥ ब्रह्मा बखानी
 तोहि वेद में विष्णु ध्यान लगाई ॥ तू सांची जगदंबे तो को शेष
 सहश्र मुख ध्याई ॥ मैं तोरे शरणाई अंबे मैं० ॥ १ ॥ भूमी भार
 उतारन जननी शुंभ निशुभ पै धाई ॥ ज्यों ज्यों भार परी भक्तन
 मै तबही भई सहाई ॥ मैं तोरे० ॥ २ ॥ 'ज्वाला' कर जोर करत
 वीनती सुन लीज्यो महा माई ॥ भवसागर तैं पार उतारो हो
 प्रतिपाल सदाई ॥ मैं तोरे शरणाई अंबे० ॥ ३ ॥

राग सोरठ ॥

अंबेजी री नीकी हो याही वान ॥ अधमा अधम शरन ज्यों
 आवै ताको करत कल्याण ॥ अंबे अंबे हम कोई भाषै नव निध
 देत अचान ॥ जन्म २ सरन ज्यो आनंद ताको कौन बखान ॥ अंबे
 जी री नीकी हो याही वान ॥ १ ॥

सोरठ ॥

अंवा म्हारी नीकी हो जीवन मूर ॥ अंवा म्हारी सांची हो
जीवन मूर ॥ पोषन प्रथम उदर विच कीनो पांख परत पय पूर ॥
गोद खिलाय पलन विच पाल्यो नेक न राख्यो दूर ॥ अंवा० ॥ १ ॥
अन्यदेव जाचै क्यो आनन्द घट घट जननी नूर ॥ अष्ट पहर हृदा
विच राखूं नहि या में कछु कूर ॥ अंवा म्हारी सांची हो० ॥ २ ॥
म्हाने प्यारो लागै अंवा थारो वेस ॥ जरकस सारी सिर पै सोहै
सोधे भोना केस ॥ घुमड़ रही लोयणा लाली मानू माणक भेस ॥
आनन उमग भरयो अति आनंद वारूं कोटि दिनेस । महाने ॥ ३ ॥

राग काफ़ी ॥

महर निजर भर भांकी हो अंवे राणीजी ॥ कुर कुराई कुसंगी
संगी तोहू वालक थाको ॥ अरचन रचित रचत नहि जिय
को भजन नहीं कोऊ रसना को ॥ आनंद अचित सदा जिय मांही
एक भरोसो सो माको ॥ ४ ॥

तू म्हारी जुजमान, आनंदी तू म्हारी जुजमान ॥ टेर ॥ और
किणी नै जाचत नाही तो पै मांगूं वरदान ॥ आनंदी तू म्हारी ॥१॥
सतजुग, द्वापर, त्रैता, कलियुग सब मे फिरै थारी आण ॥ श्रीजी
तू म्हारी ॥ २ ॥ हो जगदंवे तो पद पंकज निशि वासुर मेरो ध्यान ॥
आनंदी० ॥ ३ ॥ कान्हा व्यासरी आही वीनती सन्तां राखो मान ।
आनंदी ॥ ४ ॥

तुमसौं मेरो ध्यान हो आनंदी आनंदी आनंद करणी मय्या
 दुख दारिद्र चिता हरणी ॥ टेरे ॥ नगर कोट निज धाम तिहारो
 सोवन कलश दोपंदी ॥ १ ॥ ऊंचो सो देवल तिहारो दीसै मईया
 लाल धजा फहरंदी ॥ २ ॥ छत्तोस बाजा तिहारै नोवत बाजै मईया
 रुण भुण घंदक वंदी ॥ ३ ॥ अकबर शाह तेरो जस गावै मईया
 नूर महल हाजर बंदी ॥ ४ ॥

स्तुति ॥

(अथ शिवनाथ कायस्थ ज्वालानाथ सुत कृत)

हूं तनै पूजूं हे म्हारी जननी शिवजी री प्यारी ॥ टेरे ॥

भला विराज्या मिदंर माही, बणी छवि भारी ॥ अजि हूँ ॥
 देख देख छवि आनंद होवै ॥ दरसण व्याधि दुःख सब खोवै ॥
 दरसण थारो हे म्हारी जननी, आनंद कारी ॥ हूं तनै पू० ॥ १ ॥
 गोर वदन भुज च्यार विराजै ॥ रक्त वख पद्मासन छाजै ॥
 श्रीजी की सोभा कहा मैं वरणूँ, है अति भारी ॥ हूं तनै पू० ॥ २ ॥
 नागण सी वैणी सिर सोहै ॥ दोऊ नैन मृग-से मन मोहै ॥
 मुखड़ो थारो चिमकै मानूँ, चन्द्र उजियारी ॥ हूं तनै पू० ॥ ३ ॥
 जब असुरां सैं सुर घवराया ॥ थारे पास पुकारण आया ॥
 असुरां नै थे मार खपाया, विपत निवारी ॥ हूं तनै पू० ॥ ४ ॥
 मनुष कहाँ सुर नर तोय ध्यावैं ॥ सीस निवाय चरण चित लावैं ॥
 वेदन में ब्रह्मा तोय गावैं, जग महतारी ॥ हूं तनै पू० ॥ ५ ॥
 भीड़ पड़े भक्तन पर जब ही ॥ चढ़ी सिंह पर आवै तबही ॥

दूर करै छिन भर मे अम्बा, आफत सारी ॥ हूं तनै पू० ॥ ६ ॥
 कहै शिवनाथ सुणो म्हा माई ॥ तव चरणां में रहूँ सदाई ॥
 सोय भगोसो थारो भारी, अंवेजी म्हारी ॥ हूं तनै पू० ॥ ७ ॥

स्तुति ॥

मैं दास तिहारो २ ॥ डेर ॥ मंदिर माहीं आप विराजो नीको
 दरणस थारो ॥ भवसागर में डूब रह्यो हूं सो थे पार उतारो ॥ सेवक
 रो सब संकट टारो ॥ मैं दास तिहारो ॥ १ ॥ कलकत्ता मे काली
 देवी नगर कोट मे ज्वाला । सिंह सवारी साथे चालै भैरुं गोरा
 काला । तव चरणां चित राखो म्हारो ॥ मैं दास तिहारो ॥ २ ॥
 अपणो विरद विचारो हे माता मम करणी मत जीवो । करुणां
 सुण ने महर करावो क्लेश कष्ट सब खोवो । हरष करो दुःख द्वन्द
 निवारो ॥ मैं दास तिहारो ॥ ३ ॥ पैर खड़ाऊ चालै रिम किम
 घुघरियां घमकावै । इण भैरुं ने पत्री पाठो कार्मीं तेल सुहावै ।
 मतवारो भैरुं लटियारो ॥ मैं दास तिहारो ॥ ४ ॥ निस दिन जो
 अम्बा नै ध्यासी दुःख कदेय न पासो । दुखी होय तव द्वारे आसी
 सुखी होय कै जासी । पासो वांछित मांगण वारो ॥ मैं दास
 तिहारो ॥ ५ ॥ मैं तो पापी मन्द मती हूँ भूल रह्यो छं थानै ।
 थानै भूल्यां कदेय न सरसी मोसा दीन जनानै । थै तो थारो विरद
 विचारो ॥ मैं दास तिहारो ॥ ६ ॥ कहै शिवनाथ सुणो हे माता मैं
 हूं दास तिहारो । निज चरणां में राखो जननी आठ पहर चित

म्हारो । मैं तो हूँ चेलो चरणां रो ॥ मैं दास तिहारो ॥ ७ ॥

स्तुति ॥

अम्बा ! तव चरणां रो मैं हूँ दास हे ॥ हां ये म्हारी जननी
म्हाने तो थारी मोटी आस है ॥ सोने सिहासन आप विराजो सोहे
थारो थान । पास ही भैरवनाथ पर ध्यान धरुं मैं निस दिन वाको
ध्यान ॥ कलजुग मे सांची महामाई को विधी करुं बखाण ॥
अग ! तव ॥ १ ॥ नौरात्र में होय थरपनां पूजे सब संसार ।
नउ दिन्आनंद हरष अपार चड़े नित दारू हंदी धार ॥ ज्यो धावैं
सोही फलपावै सरे तुरन्त सब कार ॥ अम्बा ! तव च० ॥ २ ॥
भक्त उवाण दुःख निवारण तीन लोक की माय । भवानी कीज्यो
म्हारी सहार, वेग तू चढी सिंह पर आय ॥ भीड़ पड़्यां जो थानै
सिमरैं शशे दुःख सब जाय ॥ अम्बा ! तव च० ॥ ३ ॥ गया जुद्ध
से हाग्देवता जद ही करी पुकार । राक्षसां दीनो दुक्ख अपार
भग्ना लीज्यो अवै उवार ॥ चढी सिंह पर आई चंडी लिया
असुर सब मार ॥ अम्बे ! तव च० ॥ ४ ॥ हाथ जोड़ कर करुं
वीनती हाजर है ' शिवनाथ ' दया को रखो ऊपर हाथ सुनो हे
त्रिभुवन दीना नाथ ॥ मिन्दर मांहीं आप विराजो चोसठ जोगण
साथ ॥ अम्बा ! तव च० ॥ ५ ॥ इति ॥



राग धनासरी ॥

दरशण री वलिहारी हे अम्बे दरशण री वलिहारी ॥ अति
 सुन्दर अभिराम सांवरी सुरत अति सुखकारी जी ॥ पूरण
 सरस सुधानिधि मुख पर कोटि चंद्र छविवारी हैं ॥ अम्बे ॥ १ ॥
 लोचन त्रपत निमप नहीं पावें निरखत वारं वारी जी ॥ देखे
 सुने अनेक देव पै नहिन भई अनुहारी हैं ॥ अम्बे ॥ २ ॥ सब
 सों सरस तोहि सों जननी लागी सुरत हमारी जी ॥
 ब्रह्मादिक सब सेवक तेरे सेवा करत तिहारी है ॥ अम्बे ॥ ३ ॥
 खड्ग त्रिसूल गदा कर खप्पर शत्रु सदा भयकारी जी
 निश दिन बसो वृंद जन के हिय जिन की प्रेम पिया ॥
 अम्बे ॥ ४ ॥

राग श्याम कल्याण ॥

(मुं० फतहलाल सीमलोत अजमेरी कृत)

आयो मै शरणागत थारी, न्हारी सुधि लीजिये ॥
 मैं दुःखिया मेरो संकट टारो २, मोहे सुख दीजिये ॥ १ ॥
 माता, माता, माता, माता, तोहे को पुकारूं २, दुःख दूर कीजिये ॥ २ ॥
 काम क्रोध माता लोभ मदमातो हूँ २, मोक्ष मोय दीजिये ॥ ३ ॥
 'फतहलाल' माता विनति करत है २, भक्ति दान दीजिये ॥ ४ ॥

राग खमाच ॥

ऊपर न्हारे कीज्यो जी कर दे माय ॥ टेर ॥ १ ॥ दोहा ॥

करणी हरणी विघन की हरणी खांडे जैत । सादी आवे सेवगां
 वाढे ली वर जैत ॥ ऊपर० ॥ १ ॥ हूं वारी धज ऊपरै लाज
 रखो वनयाल । करुणा दे कांटा तणी तोहि सरमघटियाल ॥
 ऊपर० ॥ २ ॥ बाढाली डोकरी थई कै तू गई विदेस । खूनां
 बिन किंहुं को सजै निज वीकाणै देश ॥ ऊपर० ॥ ३ ॥ वीकानेर
 उबारियो बल जे राख्यो कोट ॥ चारेठ 'अमरा' री बीनती आयो
 तिहारी ओट ॥ ऊपर० ॥ ४ ॥ देवत सब ही देवता करणी
 समान न कोय । वीकानेर उबारियो जो सत्य परच्यो जोय ॥
 ऊपर० ॥ ५ ॥

राग सोरठ ॥

म्हारो लाग्यो रे अंबा सूं ध्यान ॥ टेरे ॥ मा त्रिपुरा
 पंचासन रुढा अरज सुनो धर कान ॥ १ ॥ तोहि को गाऊं तोहि
 को रिभाऊं दया करो जन जान ॥ २ ॥ दुंशमन दूर करो
 दारिद्र को राखो लाज धन मान ॥ ३ ॥ मदद करण इण समय
 आज की देवि बिन नाहि आन ॥ ४ ॥

राग काफ़ी ॥

तोरे पइयां परत हूं हे जगदंबा भावली ॥ तोरे ॥ अद्भुत रूप
 अजायब सुरत सुंदर छवि मन भावली ॥ 'करणी दान' के सकल
 मनोरथ तुमही करो उतावली ॥ तोरे० ॥ १ ॥

राग खमाच ॥

भवानी मेरी राखी है लाज तरी ॥ दोहा ॥ मात पिता सब
एक तुं तूही ग्यान आचार ॥ जप तप तीरथ करम तूं वेगि करो
निरधार ॥ भवानी० ॥ १ ॥ तड़फत हूं अति निश दिवश
माता सुनो पुकार । अरज करूं करणी तगै अम्बे रो आधार
॥ भवानी० ॥ २ ॥

राग काफ़ी ॥

दुरजन सों मै नाही डरूं रे ॥ धर यानी को ध्यान धरूं रे
॥ टेरे० ॥ हरि अम्बे हरि सूर्य विनायक पांचुहि इक सुमरूं रे ॥
दुरजन सों मै० ॥ सेवा साच शील वृत राखूं पाप भूँठ विसरूं
रे ॥ दीन भयो करणा अति भाखैं श्री विद्या के पाय परूं रे
दुरजन सो मै० ॥ २ ॥

श्री चामुंडा माता की स्तुति ॥

लावणी ॥

मु० फतहलाल सीमलोत अजमेर कृत

राख चामुंडा लाज म्हारी, आयो मैं शरणागत थारी ॥ टेरे ॥
प्रबल जब राक्षस हो आया । देवता सब ही धवराया ॥ मात थारी
चरणा चित लाया । शरण मे थारी ही आया ॥ चंड मुंड ने
मारकर हुई चामुंडा मात । असुरन मार खपाय कर तू हुई जग
मे विख्यात ॥ मात तू है दुःख काटन हारी ॥ राख चामुंडा लाज

म्हारी ॥ १ ॥ आयकर प्रवत मे ब्राजी । होय परसन्न फेर गाजी ॥
 होय अत्यन्त तूं ही राजी । कारज भक्तां का साजी ॥ भक्त अजै ने
 तूं दियो मन चायो बरदान । चित मन से चरणामें थारो जब वह
 कीनो ध्यान ॥ तूं है मनसा पूरण हारी ॥ २ ॥ राख चामुंडा० ॥
 अजै ने आय किया डेरा । पहाड़ तारागढ़ आ घेरा ॥ चश्मा पानी
 का हेरा । बसाया खेड़ा अजमेरा ॥ चीर हटा दरशाण दिया हँस
 कर जीभ निकाल । तुष्ट हुयो मन मांही थारी मूरत देख विशाल ॥
 गयो वह थारी वलिहारी ॥ ३ ॥ राख चामुंडा० ॥ परिचा पिथुरा
 को दीना । और खुश होकर वर दीना ॥ उसे फिर दिल्लीपति
 कीना । राज भारत का देदीना ॥ गोरीशाह धावो कियो जब
 भारत पर आय । कुरुचेत्र का युद्ध बीच में ऊंने दियो हराय ॥
 चूड़ियां हाथां में डारी ॥ ४ ॥ राख चामुंडा० ॥ द्वार पर भैरव
 जटधारी । शोभा मन्दिर की भारी ॥ कुंड है पानी का जारी । दरस
 को आवे नर नारी ॥ रहे कुंड में जल भरथो, कदै न रीतो
 होय । काल पड़े जलको तवे भी कदै न सूखो होय ॥ मात है
 सकलाई थारी ॥ ५ ॥ राख चामुंडा० ॥ सम्भवत ॐ उन्नीससौ
 सत्यासी । चेत्र की है पूरनमासी ॥ स्तूती जो चित से गासी ।
 मनसा पूरी होय जासी ॥ 'फतहलाल मानकभंडारी, सीमलोत
 अजमेर' । हात जोड़ विन्ती करे, माता सब का दुःख निवेड़ ॥
 लगे चरणामें चित थारी ॥ ६ ॥ राख चामुंडा० ॥

(मुन्शी फतहलाल सीमलोत कृत)

तर्ज—(तू छै कलालन मोहिनी म्हारा आलीजाने लियो विलमाय)

दूसरी तर्ज—(भंवर थारी वादली म्हारो लैरयो भिगोयो जी राज)

तूं है अम्वा जगतारणी माता म्हारो कर उद्धार । थारी शरण
मै आगयो माता म्हारो जन्म सुधार ॥ टेरे ॥ थारो शरणो ही
लियो जब देव गया सब हार । असुरन मार खपाइया माता
होय सिंह असवार ॥ १ ॥ तूं है अम्वा० ॥ भक्त सहायक है
तुही माता भक्त उवारन हार । हात जोड़ विन्ती करूं माता
म्हारी ओर निहार ॥ २ ॥ तूं है अम्वा० ॥ मैं अज्ञानी अवगुणी
माता कीना पाप अपार । पाप हरो अपराधि को माता विन्ती
वारम्वार ॥ ३ ॥ तूं अम्वा ॥ माता २ मै करूं माता तूं है सुख
की दाय । विपदा मै तो हे रटूं माता म्हारी करजो सहाय ॥ ४ ॥
तूं है अम्वा ॥ 'फतहलाल' विन्ती करे माता चरण में सीस
निवाय । भक्ति दान देवो ईश्वरी म्हारी जन्म २ सुखदाय ॥ ५ ॥

(६ अगस्त १९२९)

राग सोरठा ।

अम्वा जी री म्हैदी माणक रंग ॥ रंग रंगीली अति चट-
कीली राची रंग सुरंग ॥ इण म्हैदी मन मोह लियो है मोहो
मोहो शिव जूको अंग ॥ वनमाली की सुन सुन वतियां हिय
मे अति ही उमंग ॥ अंवा जी री म्हैदी० ॥

राग ।

निरधारा आधार सरणै राखो हे अम्बा ईश्वरी ॥ टेरे ॥
 अम्बाजी अमृत फल ज्यो अंबज्युं । विष फल कुणही जुखाय ।
 म्हारै तो तुम विना कोई नही । जननी पार उतार । भव सिधु
 डूबता तारिया, अब मोहि तारो हे माय । जिहाज राखो हे अम्बा
 ईश्वरी ॥ १ ॥ अम्बा जी पाणी तो परवल थयो, माभां राखो हे
 माय, मेघ उलटियो असाढ रो । वणो वाजै छै बाय ॥ भव सिधु०
 ॥ २ ॥ अम्बाजी मोतीड़ा अक्षत कर्या । हीरा लाल जड़ाव ॥ सेवग
 आया अम्बाजी रै जातरी । ज्यांरी पूरो जी आस ॥ भव सिधु० ॥ ३ ॥
 अम्बाजी सोला जी सिणगार साजिया केसर खोल बणाय ।
 पाय घमक्वै देवीरै घूघरा । पायल रो भणकार ॥ भव सिधु० ॥ ४ ॥
 अम्बाजी कानांजी कुंडल जिगमिगै । हिवडै सोहेजी हार । नैणा
 जि सुरमो सारियो । विदली रतन जड़ाव ॥ भव सिधु० ॥ ५ ॥
 अम्बाजी अगली जनमें महेश्वरी । दस गिलक्यारी जु खाय ।
 गढ डिढ-वाणारी राय । लाज राखो हे अम्बा ॥ ६ ॥ अम्बाजी
 पक्ष बढ़ायो तुम तणो । तैनी मूकूं जी माय । सेठ भवानी
 जी री करुणा करी । अम्बे पार उतार ॥ भव सिधु डूबत
 तारोयो० ॥ ७ ॥

राग ।

तू तो म्हारी आद भवानी हे, कांगड़े में ज्वाला माई ॥ टेरे ॥
 सिर कंचन को हे, हांये अम्बा छत्र विराजै, मोतियन लूम बणाई ॥

तू तो म्हारो० ॥ १ ॥ हरी हरी पीपल हे, हांये देवी वार तुम्हारै
तो वड़ सोहै पिछावई ॥ तू तो० ॥ २ ॥ खीर खांड रा हे, हांये अम्बा
इमरत भोजन पांनन की पिचकाई ॥ तू तो० ॥ ३ ॥ सिध
चढ़ी देवी हे, हांये मइया गरजत आवे तो लो कड़ियो अगवाई
॥ तू तो० ॥ ४ ॥

बधाई ।

स्यामीजी थारै दरवार वाजत रंग री बधाई हे माय
॥ टेर ॥ देवी जी तणो मंडप चंदन चिर च्यों दे दे धार सवाई ॥
हे मा बधाई ॥ १ ॥ सोना रा थाम मोतीड़ा रा आखा सेवग आण
चढाई ॥ हे मा बधाई ॥ २ ॥ सब सखियन मिल मंगल गावैं
साधकड़ां नव निध पाई ॥ हे मा० ॥ ३ ॥ नगर कोट म्हारी
अम्बा जी विराजै खेम कुशल गुण गाई ॥ हे मा० ॥ ४ ॥

॥ टेर ॥ अम्बे दरशण री वलिहार हे ॥ अम्बे ॥ दोहां ॥
शिर सोने को छत्र विराजै सीस फूल भर मांग मोतियां
सोहै जड़ाऊ हार ॥ भंवारा भंवरा भवैस थारो चंचल नयन
सुप्यार ॥ अम्बे० ॥ १ ॥ करण फूल कानां बिच भूमर हलकां
घूंघर वाली विदली नथ सोहै भलकार ॥ नागन सी वैनी वनी
स थारै सोहै चन्द्र कटार ॥ अम्बा० ॥ २ ॥ कर कंकण
वंहियां वाजू वंद लूंवा लटक रही है तापर सोहै जड़ाऊ चूर ॥
बेल छाप की सुघड़ मूंदड़ी महिसां है भरपूर ॥ अम्बा० ॥ ३ ॥

घेर घुमालो घाघरो सनै ओदण दिखणो चोर भवानो सभ
 सोल्है सिगार ॥ सहाय करो अपने संतन की होय सिंह अस-
 वार ॥ अम्बा० ॥ ४ ॥ प्रथम भुजा प्रथमा की सीसी दूजै हात
 दुतियान ॥ तीजै हात त्रिनियारी तयारी चतुर भुजा करपान
 अम्बा ॥ ५ ॥ अम्बे तेरे मुख के आगै वावन बीर जोगिणी
 चोसट निरत करत है भैरुं ॥ रिमजिम भिमभिम वाजै घूगरा
 डिमक डिमक डफ डेरू ॥ अम्बा० ॥ ६ ॥ खड़ग खप्र त्रिशूल हात
 में देत अभय वरदान तोहि को ध्यावै सकल जहान ॥ दुशामन
 रा बटका करो स थे संता राखो मान ॥ अम्बा० ॥ ७ ॥ ब्रह्मा,
 विष्णु, महेश, शेष अरु ध्यावे सुर तेतीस देवता सदा करो
 जु सहाय ॥ 'दास सवाई' करे बीनती कदे न निसफल जाय ॥
 अम्बा० ॥ ८ ॥

राग ।

हो शिव प्यारी जी अंबा हो मतवारी जी अंबा जी थे म्हानै
 प्यारा लागे जी ॥ शिव प्यारी जी अंबा हो मतवारी जी अम्बा ॥

॥ टेरे ॥ दोहा ॥ बसन सुरंग जड़ाऊ जेवर नैक ध्यान सुख
 धाम ॥ चंड मुंड चूरण किया जी थे राखी छै देव कलाम ॥ हो
 शिव प्यारी जी अंबा हो ॥ १ ॥ नाना रूप धरयो अति सुंदर भक्त
 उधारण काम ॥ आठ जाम चौसट घड़ी जी न्ही विसरुं पल नाम ॥
 हो शिव ॥ २ ॥ पूरव जन्म सुकृत किया जी जे कोई रटे जु नाम ।

वारवार योहि आसरो म्हारै शिव प्यारी शिव श्याम ॥ हो शिव
॥ ३ ॥ जोगीदास जुगल कर जोरै खानाजाद मुदाम ॥ भवसागर
तै पार उतारो मैँ कुरसी वंद गुलाम ॥ हो शिव ॥ ४ ॥

राग माँढ

हो अंबेजी हे थां रो हि म्हारै तो ध्यान हे । तूँही पार उतार हे
दयानिधि हांये ईश्वरी है हो अंबेजी हे थांरो हि म्हारै तो ध्यान ॥
॥ दोहा ॥ तुम जननी जगदंब हो पतित उधारनहार ॥ भीर परै
जनकौ तवैँ तुम्ही करत हो सार ॥ दयानिधि हां ये ईश्वरी हे ।
हो अम्बेजी हे थांरो हि म्हारै तो ध्यान । ध्यान हे तू ही पार ॥ १ ॥
मधुकैटभ को नाश करि । धूम्रनैन दयोमार ॥ चंडी चंडरु मुंड की
छिन मे कियो प्रहार ॥ असुर दल भंजनी हे । हो अंबेजी हे थांरो
हि म्हारै तो ध्यान । ध्यान हे तूही पार ॥ २ ॥ रक्तबीज के रक्त को
पल मे कर गई पान ॥ शुंभ निशुंभ पछारि कै हन्यो असुर अभि-
मान ॥ असुर दल भक्षिणी हे । हो अंबेजी हे थांरोही म्हारै तो
ध्यान, ध्यान हे तूही पार ॥ ३ ॥ चंडी चिरताली सही मतवाली
महामाय ॥ सन्त सहाई ईश्वरी शत्रुसदा भयदाय ॥ शत्रु मुखा स्थंभिनी
हे । हो अम्बे जी हे थांरोही म्हारै तो ध्यान, ध्यान हे तूँही पार ॥ ४ ॥
भक्त ज्वाला की विनती सुन ज्यो हे सुर राय ॥ निज सन्तन की कीजिये
देश विदेश सहाय ॥ दयानिधि हांय ईश्वरी हे । हो अम्बे जी हे
थांरो ही म्हारै तो ध्यान । ध्यान हे तूँही पार उतार हे कृपा निधि
हांये ईश्वरी हे । हो अम्बे रानी थांरो हि म्हारै तो ध्यान ॥ ५ ॥

सोरठ ।

कीजै भक्त सहाय भवानी कीजै भक्त सहाय ॥ टेरे ॥ असुर
सिधारन सकल सुधारन जागत जो तिसुरराय ॥ मन बच क्रम कर
सेवा करूं जू दया करो महामाय । जोरावर पर किरपा कीज्यो
नागीणां री राय ॥ १ ॥

सोरठ ।

अम्बा जी म्हारी करणी रै सांमैं जी न न्हालो जी ॥ टेरे ॥
थे माइत म्हे थांरा छोरु इणी भांत प्रतपालो जी ॥

अम्बा जी म्हारी० ॥ १ ॥

काम क्रोध अभिमान भरथा छां नही लोभ सूं टालो जी ॥

‘जगरूप’ की याही वीनती राजरो विरद सम्भालो जी ॥

अम्बा जी म्हारी० ॥ २ ॥

(मु० फतहलाल सीमलोत कृत)

तर्ज—तरकारी लेलो मालनिया आई वीकानेर की

मोरी रक्षा कीजा शरणे आयो हे अम्बा ईश्वरी ॥ टेरे ॥

पूजा पाठ मै कछु नहि जानू हूँ मूरख अज्ञानी । तेरी दया

पर रखूं भरोसो महर करो महारानी जी ॥ मोरी रक्षा कीजो शरणे

आयो हे० ॥ १ ॥ इन्द्रासन महिषासुर जीत्यो देवत सब थर्राये ।

शक्ति हीन हो हरिहर ब्रह्मा तेरी शरण में आये जी ॥ मोरी रक्षा

कीजो० ॥ २ ॥ आदि शक्ति तोय जान भवानी तुम में ध्यान
 लगाया । सिंह पीठ असवार ईश्वरी चंडी रूप दिखायाजी ॥ मोरी
 रक्षा कीजो० ॥ ३ ॥ अस्त्र शस्त्र जब धारण कर ऊंची निगाह
 उठाई । हूं शब्द जब किया क्रोध कर तिरलोकी थरोईजी ॥ मोरी
 रक्षा कीजो० ॥ ४ ॥ असुरों के दल के दल लेकर महिपासुर अभि-
 मानी । चिक्षुर, चामर वापकुल आदिक सब ने युद्ध की ठानी जी ॥
 मोरी रक्षा कीजो० ॥ ५ ॥ कितेक दल तो घायल होगये, गये शेष
 दल मारे । घवराके रण मे महिपासुर, बहुत रूप फिर धारेजी ॥
 मारी रक्षा कीजो० ॥ ६ ॥ अस्त्र शस्त्र नानाविधि ले, महिपासुर
 फिर आया । सिंह झपट कर आन दवोचा, तूने सीस उडायी जी ॥
 मोरी रक्षा कीजो० ॥ ७ ॥ सब देवतने हर्ष पूर्वक, जै जै कार
 मनाये । गन्धर्वा ने महिमा गाई ऋषि पुष्प वरसाये जी ॥ मोरी
 रक्षा कीजो० ॥ ८ ॥ भक्ति भाव से जो कोई माता तेरी शरण में
 आवे । क्लेश कष्ट सब होय निवर्त्तन, मन वांछित फल पावे जी ॥
 मोरी रक्षा कीजो० ॥ ९ ॥ 'फतहलाल' तोय करे वीनती भक्ति दान
 मोय दीजे । सुख सम्पति की दाता माता सब की रक्षा कीजे जी ।
 मोरी रक्षा कीजो ॥ १० ॥

स्तुति ।

(मुन्शी आनन्दीदासजी की धर्मपत्नी चाहकँवरवाई की बनाई)

आज म्हारै शुभ री घड़ी अम्बाजी पधारथा सिरदार ॥ टेरे ॥
 अटल सिहासन वैठी सज राणी आभूषण भिलकार ॥ १ ॥ जग

मंग ज्योति दिवाकर ज्योती सन्त खड़ा मुनि द्वार ॥ २ ॥ आठ
 पहर मुखारविद् निरखूं तो ही न जात अधार ॥ ३ ॥ धन छै भाग
 आज श्री जननी त्रिपुर दरस दीदार ॥ ४ ॥ आनन्द रूप वैठी
 मन्दिर मे आनन्द सो दरवार ॥ ५ ॥ वरदेणी वरदायक दीजै वर
 दीजै अणयार ॥ ६ ॥ अष्ट सिद्धि नव निध मोहि दीजै अनन्त
 भडार अपार ॥ ७ ॥ 'चाह कंवर' तन मन सब वारै दरशणा रो
 नित चाव ॥ ८ ॥

राग परज ।

पार ब्रह्म रमणी हे जननी ॥ टेरे ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश प्रगट
 किया त्रिगुण रूप धरणी ॥ विद्या आद सकल जस जाहर कामेश्वर
 धरणी ॥ व्यापक रूप सकल घट घट में निगमागम वरणी ॥ शेष
 सुरेश गणेश सुर ध्यावै त्रिपदताप वरणी ॥ तव जस गाये परम पद
 पावै धन जीवन करणी ॥ प्रेम भक्ति दे पतित पावनी भवसागर
 तिरणी ॥ राम करण तव चरण शरश है भवसागर तिरणी ॥ ४ ॥

राग लावणी ।

वांसुरी वाजी अम्बा की । कमल खुल्या ब्रह्म चैतन होगया
 खबर भई तनकी ॥ टेरे ॥ अनहद शब्द उचारो हो अम्बा गुफा
 खोल सुन की ॥ बीज चिमकै वादल गाजै री किरपा गुरु गम की
 ॥ १ ॥ नाद शब्द ले चह्यो निगम कृं गङ्ग बहत बन की ॥ रवि

शशि मेला भरथा समन्द मे त्रिवेणी तनकी ॥ २ ॥ गङ्गा जमुना
 मधु पवन निरोगी भृकुटी खोलन की ॥ ईडा पिंगला मिल्या सुख
 में नाह हङ्कार धुन की ॥ ३ ॥ गगन मण्डल मे शब्द उत्तारै गुदा
 हो हो चरनन की ॥ बङ्क नाल होय पछिम चढावै खबर पड़े मन
 की ॥ ४ ॥ सुत मनसा की याही विनती कृपा करो मन की । जोग
 रम्भ सूं गावो अम्बे सहाय करो जन की ॥ वांसुरी ॥ ५ ॥

राग वरवा ।

श्री अम्बे महारानी, अम्बे धरि यांनी श्री० ॥ म्हारी सुध
 लीज्यो श्री अम्बे महारानी ॥ टेर ॥ मैं सठ कूर कुटिल महा भला
 जी कुटिल महा पापी ॥ तुम हो पाप मिटानी ॥ एजी अम्बा तुम
 हो पाप हटानी ॥ श्री अम्बे महारानी ३ म्हारी सुध लीज्यो श्री०
 ॥ १ ॥ काम क्रोध लोभ मद, भलाजी लोभ मदमातो ॥ दुरमति
 गति अभिमानी ॥ श्री अम्बे म्हारानी० ॥ २ ॥ पूत कपूत सुने बहु
 भलाजी सुने बहु देखे ॥ मातु कुमात न जानी, एजी अम्बे मातु
 कुमातु न जानी ॥ श्री अम्बे० ॥ ३ ॥ मैं दुखिया मेरो सङ्कट भला
 मेरी सङ्कट काटो ॥ जो नही करो आनां कानी ॥ श्री अम्बे० ॥४॥
 ज्वाला भक्त तिहारो हे । भलाजी तिहारो हे, वाला ॥ निश दिन तेरो
 ही ध्यानी । एजी अम्बा निश दिन तेरो ही ध्यानी ॥ श्री अम्बे
 म्हारानी । अम्बे म्हारानी श्री अम्बे म्हारानी ॥ म्हारी सुध लीज्यो
 जी थे म्हारी सुध लीज्यो श्री अम्बे धरियांनी ॥ ५ ॥

गजल

(मु० फकीरचन्द सीमलोत कृत)

सङ्कट निवारो मेरा जगदम्ब राजरानी । आयो शरण तिहारी
 तूँ महर कर भवानी ॥ १ ॥ तूँ है जगत की माता, तूँ है सकल
 विधाता । है आद अन्त तूँ ही, तूँ ही है मोक्ष दानी ॥ २ ॥ ब्रह्मा
 महेश विष्णु, तेरी शरण में आये । तूँ ने असुर सिंहारे तूँ ही है
 शत्रुहानी ॥ ३ ॥ भक्तों के काज सारे, सब द्वंद उनके टारे । सम्पत
 की तूँ है दानी, सब दुःख की है मिटानी ॥ ४ ॥ तेरी शरण मे
 आवे, चरणों में शिर निवावें । मन की भुराद पावें वह जो है तेरे
 ध्यानी ॥ ५ ॥ कर जोर अपने माता, विन्ती 'फकीर' करता । कायस्थ
 कुल पे रखियो तूँ अपनी महरवानी ॥ ६ ॥

राग काफ़ी हेरी ।

हो दोऊ खेलत रङ्ग गुलाल ॥ जोरी नवल किशोरी बाला
 जोवन अति ही रसाल ॥ हो दोऊ० ॥ १ ॥ भीने चीर नीर रस माते
 अङ्गन भिल कै लाल ॥ हो दोऊ० ॥ २ ॥ बसन सुरङ्गी सकुचे
 अङ्गन मानहु वूढै न लाल ॥ हो दोऊ० ॥ ३ ॥ यह छवि दम्पति
 नैन निलखिकै जकिथ किठाढे लाल ॥ हो दोऊ० ॥ ४ ॥ ज्यो ज्यों
 पोवै मद भर प्याले आनन्द अधिकत ख्याल ॥ हो दोऊ० ॥ ५ ॥

राग काफ़ी होरी मुश्त जाद ।

शिव अम्बे खेलै होरी ॥ टेरे ॥ केशर चंदन अतर अरगजा
 विविध सुगंधन घोरी ॥ नीर गुलाब गुलाल न घोरो तो वीर
 अवीर मिलौरी । सुकेशर होज भरोरी ॥ शिव अम्बे० ॥ १ ॥
 भुण्डन मिलकै चंडी आई लेले गुलाल न रोरी ॥ भरि भरि
 अंजलि डारै परस्पर ॥ रंगन परत फहोरी कहै सब होहो होरी ॥
 शिव अंबे ॥ २ ॥ ताल मृदंग उमंग चंग संग नाचत भामिनि
 भोरी । गावत नारि सवै मिलि गारी । तां उच्च सुरन रंग बोरी
 कहै अनुराग भिकोरी ॥ शिव अंबे ॥ ३ ॥ भूपन वसन सवी रंग
 भीने लालहि सब तन गोरी ॥ भूमक घूघर मै परत सब अंगना
 मानो दामिनि दौरी । व है मदमाती किशोरी ॥ शिव अंबे० ॥ ४ ॥
 पिवत सुधारस उमगी परस्पर, हिलिमिलि इक इक ओरी ॥
 सारद सुर सुर सचि है भवन मिलि तारा त्रिपुर संजोरी । जीवन
 मद मत्त मरौरी ॥ शिव अंबे० ॥ ५ ॥ लालहि लाल भई सब
 ललना लाल गुलाल लधोरी ॥ लाल मई भई ललिक ललिक कै
 लोलत भरत कमोरी, लहरै लावन सोरी ॥ शिव अंबे० ॥ ६ ॥
 अद्भुत रंग रचो मन मोहन कैलाशांगन पोरी ॥ सुर पुर तै सुर
 देखन आये, भुंड विमान मंभोरी । डारै भर फूलन भोरी ॥
 शिव अंबे० ॥ ७ ॥ धन्य भाग यह सुरन वधुन के शिव संग खेलै
 होरी ॥ पार ब्रह्म परमेशी हे भुवना, इवचल रहो या जोरी ॥
 आनंद के दृगन वसोरी ॥ शिव अंबे खेलै होरी ॥ ८ ॥

होरी श्री कामेश्वर शिव की है

त्रिपुरा खेलै होरी कामेश्वरी शिव संग ॥ वाला खेलै होरी कामेश्वर शिव संग ॥ टेरे ॥ अवीर गुलाल परसपर डारै बसन व्होरै रंग ॥ कर मनुहार उमा मद पावै पावै शिव मधु मिश्रित भंग ॥ त्रिपुरा खेलै होरी० ॥ १ ॥ जोगनि गावै गारि गीत हंसि वाजै ताल मृदंग ॥ ज्वाला के या छवि हिय में बस गई छाई है चित्त उमंग ॥ त्रिपुरा खेलै होरी कामेश्वर शिव संग वाला खेलै होरी, श्री कामेश्वर शिव संग० ॥ २ ॥

सोरठ ॥

म्हारी सुध लीज्यो त्रिपुरा, आद भवानीं ॥ टेरे ॥ विरह विथा कहा मुखसों उचारूं ॥ तुम हो जी अंतर ज्ञानी ॥ मै चाकर तक सीर करी पैं २ बरखश गुनो धरियानी ॥ म्हारी सुध लीज्यो त्रिपुरा० ॥ १ ॥ असुर संहारन संत उवारन तारन जग तोहि जानी ॥ वरदायक अरु भक्तसहायक वेद पुरान बखानी ॥ म्हारी सुध० ॥ २ ॥ सतयुग द्वापुर अरु त्रेता मे ॥ तुम भई जन सुखदानी ॥ अब कलि में विरियां मोहि दीन की २ जि न करो आनां जी कानी ॥ म्हारी सुध लीज्यो० ॥ ३ ॥ अष्ट पहर की चौसठ घड़ियां बक बक जीव थकानी ॥ जब या पेश करी मै पारजी अरजी सुन महारानी ॥ म्हारी सुध लीज्यो० ॥ ४ ॥

ज्वाला श्री वालाचरण शरण हैं मुन हो त्रिभुवन मांती ॥ कलमिप
 क्लेश कलह सब टारो २ तुम हो कृपा निधानी । म्हारी सुध लीज्यो
 त्रिपुरा आद भवानी ॥ ५ ॥ इति ॥

स्तुति प्राचीन ॥

अम्बेजी ! दीज्यो दरस सुर स्वामिनी ॥ मय्या महर करो सुर
 राय, दीज्यो दरस सुर स्वामिनी ॥ टेरे ॥ अम्बेजी ! छत्र सिंहासन
 रत्नाजड्या, मोतीडा री छवि अधिकाय । चंवर दसुं दिस दुल रह्या,
 थांरी सभा है सुंदर शोभाय ॥ दीज्यो दरस सुर स्वामिनी, मय्या
 महर करो सुर राय ॥ दीज्यो० ॥ १ ॥ अम्बेजी ! चार भुजा नूं
 त्रि-नयना. सूरज सहस्र दिपाय, हरि हर विरंचि थांनु वीनवै, थांरा
 चरण शरण चित ल्याय ॥ दीज्यो दरश सुर स्वामिनी ॥ मय्या
 महर० ॥ २ ॥ अम्बेजी ! एक हाथ वर देवणा, दूजै अभय पद दान,
 माला जी रिछा कारणै, पुस्तक करण कल्याण ॥ दीज्यो दरस सुर
 स्वामिनी० ॥ मय्या महर० ॥ ३ ॥ अम्बेजी ! कीर सरीसी थांरी
 नासिका, नथड़ी अति शोभाय, नैणा जी काजल घुल रह्यो, थांरा
 भंवर धनुष निमखाय ॥ दीज्यो दरश सुर स्वामिनी, मय्या
 महर० ॥ ४ ॥ अम्बेजी ! दंत पंकति हीरां जड़ी, मोतीडा दीपै
 छै लिलाट रसना रसीली थांरी रस भरी, सुंदर लाल मोफाड ॥
 दीज्यो दरस सुर स्वामिनी मय्या महर करो० ॥ ५ ॥
 अम्बेजी ! कोकिल कंठ सुहावणी, वोलत इमरत वेण ॥

हियो जी हरष शूं भर रह्यो, संतां करो सुख चैन ॥ दीज्यो दरस
 सुर स्वामिनी, मय्या महर करो० ॥ ६ ॥ अम्बेजी ! कानां जी
 कुंडल जगमगे, रवि शशि जोति उद्योत ॥ सीस मुकट रतना
 जड़्या, सहस्र सूरज सम जोत ॥ दीज्यो दरस सुर स्वामिनी,
 मय्या महर करो० ॥ ७ ॥ अम्बेजी ! वख सुरंग थारै सोहणा,
 चुड़लो लाल वणाय ॥ नख सिख आभरण रता जड़्या, जगमग
 जोति सिवाय ॥ दीज्यो दरस सुर स्वामिनी, मय्या महर करो०
 ॥ ८ ॥ अम्बेजी ! सकल सुरहि सेवा करै, थानू हरष हरष चित
 ल्याय ॥ जनमि श्री री वीनती, म्हानू भक्ति देहु सुख दाय ॥ दीज्यो
 दरस सुर स्वामिनी, मय्या महर करो ॥ ९ ॥

राजल ॥

तर्ज—वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ॥

अम्बाजी ने निज भक्तों के, मन चाहे कारज सारे हैं । जो
 उनकी शरणागत नहि वे फिरते मारे मारे है ॥ १ ॥ हरि हर ब्रह्मा
 हो शक्ति विना, छाया में जब उनकी आये । मधुकैटभ का संहार
 किया, अरु शंभ निशुंभ पछारे हैं ॥ २ ॥ महिषासुर ने जब इन्द्रासन
 छोना तब सुर घवराये । उस समय असुर का वध करके, भक्तों के
 संकट टारे है ॥ ३ ॥ रूपादे रानी जैमल की नैवेद्य की थाली भरलाई ।
 फूल माल अरु पान किये, भक्तों के यो रखवारे हैं ॥ ४ ॥ देशणोक
 वासिनी करणी में, अति भाव भक्ति को दरसाई । जो अपने हाथों

सागर में, सेठों के जहाज उबारें हैं ॥ ५ ॥ मुन्शी माधव की बेड़ी कटा, लजा भली विधि से राखी है । ज्यों ज्यों विपदा आई भक्तों पै, त्यों त्यों दुःख विडारे हैं ॥ ६ ॥ 'फतहलाल' विनय करता बित से, माई भक्ति दान मुक्त का दीजे । सब भक्तों की रक्षा कीजे, जो तेरे बहुत ही पियारे हैं ॥ ७ ॥

सोरठ ॥

थे तो म्हारी काया जी नगर रा छो राव ॥ थां मूं म्हानै जो जुक्ति रो छै चाव, थे तो म्हारी काया जी नगर रा छो राव ॥ टेर । दोहा ॥ ईड़ा पिंगला संग रहै सुखमन महवन जाय ॥ मनवारा ज्युं घूमत फिरो लागी छै अलख जी मूं लोय ॥ थे तो म्हारी० ॥ १ ॥ भंवर गुफा भाटी चुवै ब्रह्म अगन की भाल ॥ पंच सखी मिल प्यालो पीवो सहज मची छै मतवाल ॥ थे तो म्हारी० ॥ २ ॥ दिन बादल विजली खिवैं, फिरसर वरमै मेह ॥ शिवशक्ति भेला रमै नित्य नवे लो नेह ॥ थे तो म्हारी० ॥ ३ ॥ मूल महल खिड़की खुली गगन रह्यो सरमाय ॥ सुन्य महल का तखत पर जोगिड़ी रह्यो छै लुभाय ॥ थे तो म्हारी० ॥ ४ ॥ वेद थक्या पौराण थक्या थक्या जी किताय कुरान ॥ ठाई तो ठाकर कहै समझोगे रांत सुजाण ॥ थे तो म्हारी काया जी नगर रा छो राव थां मूं म्हानै० ॥ ५ ॥

अथ ज्वालानाथ कृत्य मानसी ।

राग कालिंगडो ॥

टेर ॥ थांरा गुण गावां जी म्हे, थांरा गुण गावां । अम्बे महारानी जी म्हे थांरा गुण गावां ॥ टेर ॥ गंगा जल असनान करावां वसन भूषण पहरावां जी म्हे थांरा गुण गावां अम्बे महारानी जी म्हे थांरा० ॥ १ ॥ गंध अक्षत अरु पुष्प चढावां धूप अगर महकावां जी म्हे थांरा गुण गावां अम्बे महा० ॥ २ ॥ सुप्रकाश सो तिमर प्रहारी दीपक जोति दिखावां जी म्हे थांरा गुण गावां० ॥ ३ ॥ व्यंजन थाल पात्र मधु पूरित, राज भोग पधरावां जी म्हे थांरा गुण० ॥ ४ ॥ शीतल तोय मधुर अति निरमल मध्ये पान करावां जी म्हे थांरा गुण० ॥ ५ ॥ उत्नोदक सूं अन्त भोजन के कर मुख शुद्ध करावां जी म्हे थांरा गुण गावां० ॥ ६ ॥ तांबूल ऋतुफल अरु दक्षिणा भेट राजरी लावां जी म्हे थांरा गुण० ॥ ७ ॥ जोति कपूर सूं करां आरती दरस देख सुख पावां जी म्हे थांरा गुण गावां० ॥ ८ ॥ दर्पण दिव्य सूरज मंडल सो सनमुख आन दिखावां जी म्हे थांरा गुण गावां० ॥ ९ ॥ चरण शरण ज्वाला बलिहारी लुल लुल सीस निवावां जी म्हे थांरा गुण गावां० ॥ १० ॥

सोरठ ॥

स्यामा जी रो रूप निहारूं आज ॥ टेव ॥ इत स्यामा इत

शिव जी विराजै २ बीच वसै गणराज ॥ स्यामा जी रो० ॥ १ ॥
 असुर संहारनी खलु दल मारनी २ जय गिरजा महाराज ॥
 स्यामा जी रो० ॥ २ ॥ शत्रु विदारन श्री त्रिपुरारी जु भक्त
 सुधारण काज ॥ स्यामा जी रो० ॥ ३ ॥ ज्वाला श्री स्यामा दास
 तिहारो दीजे सबै सुख साज ॥ स्यामा जी रो० ॥ ४ ॥

(मुन्शी खुशवक्तराय महसदासोत कृत)

(तर्ज—अर्जी सुण अम्बा चत्र भुजा से मोरी वीनती)

सुण करुणा मोरी संकट मे कीज्यो अम्बा सहाय हे ॥ टेर ॥
 तुम राजन की राज हो स मैया मै दासन को दास २ हाथ जोड़
 विनती करूं स मां मेटो जम की फास जी सुण० ॥ १ ॥ कायथ कुल
 है दास तिहारे हलका बंद गुलाम छाप तिहारी लग रही स में वन्दा
 हो विन दामजी ॥ सुण० ॥ २ ॥ तुम से ऊंचो कौन है स माता तूं
 राजन की राज । महर निजर भर जोवो हे ज्वाला पूरो मन के काज
 जी ॥ सुण० ॥ ३ ॥ पूजन पाठ कष्ट नहीं जानू जानू हूं नाम तिहारो ।
 अपने नाम री लाज रखो तो बेड़ो पार सिकारो जी ॥ सुण० ॥ ४ ॥
 मै बालक अज्ञानी हूं मैया तुम हो मात अरु तात । २ हलका
 बन्द गुलाम स हूं म्हारो दुख मे पकड़ो हात जी ॥ सुण ॥ ५ ॥ मेरा
 दुख कव लग कहूं स तुम सब ही जाणन हार । २ रखो लाज सरणे
 आया री जल्दी संकट टार जी ॥ सुण० ॥ ६ ॥ बार बार मै टेरूं
 हे ज्वाला क्यो नही आय आप सुणावो । २ काना टालो दे रही स
 क्यं क्यूं नही आर्थ वचावोजी ॥ ७ ॥ मुक्त मे आफत पड़ रही स

मैया सारो सकट काट २ तुम जननी सांची रक्तक हो करो पलक में
ठाठ जी ॥ सुण० ॥८॥ पापी मूढ़ अज्ञानी हूं स मैया हूं तो चाकर
थारो २ । मम करणी मत जोवो हे जननी अपनो विरद विचारो
जी ॥ सुण० ॥ ९ ॥ माथुर जात मानक भंडारी सुत गुलाब को
कहिये २ । वक्त खुशी को निसदिन राखो आ विन्ती सुण लैये
जी ॥ सुण० ॥ १० ॥ हात जोड़ विन्ती करूं स मा सुणज्यो अरजी
म्हारी २ । म्हारा सब दुःख नही काटो तो जासी लाज तिहारी
जी ॥ सुण० ॥ ११ ॥

दोहा ॥

दुःखी हुवां सुख से घणो, गाऊं आल पताल ।
मैं तो अम्बा आपने, समझूं मोटी ढाल ॥ १ ॥
दद अक्षर ने दूर कर, सुभ ने ग्रहण करो ।
सर्व सुखी रख दास ने, संकट आय हरो ॥ २ ॥
सीस निवाय विनती करूं, वक्त खुशी बचाय ।
कर शोभा खुशवक्त कहे, मै चाकर तुम माय ॥ ३ ॥
हो करुणा सुण मोरी ॥

राग गिरनारी ॥

थांरा चरणां मे सोहै म्हारो ध्यान २ । हो शिव प्यारी
अम्बे जी । थांरा चरणां सूं लागो म्हारो ध्यान ॥ टेर ॥ ३ ॥
विष्णु महेश शेष तोहि ध्यावै बहु कर मान २ तोहि

को पार न पावै २ गावै वेद पुरान । थांरा चरणा सूं लाग्यो म्हारो
 ध्यान हो शिव० ॥ १ ॥ शुंभ हि मार निशुंभ पछारथो गारथो खलु
 अभिमान २ रक्त वीज के रक्त को तू पल मे कर गई पान ।
 थांरा चर० ॥ २ ॥ तुम जगदंवे पतित उधारण मैं पापी अज्ञान २
 मेरे गुणन की ओर न हेरो २ तुम हो कृपा निधान । थांरा
 च० ॥ ३ ॥ ज्वाला श्री वाला दास तिहारो एक नहचै कर मान २
 किरपा कीजै अरज सुनीजे २ दीजे अभय वरदान । थांरां चरणां
 सुं लाग्यो म्हारो ध्यान हो शिव प्यारी अम्बे जी थांरा चरणां में
 लाग्यो म्हारो ध्यान ॥ ४ ॥

राग भैरुं ॥

ध्यान धरो मन शिव चरणन को ध्यान धरो २ आद सरूप
 सकल जननी संग २ प्रिये रंजन भंजन भयजन को । ध्यान धरो
 मन० ॥ १ ॥ ब्रह्मा विष्णु शेष नहि जानत २ भेव देव तव गुण
 वरणन को ध्यान धरो मन ॥ २ ॥ ज्वाला जोर कर करतु विनती
 २ ताप संताप हरो हर मन को । ध्यान० ॥ ३ ॥

राग मल्लार हिंडोरा ॥

हे भूलत वाला हो जी हो भूलत त्रिपुरा कामीश्वर शिव
 संग ॥ २ ॥ टेर । कंचन खंभ हिंडोरो ही सोहैं २ रेशम तनी
 हे सुरंग । भूलत वाला० ॥ १ ॥ आप उमा मद मै मतवारी २
 शिवजी पीयें जी भंग । भूलत० ॥ २ ॥ उमगिम चोला लेत

परस्पर २ हँसत हिलै तब अंग । भूलत० ॥ ३ ॥ ज्वाला या सुन्दर
छवि निरखै २ छाई चित्त उमंग । भूलत वाला हो जी हो भूलत
त्रिपुरा कामीश्वर शिव संग ॥ ४ ॥

राग काफ़ी ॥

अरज सुणो जी जगदम्ब । हमारी अरज सुणो जी जगदम्ब ॥
टेर ॥ अरजी सुण कर हुकम चढ़ावो । मेदो सब दुख द्वंद ॥ हमारी० ॥
१ ॥ श्री गवरी गणपति सुत तेरो । विघन हरन सुख कंद ॥ हमारी
अरजी० ॥ २ ॥ सेस सहस्र मुख रटत तिहारी जस । पार न पावे
भवंग । हमारी अ० ॥ ३ ॥ कारन कारज रूप तिहारो । व्यापक
सबके अंग । हमारी अ० ॥ ४ ॥ असुर संघारन देव उवारन । जीते
केऊ जंग । हमारी अ० ॥ ५ ॥ नेति २ कर वेद रटत है । सदा रहो
शिव संग ॥ हमारी अ० ॥ ६ ॥ जपन धीर निश्च हिये में धर । तुम
चरणन में रंग । हमारी अ० ॥ ७ ॥ संपूर्ण ॥

दोहा ॥

गिरजा गुरु गणेश कौ प्रात हि नित उठि ध्याय ।

मन वंदित कारज सरै रिद्धि सिद्धि संपत थाय ॥ इति ॥

अथ छप्पै ॥

एक रदन गज वदन सदन बुद्धि जोति प्रकाश । उमा
सुत आनन्द कंद पूरै मन आश । रिद्धि सिद्धि हैं संग लाभ लिये

[आज्ञाकारी । भाल चन्द्र शिर छत्र मुकुट शोभित अति भारी ।
संकट पड़े हजूर यह दारिद्र्य दुख चूरन करै । भनत 'भवानीदास'
सो मोरि आस पूरन करै ॥ १ ॥

सवय्या ॥

पूजत पाय महा सुखदाय सो संत सहाय हें जंग जटीलो ।
तैल सिंदूर चढ़ै नित अंग सुरंग अनंग में रंग रटीलो ।
फूलन हार गले रुंडमाल सो पुत्र को दायक वीर हटीलो ।
ध्यायें मन में निहाल करे नित भैरव वीर है नाथ कटीलो ॥१॥

स्तुति ॥

अथ धनरूपजी ऊदावत कृत स्तुति लिख्यते ॥

ब्रह्मा की स्तुति सुन मा काली मधुकैटभ को नाश करे ।
इन्द्रादिक ब्रह्मादिक देवा विष्णु महेश के शरण परे । सब देवन
की तेज लक्ष्मी सहस्र भुजा को रूप धरे ॥ १ ॥ संतन प्रतिपाली
दीनदयाली जय काली कल्याण करे ॥ टेरे ॥ चामर चक्षू उदग्र
कराले उदन वास्क लिभिड़दले । तामर अंधक उग्र विडाल सु
उग्र बीज महादनू हनै । दुर्ध दुर्मुख मार त्रिलोचन महिषासुर
को मथन करे ॥ सन्तन० ॥ २ ॥ असुरन से सब हार देवता हिम
गिरि नीचै ध्यान करे । सुन पार्वती के तन से वामा सुंदर
रूप अनूप धरे । सिंह पीठ पर बैठ कोशकी धुम्रेक्षण को
भस्म करे ॥ सन्तन० ॥ ३ ॥ चंड मुंड को मथ चामुंडा ब्रह्माणी

को रूप धरे । माहेश्वरी कुमारिका मात्रा श्री वैष्णवी प्रकाश करे ।
 वाराही नारसिंही चैत्री शिवदूती हुंकर करे ॥ सन्तन० ॥ ४ ॥
 रक्तबीज को रक्त पानकर शुंभ निशुंभ विध्वंस करे । मधु वरदानी
 विंध्य वासनी कंस दुष्ट को बंस हने । रक्तदंति का प्रगट होयकर
 अब तीरज निर्मूल करे ॥ सन्तन० ॥ ५ ॥ शाकंभरी सताक्षी दुर्गा
 मात्वं षट् पद भ्रामरी धरे । सुरथ समाधी सुण के महिमा देवीसूक्त
 को पाठ करे । जो जो मांगे सो सो पावे मार्कंड विख्यात करे ॥
 सन्तन० ॥ ६ ॥ गण मात्रा ना जाणे भुवना अलंकारना पाठ करे ।
 बगला छिन्नाधूमा मातंगी श्री विंध्या बालायाद करे । काली, तारा,
 कमला, भैरवी नजर महर कर माफ करे ॥ सन्तन० ॥ ७ ॥ सप्त
 श्लोकी सप्तशती को भक्ति युक्त जो पाठ करे । भोगों को गुरु अर्पण
 कर के शब्द ब्रह्म को ध्यान धरे । ऋद्धि सिद्धि सुख संपति पावें
 दुख दारिद्र्य दूर परे ॥ सन्तन० ॥ ८ ॥ 'धनसरूप' चरणा को चैरो
 श्री वाला को यजन करे । चरण कमल को लियो आसरो
 श्री त्रिपुरा के शरण परे । श्री सुंदरि मा दया रूप हो पल में कारज
 सिद्ध करे । सन्तन प्रतिपाली दीनदयाली जयकाली कल्याण
 करे ॥ ९ ॥ इति दुर्गार्पितमस्तु० ॥

सवय्या ।

वैठी हैं मंदिर मै अति सुंदर शंभु के संग कियें उजियारो ॥
 सिंह चढ़ी शिर छत्र विराजत रूप महामुद मंगल गारौ ॥ सन्तन

हेत उवारण कारण तारण तरण है रूप तिहारो ॥ दास की आस
करो नित पूरण मातु कामेश्वरी यों चित धारो ॥ १ ॥

श्री कामीश्वर महादेव के फूलडौल का कवित्त ॥

चंपक चमेली अलवेली सी नवेली जाय रहे हैं लुभाय अति
शोभित गुले गुलाव ॥ केशू और कमल बहु केवड़ा सुगंधि भरे
छाई सरसाई छवि सोन की सरस आव ॥ जासू कनीर गुले गैदा
गंभीर पुनि दाऊदी दिखाय रही अपनी चहुं ओर ताव ॥ कामीश्वर
वंगले बहार देख ज्वाला आज फूलन की फारस पै फव्वारन की
फवी फाव ॥ (इस कवित्त में तुकांत शब्द फारसी आये हैं) ॥
अर्बुदा निवासिनी हैं सघन गिर वासिनी है । शंकर विलासिनी
सुवेद मुख जानी हैं ॥ छाकी छाक वारुणी है कारन महा
कारुणी हैं । पतित उदारुणी है भक्त मुक्ति दानी हैं ॥ ज्वाला
प्रतिपाला हैं सुजश विशाला हैं । शीश के नवाये तैं नमैर देतु हानी
हैं ॥ अंबे महारानी वरदानी वाक्यवानी । ओ तिहुंलोक मानी ऐसी
अर्बुदा भवानी हैं ॥ २ ॥ यह आवू पहाड़ पर अर्बुदा देवी है
तिन की स्तुति में कवित्त भेंट किया संवत् १९२३ आश्विन
शुक्ल १० आवू पर ॥

अथ आर्तिक ॥

जै अंबे गवरी मग्या जै श्यामा गवरी । तुम को निश दिन
ध्यावत माईजी को निशदिन संवत ब्रह्मा हरि शिवरी ॥ जै अंबे ० ॥

मांग सिद्धर विराजत टीको मृगमद को हे अंबे टीको मृगमद को ।
 उज्जल से दोउ नयना चंद्रवदन नीको ॥ जै अंबे० ॥ १ ॥ कानन
 कुंडल शोभित नाशा गज मोती हे मय्या नाशा गज मोती ।
 कोटिक चन्द्र दिवाकर तिनकी सम जोती ॥ जै अंबे० ॥ २ ॥
 इक भुज, दोय भुज, चारु चतुर भुज अष्ट भुज तैं सोहै मय्या अष्ट
 २ तैनो रूप निरखतां त्रिभुवन मन मोहै ॥ जै अंबे० ॥ ३ ॥ कनक
 समान कलेवर रक्तांबर राजै हे मय्या रक्ताम्बर राजै । रक्त पुष्प
 की माला कंठन पर छाजैं ॥ जै अम्बे० ॥ ४ ॥ चौसठ जोगनि
 गावत निरत करत भैरूं हे मय्या निरत करत भैरूं । बाजत ताल
 मृदंगा अरु बाजत डमरूं ॥ जै अंबे० ॥ ५ ॥ असुर मधुकैटभ हरता
 महिषासुर घाती हे अंबे महिषासुर घाती । धूम्र विलोचन नाशिनी
 २ निशदिन मदमाती ॥ जै अंबे० ॥ ६ ॥ चंडे मुंड विडारणि
 श्रोणित बीज हते हे मय्या श्रोणित बीज हते । रक्त बीज विनाशिनी
 शुंभ निशुंभ हते ॥ जै अम्बे० ॥ ७ ॥ केहर बाहन राजत खड़ग
 त्रिशूल धरे हे अंबे खड़ग त्रिशूल धरे । सुर नर मुनि जन सेवै
 तिनके दुःख हरे ॥ जै अम्बे० ॥ ८ ॥ कंचन थाल विराजत अग्र
 कपूर वाती हे मय्या अग्र कपूर वाती । मालकेत में राजत निश
 दिन मदमाती ॥ जै अम्बे० ॥ ९ ॥ काशी में इक नन्दा ब्रह्मचारी
 हे मय्या नन्दा ब्रह्मचारी । नित उठ भोग लगावत नित उठ दरसण
 पावत महिमा है भारी ॥ जै अंबे० ॥ १० ॥ अंबेजी कि आर्ति जो
 सुन्दर गावै हे मय्या जो सुन्दर गावै । भनत 'शिवानन्द' स्वामी २
 इच्छा फल पावै ॥ जै अंबे० ॥ ११ ॥ इति सम्पूर्ण ॥

देश पीठ की राग (जंगला में)

स्तुति ज्वालानाथ कृत

हे जगदम्ब पहाड़ो वाली २ ।

सांभर शाकें-भरमाया । चांदी का लोन बनाया ॥
 कलपत का मान बढ़ाया । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥ १ ॥
 तुम आसा पूरो विख्याता । नत्री चुहाण कुल माता ॥
 सांभर राजे सुख दाता । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥ २ ॥
 हम मात मंगला जानी । देवी विनायकी मानी ॥
 जग नायकी मात बखानी । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥ ३ ॥
 मा जोवनेर मे ज्वाला । अति सुन्दर तेज विशाला ॥
 तुम भक्तन की प्रतिपाला । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥ ४ ॥
 तुम परगट पीवो प्याली । यहि मन्दिरि ये उजायाली ॥
 मा जग जीवन मतवाली । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥ ५ ॥
 कलकत्ते काली राजै । आंवेर शिला छवि छाजै ॥
 ये कैला करोली गाजै । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥ ६ ॥
 वर वाड़े चौथ विराजै । नित द्वारे नौवत वाजै ॥
 दरशण सो संकट भाजै । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥ ७ ॥
 मा नगरकोट की रानी । सो देश कांगड़े जानी ॥
 तोहि शाहजहां हद मानी । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥ ८ ॥
 सैध्याल्यां धाम सुहाई । यह मन्दिर की जल साई ॥
 तहां अन्नपूरणां माई । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥ ९ ॥

तुम अद्भुत छवि दरसाई । पृथ्वी धर तुण्ड वचाई ॥
 टोड़ै बाराही माई । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥१०॥
 तोहि मार्तण्ड ऋषि गाई । सूरथ वैश्य सुन पाई ॥
 तेरी धाम सथूर बनाई । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥११॥
 मा माल केत गिर भारी । तहां जाहिर पीठ तुम्हारी ॥
 जग गावैं मद मत वारी । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥१२॥
 माई देशनोक में करणी । तेरी महिमां जग में बरणी ॥
 तुम सुख करणी दुख हरणी । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥१३॥
 पाडाय महा छवि छाजै । सो डीडवाणो सर राजै ॥
 महिषासुर मर्दनी गाजै । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥१४॥
 कै वायु रूप महारानी । किणसरिये धाम बखानी ॥
 सो अंजनी मात भवानी । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥१५॥
 तुम सोनवाय की माई । सौ थान मेड़तै आई ॥
 वरहुल जग मांहि कहाई । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥१६॥
 पाली इकपुर सुख रासा । तिहि निकट मेरु पर वासा ॥
 पूना गर पूरो आसा । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥१७॥
 मा सोजत नगर मंभारी । इक सोहैं सुघट पहारी ॥
 तहां चामुंड धाम तिहारी । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥१८॥
 वीलाड़ै आई माई । यह जोती अखण्ड सवाई ।
 सब संतन की सुखदाई । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥१९॥

इक नगर फलोदी धामां । तहां संतन सुख विश्रामां ॥
 अब पांडव पुरो कामां । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥२०॥
 मइया खेजड़लै लटियाली । तेरे मुख पर सोहै लाली ॥
 तुम भक्तन की रख वाली । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥२१॥
 तुम आवू गिर की माता । माई अधर देवि विख्याता ॥
 सो सुख संपत की दाता । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥२२॥
 इक धाम अंबिका माई । तहां रुक्मिणी पूजन आई ॥
 वर पायो कुंवर कन्हारै । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥२३॥
 सौंध्या मे राजें चंडी । मा अद्भुत रूप अखण्डी ॥
 तेहि ध्यावें जगत जगमंडी । हें जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥२४॥
 तेरे दरशण की वलिहारी । तेरे अटल छत्र पर वारी ॥
 तुम मनसा पूरो म्हारी हे । जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥२५॥
 जननी में दास तिहारो । तुम सङ्कट म्हारो टारो ॥
 शत्रू को पकर पछाड़ो । हे जगदम्ब पहाड़ों वाली ॥२६॥
 तोहि भक्तज्वालानित ध्यावैं । निशदिन हिय ध्यान लगावैं ॥
 यह मन वांछित फल पावैं । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥२७॥
 तेरी यह अस्तुति माई । गावैं जो कोउ सदाई ॥
 तुम उनकी रहो सहाई । हे जगदम्ब पहाड़ो वाली ॥२८॥
 इति सम्पूर्ण शुभं भूयात् । संवत् १९५५ मार्गशीर्ष शुक्ल १०

तर्ज निहालदे ॥

(मुं० खुशवक्तराय महसदासोत कृत)

नेड़ा तो नेड़ा रही जो म्हारी ईश्वरी जी; कोई भीड़ पड़े भट
 आव, हांजी अम्बा आव । आसा थारी लग रही हो जी, अम्बा
 ईश्वरी हो जी ॥ टेर ॥ १ ॥ रूखां तो बी लूंवी अम्बा वेलड़ी जी
 कोई चरण बी लूंव्या, चरण बी लूंव्या थांरा दास, हांजी थारा दास,
 आसा थारी लग रही हो जी, अम्बा ईश्वरी० ॥२॥ जगत रूठो तो
 चाहे रूठजो, पण थे मत रूसो, थे मत रूसो जगत माता हां जी
 धणी आप, आसा थारी लग रही हो जी । अम्बा ईश्वरी० ॥ ३ ॥
 म्हारे तो जेड़ा थांरा दास हे जी, कोई आप जेड़ा, आप जेड़ा
 सिरदार, मिलजो वारम्बार, आसा थारी० ॥ ४ ॥ दास 'खुशी
 खुशवक्त' की जी थे सुण जो, थे सुण जो हो सुरराय हां ये अम्बा
 आप । आसा थारी० ॥ ५ ॥

कहां गई हो अम्बका माय आय कर सहाय करो मोरी, कहां
 गई हो दीनानाथ ॥ टेर ॥ जब तो मा तुम ऐसी दौरी, माधोराम
 की काटी हो वेरी, अब काहे तू अंग अलसावे कहा भई वौरी, कहां
 गई० ॥ १ ॥ जावत लाज देवन की राखी, जाके वेद पुरान हैं साखी
 अब काहे याकी हो अम्बा कहा मा विपद देख हारी, कहां गई०
 ॥२॥ बड़े बड़े कष्ट हरे माँ तैने, जब जब अरज करी माँ मैने अब
 का हा तोकूं होय गयो, कहा डारी अंधियारी कहां० ॥ ३ ॥ ओरन

की मैं कहा वताऊं, मेरी सहाय करी सो गांऊं, है जानत हो सब ही
 माता तुम, कहा करो देरी । कहां० ॥ ४ ॥ अरज करत ही तुम
 भट आती, अब दूर दूर तुम कैसे जाती, कैसे तोकूं अरज करूं सो
 आकर बतलारी । कहां० ॥ ५ ॥ दीनदयाल नाम है तेरो, फिर इस
 दीन को काहे विसारो, अम्बे विसारे नाहे बनेगो । भटपट आय
 जारी । कहां० ॥ ६ ॥ बालपने में करी पालना, तरुणागत में वह
 सुख दीना, अब मेरो तेरो विरध पनो, कहा साथ ही आयो री ।
 कहां० ॥ ७ ॥ भक्ती मैं कछु कर नहीं जानूं; मो सो कपूत से पड़्यो
 है पानो, मोकू मात निभानो पड़ेगो सुन जग महतारी । कहां० ॥ ८ ॥
 क्या कोई भक्त तुम्हें मोह लीनी, या प्रथमा में हुईरंग भीनी,
 कारण मोहे बतावो अम्बा कहां पर अटक रही । कहां० ॥ ९ ॥
 देखत हूँ मां कहां जावेगी, आखिर तो तूही आवेगी, कहे 'खुशवक्त'
 चरण को चाकर मोय आस खरो तेरी ॥ कहां० ॥ १० ॥

(तर्ज—हुकम करो तो सासू जल भर लाऊं हो)

अरज सुणो तो सुणो धिरयानी सा, नैया पार करो मेरी ॥ टेरे ॥
 कलयुग की नदियां हैं गहरी जा में भंवर पड़े भारी, शिर पर पोट
 पाप की है मेरे, छाई रेनियां इंधियारी ॥ १ ॥ भक्ति जुगती की गति
 ना जानूं, मुक्ति की आशा मेरी, ऐसे की मुक्ति कैसे होवेगी, विन
 कृपा अम्बा तेरी ॥ २ ॥ जीव का साथी कोई नहीं है, स्वार्थ के हैं
 सब साथी । पैसा होय तो तिरिया है प्यारी, लड़का लड़की महतारी

॥३॥ ऐसी नैया ऐसे समय मे, कौन लगाय परली तीरी, ऐसी नाव
के तुम हो खेवटिया, खेंच लेवो मेरी डोरी ॥ ४ ॥ भक्ती से तो सब
कोई तारे, एक तो पापी तारो री, भक्ति में नाम रटूं अम्बा रो, इण
से ही पार उतारो री ॥ ५ ॥ भक्ती बदले मुक्ती दीनी, काई किरियावर
थारो री, म्हारा जिसड़ा पापी तारो जद बत्थाई है थारी ॥ ६ ॥
सोभा तिहारी है वेदन मे, 'खुशबक्त' कहे कर लाचारी, अन्त समय
अलगा मत रहीजो अरज करूं कर कर जोरी ॥ ७ ॥

अथ आर्ती श्री गणेशजी की ॥

जय देव जय देव जय पंचाइति नाम. जय पंचाइति नाम,
गणेश अम्बा रवि शिव जग पालन कृष्णा ॥ जय देव जय देव ॥१॥
इक रदना गज बदना लंबोदर सगुणा २ मूशक बाहन वरदा
विद्या नित गहिनां । गंडस्थल मधु सहिता मधु कर करै
भ्रमना २ सूंडा सिद्धर मंडित शशि भूषण बदना । जय देव
जय देव ॥ १ ॥ सगुण निरगुण बाला अगणित गुण नामा २
अभक्ति भक्त्यातीता पार्वती शिव भामा । शक्ति स्मूर्ति
स्मूर्ति जय प्रकटे श्रीमान् २ ब्रह्मा नंदे वरदा सावित्री शामां ।
जय देव० ॥ २ ॥ भास्कर प्राची धीशा रवितम खग नाशा ।
विश्व चक्षु दिन कर मित्रा गुण धीशा । अर्का भानु ममहंशा
जय सूर्या पूषा २ हिरण्यगर्भा नियेता तोड़त भव पाशा ॥
जय देव० ॥ ३ ॥ शांभव श्री धर शंकर शशि धर वरमोले ।

च्यार्त्रं चर्मधावत अगणिय वरमोले । त्रिशूल डमरू हस्ते डमरू
ध्वनिजाले २ करपुरगवरा यातो दृढ मानिश कमले ॥
जय देव० ॥ ४ ॥ अच्युत केशव दामोदर श्रीधर हरि नामा २
मुरली धर शंकर खण नारायण शामां । मुरारि के जग पालन
अगणित गुण धामा २ गंगा धर लघु किकर अष्टोत्तर नामा ।
जय देव० ॥ ५ ॥ प्रभु जी हृदय कमल में वास तिहारो वसिया
रघुराया २ सेवक को संकट काटो कर अपनी छाया । जय
देव जय देव जय पंचाइति नाम २ गणेश अम्बा रवि शिव जग पालन
कृष्णा ॥ जय देव० ॥ ६ ॥

अथ आरात्तिक ॥

जय सुंदरि त्रिपुरा श्री सुंदरि वाला । आद मध्ये अन्ते जय
सुंदरि त्रिपुरा । जय देवि जय देवि ॥ १ ॥ त्रिकोण गर्भित विंदुस्त
दुपरि षट्कोणं २ अष्टौपद्मे कलिकावर्तुल मेकैकं । चतुरस्रं त्रिये-
युक्तं द्वारं चतुरस्रं त्रिययोनी त्रियत्रीजं वाला तवरचितं । जय देवि
जय देवि ॥ २ ॥ शक्ति कामं युक्तं वाग्भव तव आद्यं २ मध्ये
पंचे कूटे पंचा दश वरणं । षोडशवरणा षोडा पीतांबर
वगला २ प्रोढा काली तारा मध्ये त्वं कमला । जय देवि जय
देवि ॥ ३ ॥ भैरवि छिन्ना धूमामातंगी भुवना २ दशमई विद्या
वाला अन्ते त्वं पूर्णा । पराह पूर्णा देवी चक्षुपुरधामा २
भट्टक चेर विपद ज्वलि वालास्तव चर्णा । जय देवि जय देवि
जय सुंदरि त्रिपुरा श्री सुंदरि वाला । आद मध्ये अन्ते जय सुन्दरि
त्रिपुरा जय देवि जय देवि ॥

अथ उतरार्ति ॥

जय जय जगदम्बे हो मय्या जय जय जगदम्बे । आरति
 कीजे अम्बे तोरी २ त्रिभुवन अविलम्बे । जय जय जगदम्बे० ॥ १ ॥
 तू करता भरता हरता विधि हरिहर देवा हो मय्या विधि हरि
 हर देवा । त्रिभुवन प्रभुता पाई २ तव पद कर सेवा । जय
 जय जगदम्बे० ॥ २ ॥ तू बानी रुद्ररानी तू कमला मानी हो अम्बे
 तू कमला मानी । आगम निगम बखानी तव पद शिवरानी । जय
 जय जगदम्बे० ॥ ३ ॥ भानु वर शिखर सुंदर शिशि कर अंकुश
 पाशे हो मय्या कर अंकुश पाशे ॥ कृपा कुरु करुणा कुरु २
 कवि भूषण भाषे ॥ जय जय जगदम्बे० ॥ ४ ॥ ये अम्बे जी की
 आरति जे कोई गावै हो मय्या जो कोई गावै । भनत शिवा
 नन्द स्वामी २ इच्छा फल पावे । जय जय जगदम्बे । जय जय
 जगदम्बे हो मय्या जय जय जगदम्बे । आरति कीजे अम्बे तोरी २
 त्रिभुवन अविलम्बे जय जय जगदम्बे० ॥ ५ ॥

गाली की ढाल में स्तुति ॥

टेर ॥ थे छो मनसारी पूरणहार म्हारी त्रिपुरा वालादो
 जो दरस सुर स्वामिनी ॥ अम्बे विदु अरु त्रिकोण पर ।
 षट सोहैं त्रिकोणाकार । म्हारी त्रिपुरावाला दीजो दरस सुर
 स्वामिनी ॥ थे छो मनसारी पूरणहार म्हारी त्रि० ॥ १ ॥ अम्बे

चर्तुल एक सुहावणो । दल अष्ट कमल परकार । म्हारी त्रिपुरा०
 ॥ २ ॥ अम्बे तीन रेख सूं सोहणा । थारै सुन्दर चार द्वार ॥ म्हारी
 त्रिपुरावाला दीज्यो दरस सुर स्वामिनी । थे छो मनसारी पूरणहार
 म्हारी त्रि० ॥ ३ ॥ अम्बा जन्त्र मनोहर राजरी । जाकी महिमां
 अपरम्पार ॥ म्हारी त्रिपुरा० ॥ ४ ॥ अम्बे असुर संघारे आपनै । तव
 देवन करी हे पुकार ॥ म्हारी त्रिपुरा० ॥ ५ ॥ अम्बा कामीश्वर
 शिव संग में । थारा दरशण री बलिहार ॥ म्हारी त्रिपुरा० ॥ ६ ॥
 अम्बा भक्त ज्वाला की वीनती । कीजे सन्तन को उपकार ॥
 म्हारी त्रिपुरा० । ७ ॥ संपूर्ण ॥ वैषाख कृष्ण १ गन्न दिने १९५९
 नैवणार्द्र लिपि कृतं ज्वालानाथेन ॥

कविचंद्र जी की बनाई स्तुति धर्म की लिख्यते ॥

साधो ए हो मारग आदरो सन्तो आदरो सन्तो आदरो ॥
 भ्रम भूल न जावो । इण धर्म भ्रम न ऊपजै परमारथ पाए
 साधो ए हो मारग आ० ॥ १ ॥ गुरु करुणा कर जो कहें सोहि
 शब्द सुणी जे २ रङ्क रतन जिमें राखिये किणिनूं न कही जे ।
 साधो ए हो मारग आदरो सन्तो आदरो ॥ भ्रम भूल न० ॥ २ ॥
 बहुरङ्गी संसार में रहिये बहुरङ्गी २ उर अन्तर आनन्द में रहिये
 इकरङ्गी । साधो ए हो मारग आदरो सन्तो आदरो ॥ भ्रम भूल०
 ॥ ३ ॥ दान सुपात्रा दीजिये यथा भक्ति सहेता २ गुरु चरणा चित
 राखिये स्तुति पूरण वेत्ता ॥ साधो० ॥ ४ ॥ विन कारण कारज नहीं

समझो सब कोई । जे कारण सुध होय तोकारज सिध होई ॥ साधो
 एहो मारग आदरो ॥ सन्तो आदरो० ॥ ५ ॥ वृन्द कहै सोहि सुण
 लहो हिय ज्ञान विचारो २ परम शक्ति परमाण यह भक्ती मन धारो
 साधो एहो मारग आदरो सन्तो आदरो ॥ भ्रम भूल न जावो
 इण धर्म भरम न ऊपजै परमारथ पावो ॥ साधो एहो मारग
 आदरो सन्तो आदरो० ॥ ६ ॥

अथ श्री बीजासण माता की स्तुति लिख्यते ॥

टेर ॥ अपने भक्तन की कीजे सहाय हे बीजासण माता
 ॥ अपने० ॥ रक्त बीज को बीज हणयो बीजासण नाम कहायो ॥
 कायस्थां ने दीनो परच्यो अपणो नाम पुजायो, भरथा महल्ला
 बीचजू माता थारो थान वणायो ॥ हे बीजासण० ॥ १ ॥
 कायस्थ महल्ला बीच में सु मा वणियो तेरो थान ॥ क्या क्षत्री
 क्या वामण वणिया धरता तेरा ध्यान, मुसलमान भी तुमको
 ध्यावें ध्यावें आलम जहान ॥ हे बीजासण० ॥ २ ॥ दिन उगते
 प्रभात लुगायां थाने सीचण आवे, रोली मोली मेंदी चंनण
 थारे आण चढ़ावे ॥ जो कोई टावर मांदो हो तो थारे आण
 लुटावे ॥ हे बीजासण० ॥ ३ ॥ अष्ट पहलु को वण्यों चोंतरो
 अकराणा को भारी ॥ तिस पर छाया नीम की स यह ओर
 चमेली न्यारी, चैत्र मास के मांयनै स आ फूल रही फुल
 वारी ॥ हे बीजासण० ॥ ४ ॥ चैत्र मास में फूलां हंदा बङ्गला

चढ़ता तेरे, काच सरी से मकराणे पर सोहैं फूल घनेरे,
जिन की खुशबू महक रही है च्यार दिशा को घेरे ॥ हे वीजा-
सण० ॥ ५ ॥ अगवाणी सोना करपण भैरूं पांय घूगरा वाजे,
सहाय करो अपने भक्तन की दुशमण दूरा भाजे ॥ हे वीजा
सण० ॥ ६ ॥ महर करो मोटी महा माया है 'शिव नाथ' सो
दास ॥ आसा सब की छोड़ कर आया तेरे पास, भक्तो की रक्षा
कर माता कर दुशमन का नाश ॥ हे वीजासण माता० ॥ ७ ॥

अथ श्री भैरूंजी की स्तुति ॥

कव आवोला जी म्हारे देश २ हो लटियाला भैरूं जी हो
वड़ली रा भैरूंजी कव आवोला जी म्हारे देश ॥

दोहा—थे मद छाक्या वीर छो छक्या विलाला छैल ॥ कोउ
छिनगारी कामिनी अटकन राखै थानै गैल ॥ कव आवोला जी०
॥ १ ॥ वालूड़ा वण आन्यो अतर सगवगां साज । छाक अराकी
खावस्यां कंवर भंवर-महाराज ॥ कव आवोला जी० ॥ २ ॥ सूलां
सीक उतारिया तिल वट वटकां सङ्ग ॥ तत्ता मदरत्ता करूं तों
जोगणनै रंग ॥ कव आवोला जी० ॥ ३ ॥ लटियाला वाला घणा
सोवन चिटियो हत्त ॥ पांय घूंवरू रुणभुणा घूमतड़ा उनमत्त ॥
कव आवोला जी० ॥ ४ ॥ व्यास दास ये वीनती करत जोड़ कर
हाथ ॥ महलां वेग पधारजो काला गोरा साथ ॥ कव आवोला जी
म्हारे देश० ॥ ५ ॥ हो लटियाला भैरूंजी कव आवोलाजी म्हारे
महल ॥ संपूर्ण ॥

(मु० खुशवक्तराय महेसदासोत कृत)

तर्ज—तुम देखोरे लोगो भूल भुलैयों का तमाशा ।

सन्तो सब चालो अम्बारे दरवार में ॥ टेरे ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश
रटत है सहस रटत एक तार ॥ सन्तो० ॥ १ ॥ अष्ट भुजा धारण
घरयानी सोहे सिंह सवार ॥ सन्तो० ॥ २ ॥ भक्तों की प्रतिपालिक
निरधारे आधार ॥ सन्तो० ॥ ३ ॥ संकट टारन दुःख निवारन पतित
उदारन हार ॥ सन्तो० ॥ ४ ॥ कहै 'खुशवक्त' तिहारी है सोभा
निश दिन करो अवधार ॥ सन्तो० ॥ ५ ॥

लाडलीनाथ भैरुं के घूगरी उच्छव को कवित्त ॥

सुन्दर स्वरूप महा शोभा अनूप सोहै मोहैं छवि जाकी
यह जगत संसार है ॥ लाडली कलाली के लाडलो कहावे
सो बीर मतवारो मद पीवै अपार है ॥ तैल सिंदूर भरपूर
अङ्ग नूर वरसै दरसै यह शोभित गले फूलन को हार हैं ॥
भ्रंगा मद पान तापै भोग घरै घूगरिन को ज्वाला आज चैत्र कृष्ण
तीज को तिहार हैं ॥ १ ॥

राग मजनू ॥

टेरे ॥ अम्बे राणी हे मोत्यां वाली हे । तोकूं पलकन बीसरुं हे
माय । तुम जननी जगदम्बे हो सो पतित उदारण हार । भीर
परे जनकी तबै तुमही करत हो सार । अम्बे राणी आप भगतां

प्रीतिपाल अम्बे म्हारो चित चरणा वसै हो माय । अम्बे राणी हे० ॥ १ ॥ मधुकैटभ को नाश कर धूम्र नैन दयो मार । चंडी चंड मुंड को सो पल में कियो प्रहार । अम्बे राणी शिव धरणी थारो नांव । अम्बे ब्रह्मा विष्णु उपाइया हे माय । अम्बे राणी हे० ॥ २ ॥ रक्त बीज के रक्त को पल में करगई पान । शुंभ निशुंभ पछारकें हन्यो असुर अभिमान । अम्बे राणी आप सरी सो तेज । अम्बे कोट भाणुमान उगियो हे माय । अम्बे राणी हे० ॥ ३ ॥ चंडी चिरतालो सही मतवाली महामाय । संत सहाई ईश्वरी शत्रु सदा भयदाय । अम्बे राणी सिंह चढ़ी असवार अम्बे खड़ग त्रिशूल कर सोहना हे माय । अम्बे राणी हे० ॥ ४ ॥ भक्त ज्वाला की वीनती सुणज्यो हे सुरराय । निज संतन की कीनिये देश विदेश सहाय । अम्बे राणी भक्त 'ज्वाला' थारो दास । अम्बे अष्ट पहर थारो ध्यान में हो माय । अम्बे राणी हे मोत्यां वाली हे । तोकूं पल ना विसारूं हे माय ॥ ५ ॥

टेर ॥ हो मद पीवो नी दारूड़ी जी अम्बे पीवो नी दारूड़ी । दारूड़ी मे वाला लागो जी अम्बा पीवो नी दारूड़ी । दारू पीवो मोकली शुंभ निशुंभ मद पान । रक्त बीज के रक्त को थे पल में कर लियो पान ॥ हो मद० ॥ १ ॥ तुम त्रिरपुरा जगदम्ब हो मेरे जीवन प्राण । अष्ट पहर चौसठ घड़ी कोई नही विसरूं थारो ध्यान ॥ हो मद० ॥ २ ॥ जनम सुफल जग मे करूं जी कर कर मन विसराम । अष्ट पहर चौसठ घड़ी मैं जपूं जो पल पल नाम ॥ हो मद० ॥ ३ ॥

विष्णु ध्यावें ब्रह्म मनावें कोई हन पावें पार । तुम जगदम्बे पतित
 उदारण और जनके आधार ॥ हो मद० ॥ ४ ॥ मद पीवो थे मोकली
 जी राता राखो नैण । ब्रह्मा, विष्णु, महेश, शेष सब थारा ही छैं
 सैण ॥ हो० ॥ ५ ॥ रतन जड़ित प्याले भरी जी हृद मद पनै
 सुरंग । पान करो थे ईश्वरी मा सुधनै सौई तारै संग ॥ हों मद०
 ॥ ६ ॥ भक्त 'ज्वाला' की वीनती जी सुणजो चित्त लगाय । सब
 सन्तन की कीजियो देश विदेश सहाय ॥ हो मद० ॥ ७ ॥

राग मांड ।

टेर ॥ शिव जी री प्यारी सद मतवारी हे म्हारी आई जी री
 आंखडल्यां रे गुलाल । शिव जी री राणी थाने सब जुग जाणी हे
 माय । सन्तन करण निहाल हे ॥ म्हारी आई जी री० ॥ १ ॥ रक्त
 चीज महिषासुर मारयो धूम्रनेन दियो मार ॥ हे म्हारी० ॥ २ ॥ सिधू
 सुधारस अधरण सोभा अमृत मुख अधरान ॥ हे म्हारी० ॥ ३ ॥ अष्ट
 पहर चौसठ घड़ी मा । नहीं विसरूं पल ध्यान ॥ हे म्हारी० ॥ ४ ॥
 ज्वाला श्री वाला दास तिहारो हे तूं नहचे कर मान ॥ हे
 म्हारी० ॥ ५ ॥

राग सोरठ ।

छाकै नैणा घूम घणी म्हारै अम्बा जी धणी । अणी चारे
 दिरंग सद मतवारे लोयन लूंव वणी । चन्द्र सूर्य सम चमकत
 नैना । वैदी भानु मणी ॥ छाकै नैणा० ॥ १ ॥ शिव सनकादिक

और ब्रह्मादिक । ध्यावत सहस्र फणी । या त्रिपुरा जी की छवि कुं
निहारत चित छक प्रीत धणी ॥ छकै नैणा० ॥ २ ॥ इत त्रिपुग
इत शिवजी विराजै धरणी और धणी । परस परस कर अंग निहारै
या छवि खूब वणी ॥ छकै नैणा० ॥ ३ ॥ 'ज्वाला' के या छिव
मन मे बसगई अधरत रागवणी । या अम्बे जी के अटल छत्र पर
वारुं लाख मणी ॥ छकै नैणा० ॥ ४ ॥

टेर ॥ त्रिद मगन होय गावै अम्बे राणी त्रिद मगन होय गावै ।
या सिहासन आप विराजो । अधिक छवी अधिकावै ॥ अम्बे राणी०
॥ १ ॥ पाट पीताम्बर और डिगम्बर । अति शोभा सरसावै ॥
अम्बे राणी० ॥ २ ॥ शिवजी की राणी थाने सब जुग जाणी हो ।
सरस सोभा सरसावै ॥ अम्बे राणी० ॥ ३ ॥ शुंभ को मार निशुंभ
पछारो रक्त वीज गरलावै ॥ अम्बेराणी० ॥ ४ ॥ मद पीवे मधु
रस मतवारी दगन आनन्द अति छावै ॥ अम्बे राणी० ॥ ५ ॥
व्यास 'त्रिद' की याही वीनती, सन्त सरण सुख पावे ॥ अम्बे
राणी० ॥ ६ ॥

टेर ॥ सांची म्हारी त्रीपुरा हे सुन्दर माये ॥ लाड लढायो मग्या
गोद खिलायो, मोटो कियो छैप पाय ॥ सांची० ॥ १ ॥ ब्रह्मा विष्णु
महेश शेश सब लुल लुल लागै पाय ॥ सांची० ॥ १ ॥ असुर संहारण
खल दल मारण, जैजै श्री त्रिपुराय ॥ सांची० ॥ ३ ॥ रक्त वीज
महिषासुर मारे धूम्रनैन गरलाय ॥ सांची० ॥ ४ ॥ दास आनन्दी
अम्बा तेरो जस गावे हे सन्तन के आवो माय ॥ सांची० ॥ ५ ॥

टेर ॥ अरजी सुण अम्वा चत्रभुजा से म्हारी वीनती । गढ़
 ठसूक किल्लो अति भारी जीवरखा बिच स्थान । अटल छत्र छाजे
 जग जननी क्षेत्र पाल परधान ॥ १ ॥ सीस सिंदूर कान में मुद्रा
 गल मोतियन को हार । तास जरी सर किरण किनारी भूशण जड़े
 जवार जी ॥ २ ॥ खड़ग, त्रिशूल चक्र और डमरू चत्रभुज आवध
 चार । सङ्कट पड़्या सिमरतां स या होय सिंह असवार जी ॥ ३ ॥
 नौबत द्वारे नित घुरे स कोई भालर दे भणकार । धूप दीप नौवेद
 जदुतिया ध्यावे किल्लादार जी ॥ ४ ॥ विन अपराध कैद में कायस्थ
 पड़्यो विदखा आय । सुपने में दरशण तुम दीना निकस किले के
 वाहर जी ॥ ५ ॥ घड़ी चार दिन जर पड़ोस कोई देखत चोकीदार ।
 हाथ हथकड़ी पग मे वेड़ी पड़ी पावंडा चार जी ॥ ६ ॥ काट्यो फन्द
 किरपाशङ्कर को जाहिर जुग संसार । कलजुग मे सतजुग दरसायो
 सन्तन सुणी पुकार जी ॥ ७ ॥ पूरण होय पीवो मद प्यालो और
 ऊपर ल्यो छाक । होय सन्तुष्ट कृपा कर पूरण पत वाना की राखंजी
 ॥ ८ ॥ सज्जन नित सनमुख रहे स कोई दुरजन दुरमुख दूर । रक्त
 बीज को बीज न राखो खण्पर भरयो भरपूर जी ॥ ९ ॥ असुर सार सुर
 कारज सारयो वेद पुराण गाई । दुशमन ने न्ही दफा करो तो शिव
 की सैंस दुहाई जी ॥ १० ॥ प्रथम अरज मेरी जग जननी मिनखा
 जनम सुधार । बढ़ती वेल संपदा सनमुख फतै राज दरवार जी
 ॥ ११ ॥ दूजी अरज सुधारो मेरो अहो लोक परलोक । भेक टेक
 लज्जा वाना की आगे हो शिव लोक जी ॥ १२ ॥ पूत सपूत बीच
 माता के होय कपूत पर हेत । पकड़ बांय पुचकार दयाकर पट ढक

आंचल देत जी ॥ १३ ॥ भूल चूक शुभ अशुभ होय सो लीजो अङ्क सुधार । शुभ अक्षर अरपण कर लीजो अशुभ दुष्ट सर डार जी ॥ १४ ॥ श्री गुरु रघुवर नाथ कृपा कर पूरण मन की आस । सुख संपत घर राख ईश्वरी तू अम्बा मैं दास जी ॥ १५ ॥

दोहा—चत्र भुजा आवो अम्बे चरणां माइं सुरन्त । ऊपर कर जो ईश्वरी धरता ध्यान तुरन्त ॥ सात द्वीप नव खण्ड मे उदय अस्त जो होय । तुम अम्बे आवो अम्बे दास पुकारे तोय ॥ संपूरण ॥

तर्ज बनजारा की ।

मु० फतहलाल सीमलोत कृत ॥

भक्तो की सदा सहाई । जगदम्बा जी महामाई ॥ टेरे ॥ भक्तो में तूही भक्ती । शिव में तूही शक्ती जी । दानाओं में दानाई ॥ जगदम्बे० ॥ १ ॥ नुकहत चमन में तू है । तूही गुल में खुशवू है जी । हर रङ्ग मे तूही समाई ॥ जगदम्बे० ॥ २ ॥ बादल में तूही गरजे । विजली में तूही चमके जी । तू नूर तजल्ली हो आई ॥ जगदम्बे० ॥ ३ ॥ पत्थर मे तूही शरर है । आतिश में अखगर है जी । तू नजरो मे बीनाई ॥ जगदम्बे० ॥ ४ ॥ सूरज मे जलवा-तेरा । और चांद है जरा तेरा जी । तेरी जग मे जोत सवाई ॥ जगदम्बे० ॥ ५ ॥ नाम लिये दुःख भागे । सोती किसमत जागे जी । उम्मीद दिलीवर आई ॥ जगदम्बे० ॥ ६ ॥ शुंभ निशुंभ पछाड़े ।

भैसासुर को मारे जी । तूने जग की जान बचाई ॥ जगदम्बे० ॥७॥
 कायस्थ हैं तेरे चेरे । तुम काटो दुःख उनकेरे जी । सुने अर्ज
 'फतह' की माई ॥ जगदम्बे ॥ ८ ८

टेरे ॥ हो त्रिपुराय माजी आपरो घणों छै म्हाने विश्वास ॥
 अम्बे नाम रो मा सिमरण आठों जाम । जन्म २ चर्ण को मा
 कुरसी बन्द गुलाम ॥ १ ॥ आस बसीलो आपरो मा और कौन
 दिस जाय । निडर रहूँ कुछ डर नहीं मोकूँ बीस भुजा त्व सहाय ।
 ॥ २ ॥ भक्त विरद त्व रावरो मा जग में श्री जगदम्ब । सन्तन
 सहाय कारण शिवराणी करिये नहि विलम्ब ॥ ३ ॥ मूल सुतन
 कंववेश निवेदन करो हे वारम्बार । जीवन जनम सुधारन वाली
 करिये सांभ संवार ॥ ४ ॥ सम्पूर्ण०

टेरे ॥ विराजे जोधाणे ज्वाला ॥ सदा सन्तन की प्रतिपाला ॥
 मुरधरदेशराज रानी, पचेटे जोधाणे मांनी । ज्वाला नगरकोट रानी,
 जोत उनकी इन मे ठानी ॥ गजानन्द और भीम विराजे भीव
 पचेटे नाम । जिस पर ज्वालामुखी विराजे सुन्दर मन्दिर धाम,
 काम सब सिद्ध करो ज्वाला ॥ १ ॥ रूप महा लक्ष्मी भद्रकाली,
 महिष मरदन को मतवाली । चढै सिदूर अङ्ग लाली, दुपट्टा धारण
 जङ्गाली ॥ लैंगो अंगिया गरक कसूमल लड़ भड़ लप्पेदार । कञ्चन
 छत्र मुकट सिर सोहे तुरे तार हज्जार ॥ गुंथी वेनी के केस काला
 ॥ २ ॥ मांग मोतियन से भरी भलके, काम कुण्डल सुवरन भलके ।
 नैन काजल की रेख चिलके, छूटी दोय नागन सी हलके ॥ केसर

खाल सुर्वक नथ वेसर मुख में वीड़ी पान । चुड़ले वाजूवन्द मुधरका
 मन्द मन्द मुसकान ॥ गले विच मोतियन को माला ॥ ३ ॥ नृपुर
 चरणा मे वाजे, रतनसिहासन पर विराजे । देख छवि चन्द्र कोट
 लाजे, क्रिया दीदार दुख भाजे ॥ चोसठ कला वतीसुंही अश्रण
 सज सोला सिनगार । खड़ग चक्र ले महीपासुर पर किया सुल पे
 हार ॥ मार महिपासुर कूं डाला ॥ १ ॥ सिंह मन्दिर के पास भारी
 भीव भैरव चोकीदारी । कुण्ड दोय पानी के जारी, जातरी आवे
 नर नारी ॥ गावे निरत करें जन कैई कैई करै जप ध्यान । सुख
 सम्पत और विद्या लक्ष्मी सब पावे वरदान ॥ जपे जन जो ज्वाला
 ज्वाला ॥ ५ ॥ शहर सब गङ्ग स्यामधाता, अचल रामेश्वर सुखदाता,
 गजानन्द का राता नाड़ा, किले पै चांमुण्डा माता ॥ गोल घाटी
 लटयाला विराजे सिंहपोल सचयाल । अगर चन्द सेवक नित सेवा
 करता चित लगाय ॥ घाटी पै वजरङ्गीवाला ॥ ६ ॥ पुजारी
 वैजनाथ सेवा, हजारीमल कृशनदेवा । नथमल मुनि करण ध्यावे,
 मात के चरणां चितलावे ॥ महाराजा जसवन्तसिंहजी आस कर्ण
 दीवान । इवछल राखो ईश्वरी स कोई करो विर्द सन्तान ॥ भक्त
 तेरा अम्बा दास लाला ॥ ७ ॥ शहर सांभर साकम्बरी का, पुजारी
 पुत्र रतन जी का । सम्बत् उगनीसो तीन दोय का, म्हा सुद वसन्त
 पञ्चमी का ॥ अष्टपदी सी कहे सुने कटे सकल जज्वाल । सांभर
 रा सेवक गुण गाये क्युंकर अम्बा लाल ॥ छगन धन कहे सांभर
 वाला ॥ ९ ॥ सम्पूर्ण ॥

॥ टेरे ॥ मात साकम्बर राजरानी । लाज मेरी रखलो भवानी ॥
 ज्वाला आप महामाया, वादशा दरशण कूं आया । आय कर ऐसा
 फरमाया, क परच्या लेना ठहराया ॥ सात तवे लोके जड़े अब देखूं
 क्या होय, सात तवा को तोड़ के र या वाहिर निकसी जोत ॥
 वादशा जब ही सांच मानी ॥ १ ॥ ज्वाला नगर कोट राजे, द्वारे
 नौवत नित वाजे । सीस सोने का छत्र छाजे, चढ़ी मा सिंह ऊपर
 गाजे ॥ चोसट जोगण सङ्ग लिये चढ़े जो वावन वीर । दुशमन का
 वटका करे स कोई ताक लगावे तीर ॥ क कालो गीरो अगवाणी
 ॥ २ ॥ परचा चुहाण कूं दीया । समद जल चांदी का कीया ।
 देख कर डरा उसका हीया, क वचन को पीछा फेर दीया ॥ बारा
 कोस घोड़ो फिरयो हुई चांदी की खान । मुझे कौन खाने दे माता
 लड़सी आलम जहान ॥ तभी कर दीनी लूण खानी ॥ ३ ॥ शहर
 एक सांभर बसवाया, राज चवाणो ने पाया । ओसरा तुर्को का
 आया, वादशा थाना वैठाया ॥ वादशा से उतरी हुये राजन के राज ।
 मारवाड़ दूंढाड़ बीच में रही नौवतां वाज ॥ तिरंग और पचरंग
 निसाणी ॥ ४ ॥ शहर एक सांभर की दाता, सकल की सहाय करो
 माता । दोनूं राजन के वोल वाला, करो दुशमन का मुंह काला ॥
 कई हजारों कोस मे है सांभर का नाम । नौसो नवासी वरस बीत
 गये जब का बसता गांव ॥ तीरथ नहाने को देव दानी ॥ ५ ॥
 पूजा तेरी परबत मे होती, जिगामग लाग रही जोती । कण्ठ
 मोतियन की माल सोती, पुजारी बांच रहे पोथी ॥ परबत मांही
 आप विराजां जीगमग जोत सवाय । निश्चय होकर ध्यान धरे तो

वेड़ा करदो पार ॥ सदा लांकड़ियो अगवाणी ॥ ६ ॥ रतन तो सब
के मन भाया, गङ्ग और नन्द छन्द गाया । सांभरीमल भेद पाया ।
मात के चरणो चित लाया ॥ थाना सिरे नवाव का कावा की
धुनकार । तुरी चङ्ग पर चढ़ रया स दुशमन की छाती साल ॥
गङ्ग पर रखो महरवानी ॥ ७ ॥

टेर ॥ हां जपो जन वारम्बारा ॥ वो ज्वाला जग में उजियारा ॥
ज्वाला प्रितपाला वो है रखवाला रे ॥ जपो० ॥ १ ॥ छिन में रङ्क
रङ्क के राजा । करण हार ज्वाला महाराजा ॥ कर सम्पत में सीर
पीर वो हरने वाला रे ॥ जपो० ॥ २ ॥ हमतो नित गुण उनके
गावे । पद सहंस रटे तोहु पार न पावें ॥ जानी जाय नहीं गत
माया वो अपरम पारा रे ॥ जपो० ॥ ३ ॥ मुरधर देश नगर
जोधाणे । ज्वाला जोत सब जग मे जाणे ॥ सिखर पचेटे विराज
काज सन्तन के सारा रे ॥ जपो० ॥ ४ ॥ सुगन्द कह मेरे सुखदाई ।
तारण तरण ज्वाला महा माई ॥ वोही जगत की तात मात सीर
नाथ हमारा रे ॥ जपो० ॥ ५ ॥ सम्पूर्ण ॥

टेर ॥ लटियाला री राय चरणा म्हारो चित लाग्यो ॥ चीर
दिखण पाटम्बर सोहे आभूषण अनपार ॥ देवी छलिया दाण
वाजी सज सोला सिनगार ॥ १ ॥ नव नेवज नव नोरता जो धूप
दोप मद धार ॥ शहर फलोदी सोहणो जी देवी रो दरवार ॥ २ ॥
आवध छतीसूं धार याजी । सिंह होय असवार शुंभ निशुंभ पछाड़े

छिन में महिषासुर लियो मार ॥ ३ ॥ अटल राज निरपमान कोजी
सुखी लोग संसार ॥ कह हँसा जालोर या जी अम्बे मोये पार
उतार ॥ ४ ॥ सम्पूर्ण ॥

ठुमरी ।

टेर ॥ क्या जो कहूं मेरे तन मन की ज्वाला जानत हो सब के-
घट घट की ॥ सांचे मन से ध्यान धरे उर । काज सरे जिन के सट
सट री ॥ १ ॥ जो जन अपनो जान लई है । जनम सुधारत है रट
रट री ॥ २ ॥ ' सुगन्द ' कहै जानो जन अपनो । अरिष्ट निवारो
ज्वाला भट पट री ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण ॥

टेर ॥ पूजन आई हो राज काला हो मतवाला हो भैरुं थाने
पूजन आई हो राज ॥ गिरवर गिरवर अमर गाजे, मेहड़लां भड़
लागी । वारी जाऊं थारी जटा हो मुकट पर, सुरत थांसूं लागी ॥
थाने० ॥ १ ॥ कछनी सोहे भैरुं जरकसी हो, वागो तेल सिदूर ।
वारी जाऊं थारो जटा हो मुकट पर, दिन दिन चढ़तो चूर ॥ थाने०
॥ २ ॥ पूजन आई थाने पाला हो पदमनी, लाई चूरमो चूर । भोग
धरयो चांवड का चेरा, मनसा मारी पूर ॥ थाने० ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण

राग मांड

टेर ॥ जपलो जग जननी आनन्द करणी श्री ज्वाला मात है ॥
जो ज्वाला २ जपे रे जो जन ज्वाला नाम, त्रिपुरा को जो जन
ज्वाला नाम । ज्वाला रटे सङ्कट कटे जो होत मनोरथ काम, नाम

जपलो उर माहीं जी ॥ १ ॥ सुर नर ध्यान धरे त्रिपुरा को मुख से
 काम के ताँई, हो ज्वाला मुख से काम के ताँई । वैसे ध्यान धरे नर
 केई जी आनन्द होत सदाई, सिमरो ज्वाला महा माई जी ॥ २ ॥
 ज्वाला मुखी सुखी किया सब सन्तनै, दुख कूं दूर मिटा वो हे
 ज्वाला दुख-को दूर मिटावो । 'सुगन्द' कह सम्पत की दाता
 सिमरत ही सुख पावे ध्याये वाला त्रिपुरा जी ॥ ३ ॥ हो श्री जग.
 जननी आनन्द करणी श्री ज्वाला मात है ॥ सम्पूर्ण ॥

श्री चित्रगुप्तजी महाराज की आरती ॥

(मु० फतहलाल मानक भन्डारी सीमलोत अजमेरी कृत)

श्री विरंचि कुल भूषण यमपुर के धामी, प्रभु यमपुर के धामी ।
 पुण्य पाप के लेखक, चित्रगुप्त स्वामी ॥ जय देव जय देव ॥ १ ॥
 सीस मुकट कानों में कुण्डल अति सोहै, प्रभु कुण्डल अति सोहै ।
 श्याम वर्ण शशि सा मुख, सब के मन मोहै ॥ जयदेव जयदेव ॥ २ ॥
 भाल तिलक से भूपित, लोचन सुविशाला, प्रभु लोचन सुविशाला ।
 शंख सरीसी गर्दन गलविच मणिमाला ॥ जयदेव जयदेव ॥ ३ ॥
 अर्ध शरीर जनेउ लम्बी भुजा छाजै । प्रभु लम्बी भुजा छाजै ।
 कलम दवात हाथ विच, पाटुक पग भ्राजै । जयदेव जयदेव ॥ ४ ॥
 नृप शिवदास अनर्था था अति बलवाला । प्रभु था अति बलवाला ।
 आपकी करुणा द्वारा, सुरपुर पग धारा । जयदेव जयदेव ॥ ५ ॥
 भक्ति भाव से आरती जो कोई गावै । प्रभु जो कोई गावै ।

यहं मन वांछितं फल पा, वहं अमृत पावै । जयदेव जयदेव ॥ ६ ॥
 'फतहलाल माणक भण्डारी सीमलोत' गाता । प्रभु सीमलोत गाता ।
 कुल की रक्षा कीजे, सुख सम्पति दाता । जयदेव जयदेव ॥ ७ ॥

श्री बीजासण माता को कवित्त ।

कायस्थ महल्ले बीच वसतु नाहि जात नीच नीम के चबूतरे पै
 भई है वासिनी ॥ कष्टन की टालनी सुदुष्टन की जालनी सुभक्तन
 की पालनी सुमातु बीजासिनी ॥ सातूं सहेलियन हिल मिल तुम
 गर्जित हो मेरे तो शीश की तुम ही हो आसिनी ॥ कहत ज्वाला
 नाथ मेरे शिर धरो हात दुष्टन पै करो घात नीम की निवासिनी ॥१॥

फूलन को फूल डोल बन्यो है अमोल मोल मध्य बीच सप्त रूप
 जोति तो विशाला हैं ॥ फूलन सिंगार सार शोभा को नांहि पार
 फूलन के गजरा ओ फूलन की माला है ॥ तोको जो ध्यावत है
 वांछित फल पावत है भक्तन के दिल के तूं खोल देत ताला हैं ॥
 कहत 'ज्वाला नाथ' एहो विजासनि मात तेरे ही उजास के
 प्रकाश को उजाला है ॥ २ ॥

चंपा गुलाब गुललाला गुलसोसन के केतकी हजारन के हार
 हू हजार है ॥ सोन सर साई गुल तुरै छवि छाई और विमुख की
 रैन मे रोशनी अपार है ॥ दाऊदी अम्ब मोर जाय जुही चहूं ओर
 फूलन ही फूलन को सरस सिंगार है ॥ ज्वाला निहार सप्त रूप
 दरवार आज मातु बीजासनि के बङ्गले बहार है ॥ ३ ॥

अथ आरती भैरव की लिख्यते ॥

जय भैरव नाथा २ भाले चन्द्र विराजित २ लटियो
 छिटकाता ॥ जय कटिक काछनी मांग विराजित घुमरू घमकाता
 २ खङ्ग त्रिशूल और डमरू भृकुटी मटकाता ॥ जयदेव० ॥ १ ॥
 वाहन श्वान विराजित राजित गल विच रुंड माला २ मस्तक
 मृगमद टीको सेवग रखवाला ॥ जयदेव० ॥ २ ॥ माला पुष्प गले
 विच सोहै सिंदूर चरचाता २ दास सदा चरणन को नीरांजन
 गाता ॥ जयदेव० ॥ ३ ॥ सम्पूर्ण ॥

राग घूमर की ।

काशी का वाशी हांजी लटियाला भैरुं आइया हे । हे म्हारै
 घूमतड़ा । जी म्हारै घूमतड़ा ॥ जी म्हारै० ॥ भाई हो आईजी री
 क्रूखनै घूमतड़ा २ छत्रधारी जाया लटियाला जी पूत म्हारै घूमतड़ा
 जी म्हारै घूमतड़ा । काशी का वासी हांजी लटियाला भैरुं आइया
 हे म्हारे घूमतड़ा ॥ जी म्हारै० ॥ १ ॥ कटि तो विराजै राज रै
 काछियो जी घूमतड़ा २ छत्रधारी कड़ियां रुलन्ता जी केश म्हारै
 घूमतड़ा । काशी का वाशी हांजी लटियाला भैरुं आइया हे म्हारै
 घूमतड़ा ॥ जी म्हारै० ॥ २ ॥ पांव तो पावड़िया रतना जड़ी हो
 घूमतड़ा २ छत्रधारी सोवन चिटियो जी हात म्हारै घूमतड़ा ॥ जी
 म्हारै० ॥ ३ ॥ सारां तो पहली राज नै नोतिया जी घूमतड़ा २
 छत्रधारी थिर नै थावरियेरी रात म्हारै घूमतड़ा ॥ जी म्हारै० ॥४॥

चारै तो मण रा राज रै वाकला जो घूंमतड़ा २ छत्रधारी तेर मण
 री तिलोट म्हारै घूंमतड़ा । जी म्हारै० ॥ ५ ॥ शूलां तो सोक
 उतारिया जी घूंमतड़ा २ छत्रधारी ऊपर मदड़ै री छाक म्हारै
 घूंमतड़ा ॥ जी म्हारै० ॥ ६ ॥ भक्त ज्वाला तो राज नै वीनवै हो
 घूंमतड़ा २ छत्रधारी कीजिये सन्त सहाय म्हारै घूंमतड़ा । जी
 म्हारै घूंमतड़ा । काशी रा वाशी हांजी लटियाला भैरूं हांजी छत्र-
 धारी छाक्या आइया हे । हे म्हारै घूंमतड़ा । जी म्हारै घूंमतड़ा
 ॥ ७ ॥ इति ॥

तर्ज रसप्रद की ।

टेर ॥ तेरो दरशन प्यारो लागे हे अम्बा ! सन्तन की शुभकार ।
 तेरे दरशन की बलिहारी हे अम्बा ! सन्तन के शुभकार ॥ चीर
 दिखण मखमल को है ल्हगो कांचु कोर किनार २ । मांग भरो
 मोतियन से भलके तुरा तार हजार ॥ तेरो दरशन० ॥ १ ॥ केसर
 तिलक लिलाट भवानी, लोचन लाल विशाल २ । कानां कुण्डल
 भलक रहे हैं बेसर भलकेदार ॥ तेरो दरशन० ॥ २ ॥ लीलवट
 आड़ जड़ावु सोहे हिवड़ै नोसर हार २ गल विच टीक मोतियन माला
 वाला को सिणगार ॥ तेरो दरशन० ॥ ३ ॥ चुड़ला चूप जड़ाऊ
 भलकै वाजू लंवादार । वारी जाऊं धिणयाणी जी शिव की मोहन
 हार ॥ तेरो दरशन० ॥ ४ ॥ अष्ट भुजा धारण धिणयाणी आयुध
 लीनो धार । सिंह सत्रारी सोहै अम्बा वावन भैरूं लार ॥ तेरो
 दरशन० ॥ ५ ॥ चौसठ जोगण सङ्ग में सोहैं होरे जैजै कार ।

दासन की हितकारी अम्बा दुशमन की भयकार ॥ तेरो दरशन०
 ॥ ६ ॥ कहै 'खुशवक्त' चरन की शोभा कैसे वरणी जाय । शीश
 निवाय रटे नारायण विनवै वाम्बार ॥ तेरी दरशन की वलिहारी
 हे अम्बा० ॥ ७ ॥


टेर ॥ करो रे मन हरि भगतन को सङ्ग २ । जिनके सङ्ग ते
 सुमत उपजत है, रहे सदा आनन्द ॥ करो रे मन० ॥ १ ॥ सांचे
 भगत कही मिलतहु नाही मिले तो मिटत सब फन्द ॥ करो रे मन०
 ॥ २ ॥ हरि भजन में ऐस लीन हो, जैसे चन्दन सें भुजङ्ग ॥ करो
 रे मन० ॥ ३ ॥ जाने ऐसी सङ्गत करली, कूप न्हावो चाहे गङ्ग ।
 कहे 'खुशवक्त' सब एकहि समझो, पार करेगी जगदम्ब ॥ करो
 रे मन० ॥ ४ ॥

राग लावणी स्तुति षट् चक्र की ॥

टेर ॥ प्रात उठ ध्यानही धरना, दरस निज सत गुरु के
 करना ॥ प्रथम ब्रह्म की बात जानो, अकुल पद निश्चय कर मानो ॥
 दोहा ॥ जोत अखण्ड ब्रह्म मे व्यापक सहस्र कमल दल थाय ।
 शिवशक्ति संयुक्त विराजै कोट रवी छिव छाया ॥ ध्यान नित प्रति
 उनका करना ॥१॥ सुन्दर श्वेत बसन राजै । रक्त शक्ति के वस्त्र छाजै ।
 वरण क्रपुर के कुञ्ज मनोहर, कव लग करूं वयान । चलत धार
 अमृत की चरणा कुल कुण्डलन निदान, कर त्युही जनम मरन
 हरना ॥ २ ॥ बतायो ज्ञान गुरु मुक्त को । प्रगट कर कहूं सार

तुम्ह को ॥ मूल, लिग, नाभी, हृदय, ग्रीवा, भृकुटी स्थान निहार ।
 षट् चक्रन के नाम गीनावे गुरु आज्ञा अनुसार; ध्यान धर भव-
 सागर तरना ॥ ३ ॥ मूल पर गनपति सुखदाई । चतुर दल कमल
 रहे छाई ॥ दोहा ॥ रक्त वर्ण को कञ्ज वखान्यु वसँ वीज विचार
 रिद्धि सिद्धि शक्ती सङ्ग सोहे मूसे पै असवार । यही विधि मूलद्वार
 वरणा ॥ ४ ॥ लिग ब्रह्मा का स्थान गाया । कमल पर सष्ट पत्र
 छाया ॥ दोहा ॥ पीत वर्ण को ध्यान सदा धर बँली वीज निहार ।
 सावित्री शक्ति वामे अङ्ग हंस सदा असवार ॥ हुकम ने रचे श्रेष्ठ
 रचना ॥ ५ ॥ स्थान नाभी पै विष्णु विराजे । कञ्ज दस पत्र नील
 छाजै ॥ दोहा ॥ वामे अङ्गसंग महा लक्ष्मी, उँ फँ वीज उचार ।
 आदि अन्त अरु मध्यम करत है, परजा की पीर पार ॥ उसी के
 चरन शरण वसना ॥ ६ ॥ हृदय विच शङ्कर का स्थान । कमल दल
 द्वादस के परमान ॥ अङ्ग वामे गिरजा विराजे भृकुटी पर अर्ध
 चन्द्र छाजै ॥ दोहा ॥ वीज मंत्र कण्ठ सहित करवानो- वरन
 मजासु निहार । ब्रह्मा उपायै विष्णु पाले शङ्कर करन संवार । उसी
 को अजर अमर करना ॥ ७ ॥ पंचमे कण्ठ स्थान गाया । उसी
 पर जीव आत्म छाया ॥ दोहा ॥ सोडस स्वर के वीज वखानो,
 सोडस कमल दल जोय । धूम्र वरणके कञ्ज कहावे, केवल मुक्ति
 होय ॥ रेन दिन रटो नाम रसना ॥ ८ ॥ षष्ठम भृकुटी स्थान
 आया । उसी को वेद भेद गाया ॥ दोहा ॥ पूरण ब्रह्म परमात्मा वो
 उनका स्थान । विद्युत वरण कञ्ज छै पत्रे हँसँ तत्व परमान ॥ निरञ्जन
 सत गुरु का सरना ॥ ९ ॥ पूरवले पुन भले तिनकी गुरु ज्ञानानंद है जिन

के ॥ दोहा ॥ चरण कमल सेवा सुखदाई, सादे जमनादास । धरम
शास्त्र के भेद बताकर, पूरी मनकी आस ॥ गुरु के चरन शरन
रहना ॥ १० ॥ गुरु के चरना चित लायो, दास कवर से छन्द
गायो ॥ दोहा ॥ संस्कृत पींगल नहि जानु डींगल के अनुस्वार । भूल
चूक कहूं असुभ होय सो लीजो सकल सुधार । कृपाकर अशुभ
दोष हरना ॥ प्रात उठ ध्यान यही धरना ॥ ११ ॥



अथ ध्यनाम्

ऊर्ध्वान्नायपदत्रयं च भुवनं ओंकारसिंहासनं ।
सिद्धाचारसमस्तवेदमथनं पट्चक्रसंचारिणं ॥
पश्चाद्वैस्फुलिंगज्योतिरमलं पूर्णप्रभाशोभितं ।
शांतं सद्गुरुपादुकां भज मनश्चैतन्यचन्द्रोदयं ॥१॥
लक्ष्मीक्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरंगधामीश्वरीं ।
दासीभूतसमस्तदेवजनितां त्रैलोक्यदीपांकुरां ॥
श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभवं ब्रह्मेन्द्रगंगाधरां ।
तां त्रैलोक्यकुटुंबिनींशिरसृजावंदे मुकुन्दप्रियां ॥२॥
श्रीजननीजगदम्बशंभुप्रिये श्रीमातुसिंहासिनी ।
श्रीखड्गहस्तेधारिणीभगवती श्रीरूपरंभावती ॥

श्रीज्वालामुखिज्वालिपायशकरी श्री भक्तर्क्षांकरी ।
 श्रीशांभववरदायनी भयहरी श्रीकंटिकांनाशिनी ॥३॥
 एषांकार्यकरीमहादुखहरी त्रैलोक्यसंमोहिनी ।
 वादीवादविमाशिनीतिसहसा शत्रुशिरच्छेदिनी ॥
 संग्रामेजयदायनी कलिकली संध्यादिवीपालिनी ।
 भूतःप्रेतविडारिणीजयमयी भुवनेश्वरीपातुमां ॥४॥
 मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले कञ्जलकला ।
 ललाटे काश्मीरं विलसतु गले मौक्तिकलता ॥
 स्फुरत्कांचीशाटी पृथुकटितटे हाटकमयी ।
 भजामस्त्वांगौरीं नगपतिकिशोरीमविरतं ॥ ५ ॥

ललाई होठों में नयन सुरमे । से छवि भरे ।
 ललाटे कस्तूरी तिलक गल पुष्प द्युति धरे ॥
 नितम्बो पै साड़ी कनकमय कांची अति भली ।
 भजूं श्री गौरी के चरण परसे भागत कली ॥ ६ ॥
 भवानी ! स्तोत्राली नहि तव विरची कहि सकै ।
 त्रिशूली जू के भी गुण कहत पांचो मुख थकै ॥
 छवो ही मूडों से गुह सुयश गाता थकि रहे ।
 महामाया ! तेरा विरुद यह चेरा कस कहै ॥ ७ ॥

(मु० फतहलाल सीमलोत कृत)

माया कुंडलिनी कृयामधुमती काली कलामालिनी ।
 मातङ्गी विजयाजया भगवती देवी शिवा शांभवी ॥
 शक्तिः शंकरवल्लभा त्रिनयना वाग्वादिनी भैरवी ।
 ह्रींकारी त्रिपुरापरापरमयी साता कुमारीत्यसि ॥८॥
 अकुल कुल पतंती चक्रमध्ये सुरंती ।
 मधुरमधु पिवन्ती कण्डकांभक्ष्यन्ती ॥
 दुरितमतिहरन्ती साधकान्तोपयन्ती ।
 जयति जयति देवी सुन्दरी क्रीडयन्ती ॥ ९ ॥
 या देवी शिवकेशवादिजननी या वै जगन्मोहिनी ।
 या ब्रह्मादिपिपीलिकान्तजगदानन्दैकसन्दायनी ॥
 या पञ्चप्रणवाद्धिरेफनालिनी याचित्कला मालिनी ।
 सा पायात्परदेवता भगवती श्रीराजराजेश्वरी ॥१०॥

❀ धरा पै हैं तेरे, सरल चित्त वाले सुत घने ।
 कपूतो में मै ही, अधम जिससे पातक वने ॥
 न छोड़ो मैयाजी, शरण विच लेती किमि चके ?
 कपूता हो जावे, सुत नहीं कुमाता हुईसके ॥ ११ ॥

❀ विशेष भाषा ध्यान के लिये देखो 'श्री देवी स्तोत्रावली' मुन्शी
 फतहलाल सीमलोट कृत ।

॥ इति ॥



कायस्थ धर्म सम्बन्धी पुस्तकें




- (१) श्री चित्रगुप्तजी महाराज का तीन रङ्ग का छपा हुआ चित्र उनके १२ पुत्रों सहित, साइज १५ x १७ मूल्य केवल 1)
- (२) चित्रगुप्त कथा भाषा में (मु० फनहलालकृत) ≡)
- (३) श्री देवीस्तोत्रावलि " -)
- (४) श्री देवीस्तोत्र " ..
- (५) तांत्रिक सन्ध्या (द्वितीयावृत्ति) .. 1)
- (६) चतुराशीपात्र 1)
- (७) ललितोपाख्यान 11)
- (८) तान्त्रोक्त ज्ञान चालीसा (प्रथम भाग) (मु० प्रतापमलकृत) =)
- (९) तान्त्रोक्त ज्ञान चालीसा (द्वितीय भाग) .. =)
- (१०) कालीजी की आरती 11)

मिलने का पता—

साधु ट्रेडिंग कम्पनी राज० लि०,
पुरानी मन्डी, अजमेर.

❀ ओ३म् ❀

मातृ-स्तुतिः



— रचयिता —

राजवैद्य डा० धनश्याम शर्मा शास्त्री

(आशागंज) अजमेर.

— श्लोक —

मातृ-भक्ति प्रभादेण-सर्व सिद्धि मवानुवम् ।
अतोहम्प्रार्थयामि भो ! भवद्भिः क्रियतामपि ॥ १ ॥

— दोहा —

माता स्तुति मैने लिखी—पढ़ियो सज्जन आप ।
माता की सेवा करो—मिटै सर्व सन्ताप ॥ १ ॥

सं ० १९६४-पोष-कृष्णा १० सोमवार ता० २७-१२-३५ ई०

यह पुस्तक चांपानेरी वाले पं० धनश्याम शर्मा पुरोहित ने अपनी मातृः श्री के जोवित—मोशर (मातृ-पूजनोत्सव) पर वितरणार्थ बनाई है ।

हृद ही की तो आजकल ज़रूरत है बृद्ध, कमज़ोर और घुसने रोगियों के लिये

चमत्कार—

शक्ति संचारक वटी नं० १

गद्य: आजकल के नाउदार कमज़ोर और छुं मनुष्यों का किसी भी बीमारी या तकलीफ का इन गोलीयों ने ठेका ही ले लिया है, बँकड़ों पर आजमाई जा चुकी है। शरीर की निर्मलता प्रचपन की सुगंध अदनों से नसों का टाँला होना, शीत का पानी सा पल्ला हो जाना, गर्भ रखने के कठिना न होना, भूख कम, शिर में चक्कर आने के सामने अंधेरा, निद्रा का कम जाना, विचारों का अधिक आना, चेहरा फीका सुख या हुआ सा रहना, ज़िन्दगी को फ़िज्जल समझना, हर बान या हर काम करने में निराश हो जाना, लम्बे शरीर का जकड़ा रहना और दुखना, बिना ही मिदगत या थोड़ी मिदगत से भगवद आ जाना पेशाब नफ़ेद या पीला उतरना, पेशाब में धातु जाना, अन्न न पचना नीम और हड़फ़टन होना, ज़ौरह २ बीमारियों में तथा गुरु मनुष्यों की निर्मलता खोसी, सांन और किसी भी अंग की सब प्रकार की बाध से यह गोलीयों बहुत ही गुणकारी साबित हुई हैं। अर्धम जोड़ने से जो कमज़ोरी मालूम हो वह इन गोलीयों के सेवन से मिटती है। विधि—१ गोली सुबह और १ गोली रात की सोते वक्त दूध या पानी से निगल लिया करे, अगर गरमी के आसार मालूम हों तो घन में शक्कर मिलाकर खावे। तैल, खटाई और खी से परहेज़ करे।

कीमत फ़ी बीबी २० गोली का १) रु०. डाक महसूल १ से ८ बीबी तक के ॥) आने हैं।

पता—राजवैद्यला० धनश्याम शर्मा वैद्यशास्त्री,

रमेशभवन (आशागंज) अजमेर

॥ ओ३म् ॥

श्रीमती परम पूज्या श्रीमम मातुः श्री के जीवित
मत्रशर (मातृ पूजनोत्सव) के शुभावसर
पर वितरणार्थ रचित मातृस्तुतिः

मंगलाचरणम्

प्रणम्याहं मुहुर्देवं-संसृते हेतु नाशकम् ।

घनश्यामः प्रकुर्वेच-भक्त्या मातृस्तुतिम्मुदा ॥१॥

अ०—मैं घनश्याम नामक एक व्यक्ति हूँ सो-संसार में
आवागमन के कारण रूप कर्मों के नाश करने वाले श्री महादेव को
बारम्बार प्रणाम कर के प्रसन्नता और भक्ति पूर्वक इस मातृ
स्तुति को बनाता हूँ ॥ १ ॥

✽ मातृ-स्तुतिः ✽

॥ श्लोकः ॥

मातृ-स्तुति र्दया गीता-देव वाण्यां स्वभावतः ।

सर्व साधारणार्थञ्च-तस्या भाषां करोम्यहम् ॥२॥

पूर्णेच्छयैव माता मे-चैवमाज्ञापदाद्धि मे ।

ज्ञाति-संघं समाहूय-पुत्र ! मां मेलय ध्रुवम् ॥३॥

अ०—मेरी पूज्यपाद मातुः श्री ने रूग्णावस्था में अपनी पूर्ण इच्छा से एक दिन मुझे आज्ञा दी कि [हे पुत्र ! मैं अपने ही सामने मेरा जीवित मोशर करके ज्ञाति सज्जनों के दर्शन करने की पूर्ण इच्छा रखती हूँ इसलिये निश्चय करके सर्व सज्जनों को निमन्त्रित कर यहाँ बुला ताकि उनके दर्शन करके मैं प्रसन्न हो जाऊं ।

प्रथमतस्त्वायुषि हस्मिन्-मातृच्छा हि दुर्लभा ।

यदि माता पिजीवेत्तु-सेवास्तस्याः सुदुर्लभा ॥४॥

अ०—अहो ! प्रथम तो इस उम्र में माता की छत्र छाया का रहना ही दुर्लभ है तथा यदि माता जीवित भी रहे तो उसकी सन्तोष जनक सेवा का होना बहुत दुर्लभ है । अतः हे प्रभो ! कृपा करो कि मुझ जैसे तुच्छ जीव से मातुःश्री की यह इच्छा पूर्ण हो ! ॥ ३ ॥

तस्मान्मया समाहूताः-प्रार्थिता सज्जना इमे ।

कुर्वन्ति मेलनं सर्वे-माता मे च प्रसीदति ॥५॥

अ०—सज्जनों ! वही दिन आज आ गया है और मेरी मातुः श्री आप लोगों के दर्शन करके प्रसन्न हो रही है ॥ ४ ॥

श्रीमातुममर्म पादेऽद्य-भक्ति पुष्पं समर्प्यते ।

प्रेम्णा गृहाण तन्मातः !-प्रसीद बालके तथा ॥६॥

अ०—हे दर्शनीया माता ! आज मैं आप के चरणों में यह भक्ति का पुष्प अर्पण करता हूँ सो आप इस को प्रेम पूर्वक ग्रहण करके मुझ बालक पर प्रसन्न हों ।

श्रीमतां दासकेनेयं-घनश्यामेन भाषिता ।

दैनिकीया स्तुतिश्चास्यां-त्रुटयो बहु सन्ति हि ॥७॥

कविभिः शोधनीयास्ताः-सूचनीयोपि दासकः ।

श्रीमतां कृपया यस्माद्-ज्ञान लाभो भविष्यति ॥८॥

अ०—हे ज्ञानी सज्जनो ! इस आपके दास-घनश्याम-ने अवकाश न मिलने के कारण इस स्तुति को एक ही दिन में बनाई है सो यह तो निश्चय है कि इस में बहुतसी त्रुटियाँ हैं ही अतः कवि सज्जनों से प्रार्थना है कि कृपया वह इस का शोधन करके इस दास को भी सूचित करें ताकि इस को भी आप के ज्ञान दान का लाभ हो ॥ ६ ॥ ७ ॥

मातृसेवा समाचरणं-पठनं पाठनं तथा—

श्रवणं श्रावणं भक्त्या-मूल्य मस्या मया कृतम् ॥९॥

अ०—इस पुस्तक का मूल्य (कीमत) मैंने यही रक्खी है कि इसको लेने वाला व्यक्ति, इसको पढ़े, पढ़ावे—तथा भक्ति पूर्वक सुने और दूसरों को भी सुनावे—एवं तन, मन से अपनी माता की सेवा करे ।

(मातृ-प्रवचनाष्टकम्)

शिखरिणी वन्दः

प्रवृद्धे ! मातस्ते, सुमुखसुरति म्प्राप्य हृदये ।
 प्रकुर्वे दुरस्थो,ऽपिच सकल कार्य्यं सुमनसा ।
 न चान्यत्तेतुत्त्यं-क्वचिदपि न किञ्चित्प्रियमिह ।
 मम प्राणाधारे ! मयिविगत-सारे कुरु कृपाम् ॥ १ ॥

अ०—हे मेरी विशेष वृद्धा मातः ! मैं आप से जब कभी दूर रहता हूँ तब भी मैं अपने हृदय में आप के सुन्दर मुख की सुरति को लगा कर ही प्रसन्न होकर सर्व कार्य्य करता हूँ ; तथा आप के समान इस संसार में मेरा कभी भी कोई भी प्यारा नहीं है, इस वास्ते हे मेरे प्राणों की आधार माननीया माता ! मुझ तुच्छ निकाम सेवक पर तो सदा आप की कृपा रहनी ही चाहिये ॥ १ ॥

त्वया ज्ञातश्चैवा, हमिह सकले कर्मणि सदा ।
 प्रवृत्तः कोन्योना, -भवदपि समर्थः परिवृतुम् ।
 विचारेणैवोक्तं, ह्यनुभव सुसिक्तन्तववचः ।
 फलञ्चाभिप्रेतं, ददति सततम्मे ध्रुवमिह ॥ २ ॥

अ०—हे शरणदामाता ! मैं सर्व उचित कामों में आप की आज्ञा पाकर ही प्रवृत्त होता हूँ तथा आप की आज्ञा के विरुद्ध कराने के लिये मुझ को समझाने में कोई समर्थ नहीं है, क्योंकि

बहुत विचार पूर्वक कही हुई और अनुभव सिद्ध आपकी शुभ
वाणी हमेशा मेरे अभिप्रेत (चाहा हुआ) फल की देने
वाली है ॥ २ ॥

सुदैवात्तेवाण्या, विपदपि विलीना भवति मे ।
मया ज्ञातं चैव, जगति यदि मातात्वमसि सा ।
त्वमासीर्मातमे, नवति शुभ वर्षाण्युपगता ।
तथाप्पाश्चार्य्यम्मे-तव सुमतिशक्तिर्न दलिता ॥ ३ ॥

अ०—सौभाग्य की बात है कि आप की सुवाणी से मेरी
विपत्तियाँ भी प्रलय को प्राप्त हो जाती हैं अतः मेरा तो यह
निश्चय हो गया है कि जगत में यदि कोई माता है तो वह आप
ही हैं । हे बुद्धिमन्मातः ! आप की आयुः नव्वे वर्ष के समीप
आ गई है तथापि आप की सुमति शक्ति में किसी प्रकार की
क्षति नहीं आई है इस परमात्मा की परम कृपा का मुझ को भी
आश्चर्य्य है ॥ ३ ॥

पितुःस्वर्गारोहा, त्रितय दिवसे जातजननः ।
कनिष्ठः पुत्रोहन्न, च मम परं संगति रहो !
सुबुध्दयाते सार्द्धं, प्रवचनपरे ! कुण्ठितमतेः ।
न मातस्त्वज्जाता विफलित गिराऽतस्त्वमसिमा ॥ ४ ॥

अ०—देखिये ! मेरे पूज्य पिताजी के स्वर्गवास हो जाने के
पश्चात् तृतीय दिवस में मेरा जन्म हुआ और मैं आप की सब से

कनिष्ठ (छोटा) सन्तान हूँ, परन्तु हूँ उपदेश प्रवरा मातः ! आप की बुद्धि के साथ मेरी तुच्छ, कुण्ठित, मन्दमति की समता नहीं हो सकती यही कारण है कि आप की बाणी कभी निष्फल नहीं हुई—अतः हे माताजी ! आप लक्ष्मी स्वरूप हैं ॥ ४ ॥

प्रिया वाणी यस्याः, श्रवण सुखदा, चिन्तनपरा ।
 दयार्द्रा चाधारा, हरिजन वराणाञ्च सुहृदाम् ।
 सदाहन्ततत्पादे, सुखमनुभवाम्यादृतवरः ।
 पुनः सा हस्ताभ्यां, सुखयति च मां भाषणपरा ॥५॥

अ०—मैं उस प्रेम पूर्ण माता के चरणों में आदृत होकर सुख भोग रहा हूँ कि जिनकी विचार युक्त, दयाशील और सुनने से सुख उत्पन्न करने वाली मधुर वाणी, उत्तम हरिजनों और शुद्ध हृदय वालों की आधार रूप है । जब मैं इन के चरणों में लेट जाता हूँ तब यह पुत्र वात्सल्य से मेरे शरीर पर सुख संचारक हाथों से स्पर्श करते हुए कुछ भाषण भी करते रहते हैं ॥ ५ ॥

त्वदन्या का माता, भवति विपदां मर्दन करी ।
 कुपुत्रोहन्तेस्मि, प्रसव समयान्संकटकरः ॥
 त्वयानेकाः सोढाः, ममभवनकालाद्धि विपदः ।
 ऋणात्त्वद्दुःखानां, भवितुमिह मुक्तः कथमहम् ॥ ६ ॥

अ०—हे सहिष्णु मातः ! आपके संमान विपत्तियों का सामना करने वाली माता कोई दूसरी नहीं हो सकती है । मैं आपका

कुपुत्र ही हूँ कि मेरे जन्म काल से ही आपको नाना प्रकार की विपत्तियाँ सहनीपड़ीं। हे दयनीय मातः ! इस तरे दुःख भोग के ऋण से मैं मुक्त हो जाऊँ, ऐसा भी कोई उपाय हो सक्ता है क्या ? ॥ ६ ॥

त्वयाप्रेम्णा चोक्तं, तव सुतव : “सुंगल” इति ।
 तथा चेदज्ञाना, त्वथमपितवाज्ञा नहि कृता ॥
 तथाप्युच्चैर्भावा, त्वुवचनकुठारान्न प्रहृता ।
 त्वमेवास्या माता, परमहितकर्त्री सुमतिदा ॥ ७ ॥

अ०—श्रीमातः ! आप प्रेम से अपनी पुत्रवधू (बेटे की बहू) को—सुंगल याने भोली और सुस्त कहा करते हो तथा अज्ञान-वश यदि उसने आपकी आज्ञा का भंग भी कर दिया, तो भी आपने अपने उच्च और उदार भाव से उसको कभी कुवचन कुठार नहीं मारा, क्योंकि आप ही तो इसका पूरा हित चाहने वाली और उत्तम शिक्षा देने वाली माता हैं ॥ ७ ॥

वधूस्ते पौत्रस्य, निज-सुकृत-योगात्सुचतुरा । (सुगुणीदेवी)
 भविष्य-त्याशा से, तवसुतं-सुतोपीह वशगः ॥ (रमेशचन्द्रः)
 मयाज्ञाना-त्वान्येऽपिच पुनरिदानीं प्रलपितम् ।
 अतोऽनात्मज्ञन्द्राक्, दुरित भर-युक्तं क्षमय माम् ॥ ८ ॥

अ०—हे दयाशीले ! पूर्वजन्म के कर्म योग से आपको आपकी पौत्रवधू (पोते की बहू) चतुर और समझदार मिली है, तथा आशा है कि आपका पौत्र (पोता) भी आज्ञा पालक ही

होगा । हे मातः ! मैंने बाल्यावस्था में तथा अब भी कईवार आपके साथ व्यर्थ विवाद किया है क्योंकि मैं आत्मजानी नहीं हूँ, अतः—
एव प्रार्थना करता हूँ कि हे दयापरे ! मुझको आप मूर्ख, अज्ञानी,
और पापों से पूरित जानकर क्षमा करें ॥ ८ ॥

घनश्यामः पापः सततं कटुभाषीन्द्रियपरः ।
न सेवाया मातुर्जगति सुफलं प्रापणपरः ॥
सदात्तग्नः कार्य्ये, मिलति न सुवाचा, ह्य-सु-नरः ।
ममैवं भूतश्य, कथमिह भवेत्संसृति-तरः ॥ ९ ॥

अ०—हे भगवन् ! यह घनश्याम तो पाप कर्मी, सदा कड़वा बोलने वाला तथा इन्द्रिय—लोलुप है तथा सदा कार्य में लगे रहने के कारण इस संसार में आकर मातुः श्री की सेवा के शुभ फल को प्राप्त नहीं कर सकता है एवं जब किसी से मिलता है तो भी विशेष प्रियवाणी से नहीं बोलता, अतः आशंका है कि हे जगदीश्वर ! ऐसे इस कुनर (खराब आदमी) घनश्याम का भी इस भवसागर से निस्तार होगा क्या ? ॥ ९ ॥

। श्लोकाः ।

सेवया, कर्मणा, वाचा, पूज्या मातृवरा मया ।
अभाग्यान्नैव सन्तुष्टाः-दूरे वसन कारणात् ॥ १ ॥

अ०—यह मेरी भाग्यहीनता ही है कि दूर (अजमेर) रहने के कारण मैं अपनी पूजनीया माता को—सेवा से, आज्ञापालनादि कर्म तथा वाणी से भी सन्तुष्ट नहीं कर सकता हूँ ॥ १ ॥

भो ! मातस्त्वत्कृपयैव- सर्वानन्दोऽत्रवर्त्तते ।

तवाशीभि, प्रफुल्लोऽहं-सुखं कालं नयामि च ॥ २ ॥

अ०—हे कृपालु मातः ! आप ही की कृपा से यहां आनन्द हो रहा है, तथा आप ही के आशीर्वाद से प्रफुल्लित हुआ मैं सुख पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहा हूँ ॥ २ ॥

यदा भवामि कार्येहं-व्यग्र-चित्तो- ह्युपस्थिते ।

कस्मिञ्चिद्वा क्वचिच्चंहि-तदा मां नयसि ध्रुवम् ॥ ३ ॥

अ०—जब कभी किसी उपस्थित कार्य मे-मैं व्यग्रचित्त (भ्रम-युक्त) हो जाता हूँ तो हे मातः ! आप ही मुझको उस वक्त निश्चित सच्चा मार्ग सुझाने वाली हो ॥ ३ ॥

त्वदन्येन च हे मातः!-केनापि सह संलपन् ।

सन्तोषन्नैव चान्पनोमि-सम्मत्याऽऽदानकर्मणि ॥ ४ ॥

अ०—किसी कार्य मे सम्मति (सलाह) लेने के अर्थ आपके सिवाय अन्य किसी के साथ वार्तालाप करके मैं सन्तोष को प्राप्त नहीं हो सका हूँ ॥ ४ ॥

सन्तोषश्च धृतिःशिक्षा—विद्या चानुभवश्च मे ।

यदा सर्वे वहन्तीमे—तदा त्वत्सम्मतिस्तरिः ॥ ५ ॥

अ०—हे भगवति ! जिस समय मेरे—सन्तोष—धैर्य,—शिक्षा, विद्या, और अनुभव यह सब वही जाते हो उस वक्त आपकी सुसम्मति रूपा नाव ही इनको किनारे लगाती है ॥ ५ ॥

त्वांस मीपेहि संस्थाप्य—दृष्ट्वा त्वांवा त्वया सह ।

करोमि भोजनं यत्तद्—एवतृप्तिकरम्मम ॥ ६ ॥

अ०—मैं आपको पास विठाकर या आपके दर्शन करता हुवा अथवा आपके साथ जो भोजन करता हूँ उस ही से मेरी तृप्ति होती है अन्यथा नहीं ॥

वस्मिन्कार्येहि निराशयं-पश्यामि तत्त्वतोप्यहम् ।

तद्धि त्वद्वचनेनैव—सिद्धयति नात्र संशयः ॥ ७ ॥

अ०—जिस कार्य में मैं वास्तव में निराश हो जाता हूँ उसमें भी आपके वचनों से सिद्धि मिल जाती है इसमें सन्देह नहीं ॥ ७ ॥

कथंसिद्धिं स्मृवाणयान्ते—किं श्रुतं पठितन्त्वया ।

स्यान्ते वदति को वा ते—सत्यम्मामधुनावद ॥ ८ ॥

अ०—इस ही लिये मैं पूछता हूँ कि हे माता जी ! आपने क्या-क्या पढ़ा वा सुना है याकि आपके हृदय में बैठा हुवा ही कोई आपको कह देता है इसका सच्चा उत्तर आप कृपा करके मुझको अभी दे दीजिये ।

त्वमेव मे पिता माता—त्वं गुरुश्च सखा प्रियः ।

निराधारस्य मे मातः—सर्वाधारा त्वमेव हि ॥ ९ ॥

अ०—हे मदाधार जननी ! आप ही मेरे पिता, माता, गुरु सखा (मित्र) और प्रिय हैं हे मातः ! मुझ निराधार के आधार रूप आप ही हैं ॥ ९ ॥

बद्धं यती धृतिं तोषं—सर्वैश्च वदति प्रियम् ।

कथन्नेमा मदाः शिर्क्षा—मह्यम्परुष वादिने ॥ १० ॥

अ०—आप सबके साथ प्यार और सन्तोष से बोलकर उनके धैर्य (हिम्मत) को बढ़ा देते हैं, तो हे माता ! मुझ कड़ु भाषी (कड़वा बोलने वाले) को आपने यह शिर्क्षा क्यों नहीं दी ॥ १० ॥

त्वद्दृते मम संसारे—निस्तारो न भविष्यति ।

अतोहम्प्रार्थयामीशं—मातरं जीवयेत्सदा ॥ ११ ॥

अ०—हे माताजी ! आपके बिना संसार से मेरा निस्तार नहीं होगा अतः परमात्मा से प्रार्थी हूँ कि हे प्रभो ! मेरे माताजी को सदा ही जिलाये रख ॥ ११ ॥

मातृतुल्यं हितं नैव—किमप्यत्रेति निश्चयः ।

सर्वोत्कृष्टहितस्यैवं—हितं कर्तुं क्षमः कथम् ॥ १२ ॥

अ०—जननी के समान इस संसार में कोई हितकारी नहीं हो सकता तो ऐसे परम हितकारी का हित मुझ जैसी कुसन्तान कर ही क्या सकती है ॥ १२ ॥

मातृ-पूजनोत्सवं कार्थ्यं—यद् द्यात्र प्रवर्त्तते ।

वरदानेन मातुर्हि—प्रेम्णा सम्पाद्यते मया ॥ १३ ॥

अ०—आज यहां जो यह मातृ पूजनोत्सव का कार्य हो रहा है सो मेरी मातुः श्री के वरदान से ही किया जा रहा है ॥ १३ ॥

आसने सुखमासीने ! पुत्र पौत्रादि संस्तुते !

मातर्मूढाः वयं भक्तौ—क्षन्तव्या भवदाश्रिताः ॥ १४ ॥

अ०—सुख पूर्वक जो आसन पर बैठे हैं तथा पुत्र पौत्रादि से जिनकी स्तुति की जा रही है ऐसे हे सोम्य भाव युक्त माताजी ! हम आपके आश्रित होते हुए भी भक्ति ज्ञान से मूढ़ हैं सो दयाकर आप हमको क्षमा कीजिये ॥ १४ ॥

त्रुटी न इन्न शोचामि—नाप्रियञ्चा प्यसौष्ठवम् ।

भक्त्यैव बालवद्वृत्तिम्—माता मे रञ्जयिष्यति ॥ १५ ॥

अ०—मेरी इस मातृ स्तुति में त्रुटियां बहुत हैं तथा यह लोगों को प्रिय नहीं लगती और न इसमें किसी प्रकार की उत्तमता है तथापि मुझको इन बातों की परवाह नहीं है क्योंकि मैं तो अपनी हार्दिक भाव भक्ति को प्रकट करता हुआ आशा रखता हूँ कि मेरी पुत्रवत्सल माताजी तो अवश्य प्रसन्न हो जावेंगी ॥ १५ ॥

वसन्त तिलका छन्द

सर्वे भवन्तु सुधियो, नितरां सुपूजां ।

स्वस्वस्थले सुतवराः विदधन्तु मातुः ॥

प्रातः सदा सुमनसा—चरणे प्रणम्य ।

चाज्ञान्निधायहृदि—कर्म रताभवन्तु ॥ १६ ॥

अ०—हे परमात्मन् ! सब सन्तानों को ऐसी सुबुद्धि प्रदान कर कि वे सब सुपुत्र अपने २ स्थानों पर अपनी पत्न्या जननी की

नित प्रति सेवा किया करें और प्रातःकाल उठकर अपने शुद्ध हृदय से माता के चरणों में प्रणाम करके तथा उनकी आज्ञा को हृदय में रखकर ही अपने २ कार्य में लगा करें ॥ १६ ॥

प्राञ्जलिः सन्प्रार्थयामि—मातराज्ञपयाधुना ।

सत्करिष्यामि चागन्तून्—वाचाच्च भोजनादिना ॥१७॥

अ०—हे मातुः श्री ! अब मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझको, आये हुए सज्जनों का वाणी और भोजनादि से सत्कार करने की आज्ञा दीजिये ॥ १७ ॥

भवदीय विनीत सेवक

—घनश्याम—

। श्री ।

घनश्याम औषधालय

इस औषधालय में बहुत से रोगों की शर्तिया असर करने वाली दवाइयां तयार हैं और हर एक रोग की दवा की कीमत २) रु० शीशी है । आपको जिस रोग की दवा की जरूरत हो वही दवा नीचे के पते से मंगाले ।

नोट—२५) रु० की इक्की वी० पी० मंगाने वाला ग्राहक हमारा एजेंट समझा जाता है और एजेंट को हम २५ रु० सैकड़ा कमीशन काट कर वी० पी० भेजते हैं पत्र मे इस नोटिस का हवाला देवे ।

पता—

राजवैद्य डा० घनश्याम शर्मा शास्त्री

(आशागंज) अजमेर

English Poetry

- (1) Much pleasure, we get now here, near's sitting
dear mother.
- (2) This is very good Occasion, we will forget it
never, Men are going hither thither, pleasing
to sit together, much pleasing to see them
walking, and talking my old mother.
- (3) Whatever we possess here, is all of my kind mother
- (4) If we want it we should be good, do, Ghanshyam
to be better.
- (5) Precept of mother, we must remember;
We will be good lucky, and not will suffer.

प्रोइट्री का भाषा में उच्चारण

मच प्लीजर वी गेट नाउ हीयर, नियरस सीटिंग डीअर मदर ।
दिस इज व्हेरी गुड ओकेजन, वी विल फारगेट इट नेव्हर ॥१॥
मेन आर गोइंग हीदर दीदर, प्लीजिंग टू सिट टू गेदर ।
मच प्लीजिंग टू सीदेम वाकिंग, एंड टार्किंग माइ ओल्ड मदर ॥२॥
व्हाट एव्हर वी पौजेस हीयर, इज आल आफ माइ काइंड मदर ।
इफ वी वान्ट इट, वी शुड वी गुड, इ घनश्याम टू वी वेटर ॥३॥

प्रिसेप्ट आफ मदर, वी मस्ट रिमेम्बर ।

वी विल वी गुड लर्की, एंड नाट विल सफर ॥४॥

अशआर बजवाने फारसी कि बरमोकाय रस्मे मअशर
बिलहयाते वालिदाये माजिदाये खुदं, बरमला खुवान्दा शुदन्द—

अशत्रार

बमनशो मिहरखाँ मादर कि गोयं हरचे मेदानं ।

चिहा बरदाशता अज्जमन, मिह्हन गुप्तन नमे त्वानं ॥ १ ॥

बसा उम्मीद तो करदी कि, तिफ्लक नेक ख्वाहद शुद ।

वले अफसोस ! मन्दूरज, मुरादे दिलत मे मानं ॥ २ ॥

तवल्लुद चूं शुदं घरदाशती, अक्रसामे रंजो गम ।

जे जिम्मा गर बरी न शवं, व बायद गुप्त बस लानं ॥ ३ ॥

खुशा ए मोज्जिा मादर, के दर जिल्ले जलीसे तो ।

कुनं हरकारो मे यावं, इफादत बस बतोशानं ॥ ४ ॥

जिहे अखलाको आदाबत, खुशाअत होसला आली ।

जिहे शौरी जुबानीयत, के नु तवानं बगुजरानं ॥ ५ ॥

मुवारिक शाने उम्मेमन, मुवारिक बरकते गुप्तन ।

कि अज दीदारे शौं दर, खानाय मन लिब्सो खुशनानं ॥ ६ ॥

कुनादीं ए प्रभो ! के मन, बजा आरं बख्तिदमातश ।

जने तिफ्लो जने मन, नीज रा दर हाजिरी रानं ॥ ७ ॥

बिगोयद तिफ्लकत घनश्याम, दर आगोशे तो गलताँ ।

मशो उम्मा ! खफा बरमन, विशोदायं मिहरबानं ॥ ८ ॥

बंबी ई तिफ्लके वल्दत, व वस्ता दस्तमे गोयद ।

बि फरमायेद बूमीसा ! कि मुश्किल हस्त आसानं ॥ ९ ॥

नोट—इन फारसी के शेरों में जहां पदान्त का अनुस्वार हो उसको अर्द्ध मकार की तरह पढ़ना चाहिये जैसे कुन'-को कुनम् इस ही तरह और भी ।

राजल

विलाशक खिदमते मादर हमारा फर्जे आला है ।
 जिन्हें हासिल है यह खिदमत, उन्हीं का बोल वाला है ॥ १ ॥
 बहुत तकलीफ़ माता ने, गर्भ में रख ठाई है ।
 जन्म के बाद भी अक्सर, पड़ा दुखों से पाला है ॥ २ ॥
 जवां में हो गया तो भी, रही इनको फिरकर मेरी ।
 मेरी ही जिन्दगी का फेरती, हर दम ही माला है ॥ ३ ॥
 अगर बाहर चला जाऊँ, तो हरदम सोचते हैं यों ।
 न जाने किस तरह, कब आयगा, किस ठोर लाला है ॥ ३ ॥
 पढ़ीं थी बहुत तकलीफ़ें, वलेकिन जन्त कीं सबको ।
 मेरी ही आश रख दिल में, जमाना वह निकाला है ॥ ५ ॥
 अगर बेजा कहे कोई, करे दुःख अपनी माता को ।
 नहीं बेजा अगर उसको, कहें, “बदमाश साला है ॥ ६ ॥
 अगर माता भी हो माता, छि जैसी चाहिये होना ।
 न वह माता, करे ओलाद, जिसकी आहो नाला है ॥ ७ ॥
 फ़रायज अपने से बाकिफ़ हो, माता पूत दोनो ही ।
 तभी हो सुख यही, बनश्याम, ने तो फल निकाला है ॥ ८ ॥

कन्वाली

सबजन जरा सुनो जी, मुश्किल है मात सेवा ।
 जो मात भक्त हो तो, राजी है सर्व देवा ॥ टेरा ॥ ॥ १ ॥
 जब पेट में पड़े तुम, लातों से वहाँ लड़े तुम ।
 जब हो गये खड़े तुम, रुठे लड़े पड़े वा ॥ २ ॥
 उस वक्त बात दिल की, इस मात ने ही जानी ।
 चाहते हो दूध पानी, या माँगते हो सेवा ॥ ३ ॥

नहीं वक्त आपने तो, देखा न काम देखा ।
 भट रो पड़े मचलके, 'लादों मुझे तो मेवा ॥ ४ ॥
 ए लाल । "ठहर जा तू" कुछ देर बात सुनले ।
 भट लोट कर जमी पर, रोए कि चल पड़े वा ॥ ५ ॥
 मिट्टी से फिर उठा कर, पूछा तुम्हे पपोला ।
 ले गोद मे खिलाया, रक्खी-तुम्हारी देवा ॥ ६ ॥
 यह तो है बात थोड़ी, बहुतेरे कष्ट भोगे ।
 तुम ने इसे नचाया, बन कर के भूत देवा ॥ ७ ॥
 उस वक्त अगर माता, नहीं मानती तुम्हारी ।
 धमकाती दुःख देती, किसको पुकारते वा ॥ ८ ॥
 तुम भूल कर के वह दिन, अब तो न एक सुनते ।
 करते हो जोरो जवरी, देखा है पीटतेवा ॥ ९ ॥
 'घनश्याम' क्या कहे अब, तुम जानते हो सब कुछ ।
 सब से बड़ा तो तीर्थ, पितु मात की है सेवा ॥ १० ॥

विनीत

घनश्याम शर्मा वैद्य

सुखदाता वटी नं० १

यह दवा बालक से लेकर बूढ़े तक और पैर से लेकर सर
 तक के रोगों में फायदामन्द है हर एक रोग में और दवा लेने
 से पहले इसको ले लेना चाहिये । पेट के विकार भिटा कर कब्ज
 खोलती है, खून को बढ़ाती और शुद्ध करती है तथा ववासीर
 वालों को बहुत ही मुकद्द है । खु० ७ गो० गरम या ठंडे पानी
 से सोते वक्त निगला दिया करे । की० १ शी० के २) रुपये डा०
 म० १ से ४ शी० तक के ॥॥

घनश्याम औषधालय

अजीब रोगों के लुप्तकर्त्री

अजीब रोगों से आदमा का रक्त नष्ट होता है, और जिन्हीं किसी रोग की नहीं रहती, सोया व जीता हुआ ही मरे क समाप्त है । इस रोग में यह फेन्ट दवा निकाली है, जिससे कई दुर्गम और स्त्रियों अजीब छेड छेड अपनी अस्वस्थी मालम पर धारण हैं, हजारों ही पुरुष दुर्गम (अजीबों) मंत्र रहे हैं । उक्त दवा में, फेन्ट फुल्लर वगैरह तद-लीफ जो अजीब होडने से होती है, उक्त दवा से नती होती । उक्त रोग को लोन्गिया अजीब भी कहते हैं । उक्त रोग पर उक्त दवा ही और अजीब उक्त दवा से बिलकुल छेड ही होती है । पीछे धीरे धीरे पांच रोजों में एक एक गोली घटाते जायें । उक्त दवा का बिलकुल छेड ही जाता है । इस पर यदि आज रोग से पूरा सेर तक दवा से आधी छेड ही घृत मिला कर, पका कर, नीचा ढाल कर रात को सोते क्षण में दिया जावे तो उक्तका पूरा दवायदा टिप्पण कर यह दवा स्वयं लुप्त का अस्वस्थी हर करेगी । यदि न पी लें तो दुर्गम भी नहीं । उक्त दवा ही मीठी २) रुपये, डाक महसूल १ से ४ गोली तक के ॥ है ।

राजवैद्य डॉ० घनश्याम शर्मा शास्त्री,

(आशागंज) अजमेर.

— श्रीगणेशाय नमः —

अथ आरती संग्रह

—: सचित्र :—

पं० महावीरप्रसाद शर्मा संगृहित



प्रकाशकः—बम्बई वाले

पं० श्रीधर शिवलालात्मज
पंडित श्रीनिवास किशनलालजी ने
अपने ज्ञानसागर प्रेस किशनगढ (राजस्थान) मे
छापकर प्रसिद्ध किया ।



द्वितीयवार २०००

सम्बत् २००६


सर्व हक यन्त्राधीशने अपने म्वाधीन रक्खा है ।

श्रीराम पंचायतन



❀ श्रीगणेशायनमः ❀

॥ अथ आरती संग्रह प्रारंभ ॥





* श्रीगणपतिजी की आरती *

गणपति की सेवा मंगल मेवा पूजत देवा विघ्न
हैं ॥ तीनलोक तेतीस देवता खडे द्वारपै अर्ज करैं ॥
ढेर ॥ ऋधि सिधि दक्षिण वाम सडी हैं उर आनन्द
सै चमर करैं ॥ धूप दीप अह लिये आरती भक्त खडे
जयकार करैं ॥ ग० ॥ १ ॥ गुडके मोदक भोग लगत
है नूषक वाहन चढ्यो सैं ॥ सौम्य रूपसे ये गणपति
की विघ्न भाजके कूप परैं ॥ ग० ॥ २ ॥ भाद्र मास

अरु शुक्ल चतुर्थी दिन द्वपहर का पूर परें ॥ लिये
 जन्म गणपति प्रभुजीने दुर्गा मन आनंद भरें ॥ ग०
 ॥ ३ ॥ अद्भुत बाजा बज्यो इन्द्र को देव बधू जहूँ
 गान करैं ॥ श्रीशंकर के आनंद उपज्यो नाम सुन
 सब विघ्न टैं ॥ ग० ॥ ४ ॥ आय विधाता बैठे
 आसन इन्द्र अप्सरा नृत्य करैं ॥ देख वेद ब्रह्माजी
 जाको विघ्न विनाशक नाम धरें ॥ ग० ॥ ५ ॥ एक
 दंत गजवदन विनायक त्रिनयन रूप अनूप धरें ॥
 षण् थंबा सा उदर पुष्ट हैं देख चन्द्रमा हास्य करैं ॥
 ग० ॥ ६ ॥ दे श्राप श्रीचन्द्रदेवको कलाहीन तत्काल
 करैं ॥ चौदह लोकमें फिरे गणपती रणतभँवर गुंजार
 करैं ॥ ग० ॥ ७ ॥ उठ प्रभात जब करैं ध्यान कोई
 व्यांका कारज सब सैं ॥ पूजा करके गावे आरती
 वाके शिर यश छत्र फिरैं ॥ ग० ॥ ८ ॥ गणपतिकी
 पूजा पहिले करके काम सभी निर्विघ्न सैं ॥ श्रीपर-
 ताप गणपतीजी की हाथ जोडकर स्तुति करैं ॥ ग०
 ॥ ९ ॥ इति श्रीगणपतीजी की आरती समाप्तम् ॥





* अथ श्रीकृष्णजी की आरती *

आरती युगुलकिशोर की कीजै, तन मन धन
 नवछावर कीजै ॥ टेरे ॥ रवि शशि कोटि वदनकी
 शोभा, ताहि निरख मेरो मन लोभा ॥ आ० ॥ १ ॥
 गौर श्याम मुख निरखत रीझे, प्रभुको स्वरूप नैन
 भर लीजै ॥ आ० ॥ २ ॥ कंचन थार कपूरकी वाती
 हरि आये निर्मल भई छाती ॥ आ० ॥ ३ ॥ फूलन
 की सेज फूलन गलमाला ॥ रतन सिंहासन बैठे नँ-
 दलाला ॥ आ० ॥ ४ ॥ मोर मुकुट कर सुरली
 सोहे ॥ नटवर भेष देख मन मोहे ॥ आ० ॥ ५ ॥
 ओढे नील पीत पट सारी ॥ कुंज विहारी गिरिवर
 धारी ॥ आ० ॥ ६ ॥ श्रीपुरुषोत्तम गिरिवर धारी ॥

आरती करत सकल वृजनारी ॥ आ० ॥ ७ ॥ नंद
नंदन वृषभानु किशोरी ॥ परमानंद स्वामी अविचल
जोरी ॥ आ० ॥ ८ ॥ इति श्रीकृष्णजीकी आरती ॥

* अथ श्रीरामचन्द्रजी की आरती *

आरती करत जनक कर जोरे, बड़े भाग रामजी
आये घर मेरे ॥ टेरे ॥ सीय स्वयम्बर धनुष चढायो
सब भूपन को गर्व गंवायो ॥ आ० ॥ १ ॥ तोडेउ
धनुष कियउ दोय दूका ॥ रघुकुल हरष रावण होइ
शंका ॥ आ० ॥ २ ॥ आई सीता संग सहेली ॥ हरष
निरष वर माला मेली ॥ आ० ॥ ३ ॥ गज मोतियन
को चोक पुरायो ॥ राजा जनक घर मंगल गायो ॥
आ० ॥ ४ ॥ कंचन थार कपूर की बाती ॥ सुर-
नर मुनि जन आये बराती ॥ आ० ॥ ५ ॥ राजा
दशरथ और जनक बैदेही ॥ भरत शत्रुहन परम स-
नेही ॥ आ० ॥ ६ ॥ धनि धनि राम लक्ष्मण दोउ
भाई ॥ धनि दशरथ कौशल्या माई ॥ आ० ॥ ७ ॥
मिथिलापुर में बटत बधाई ॥ दास सुरार आरती
गाई ॥ आ० ॥ ८ ॥ इति श्रीरामचन्द्रजीकी आरती ॥



* अथ त्रिगुण आरती श्रीशिवजीकी *

जय शिव ओंकारा हर शिव ओंकारा ॥ ब्रह्मा
विष्णु सदा शिव आधंगी थारा ॥ टेरे ॥ एकानन
चतुरानन पंचानन राजै ॥ हंसानन गरुडासन वृष-
वाहन साजै ॥ जैशिव० ॥ १ ॥ दोय श्रुज चारचतुर
श्रुज दसश्रुजते सोहैं ॥ तीनों रूप निरखतां त्रिश्रुवन
जन मोहैं ॥ जैशिव० ॥ २ ॥ अक्षमाला बनमाला
रुंडमाला धारी ॥ चंदन मृगमग चंदा भाले शुभ-
कारी ॥ जैशिव० ॥ ३ ॥ श्वेतांबर पीतांबर बाघम्बर
अंगे ॥ सनकादिक प्रश्रुतादिक श्रुतादिक संगे ॥ जै-
शिव० ॥ ४ ॥ कर मध्ये है कमंडल चक्र त्रिशूल
धरता ॥ युगकर्ता युगभर्ता युगसंहार के कर्ता ॥ जै-
शिव० ॥ ५ ॥ ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत
अविवेका ॥ प्रणवाक्षर मध्ये ये तीनों एका ॥ जैशि-

व० ॥ ६ ॥ त्रिगुण स्वामीकी आरती जो कोई नर गावै
 भजत शिवानंद स्वामी भनवांछित फल पावै ॥
 जैशिव० ॥ ७ ॥ इति त्रिगुण आरती श्रीशिवजीकी ॥



* अथ श्रीशिवजी की आरती *

शीश गंग अर्धीग पार्वती, सदा विराजत
 कैलाशी ॥ नदी भ्रगी निरत करत है, गुन भक्तन
 शिवकी दासी ॥ १ ॥ शीतल मंद सुगंध पवन जहँ,
 बैठे हैं शिव अविनार्शा ॥ करत गान गंधर्व सप्तसुर
 राग रागिनी अति गासी ॥ २ ॥ यक्ष रक्ष भैरव जहँ
 डोलत बोलत हैं बनके बासी ॥ कोयल शब्द सुना-

वत सुन्दर ॥ भँवर करत है गुंजाशी ॥ ३ ॥ कल्पद्रुम
 अरु पारिजात तरु लाग रहे हैं लक्षासी ॥ कामधेनु
 कोटिक जहँ डोलत, करत फिरत हैं भिक्षासी ॥ ४ ॥
 सूर्य कांत सम पर्वत शोभित, चन्द्र कांत शुवनी
 वासी ॥ छउं तो रूत नित फलत रहत हैं, पुष्प चढत
 हैं नित वर्षासी ॥ ५ ॥ देव गुनिनकी भीड पडत है,
 निगम रहत जो नित गासी ॥ ब्रह्मा विष्णु जाको
 ध्यान धरत हैं, कछु शिव हमको फरमासी ॥ ६ ॥
 ऋद्धि सिद्धिके दाता शंकर, सदा आनंद नित सुख
 रासी ॥ जिनको सुमिरत सेवा करत, दूट जाय यम
 की फांसी ॥ ७ ॥ त्रिशूलधर जीको ध्यान निरन्तर
 मन लगायकर जो गासी ॥ दूरकरे विपती शिव ति-
 नकी, जन्म जन्म शिवपद पासी ॥ ८ ॥ कैलासी
 कासीके बासी, अविनाशी मेरी सुध लीजो ॥ सेवक
 जान सदा चरणनको, अपनो जान दरस दीज्यो ॥
 ॥ ९ ॥ तुमतो प्रभुजी सदा सयाने, औगुन मेरा सब
 ढकियो ॥ सब अपराध क्षमा कर शंकर, किंकर की
 बिनती सुनियो ॥१०॥ इति श्रीशिवजीकी आरती ॥



* अथ श्रीशिवजी की आरती *

जय जय हे शिव परम पराक्रम ओंकारेश्वर
 तुम शरणं ॥ नमामिशंकर भवानिशंकर हर हर शंकर
 तुम शरणं ॥ टेर ॥ दशभुज मंडन पंचबदन शिव
 त्रिनयन शोभित शिव सुखदा ॥ जटा जूट सिर मुकुट
 बिराजै श्रवणे कुण्डल अति रमणा ॥ जैजै० ॥ १ ॥
 ललाट चमकत रजनीनाथ के पद्मगभूषण गौरीशा ॥
 त्रिशूल अंकुश गणपति शोभा डिमडिम बाजत धुनि
 मधुरा ॥ जैजै० ॥ २ ॥ भस्म विलेपन सर्वांगे शिव-
 नंदी वाहन अति रमणा ॥ वामांगे गिरि जाहै बिरा-
 जित घंटा नांदकी धुन मधुरा ॥ जैजै० ॥ ३ ॥ गज
 चर्मांबर बाधंबर उर कपाल माला गंगेशा ॥ पंच बदन
 पर गणपति शोभा पृष्टे गिरिपति ज्वालेशा ॥ जैजै० ॥
 ॥ ४ ॥ सिद्धेश्वर ममलेश्वर शंकर कपिलेश्वर कोटेशा ॥

कपिला संगम निर्मल जलहै कोटिक तीरथ भयहरणा
 जैजै० ॥ ५ ॥ नर्मद काबेरी जल संगम मध्ये शोभित
 गिरि शिखरा ॥ इंद्रादिकपति सुरपति सेवित रंभा
 आदिक धुनि मधुरा ॥ जैजै० ॥ ६ ॥ मंगल मूरति
 प्रणवाष्टक शिव अद्भुत शोभा मृड भवनं ॥ सनकादिक
 मुनि करत स्तोत्रं मनवांछित शिव भय हरणं ॥ जै-
 जै० ॥ ७ ॥ प्रणवाष्टक पद ध्यायजनेश्वर रचयति
 विमलं पदवाष्टं ॥ तुह्यरी कृपा त्रिगुणात्मा शिवजी
 पति सुपावनं भय हरणं ॥ जैजै० ॥ ८ ॥ इति ॥

* अथ श्रीदुर्गाजी की आरती *

जय अंबे गौरी मैया जय मंगल मूर्ती मैया जय
 आनन्द करणी ॥ तुमको निशिदिन ध्यावत हर ब्रह्मा
 शिवरी ॥ टेरो ॥ भांग सिंदूर विराजत टीको मृगमद को ॥
 उज्ज्वल से होउ नैना चन्द्र बदन नीको ॥ ज० अं० ॥ १ ॥
 कनक समान कलेवर रक्तांबर राजै ॥ रक्त पुष्प गल
 माला कंठन पर साजै ॥ जय अं० ॥ २ ॥ केहरि वाहन
 राजत खड्ग खप्र धारी ॥ सुरनर मुनिजन सेवत तिन


के दुखहारी ॥ जय अं० ॥ ३ ॥ कानन कुंडल शो-
 भित नासाग्रे मोती ॥ कोटिक चन्द्र दिवाकर राजत
 सम जोति ॥ जय अं० ॥ ४ ॥ शुंभ निशुंभ विदारै
 महिषा सुरघाती ॥ धूम्र विलोचन नैना निशिदिन
 मदमाती ॥ जय अं० ॥ ५ ॥ चौंसठ योमिनी गावत
 नृत्य करत भैरुं ॥ बाजत ताल मृदंगा और बाजत
 डमरू ॥ जय अं० ॥ ६ ॥ भुजा चार अति शोभित
 खड्ग खप्र धारी ॥ मन्वांछित फल पावत सेवत नर-
 नारी ॥ जय अं० ॥ ७ ॥ कंचन थाल विराजत अगर
 कपूर की बाती श्रीमालकेत में राजत कोट रत्न जोति
 जय अं० ॥ ८ ॥ या अंबेकी आरति जो कोई नर
 गावै ॥ भणत शिवानन्द स्वामी सुख संपति पावै ॥
 जय अंबे० ॥ ९ ॥ इति श्रीदुर्गाजी की आरती ॥

* पुन श्रीदुर्गाजी की आरती *

मंगलकी सेवा सुन मेरी देवा हाथ जोड तेरे
 द्वार खडे ॥ संतन प्रतिपाली सदा खुस्याली जयकाली
 कल्याण करे ॥ टेर ॥ पान सुपारी ध्वजा नारियल

ले ज्वाला तेरी भेंट धरे ॥ सुन जगदंबे न कर बिलंबे
 संतन का भंडार भरे ॥ संतन० ॥ १ ॥ बुद्धि बिधाता
 तू जगमाता मेरा कारज सिद्धकरे ॥ चरण कमल का
 लिया आसरा शरण तुम्हारी आन पडे ॥ जब जब
 भीडपरे भक्तनपर तब तब आय सहाय करे ॥ संतन० ॥
 ॥ २ ॥ बीस बारतैं सब जग मोह्यो तरुणी रूप अनूप
 धरे ॥ माता होकर पुत्र खिलावे कहीं भारजा भोग
 करे ॥ संतन० ॥ भृगु सुखदाई सदा सहाई संत खडे
 जय कार करे ॥ ब्रह्मा विष्णु महेश सहस्रफण लिये
 भेंट तेरे द्वार खरे ॥ अटल सिंहासन बैठी माता सिर
 सोने का छत्र धरे ॥ संतन० ॥ ४ ॥ वार शनिश्वरका
 क्या वरणौं जब लोकडपर हुकम करें ॥ खड्ग खप्र
 तिरशूल हाथ लिये रक्त बीज को भस्म करे ॥ शुभ-
 निशुंभपछाडे माता माहिषा सुरको पकडदले ॥ सं० ॥
 ॥ ५ ॥ आदितवार आदिकीबारी जन अपनेको कष्ट
 हरे ॥ कुपितहोय कर दानवमारै चंडमुचंड सबचूरकरे ॥
 जब तुम देखो दया रूप होय पल में संकट दूर करे ॥
 ॥ संतन ॥ ६ ॥ सोमसुमावधन्यो मेरी माता जनकी

आरज कबूल करे ॥ सिंह पीठ पर चढी भवानी अटल
 भवन में राज करे ॥ दर्शन पावें मंगल गावें सिद्ध
 साधु तेरी भेंट धरें ॥ सं० ॥ ७ ॥ ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे
 द्वारे शिवशंकरजी ध्यान धरें ॥ इंद्र कृष्ण तेरी करे
 आरती चँवर कुबेर डुलाय रहे ॥ सं० ॥ ८ ॥ इति ॥



* अथ श्रीलक्ष्मीजी की आरती *

जय लक्ष्मी माता, जय लक्ष्मी माता ॥ तुमको
 निशिदिन सेवत शिव विष्णु धाता ॥ टेरे ॥ ब्रह्माणी
 रुद्राणी कमला तुहीं अहै जगमाता ॥ सूर्य चन्द्रमा
 ध्यावत नारद ऋषि गाता ॥ जय ल० ॥ १ ॥ दुर्गा
 रूप निरंजनि सुख संपति दाता ॥ जो कोइ तुमको
 ध्यावत ऋधि सिधि धन पाता ॥ जय ल० ॥ २ ॥
 तूही अहै पाताल वासिनी तूही अहै शुभदाता ॥ कर्म
 प्रभाव प्रकाशक जग निधि से त्राता ॥ जय ल० ॥

॥ ३ ॥ जिस घर मांय तुम्हरो वासा जाहि में गुण
 आता ॥ करन चहे सोई करले मन नहिं धड़काता ॥
 जय ल० ॥ ४ ॥ तुम बिन यज्ञ न होय बस्त्र न होये
 राता ॥ स्नान पान को विभव तुम बिन को दाता ॥
 जय ल० ॥ ५ ॥ शुभ गुण सुन्दर युक्ताक्षीर निधि
 जाता ॥ रतन चतुर्दश तोको कोई भी नहीं पाता ॥
 जय ल० ॥ ६ ॥ या आरती लक्ष्मीकी जो कोई नर
 गाता ॥ उर पंकज अति उमगे पाप उतर जाता ॥
 जय ल० ॥ ७ ॥ स्थिरचर जगत बतावे करम प्रेर-
 लाता ॥ रामप्रताप भैया की शुभ दृष्टि चाता ॥८॥

* अथ श्रीपार्वतीजी की आरती *

जय पार्वती माता, जय० ॥ ब्रह्म सनातन देवी
 शुभ फलकी दाता ॥ ढेर ॥ अलिकुल पद्मानि वासिनि
 निज सेवक त्राता ॥ जग जीवन जगदंबा हरिहर
 गुणगाता ॥ जय पा० ॥ १ ॥ सिंहज वाहन साजे
 ढाकनको डर है साथी ॥ देव वधू जहँ गावत निरत
 करत ताता ॥ जय पा० ॥ २ ॥ सतयुग रूप शील

अति सुंदर नाम सती कहलाता ॥ हेमाचल घर जनमी
 सखी बन संग राता ॥ जय पा० ॥ ३ ॥ शुंभ निशुंभ
 बिडोरे हेमाचल स्थाता ॥ सहस्र भुजातनु धरके चक्र
 लिया हाथा ॥ जय पा० ॥ ४ ॥ सृष्टि रूपही जननी
 शिव संग रंगराता ॥ नंदी भृंगी तीन वहीपरया मद
 याता ॥ जय पा० ॥ ५ ॥ देवत अरज करत हैं मन
 चतिको लाता ॥ गावत दे दे ताली मनमें रंगछाता ॥
 जय पा० ॥ ६ ॥ श्रीपरताप आरती मैयाकी जो कोई
 नर गाता ॥ स्वर्ग सुखी नित रहता सुख संपति
 पाता ॥ जय पा० ॥ ७ ॥ इति पार्वतीजीकी आरती



* अथ श्रीवजरगबालाजी की आरती *

जाके बलसे गिरिवर कैप ॥ देव पिशाच निकट

नहि शंपै ॥ आरती कीजै हनुमान ललाकी ॥ दुष्ट दलन
 रघुनाथ कलाकी ॥ ४ ॥ लंकासे कोट समुद्र ऐसी
 खाई ॥ जात पवन सुत बारन लाई ॥ आर० ॥ १ ॥
 दे बीडा रघुनाथ पठाये ॥ लंका जारि सिया सुधि
 ल्याये ॥ आर० ॥ २ ॥ जगमग जोत अवधपुर राजै ॥
 घंटा ताल पखावज बाजै ॥ आर० ॥ ३ ॥ शक्तिबाण
 लगे लक्ष्मणको ॥ आन संजीवन लषण जिवाये ॥
 आर० ॥ ४ ॥ पेठ पताल तोड जमकातर ॥ अहि-
 रावणकी भुजा उखारे ॥ आर० ॥ ५ ॥ आरती कीजै
 जैसी तैसी ॥ ध्रुव प्रह्लाद विभीषण जैसी ॥ आर० ॥
 ६ ॥ सुरनर मुनिजन आरति उतारै ॥ जै जै जै
 कपिराज उचारै ॥ आर० ॥ ७ ॥ कंचन थाल कपूर
 सुहाई ॥ आरति करत अंजनि माई ॥ आर० ॥ ८ ॥
 बाई भुजासे असुर संहारे ॥ दहनी भुजा सुर संत
 उबारे ॥ आर० ॥ ९ ॥ लंक प्रजारि असुर सब मारै ॥
 राजा रामजिके कारज सारे ॥ आर० ॥ १० ॥ अंजनी
 पुत्र महा बलदायक ॥ देव संत के सदा सहायक ॥

आर० ॥ ११ ॥ लंक विध्वंसन सिया रघुराई ॥ तुल-
सिदास कवि आरति गाई ॥ जोः हनुमानजीकी आरति
गावै ॥ बस बैकुंठ बहुरि नाहिं आवै ॥ आर० ॥ इति




* अथ श्रीशिवजी की आरती *

कैलासी काशी के बासी अविनाशी मेरी सुध
लीजे ॥ सेवक शरण सदा चरणनको अपना जान
कृपा कीजे ॥ अभयदान दीजे प्रभु मेरे सकल सृष्टि
के हितकारी ॥ भोलानाथ तुम भक्त निरंजन भव
भंजन भव शुभकारी ॥ दीन दयालु कृपालु कालरिपु
अरुख निरंजन शिवयोगी ॥ मंगल रूप अनूप छबीले

अखिल भुवनके तुम भोगी ॥ बाँवों अंग रंगरस भीनों
 उमा बदनकी छवि न्यारी ॥ भोलेनाथ० ॥ १ ॥
 असुर निकंदन सब दुख भंजन वेद बखाने जगजाने
 रुंडमाल गल व्याल भाल शशि नीलकंठ लिया मन
 मानै ॥ गंगाधर त्रिशूलधर विषधर बाघंबरधर गिरि-
 धारी ॥ भोले० ॥ २ ॥ यो भव सागर अति अगाध
 है पार उतर कैसे सूझै ॥ यामैं ग्राह मगर बहु कच्छप
 यो मारग कैसे बूझै ॥ नाम तुम्हारो नौका निर्मल
 तुम केवट शिव अधिकारी ॥ भोले० ॥ ३ ॥ मैं जानूं
 तुम निपट सयाने अवगुण मेरे सब ढकियो ॥ सब
 अपराध क्षमाकर शंकर किंकरकी बिनती सुनियो ॥
 तुमतो जग के कल्पतरु हो हम हैं प्राणी संसारी ॥
 भोले० ॥ ४ ॥ काम क्रोध महा अपर बल इनसे मेरो
 बश नाई ॥ लोभ मोह ये भंगन छांडै आन देत नहिं
 तुम ताई ॥ क्षुधा तृषा नित लगी रहत है ता ऊपर
 तृष्णा भारी ॥ भोले० ॥ ५ ॥ तुमहीं शिवजीं कर्ता
 हता तुमहीं जगके रखवारे ॥ तुमहीं गगन मगन पुनि

पृथिवी पर्वत पुत्रीके प्यारे ॥ तुमहीं पवन हुताशन
 शिवजी तुमहीं दिनकर शशि तारे ॥ भोले० ॥ ६ ॥
 पशुपति अजर अमर अमरेश्वर योगेश्वर शिव गोस्वा-
 मी ॥ वृषभारूढ गूढ गुरु गिरिपति गिरिजा बल्लभ
 निष्कामी ॥ शोभा सागर रूप उजागर गावत हैं सब
 नरनारी ॥ भोले० ॥ ७ ॥ महादेव देवनके अधिपति
 फणिपति भूषण अति साजे ॥ दीप्त ललाट लाल दोउ
 लोचन जिनके डरते दुख भाजे ॥ परम पुनीत पुनीत
 पुरातन महिमात्रि भुवन विस्तारी ॥ भोले० ॥ ८ ॥
 ब्रह्मा विष्णु महेश शेष सुनिनारद आदि करत सेवा ॥
 जिनकी इच्छा पूरण कीन्ही नाथ सनातन हरदेवा ॥
 भक्ति सुक्तिके दाता शंकर सदा निरंतर सुखराशी ॥
 भोले० ॥ ९ ॥ महिमा इष्ट महेश्वरजी की सिखें सुनें
 जे नित गावैं ॥ अष्ट सिद्धि नव निद्धि सुख संपति
 स्वामी भक्ति सुक्तिहु पावैं ॥ श्रीअहिभूषण प्रसन्न हो-
 कर कृपा करो शिव त्रिपुरारी ॥ भोले० ॥१०॥ इति



* स्तुति श्रीवद्रीनाथजीकी *



पवन मन्द सुगन्ध शीतल हेममंदिर शोभि-
 तत् ॥ निकट गंगा बहत निरमल श्रीवद्रीनाथ वि-
 श्वंभरम् ॥ १ ॥ शेष सुधिरण करत निशिदिन धरत
 ध्यान महेश्वरम् ॥ श्रीवेद ब्रह्मा करत स्तुति श्रीवद्रीनाथ
 विश्वंभरम् ॥ २ ॥ शक्ति गौरि गणेश शारद नारद
 मुनि उच्चारणम् ॥ जोग ध्यान अपार लीला श्रीवद्री
 नाथ विश्वंभरम् ॥ ३ ॥ इन्द्र चन्द्र कुबेर दिनकर धूप
 दीप प्रकाशितम् ॥ सिद्ध मुनि जन करत जै जै
 श्रीवद्रीनाथ विश्वंभरम् ॥ ४ ॥ यक्ष किन्नर करत कौतुक
 गान गन्धर्व प्रकाशितम् ॥ श्रीलक्ष्मी कमला चँवर
 ढौरँ श्रीवद्रीनाथ विश्वंभरम् ॥ ५ ॥ कैलाश में एक
 देव निरञ्जन शैल शिखर महेश्वरम् ॥ श्री राजा
 युधिष्ठिर करत स्तुति श्रीवद्रीनाथ विश्वंभरम् ॥ ६ ॥
 मान सरोवर कौन परसे बिना बादल हिम बरसितम् ॥
 उडत कंकर जीव तरसे नर नारायण जाय परसेयं
 श्रीवद्रीनाथ विश्वंभरम् ॥ ७ ॥ श्रीवद्रीनाथके पंचरत्न

में पठत पाप विनाशनम् ॥ कोटि तीर्थ भयोहो पुण्यं
 प्राप्त फलदायकं श्रीबद्रीनाथ विश्वंभरम् ॥ ८ ॥ आदि
 बदरी ध्यान बदरी योग बदरी भाविष्य बदरी राज्य
 नृसिंह बदरी पंचबदरी स्मृतो नित्यं महातक नाशनं
 श्रीबद्रीनाथ विश्वंभरम् ॥ ९ ॥ इति

* अथ श्रीजगन्नाथजी की आरती *



॥ टेरे ॥ आरती श्रीजगन्नाथ मंगलकारी ॥
 परसत चरणारविंद आपदाहारी ॥ निरखत मुखारविंद
 आपदा हरी ॥ कंचन मन मधुप ध्यान जो तजग-
 मनी ॥ अंगन कुंडल धरत पांव पांव साथरी ॥ आर० ॥
 ॥ १ ॥ इंद्र दमन द्वारे ठाढे रोहिणी खडी ॥ मारकंड
 श्वेत गंग आनन्द भरी ॥ आर० ॥ २ ॥ गरुड खंभ
 सिंहपौर जातरी जुडी ॥ जातुरारी भीड भौत बैतकी
 छडी ॥ आर० ॥ ३ ॥ सुरनर मुनि द्वार ठाढे ब्रह्मा
 वेद उच्चरी ॥ धन्य धन्य सूरश्याम आज की घडी ॥
 आर० ॥ ४ ॥ इति

* मुम्बादेवी की स्तुति *



जय जय जगदम्बे दे सुख अम्बे जय बंबे
 बंबामाई ॥ आदि शक्ति उद्भव पालन लय करनि जानि
 शरनै आई ॥ रक्तबीज महिषासुर मर्दानि शुभ दैत्य
 मारनिहारी ॥ महिरावण को कियो निपाता गो द्विज
 भक्तन हितकारी ॥ बरदायिनी बर वेद बखानी सिं-
 हवाहिनी जग गाई ॥ जय जय जगदंबे दे सुख अंबे
 बंबामाई ॥ १ ॥ हिंदुस्थान दक्षिणी सीमा वारिधितट
 विश्राम लियो ॥ योजन वेद बनाय बंबई अजब शहर
 आवाद कियो ॥ त्रेतामें जप्त रही अयोध्या और द्वार
 का द्वापरमें ॥ कलियुग माहिं बंबई तैसी जाकी समता
 नहिं भूमें ॥ सप्तद्वीप की सम्पति छाई ऋद्धि सिद्धि
 की अधिकाई ॥ जय जय जगदम्बे दे सुख अम्बे जय

बंबे बंबामाई ॥ २ ॥ सुंदर धवल धाम नभचुंबत ध्वज
 पताक शोभा न्यारी ॥ वीथी हाट बजार चौपथा परम
 पुष्ट पविक्री ठारी ॥ बन उपवन सब भांति मुहावन
 मल भावन सुख सरसाई ॥ मलनि २ नाजत बरवाजा
 अतर अरगजा बू छाई ॥ द्वीप द्वीपका बसै आदमी
 माहिषा तीन लोक गाई ॥ जय जय जगदम्बे दे सुख
 अम्बे जय बंबे बंबामाई ॥ ३ ॥ मैं भी बडी आशकर
 आया मुंबापुर मांकी नगरी ॥ रत्न तख्त शोभित
 जगमाता नमन करै नगरी सगरी ॥ भाव भक्ति रंचक
 नाहिं जिय में पै हियकी जाननहारी ॥ करहु अनुग्रह
 अबशि दास पर प्रणतारति मेरी बारी ॥ कृष्ण विहारी
 शुक्ल बदरका वासी से लव लाई ॥ जय जय जग-
 दंबे दे सुख अम्बे जय बंबे बंबामाई ॥ इति

* स्तुति छन्द *

जय २ अविनाशी सब घट वासी व्यापक परमानंदा ।
 अविगत गातीतिं चरित पुनतिं माया रहित मुकुन्दा ॥
 जेहि लागि विरागी अतिअनुरागी विगतमोह सुनिवृन्दा
 निसिबासर ध्यावहिं हरिगुण गावहिं जयति सच्चिदानंदा

* अथ श्रीरामचन्द्रजी की आरती *

आरती कीजै राजा रामचन्द्रजी की हरि हरि
दृष्ट दलन सीतापतिजी की ॥ टेक ॥ पहिली आरति
पुष्पकी माला ॥ कालीनाग नाथलाये गोपाला ॥ १ ॥
दूसरी आरति देवकी नंदन ॥ भक्तउद्धार कंसनिकंदन
॥ २ ॥ तिसरी आरति त्रिभुवन मोहै ॥ रत्नासिंहासन
सीतारामजी को सोहै ॥ ३ ॥ चौथी आरति चहुँ युग
पूजा ॥ देवनिरंजन और न दूजा ॥ ४ ॥ पँचई आरति
रामजीको भावे ॥ रामजीको यशनामदेवजी गावे ॥ ५ ॥

* अथ जानकीनाथजी की आरती *

जय जानकीनाथा जै श्रीरघुनाथा ॥ दोउ कर
जोडे बिनवों प्रभु मेरी सुनदाता ॥ टेक ॥ तुम रघु-
नाथ हमारे प्राण पिता माता ॥ तुम हो सज्जन संगति
भक्ति मुक्ति दाता ॥ जय० ॥ १ ॥ चौरासी प्रभु फंद
छुटावो मेटो यम ब्रासा ॥ निशिदिन प्रभु मोहि
राखो अपने संग साथी ॥ जय० ॥ २ ॥ राम
लक्ष्मण भरत शत्रुहन संग चारो भैया ॥ जगमग जोति

विराजत शोभा अति लहिया ॥ जय० ॥ ३ ॥ हनु-
मत नाद बजावत नेवर ठमकइया ॥ सुवरण थाल
आरती करत कौशल्या मैया ॥ जय० ॥ कोट मुकुट
कर धनुष विराजत शोभा अतिभारी ॥ मनीराम दर्श
नकी पल पल बलिहारी ॥ जय० ॥ ५ ॥ इति ॥

* श्री बैकटेश्वरजी की आरती *

श्री मच्छेषशैलवासं ॥ नीराजये श्रीनिवासम् ॥ त्रयस्व
पपद्मदासं ॥ नीरदभव्यादिव्यदिभासम् ॥ नी ॥ विभ्राणं
शतराविप्रतिमटं ॥ हरिखाचितचामी करमुकटं ॥ भृगप्र-
भकुटिलालकजालम् ॥ केशरमृगमदतिलकितभालम् ॥
भुविभ्रमकृतकार्मुकुजनयं ॥ इन्दीवरदलविशालनयनं ॥
तिलकुसुमप्रतिमोत्तमनासम् ॥ बिंबविडंबकृताधरभासं ॥
स्निग्धामलतलगंडमंडलं ॥ कर्णयुगार्पितमकरकुंडलम् ॥
शारदचन्द्रमनीहरवदनम् ॥ कुन्दसुन्दरप्रभाग्रदनं ॥ स्व-
जनानुग्रहशुचिमंदहासम् ॥ नीराजये श्रीनिवासम् ॥ १ ॥
कंबुकंठमतिपीनस्कंधं दृग्गोचरजत्रुस्थलबन्धं ॥ चन्दन
चर्चिताविशालबाहुम् ॥ अभयवरारिदियुधबाहुं ॥ घृत-
कनकांगदकटकतोरंड ॥ विदालितहरिकणप्रभनस्वरम् ॥

श्रीवत्स श्रीहृदयकपाटं ॥ विद्युत्पिञ्जराचित्रितशाटम् ॥
 उरपीठलुठडुरुतरहारं ॥ त्रिवलीबंधुतितुंशिलजठरम् ॥
 पारिजातनवसुमनोमालं ॥ नाभिजातचतुराननवालं ॥
 काटितटसुघटितपीतपटन्यासं ॥ नीराजये श्री० ॥ २ ॥
 सौरभलुभ्यदभ्रमरकदंबम् ॥ मणिशृखलपरिरंभिनितंबं ॥
 परमरुचिरपीवरोरुबंधम् ॥ रम्यजानुमतिपेशलजंबं ॥
 वलयकालितघनकनकतोडरं ॥ मंजुमंजुसिंजाननूपुरं ॥
 मृदुलपाणिसरजांगुलितरणम् ॥ दुस्तरभवसागरतरणम् ॥
 विलसन्नखमणिपूर्वचांद्रिकं ॥ निरस्तवनितानादितंद्रिकं ॥
 श्रीभूदेवीचमरवीजितं ॥ नारद शुकसनकादिपूजितम् ॥
 पंतविठ्ठलत्रासगणग्रासं ॥ नीराजये श्रीनिवासम् ॥ इति

* अथ श्री रघुनाथजी की आरती *

आजबनी छवि भारी राघोजीकी ॥ टेक ॥ सहित

जानकी रत्न सिंहासन राजत अवध बिहारी ॥ १ ॥

रविशशिकोटि देखिछवि लाजे तिलकपट द्युतिकारी ॥

बदनमयंकतापत्रयमोचन मन्दहास अतिप्यारी ॥ २ ॥

क्रीटमुकुटमकराकृतकुंडल औबनमाला सोहाई ॥ बाहु

विसाल विश्रुषण सुन्दरकरगहि सारङ्गधारी ॥ ३ ॥ कटि-
परपीतवसनकी शोभामोहत मदननिहारी ॥ मुनिजन
चरण सरोजरुहसेवत ध्यानधरत त्रिपुरारी ॥ ४ ॥ चतुर
सखी मिलि करत आरती साज कंचनथारी ॥ रामसेवक
जय २ ध्वनि उचारत गावत पुर नर नारी ॥ ५ ॥ इति

* अथ श्रीलक्ष्मणबालाजी की आरती *



जै जै बोलो साधो लक्ष्मण बालाकी ॥ बाला
की वो नन्दलाला की ॥ टेक ॥ दक्षिण देश सवालख
पर्वत जगमग जोत दिवाला की ॥ जै० ॥ १ ॥ त्रि-
पती में सीतारामजी बिराजै ॥ चौकीवो हनुमतबाला
की ॥ जै० ॥ २ ॥ शेषाचल पर आप बिराजै चौकी
हनुमत बाला की ॥ जै० ॥ ३ ॥ इजै विजय दोउ
पोलिया बिराजै ॥ गहरी धौंस नगारा की ॥ जै० ॥
॥ ४ ॥ बालाजी के रथपर कनक सिंहासन ॥ कलंगी
बनीवो हीरा लालां की ॥ जै० ॥ ५ ॥ बृहस्पतिवार
जरीको जामो ॥ ऊपर मौज दुशाला की ॥ जै० ॥
॥ ६ ॥ शुक्रवार दूधनको न्हावण ॥ मौज बनी वो-

मोहन माला की ॥ जै० ॥ ७ ॥ देश देशके जतरी
 आवै ॥ मार पडै वो मृगछाला की ॥ जै० ॥ ८ ॥
 आशानंद गरीब तुम्हारो ॥ पत राखो कंठीमालाकी ॥
 जै० ॥ ९ ॥ जै जै बोलो साधो लक्ष्मण बालाकी ॥ बाला
 की वो नँदलाला की ॥ हरिहर दशरथ सुत नँदलाला
 का ॥ हरिहरि परदेशां रखवाला की ॥ हरिहरि घाट
 बाट रखवाला की ॥ जै जै० ॥ १० ॥ आरती सम्पूर्ण ॥



* अथ सत्यनारायणजी की आरती *

जय लक्ष्मी रमणा श्रीलक्ष्मी रमणा ॥ सत्य-
 नारायण स्वामी जन पातक हरणा ॥ जय० ॥ टेरे ॥
 रत्न जडित सिंहासन अद्भुत छवि राजै ॥ नारद कर-
 तनीरांजन घंटा ध्वनि बाजै ॥ जय० ॥ १ ॥ प्रगट भये
 कलिकारण द्विजकूंदरश दियो ॥ बूढो ब्राह्मण बनके
 कंचन महल कियो ॥ जय० ॥ २ ॥ दुर्बल भील

कठारो जिनपर कृपा करी ॥ चंद्र चूडएक राजा जि-
 नकी विपत हरी ॥ जय० ॥ ३ ॥ वैश्य मनोरथ पायो
 श्रद्धा तज दीनी ॥ सो फल भोग्यो प्रभुजी फेर स्तुति
 कीनी ॥ जय० ॥ ४ ॥ भाव भक्ति के कारण छिन
 छिन रूप धन्यो ॥ धरणी धारण कीनी जिनका काज
 सन्यो ॥ जय० ॥ ५ ॥ ग्वाल बाल संग राजा बनमें
 भक्ति करी ॥ मनवांछित फल दीनों दीन दयालु
 हरी ॥ जय० ॥ ६ ॥ चढत प्रसाद सबायो कदलीफल
 मेवा ॥ धूप दीप तुलसीसे राजी सत देवा ॥ जय० ॥
 श्रीसत्यनारायणजी की आरति जो २ नर गावै ॥
 भनत मनस्सुख संपति मनवांछित फल पावै ॥ जय० ॥
 ॥ ८ ॥ इति श्रीसत्यनारायणजी की आरती संपूर्ण ॥

* पुनः श्रीरामचन्द्रजी की आरती *

सखी आरती करी रस प्रेम भरी ॥ सिया रघु-
 वरजीको शृंगार करी ॥ टेक ॥ मणिमय थार साखिन
 करराजै बाती रविशशी द्युति निदरी ॥ १ ॥ बाजत हैं
 भेरी निशान दुंदुभी शंख झांझ करताल धरी ॥ २ ॥

नाचर्हिगान करर्हि सखिये थेइ थेई सुमन माल मणि-
होतझरी ॥ ३ ॥ रामचरण सियारामरूप लाखआनन्द
डूरस सिंधुभरी ॥ ४ ॥ इति आरती समाप्त ॥

* अथ श्रीलक्ष्मीरमणाजी की आरती *

जयलक्ष्मीरमणा ॥ श्रीलक्ष्मीरमणा ॥ शरणागत

जन शरणा गोवर्द्धन धरणा ॥ टेरे ॥ जय जय यमु-

ना तट निकटित प्रगटित पटुबेसा ॥ अट पट गोपी

कुचतट पटहर नटभेसा ॥ ज० ॥ १ ॥ जय मुरली

खतरली कृत गोपालीले ॥ तव भक्तिमें भवतु ब्रज

ललने से ॥ ज० ॥ २ ॥ जय जय भगवान् मधवन

कंसारे ॥ एतितं पतिनं कृपया तारय संसार ॥ ज० ॥

॥ ३ ॥ जय जय गो गो गोपी प्रतिपालक बंधो ॥

किमांत्रातुमशक्तः कृष्ण कृपा सिंधो ॥ ज० ॥ ४ ॥

जय जय भक्तजन प्रतिपालक चिरंजीव जीष्णो ॥

मासुद्धर दीनोद्धर धरणीधर विष्णो ॥ ज० ॥ ५ ॥ जय

जय कृष्ण स्वामी निजपद रसगामे ॥ कुरु करुणां कुरु

करुणां दास सखारामे ॥ ज० ॥ ६ ॥ इति ॥

—::() इति आरती संग्रह सम्पूर्णम् ()::—

नवीन ग्रंथ विक्रयार्थ छपकर तैयार है ।	
विवाह पद्धती भा० टी० चतुर्थीलाल कृत कीमत १।)	
” ” ” खुला पत्रा ” ॥)	
शालि होत्र बडा सचित्र	कीमत २)
नरसी मायरा सचित्र मारवाडी खयाल	” ॥८)
बृहत्स्रोत्र रत्नाकर गुटका	कीमत २)
रामायण तुलसीकृत भा० टी०	” २२)
प्रेमसागर कीमत ३॥) बडा संतोषबोध	” ३।)
गीता भाषा लाहोरी	” १।)
चूटीप्रचार वैद्यक कीमत २।) वैद्यविनोद	” २।)
व्रतराज भा० टी०(जीर्ण)बिना एकादशा	” ७)
कर्म विषाक संहिता भा० टी०	कीमत १।)
अमृतसागर बडा कीमत ७) सुखसागर	” १५)
पुरुषोत्तममात्यम भा० टी०	कीमत ३॥)
गरूडपुराण भा० टी०	” ३)
एकादशा व्रत कथा भा० टी०	” ३)
अभिनव निघंटु	” ३॥)

सर्व प्रकार की पुस्तकों के मिलने का पता:—

पं० श्रीधर शिवलालजी

ज्ञानसागर प्रेस, किशनगढ राजस्थान.

द्वितीय (द्वितीय)

सचित्र



लेखक

जयदयाल गोयदका



गणेश

शुभा पुष्पादि विक्रित
व्यावर (अजयूर)



मुद्रक तथा प्रकाशक

धनश्यामदास जालान

गीताप्रेस, गोरखपुर

सं० १९९४ से सं० २००६ तक ९६,२५०

सं० २००७ त्रयोदश संस्करण २०,०००

सं० २००८ चतुर्दश संस्करण २०,०००

कुल १,२६,२५०

मूल्य -)॥ डेढ़ आना

गीताप्रेस, पो० गीताप्रेस (गोरखपुर)

श्रीहरिः

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
१-स्वतन्त्रताके लिये स्त्रियोंकी अयोग्यता	... ५
२-वर्तमान कालमें स्त्री-शिक्षाकी कठिनाई	... ७
३-प्राचीन कालकी स्त्री-शिक्षा	... ८
४-मनुष्यमात्रके कर्तव्य	... ९
५-स्त्रीमात्रके कर्तव्य	... १२
६-कन्याओंके कर्तव्य	... २८
७-विवाहिता स्त्रियोंके कर्तव्य	... ३०
८-विधवाओंके कर्तव्य	... ३९



f



-

f



श्रीकमला-पति-स्वागत

श्रीहरिः

नारीधर्म

स्त्रीधर्मके विषयमे न तो मुझे विशेष ज्ञान है और न मै अधिकारी ही हूँ तथापि अपनी साधारण बुद्धिके अनुसार कुछ लिखनेका प्रयास कर रहा हूँ ।

स्वतन्त्रताके लिये स्त्रियोंकी अयोग्यता

स्त्री-जातिके लिये स्वतन्त्र न होना ही सब प्रकारसे मङ्गलदायक है । पूर्वमें होनेवाले ऋषि-महात्माओने स्त्रियोंके लिये पुरुषोके आधीन रहनेकी जो आज्ञा दी है वह उनके लिये बहुत ही हितकर जान पड़ती है । ऋषिगण त्रिकालज्ञ और दूरदर्शी थे । उनका अनुभव बहुत सराहनीय था । जो लोग उनके रहस्यको नहीं जानते हैं वे उनपर दोषारोपण करते है और कहते हैं कि ऋषियोने जो स्त्रियोंकी स्वतन्त्रताका अपहरण किया यह उनके साथ अत्याचार किया गया । ऐसा कहना उनकी भूल है; परन्तु यह विषय विचारणीय है । स्त्रियोमे काम, क्रोध, दुःसाहस, हठ, बुद्धिकी कमी, झूठ, कपट, कठोरता, द्रोह, ओछापन, चपलता, अशौच, दयाहीनता आदि विशेषे अवगुण होनेके

कारण वे स्वतन्त्रताके योग्य नहीं है । तुलसीदासजीने भी स्वाभाविक कितने ही दोष बतलाये हैं—

नारि सुभाउ सत्य सब कहहीं । अवगुन आठ सदा उर रहहीं ॥
साहस अनृत चपलता माया । भय अविवेक असौच अदाया ॥

अतएव उनके स्वतन्त्र हो जानेसे—अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार आदि दोषोकी वृद्धि होकर देश, जाति, समाजको बहुत ही हानि पहुँच सकती है । इन्हीं सब बातोंको सोचकर मनु आदि महर्षियोंने कहा है—

बालया वा युवत्या वा वृद्धया वापि योषिता ।
न स्वातन्त्र्येण कर्तव्यं किञ्चित् कार्यं गृहेष्वपि ॥
बाल्ये पितुर्वशे तिष्ठेत् पाणिग्राहस्य यौवने ।
पुत्राणां भर्तारि व्रते न भजेत् स्त्री स्वतन्त्रताम् ॥

(मनु० ५ । १४७-१४८)

‘बालिका, युवती वा वृद्धा स्त्रीको भी (स्वतन्त्रतासे बाहरमें नहीं फिरना चाहिये और) घरोंमें भी कोई कार्य स्वतन्त्र होकर नहीं करना चाहिये । बाल्यावस्थामे स्त्री पिताके वशमें, यौवनावस्थामे पतिके आधीन और पतिके मर जानेपर पुत्रोंके आधीन रहे, किन्तु स्वतन्त्र कभी न रहे ।’

यह बात प्रत्यक्ष भी देखनेमे आती है कि जो स्त्रियाँ स्वतन्त्र होकर रहती हैं वे प्रायः नष्ट-भ्रष्ट हो जाती हैं । विद्या, बुद्धि एवं शिक्षाके अभावके कारण भी स्त्री स्वतन्त्रताके योग्य नहीं है ।

वर्तमान कालमें स्त्री-शिक्षाकी कठिनाई

स्त्री-जातिमें विद्या एवं शिक्षाका भी बहुत ही अभाव है। इनके लिये शिक्षाका मार्ग भी प्रायः बंद-सा हो रहा है और न अति शीघ्र कोई सरल राह ही नजर आती है। कन्या एवं स्त्रियोंको यदि पुरुषों-द्वारा शिक्षा दिलायी जाय तो प्रथम तो पढ़े-लिखे मिलनेपर भी अच्छी शिक्षा देनेवाले पुरुष नहीं मिलते। उनके स्वयं सदाचारी न होनेके कारण उनकी शिक्षाका अच्छा असर नहीं पड़ता वरं दुराचारकी वृद्धि-की ही शङ्का रहती है, शङ्का ही नहीं, प्रायः ऐसा देखनेमें भी आ जाता है कि जहाँ कन्याओं और स्त्रियोंको पुरुष शिक्षा देते हैं वहाँ व्यभिचारादि दोष घट जाते हैं। जहाँ कहीं स्त्रियोंके साथ पुरुषोका सम्बन्ध देखनेमें आता है वहाँ प्रायः दूषित वातावरण देखा जाता है। कहीं-कहीं तो उनका भंडाफोड़ हो जाता है और कहीं-कहीं नही भी होता। स्कूल, कॉलेज, पाठशाला, अबलाश्रम, थियेटर, सिनेमाकी तो बात ही क्या है, कथा, कीर्तन, देवालय और तीर्थस्थानादिका भी वातावरण स्त्री-पुरुषोके मर्यादाहीन सम्बन्धसे दूषित हो जाता है। इसलिये स्त्री-पुरुषोका सम्बन्ध जहाँतक कम हो, उतना ही हितकर है।

यदि स्त्रियोंके द्वारा कन्या एवं स्त्रियोंको शिक्षा दिलायी जाय तो प्रथम तो विदुषी, सुशिक्षिता स्त्रियोंका प्रायः अभाव-सा ही है। इस-पर कोई मिल भी जाय तो सदाचारिणी होना तो अत्यन्त ही कठिन है। शिक्षापद्धतिको कुछ जाननेवाली होनेपर भी स्वयं सदाचारिणी न होनेसे उनका दूसरोपर अच्छा असर होना सम्भव नहीं। आज भारतवर्षमें सैकड़ों कन्या-पाठशालाएँ हैं, परन्तु यह कहना बहुत ही

कठिन है कि उनमेंसे कोई भी पूर्णतया हमारे सनातन आदर्शके अनुसार सम्मालित हो रही है।

प्राचीन कालकी स्त्री-शिक्षा

पूर्वकालमें जिस शिक्षापद्धतिसे शिक्षिता हांकर बहुत-सी अच्छी सदाचारिणी, विदुषी, सुशिक्षिता स्त्रियाँ हुआ करती थीं वह शिक्षापद्धति अब प्रायः नष्ट हो गयी है। पहले जमानेमें कन्याएँ पिताके घरमें ही माता-पिता-भाई-बहिन आदि अपने घरके ही लोगोंद्वारा एवं विवाहके उपरान्त ससुरालमें पति, सासु आदिके द्वारा अच्छी शिक्षा पाया करती थीं। वर्तमान कालकी तरह कहीं बाहर जाकर नहीं, इसीलिये वे सदाचारिणी और सुशिक्षिता हुआ करती थीं। कन्याओंके गुरुकुल, पाठशाला और विश्वविद्यालयका उल्लेख श्रुति-स्मृति-इतिहास-पुराणादिमें कहीं नहीं पाया जाता। लड़कोंके साथ लड़कियोंके पढ़नेकी बात भी कहीं नहीं पायी जाती। उस समय ऊपर कहे अनुसार घरहीमें शिक्षाका प्रबन्ध किया जाता था या किसी विदुषी स्त्रीके पास अपने घरवालोंके साथ जाकर भी शिक्षा ग्रहण की जाती थी। जैसे श्रीरामचन्द्रजीके साथ जाकर सीताजीने अननूयाजीसे शिक्षा प्राप्त की थी। उस कालमें बड़ी-बड़ी सुशीला, सुशिक्षिता विदुषियों हुई हैं, जिनके चरित्र आज भी हमारे लिये आदर्श हैं।

हमें भी इस समय स्त्रियोंके लिये शिक्षा और विद्या पानेका प्रबन्ध अपने घरोंमें ही करनेकी कोशिश करनी चाहिये। हर एक भाईको अपने-अपने घरोंमें धार्मिक पुस्तकोंके आधारपर अपने-अपने बाल-बच्चों और स्त्रियोंको नियमितरूपसे शिक्षा देनी चाहिये।

प्रथम मनुष्यमात्रके सामान्य धर्मकी एवं स्त्रीमात्रके सामान्य धर्मकी शिक्षा देकर फिर कन्याओके लिये, विवाहिता स्त्रियोंके लिये एवं विधवा स्त्रियोंके लिये अलग-अलग विशेष धर्मकी शिक्षा देनी चाहिये ।

मनुष्यमात्रके कर्तव्य

मनुष्यमात्रके सामान्य धर्म संक्षेपसे निम्नलिखित हैं—स्त्रियोंको इनके भी पालन करनेकी कोशिश करनी चाहिये । महर्षि पतञ्जलिनियम-नियमके नामसे और मनुने धर्मके नामसे ये बातें बतायी हैं ।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः ।

(योगदर्शन २ । ३०)

किसी प्राणीको किसी प्रकार भी किञ्चिन्मात्र कभी कष्ट न्यम देनेका नाम अहिंसा है ।

हितकारक प्रिय शब्दोमे न अधिक और न कम अपने मनके अनुभवका जैसा-का-तैसा भाव निष्कपटतापूर्वक प्रकट कर देनेका नाम सत्य है ।

किसी प्रकार भी किसीकी वस्तुको न छीनने और चुरानेका नाम अस्तेय है ।

सब प्रकारके मैथुनोका त्याग करके वीर्यकी रक्षा करनेका नाम ब्रह्मचर्य* है ।

शरीरनिर्वाहके अतिरिक्त भोग्य पदार्थोंका कभी संग्रह न करनेका नाम अपरिग्रह है ।

* कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा ।

सर्वथा मैथुनत्यागो ब्रह्मचर्यं प्रकीर्तितम् ॥

ये पाँच यम हैं । इन्हींको महाव्रत भी कहते हैं ।

शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

(योगदर्शन २ । ३२)

सब प्रकारसे बाहर और भीतरकी पवित्रताका नाम शौच है ।

दैवेच्छासे प्राप्त सुख-दुःखादिमें सदा-सर्वदा सन्तुष्ट
नियम रहनेका नाम सन्तोष है ।

मन और इन्द्रिय-संयमरूप धर्मपालनके लिये कष्ट सहन करनेका नाम तप है ।

ईश्वरके नाम और गुणोंका कीर्तन एवं कन्याणप्रद शास्त्रोंके अध्ययनका नाम स्वाध्याय है ।

सर्वस्व ईश्वरके अर्पण करके नित्य उसके स्वरूपका ध्यान रखते हुए उसकी आज्ञाके पालन करनेका नाम ईश्वरप्रणिधान है । ये पाँच नियम हैं ।

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥

(मनु० ६ । ९२)

भारी दुःख आ पड़नेपर भी बुद्धिके विचलित न होने और धैर्य धारण करनेका नाम धृति है । अपकार
धर्मके दस लक्षण करनेवालेसे बदला लेना न चाहनेका नाम क्षमा

है । मनको वशमें करनेका नाम दम है ।

अस्तेय और शौचका अर्थ ऊपर लिखा ही है ।

इन्द्रियोको वशमें करनेका नाम इन्द्रिय-निग्रह है ।

सात्त्विक बुद्धिका नाम धी है ।

सत्य और असत्य पदार्थके यथार्थ ज्ञानका नाम विद्या है ।

सत्यका अर्थ भी ऊपर दिया जा चुका है ।

मनकी प्रतिकूलतामे वृत्तियोंके उत्तेजित न होनेका नाम अक्रोध है ।

इसलिये ईश्वरभक्ति, योग्यता और शक्तिके अनुसार सेवा करना, काम-क्रोध-लोभ-मोहादि दुर्गुणोंका त्याग, लज्जा, शील, समता, सन्तोष, दया, सरलता, शान्ति, कोमलता, निर्भयता आदि सद्गुणोंका सेवन, चोरी, जारी, झूठ, कपट, हिंसा आदि दुराचारो एवं मादक वस्तुओका तथा परनिन्दा आदि दुर्व्यसनोंका त्याग करना मनुष्य-मात्रका कर्तव्य है ।

शास्त्रोमे मनुष्यमात्रके लिये आत्माके उद्धारके प्रायः तीन उपाय बतलाये हैं—कर्म, उपासना और ज्ञान । उनमे ज्ञानका मार्ग कठिन होनेके कारण स्त्रियोंके लिये कर्म और उपासना—ये दो ही सरल, सुसाध्य हैं । अतएव स्त्रियाँ निष्कामभावसे कर्म और उपासना (ईश्वर-भक्ति) करके ही शीघ्र आत्माका उद्धार कर सकती हैं ।

भगवान्ने गीतामे कहा है कि अपने-अपने कर्मोंके द्वारा ईश्वरको पूजकर मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है ।

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥

‘हे अर्जुन ! जिस परमात्मासे सर्वभूतोंकी उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सर्व जगत् व्याप्त है, उस परमेश्वरको अपने स्वाभाविक कर्मद्वारा पूजकर मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त होता है ।’

अतएव स्वार्थका त्याग करके सभी स्त्रियोंको उत्तम कर्मोंका आचरण निष्कामभावसे करना चाहिये । निष्कामभावसे सदाचारका पालन करनेसे शीघ्र ही आत्माका कल्याण हो सकता है ।

जिस आचरणसे यावन्मात्र जीवोंको सुख पहुँचे उसीका नाम सदाचार है ।

स्त्रीमात्रके कर्तव्य

प्रथम तो नैहर और ससुरालवांलोके साथ उत्तम आचरणका अभ्यास करे । घरमें जो बड़े स्त्री-पुरुष हो उनकी सेवा, ^{कर्म} उनसे शिक्षाका ग्रहण, नित्य उनके चरणोमे प्रणाम और उनकी आज्ञाका पालन करे । समान अधिकारवालोसे प्रेमका व्यवहार करके प्रीति बढ़ावे और छोटेका वात्सल्यभावसे पालन करे एवं खान-पान, लेन-देन आदिमे स्वार्थका त्याग करके सबके साथ सम व्यवहार करे । बह्नाभूषण एवं खान-पान आदिके पदार्थ जो बाहरसे आ प्राप्त हो या घरमे ही तैयार किये जायँ उनमे सबसे उत्तम पदार्थ यदि नैहरमे निवास हो तो माता-पिता, भाई-ब्रह्मिन, भौजाई-भतीजे आदिको मिले ऐसी कोशिश करे । अपने और अपने बालकोंके लिये नहीं । यदि माता-पिता, भाई-भौजाई इत्यादि विशेष आग्रह करे और उनकी प्रसन्नताके लिये चीज स्वीकार करनी ही पड़े तो जहाँतक हो, वे नेत्रा चाहे उससे कम लेकर ही स्वयं सन्तोष एवं प्रसन्नता प्रकट करें

एवं उनको भी सन्तोष करावें । बिना दिये एवं बिना उनकी मर्जी कोई भी चीज अपने या अपने बालकोके लिये न तो माँगे ही और न लेनेकी इच्छा ही करे । यदि माता-पिता भाई-भौजाईसे छिपाकर कोई वस्तु देवें तो वह उनके सन्तोषके लिये भी न ले एवं भाई-भौजाईकी मर्जी बिना प्रकटमे भी कोई चीज दे तो वह भी स्वीकार न करे; क्योंकि संसारमे त्याग ही सबसे बढ़कर, मूल्यवान्, महत्त्वपूर्ण मुक्तिदायक पदार्थ है ।

इसी प्रकार यदि ससुरालमे हो तो सास-ससुर, जेठ-जेठानी, देवर-देवरानी, फूफी-ननद आदि एवं उनके बालकोको उपयुक्त उत्तम पदार्थ देकर बचे हुए पदार्थ अपने पति, पुत्र, नौकरादिको देकर सबके वाद सीता, सावित्री, द्रौपदी*, दमयन्तीकी तरह आप ग्रहण करे ।

अपनी निजी चीज पीहर या ससुरालके दूसरे लोग काममे लावे तो अपना अहोभाग्य समझे और आनन्द माने । यही नहीं वह उनकी सेवामे लगे इसके लिये कोशिश भी करे तथा इस प्रकारकी सेवा करके किसीके आगे प्रकाश न करे, दूसरोके अधिकारकी चीज स्वयं लेनेके लिये कभी इच्छा एवं कोशिश न करे ।

देवरानी, जेठानी, ननद आदिके बालकोका अपने बालकोकी अपेक्षा भी अधिक लाड़ और प्रेम करे । बालक थोड़ेमे ही प्रसन्न हो जाते हैं और बालकोकी प्रसन्नता उनके माता-पिताको लाड़-चाव

* स्त्रीशिक्षाके विषयमे द्रौपदीने सत्यभामाको महाभारत वनपर्व अध्याय २३३-२३४ मे जो कहा है वह देखना चाहिये । यह विषय गीताप्रेससे प्रकाशित 'भगवच्चर्चा भाग २' नामक पुस्तकमें भी है ।

करनेवालेके प्रति कृतज्ञ बना देती है । इससे घरमें बड़ा त्रेम और सद्भाव रहता है ।

पीहर या ससुरालमे सेवा-शुश्रूषा एवं रसोई-चौका, वर्तन आदि गृहकार्य तथा सीना-पिरोना-कातना आदि शिल्पकार्य या और कोई भारी कठिन काम आ प्राप्त हो तो सबसे पहले उत्साहके साथ उसको परमधर्म समझकर स्वयं करनेकी चेष्टा करें । दूसरे करते हों तो उनसे प्रेमाग्रहपूर्वक छीनकर भी स्वयं ही करनेकी चेष्टा करें । 'काममें अगाड़ी और भोगमे पिछाड़ी' वाली कहावतको अक्षरशः चरितार्थ कर दिखा दें । इस प्रकारका निःस्वार्थभावका कर्तव्यपालन ही शीघ्र आत्माका कल्याण करनेवाला है ।

कोई काम दूसरे पाँच आदमियोंके साथ मिलकर करे तो उसकी सफलताका श्रेय सत्यकी रक्षा करते हुए स्वयं न लेकर दूसरोंको ही देनेका प्रयत्न करे । तथा कुछ बिगड़ जाय तो नम्रतापूर्वक स्वयं अपना ही दोष कायम करें ।

सबको यथायोग्य मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा दें; किन्तु इन्हे मुक्तिमें बाधक समझकर स्वयं स्वीकार न करे । हित और सुखकर पदार्थ एवं कार्यको दूसरोको देनेकी और कष्टप्रद एवं अधिक परिश्रमके कार्य और अपेक्षाकृत अल्प मूल्यवाले पदार्थ अपने लिये लेनेकी सदा कोशिश रखें । गृहकार्य, सेवा, उपकार करके न किसीको कहें और न उसे मनमें ही रखे, अपने द्वारा की हुई भलाई और दूसरोंद्वारा की हुई अपनी बुराईको भूल जायँ; किन्तु दूसरेके द्वारा किये गये उपकारको कभी न भूलें । सबके साथ प्रेमका व्यवहार और सम्मानपूर्वक बातचीत

करें । अपने साथ अनुचित व्यवहार करनेवालेके साथ भी ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष, घृणा आदिसे रहित होकर उसका हित करनेकी कोशिश करें । इस प्रकारके व्यवहारसे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं और स्वामी भी अनुकूल बन जाते हैं; किन्तु ऐसा व्यवहार स्वामीको अनुकूल बनानेके उद्देश्यसे नहीं, अपना कर्तव्य समझकर ही करना चाहिये ।

पीहर या ससुरालमे जो गृहकार्य सफाई आदि आवश्यक हो उसको बिना पूछे ही करने लग जायँ । भोजनादिके विषयमे ऐसा व्यवहार करना चाहिये—बलिवैश्वदेव होनेके बाद प्रथम तो अतिथिको भोजन कराना चाहिये । उसके बाद वृद्ध, बालक, रोगी, गर्भिणी स्त्री, प्रसूतिका, नव विवाहिता वधू आदिको भोजन कराना चाहिये । फिर घरके पुरुषोको, उनके बाद नौकर आदि सबको भोजन कराके स्वयं भोजन करना श्रेष्ठ माना गया है । गृहिणी स्त्रियोंके लिये यही यज्ञशिष्ट समझा गया है ।

यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः ।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥

(गीता ३ । १३)

‘यज्ञसे शेष बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठलोग सब पापोसे छूटते हैं और जो पापीलोग अपने शरीरपोषणके लिये ही पकाते हैं वे तो पापको ही खाते हैं ।’

बने हुए पदार्थोमेसे अच्छे-अच्छे पदार्थ अपने या अपने घरवालोके लिये बचा लिये जायँ तो वे यज्ञसे बचे हुए नहीं बरं बचाये हुए हैं; इसलिये वे विषके समान हैं । बचाया हुआ भोजन

करनेवाले पापके भागी होते हैं अतएव अपने या अपने पति-पुत्रादिके लिये भी श्रेष्ठ पदार्थ अलग बचाकर नहीं रखने चाहिये । रसोईमे बने पाँच पदार्थोमेसे लोगोके भोजन करते-करते अपने लिये थोड़े या दो-तीन ही पदार्थ बच जायँ और वे भी स्वरूप और स्वाद और रसमे उतने अच्छे नहीं हैं, किन्तु यज्ञशिष्ट होनेके कारण वे अमृतके तुल्य है ।

अतिथि देवताके समान होता है । उसको प्रेमयुक्त सेवा और भोजनादिसे सदा सन्तुष्ट करना चाहिये । अतिथि-सेवा गृहस्थका एक मुख्य धर्म माना गया है । किये गये खर्च और मेहनत बराबर होनेपर भी प्रेमपूर्वक की गयी सेवा बड़ी लाभदायक होती है और बिना प्रेम की हुई सेवा परिश्रममात्र है ।

मनु आदि स्मृतिकारोने स्त्रियोके लिये विवाहकी विधिको ही वैदिक संस्कार, पति ही गुरु होनेके कारण पतिगृहमे निवास ही गुरुकुलवास और गृह-कार्यको ही अग्निहोत्र बताया है ।

वैवाहिको विधिः स्त्रीणां संस्कारो वैदिकः स्मृतः ।

पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया ॥

(मनु० २ । ६७)

शास्त्रमे बताया अनुसार कार्य करनेसे ही स्त्री कल्याणको प्राप्त होती है । अतएव ऊपर लिखे शास्त्रोक्त कार्य करनेके लिये स्त्रियोको सदा तत्पर रहना चाहिये ।

साध्वी स्त्रियोको इस बातपर भी विशेष ध्यान देना चाहिये कि घरमें किसी प्रकार कलह, लड़ाई-झगड़ा न होने पावे; क्योंकि कलह

साक्षात् कलियुगकी मूर्ति है। जहाँ कलह होता है वहाँ क्रोध और क्लेशकी वृद्धि होकर बड़ा अनर्थ हो जाता है। कोई-कोई तो उत्तेजित होकर कुएँमें गिरकर, फाँसी लगाकर या जहर-विष खाकर कालकी ग्रास बन जाती है। काल, क्लेश, कल्पना, कलि— इन सबकी उत्पत्ति कलहसे होती है, इसलिये सुख चाहनेवाली स्त्रियोको चाहिये कि इसको अपने घरमें प्रवेश ही नहीं होने दें। कलह धन, धर्म, गुण, शरीर और कुलको नाश करनेवाला अग्नि है। यह इस लोक और परलोकको कलङ्क लगानेवाला है। इसलिये इसका सूत्रपात होते ही प्रेमभरे विनययुक्त हितकारक सरल ठंडे वचनरूपी जल सींचकर इस कलह-अग्निको तुरंत बुझानेकी चेष्टा करनी चाहिये। इस प्रकारका व्यवहार करनेवाली स्त्री मनुष्योके द्वारा ही नहीं, देवताओद्वारा भी पूजनीया बन जाती है। उसे मनुष्य न समझकर देवी समझनी चाहिये।

स्त्रियोको जहाँतक हो सके घरका सारा काम स्वयं करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। घरके कामके लिये जहाँतक हो बाहरके किसी स्त्री-पुरुषकी आवश्यकता न पड़े, ऐसी चेष्टामें सदा रहना चाहिये। जिन घरोंमें रसोइया आदिसे रसोई और नौकर आदिसे गृहकार्य कराये जाते हैं उन घरोंकी स्त्रियाँ प्रायः कर्महीनता और निर्लज्जताको प्राप्त हो जाती है। उनमेंसे कोई-कोई तो अपने धर्मको भी खो बैठती है और अपने पीहर, ससुरालको कलङ्कित बनाकर लोक-परलोक भ्रष्ट कर लेती है।

स्त्रियोको उचित है कि प्रसन्नचित्त होकर घरके कामोंमें कुशलता और घरकी सामग्रियोंकी भलीभाँति सँभाल, कम खर्च करना, धन

और आय-व्ययका हिसाब रखना, अतिथि-सेवा, सन्तानकी उत्पत्ति और पालन, धर्मकार्य और सेवामे रति, सीना-पिरोना, चर्खा कातना, चक्की पीसना, झाड़ू देना, चौका-वर्तन आदि सभी काम स्वयं कर्तव्य समझ करके प्रेमपूर्वक निष्कामभावसे करे । इससे वे इस लोकमे यश पाती है और परलोकमे उत्तम गतिको प्राप्त करती हैं ।

तंबाकू, भोंग, मदिरादि मादक वस्तुओका सेवन, दुर्जनोका संसर्ग, पतिसे अलग रहना, इधर-उधर खतन्त्रतासे घूमना, दूसरोके घरमे रहना, असमयमे सोना—ये छः वाते स्त्रियोके लिये मनुजीने भारी दोष बताये है । अतः सभी स्त्रियोको सावधानीपूर्वक इनसे बचकर रहना चाहिये ।

पानं दुर्जनसंसर्गः पत्या च विरहोऽटनम् ।

स्वप्नोऽन्यगेहवासश्च नारीसन्दूषणानि षट् ॥

(मनु० ९ । १३)

स्त्रियोको थियेटर-सिनेमा, विवाह, सभा, समुदाय, होली आदि-मे पुरुषसमाजके सामने या स्त्रियोके समुदायमे भी गाना, बजाना, नाचना, बुरे गीत आदि कार्य नहीं करने चाहिये; क्योकि ऐसे कार्य-से उनमे कामोद्दीपन होकर उनके नष्ट-भ्रष्ट होनेकी सम्भावना है । देवर, भानजे, जँवाई, ननदोई, बहनोई आदिके साथ एकान्तमे या समुदायमे हँसी-मसखरी, अश्लील बात करना महापाप है । स्त्रियोको अपने पतिके अतिरिक्त दूसरे पुरुषका दर्शन, स्पर्श, भाषण, चिन्तन और उसके साथ एकान्तवासादि भी नहीं करना चाहिये । विशेष आवश्यकता हो तो नीची नजर रखकर उनको पिता और भाईके

समान समझकर किसी अच्छी स्त्री, बालक आदिको साथमे रखकर पवित्र वाते करनेमे दोष नहीं है । किन्तु अकेले पुरुषके साथ एकान्त-मे कभी वार्तालाप या वास नहीं करना चाहिये, चाहे पिता, भाई, पुत्र ही क्यों न हो; क्योंकि इन्द्रियोका समुदाय बलवान् है, वह बुद्धिमानोको भी मोहित कर देता है । अतः सदा सावधान रहना चाहिये ।

समता ही अमृत है और विषमता ही विष है । इसलिये सबके

साथ समताका ही व्यवहार करना चाहिये । जो चीज

समता

तुम अपने लिये उत्तम समझती हो उसको सबके लिये उत्तम समझकर जिसको देना उचित समझो उसको भेद-भाव न रखकर समभावसे दो । जो चीज तुम अपने लिये खराब समझती हो उसको सबके लिये खराब समझकर किसीको भी कभी मत दो । घरमे बने या बाहरसे आये हुए भोजनादि पदार्थ भेद-भावको छोड़कर सबको समभावसे प्रदान करो यानी जो भोजनादिकी सामग्री तुम अपने पतिको प्रदान करती हो वही आये हुए अतिथि और नौकरादिको भी दो ।

चोरी, जारी, झूठ, कपट आदि बुरे कर्मोका कतई त्याग करके दान, तप, तीर्थ, व्रत, सेवा और गृहकार्य आदि उत्तम कर्मोको फल और आसक्तिको त्यागकर निष्कामभावसे अभिमानरहित होकर एवं कर्तव्य समझकर करो । गृहकार्यके बनने-बिगड़नेमे हर्ष, शोक मत करो । संयोगसे अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ एवं सुख-दुःखादिके प्राप्त होनेपर उनमे भी राग-द्वेष मत करो । उसको ईश्वरका भेजा

हुआ पुरस्कार समझकर प्रसन्नचित्तसे खीकार करो । इस प्रकार करने-से समत्वभावकी प्राप्ति होती है और समता ही अमृत है । निन्दा-स्तुति और मान-अपमान तथा वैरी और मित्रमं भी समबुद्धि रक्खो । इस प्रकार करनेसे सारे पाप, क्लेश और दुःखोमे छूटकर परम शान्ति और परम आनन्दकी प्राप्ति हांती है । मुक्त पुरुषके लक्षणोंको बतलाते हुए भगवान्ने कहा है—

समदुःखसुखः स्वस्थः समलोष्टाश्मकाध्वनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥

मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥

(गीता १४ । २४-२५)

‘जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित हुआ, दुःख-सुखको समान समझनेवाला है तथा मिट्टी, पत्थर और सुवर्णमें समान भाववाला और धैर्यवान् है तथा जो प्रिय और अप्रियको बराबर समझता है और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी समान भाववाला है तथा जो मान और अपमानमें सम है । एवं मित्र और वैरीके पक्षमें भी सम है, वह सम्पूर्ण आरम्भोमें कर्तापनके अभिमानसे रहित हुआ पुरुष गुणातीत कहा जाता है ।’

ऊपर निष्कामभावसे कर्म करनेके द्वारा कल्याणके प्राप्त होनेकी कुछ बातें कहीं । अब ईश्वरकी उपासनाके विषयमें व्यासना संक्षेपसे लिखा जाता है । ईश्वरकी भक्तिमें सभीका अधिकार है । भगवान्ने गीतामें कहा है—

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

(१ । ३२)

‘क्योंकि हे अर्जुन ! स्त्री, वैश्य और शूद्रादिक तथा पापयोनि-
वाले भी जो कोई होवे वे भी मेरे शरण होकर तो परमगतिको
ही प्राप्त होते हैं ।’

अतएव सभी स्त्रियोको निष्कामभावसे ईश्वरकी अनन्य भक्ति
करनी चाहिये । ईश्वरकी शरण एवं अनन्य भक्तिसे उसका दर्शन,
उसके तत्त्वका ज्ञान और उसकी प्राप्ति हो सकती है (गीता
११ । ५४) अनन्यभक्ति यह है—

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सद्भवर्जितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥

(गीता ११ । ५५)

‘हे अर्जुन ! जो पुरुष केवल मेरे ही लिये (सब कुंछ मेरा
समझता हुआ) यज्ञ, दान और तप आदि सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंको
करनेवाला है और मेरे परायण है अर्थात् मुझको परम आश्रय और
परम गति मानकर मेरी प्राप्तिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है
अर्थात् मेरे नाम, गुण, प्रभाव और रहस्यके श्रवण, कीर्तन, मनन,
ध्यान और पठन-पाठनका प्रेमसहित निष्कामभावसे निरन्तर अभ्यास
करनेवाला है और आसक्तिरहित है अर्थात् स्त्री, पुत्र और धनादि
सम्पूर्ण सांसारिक पदार्थोंमें स्नेहरहित है और सम्पूर्ण भूत-प्राणियोंमें
वैरभावसे रहित है ऐसा वह अनन्य भक्तिवाला पुरुष मुझको ही
प्राप्त होता है ।’

ईश्वरकी अनन्य भक्ति—अव्यभिचारिणी भक्ति, अनन्य शरण वस्तुतः एक ही बात है । भगवान्‌ने अर्जुनके प्रति शरणके लक्षण बतलाते हुए कहा है—

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥

(गीता ९ । ३४)

‘केवल मुझ सच्चिदानन्दधन वासुदेव परमात्मामे ही अनन्य प्रेमसे नित्य-निरन्तर अचल मनवाला हो और मुझ परमेश्वरको ही श्रद्धा-प्रेमसहित निष्कामभावसे नाम, गुण और प्रभावके श्रवण, कीर्तन, मनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर भजनेवाला हो तथा मेरे स्वरूपका मन, वाणी और शरीरके द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमसे विह्वलतापूर्वक पूजन करनेवाला हो और मुझ सर्वशक्तिमान्, विभूति, बल, ऐश्वर्य, माधुर्य, गम्भीरता, उदारता, वात्सल्य और सुहृदता आदि गुणोसे सम्पन्न सबके आश्रयरूप वासुदेवको विनयभावपूर्वक भक्तिसहित साष्टाङ्ग दण्डवत् प्रणाम कर, इस प्रकार मेरे शरण हुआ तू आत्माको मेरेमे एकीभाव करके मुझको ही प्राप्त होगा ।’

अतएव स्त्रियोको प्रातःकाल उठकर ईश्वर-स्मरण करके शौच-स्नान आदि क्रियाओसे निपटकर पीहरमे माता-पिता आदिकी, ससुरालमे सास-ससुर, पति आदि बड़ोकी पूजा, उनको नमस्कार और उनकी सेवाका कार्य करना चाहिये । तदनन्तर ईश्वरकी भक्ति करनी चाहिये । एकान्त स्थानमे आसनपर बैठकर पवित्र होकर करुणा और प्रेमभावपूर्वक

प्रफुल्लित मनसे भगवान्की स्तुति करके फिर उस सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान् विज्ञानानन्दघन निराकार परमात्माका ध्यान करना चाहिये । यदि साकार भगवान्मे प्रेम हो तो करुणाभावसे उनका आह्वान करके प्रभाव और गुणोके सहित उनके स्वरूपका ध्यान करना चाहिये । निराकारसहित साकारका ध्यान किया जाय तो और भी उत्तम है । परन्तु निराकारके तत्त्वको न समझे तो केवल साकारका ही ध्यान किया जा सकता है । फिर ध्यानावस्थामे भगवान्को आये हुए समझकर प्रेममे मुग्ध हो जाना चाहिये । बादमे सावधान होनेपर भगवान्की मानसिक यानी मनसे सारी सामग्रियोको रचकर पूजा करनी चाहिये ।* मनसे ही भगवान्के भोग लगाकर उनकी आरती करनी चाहिये । फिर मन-ही-मन भगवान्की स्तुति गाकर भगवान्मे अनन्य प्रेम होनेके लिये और उनके साक्षात् दर्शनके लिये उनसे प्रार्थना करनी चाहिये । उसके बाद गुण और प्रभावसहित भगवान्के स्वरूपका चिन्तन करते हुए भगवान्के आज्ञानुसार ही गृह-कार्य करनेकी आदत डालनी चाहिये; क्योकि पीसते, पोते, चौका-ब्रतन करते अर्थात् प्रत्येक काम करते समय उनके नामका जप और स्वरूपका चिन्तन निरन्तर करनेकी चेष्टा करनी ईश्वर-भक्ति है ।

श्रीमद्भागवतमे प्रह्लादने अपने पिताके प्रति इस भक्तिके नवधा भक्ति लक्षण बतलाते हुए नौ भेद कहे हैं—

* गीताप्रेससे प्रकाशित 'श्रीप्रेमभक्तिप्रकाश' नामक पुस्तकमे मानसिक पूजाकी विधि लिखी है ।

श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

(७ । ५ । २३)

भगवान्के नाम, रूप, गुण और लीलाओंको प्रभावसहित प्रेम-पूर्वक राजा परीक्षितके अनुसार सुननेका नाम श्रवणभक्ति और शुकदेव, नारदादिकी भौंति वाणीसे उच्चारण करने या दूसरोके प्रति कहनेका नाम कीर्तनभक्ति, ध्रुव-प्रह्लादादिकी तरह मनसे चिन्तन करनेका नाम स्मरणभक्ति है ।

उस प्रभुके चरणोंकी भरत और लक्ष्मीके अनुसार सेवा करनेका नाम पादसेवनभक्ति है और उसके स्वरूपकी मानसिक या पार्थिव धातु आदिकी मूर्तिकी गुण और प्रभावसहित राजा पृथु और अम्बरीषके माफिक पूजा करना अर्चनभक्ति है ।

अक्रूर एवं भीष्मादिकी भौंति नमस्कार और प्रणाम करना वन्दनभक्ति है ।

लक्ष्मण और हनुमान् आदिकी भौंति दासभावसे आज्ञाका पालन करना दास्यभक्ति है ।

अर्जुन और उद्धवकी तरह सखाभावसे उसके अनुकूल चलना सख्यभक्ति है ।

राजा बलिकी भौंति सर्वस्व अर्पण कर देना आत्मनिवेदनभक्ति है ।

इन ऊपर बतलायी हुई नौ प्रकारकी भक्तियोमेसे एकको भी अच्छी प्रकार धारण करनेसे प्रायः सभी भक्तियों अपने-आप आ जाती

हैं, इसलिये इनमेसे एकका भी भली प्रकार पालन करनेसे परमात्मा-की प्राप्ति सहजमे ही हो सकती है। यह भक्तिक विषय स्थानसङ्कोच-के कारण केवल सगुण-साकारके विषयमे ही बहुत संक्षेपसे बतलाया गया है। सभी स्त्रियोको अपना जो इष्ट हो उस देवी या देवको परमेश्वर समझकर उपर्युक्त भक्ति निष्काम-प्रेमभावसे सभी अङ्गोसहित करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। इस प्रकार करनेसे अपने इष्टदेवका साक्षात्कार होकर परम शान्ति और परमानन्दकी प्राप्ति होती है।

स्त्रियोमे स्वाभाविक ही बहुत-सी कुरीतियाँ है, उनका त्याग कर देना चाहिये। जैसे किसी स्त्रीके सन्तान नहीं होती कुरीतियाँ है तो वह सन्तानके लिये ठगोके पंजेमे पड़कर निषिद्ध

चीजोंका भक्षण एवं जादू-टोना आदि अनेक निकृष्ट क्रियाओंका सम्पादन कर लिया करती है। किसीका बालक बीमार होता है तो वह मूर्ख स्त्रियोके बहकानेसे मूर्खताके वश हो भंगीसे झाड़ा दिवाना तथा किसी नीच यवनादि विधर्मी पुरुषसे थुथकारा डलवाना यानी थुकाना और निषिद्ध चीजोका खिलाना-पिलाना आदि अनेक लोक-परलोकको नाश करनेवाली क्रियाएँ कर लिया करती है; किन्तु इससे न तो लड़का ही पैदा होता है और न इससे लड़केकी बीमारी ही मिटती है तथा लड़कोकी रक्षाके लिये देवी-देवता, जात-झड़ला भी बोलती-करती है किन्तु यह विचारनेका विषय है, सिरके बाल देवताओ-को चढ़ाना न तो धर्म है और न कोई इससे देवी-देवता ही खुश होते हैं। यह केवल स्त्रियोकी मूर्खता है। आप बतलाइये, यदि कोई मनुष्य कहे कि आप हमारा उपकार करें तो हम उसके बदलेमे आप-

के घरपर जाकर बाल वनवावेगे तो क्या आप हड्डीके समान अपवित्र बालोको अपने घरपर ब्रिखेरने या डालनेसे खुश हो सकते हैं ? यदि नहीं तो फिर देवता भी इससे कैसे खुश होंगे ? झड़ला आदि पौडश संस्कारोमेसे चूडाकर्म नामक एक संस्कार है, इसकी शास्त्रोमे जो विधि लिखी है उसके अनुसार ही इसका सम्पादन करना चाहिये । इसी प्रकार कर्णवेध संस्कार जो आजकल मनःकल्पित रीतिसे 'प्रयोजन' के नामपर प्रचलित है वह भी शास्त्रविधिके अनुसार होना चाहिये । और भी संस्कार यथाशक्ति शास्त्रोक्त रीति-अनुसार करनेकी चेष्टा करनी चाहिये । शास्त्रोक्त सारे देवी-देवताओकी पूजा शास्त्रानुकूल निष्कामभावसे भगवत्प्रीत्यर्थ की जाय तो सबसे उत्तम समझी जा सकती है ।

बड़े शोककी बात है कि बहुत-से शास्त्रोक्त कर्म भोली-भाली स्त्रियोने नष्ट करके अनेक कुरीतियाँ चला दी हैं । बहुत-सी नयी कल्पित बातें भी खड़ी कर दी हैं, जैसे विवाहमे टूटिया करना, चाक पूजना, जूआ खेलना, गंदे गीत गाना इत्यादि । इनका सुधार करना चाहिये ।

अपने घरवाला कोई किसी मृतकके साथ श्मशान जाकर आता है तो कुछ भोली स्त्रियाँ उसको एक दिनके लिये अपने घरमें नहीं आने देतीं । यदि आने देती है तो दूध या मिठाई खानेको नहीं देतीं । उनको यह वहम होता है कि ऐसा करनेसे इसके प्रेत लग जायगा । इस प्रकारका मूर्खतापूर्ण व्यवहार तो अपने घरवालोके साथ करती हैं । यदि कोई दूसरे घरका आदमी मृतक-

पर मुण्डन करवाकर कार्यवश घरमे आना चाहता है और घरमे कोई बालक उत्पन्न हुआ होता है या कोई बीमार होता है तो उसका घरमे आना हानिकर समझती है। इस तरह वात-व्रातमे अनेक प्रकारके बहमोका भूत घुस गया है। इसे हम कहाँतक लिखकर निवेदन करे। अतएव माता और बहनोको इन कुरीतियो-को हटानेके लिये जी-तोड़ परिश्रम करना चाहिये।

बहुत-सी स्त्रियाँ तो अपने बालकोको यज्ञोपवीत भी नहीं दिलातीं। वे कह दिया करती है कि इसके चाचेने जनेऊ ली थी, वह दो वर्ष बाद मर गया। भला, बताइये क्या यह जनेऊका फल हो सकता है? जनेऊ लेनेसे तो अच्छी शिक्षा ही मिलती है, जिसके पालनसे मनुष्य पवित्र और दीर्घजीवी हो सकता है। यज्ञोपवीत एक उत्तम संस्कार है। इसलिये त्रैवर्णिकोको अपने बालकोको यज्ञोपवीत अवश्य दिलाना चाहिये।

स्त्रियोके लिये पर्दा रखना एक लज्जाका अङ्ग है। बहुत-से भाई लोग इसको स्वास्थ्य, सभ्यता और उन्नतिमे बाधक पदा समझकर हटानेकी जी-तोड़ कोशिश करते है, यह समझना उनकी दृष्टिमे ही ठीक हो सकता है; किन्तु वास्तवमे पर्देकी प्रथा अच्छी है और पूर्वकालसे चली आती है। राजपूताना आदि देशोमे जहाँ पर्देकी प्रथा है, वहाँकी स्त्रियोके स्वास्थ्यको देखते हुए कौन कह सकता है कि पर्देसे स्वास्थ्य बिगड़ता है। स्वास्थ्य बिगड़नेमे स्त्रियोकी अकर्मण्यता प्रधान है, न कि पर्दा। स्त्रियोकी सभ्यता तो लज्जामे है न कि पर्दा उठाकर पुरुषोके साथ घूमने-

फिरने, मोटर आदिमे बैठने या थियेटर-सिनेमा आदिमें जानेमें । जो स्त्रियाँ सदासे पर्दा रखती आयी हैं उनमे उसके त्यागसे निर्लज्जताकी वृद्धि होकर, व्यभिचार आदि दोष आकर उनके नष्ट-भ्रष्ट होनेकी सम्भावना है जो महान् अवनति या पतन है ।

कन्याओंके कर्तव्य

कन्याओंको प्रातःकाल उठकर ईश्वरस्मरण, शौच, स्नान करनेके बाद माता, भाई, भौजाई आदि घरके पूज्य लोगोको नमस्कार-प्रणाम आदि करना एवं उनसे उत्तम विद्या पढ़नी और उत्तम शिक्षा ग्रहण करनी चाहिये और उनकी आज्ञाका पालन तथा उनकी सेवा, सीना-पिरोना, कातना आदि गृहकार्य और शिल्पकार्य सीखना तथा गृहशुश्रूषा करनी चाहिये । ससुरालमे जाकर सवके साथ कैसे सद्बर्ताव करना, सेवा करना और शुश्रूषा करना—इन सारी बातोंकी शिक्षा अपने घरवालोके उपदेश और चरित्रोद्वारा ग्रहण करनी चाहिये । बुरी लड़की-लड़कोका संग न करना एवं किसीके साथ मार-पीट, लड़ाई-झगड़ा, गाली-गुप्ता एवं दुर्व्यवहार न करना और लड़कोके साथ खेलना-कूदना भी नहीं चाहिये । उत्तम आचरण और सुशील स्वभाववाली स्त्रियो और लड़कियोका साथ करना चाहिये । व्यर्थ बकवाद, दूसरोकी निन्दा, व्यर्थ चेष्टा, चाय, भोंग आदि नशीली वस्तुओका सेवन इत्यादि बुरे व्यसनोकी आदत नहीं डालनी चाहिये । विस्कुट, बर्फ, सोडावाटर, लेमोनेड, विलायती औषध आदिका सेवन नहीं करना चाहिये । विलायती औषधमें लहसुन, प्याज, मदिरा, मांस, चर्बी, खून और अण्डा आदि तकका प्रायः ही

मिश्रण रहता है । इससे धर्म, धन और स्वास्थ्यकी भी हानि होती है । खड़ा, चरपरा, पान, सुपारी आदिकी भी आदत नहीं डालनी चाहिये । बालकपनसे ही हाथके बुने देशी कपड़े पहननेकी एवं काँच आदिकी पवित्र चूड़ियों पहननेकी आदत डालनी चाहिये । विलायती और मिलके बुने कपड़े और लाख तथा हाथी-दाँतकी बनी चूड़ियोंका कभी व्यवहार नहीं करना चाहिये । लाखकी चूड़ियोंमें बहुत हिंसा होती है और वे अपवित्र भी हैं ।

खाने, पीने और खेल-कूद आदिमे मन न लगाकर बुद्धि, ज्ञान और विवेक आदिकी वृद्धिके लिये विद्या एवं धार्मिक पुस्तके पढ़ने, सुनने और बाँचनेका अभ्यास करना चाहिये । शरीर, कपड़े, घरकी पवित्रताके लिये सफाई रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये । मनको पवित्र बनानेके लिये अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य आदि उत्तम आचरणोका पालन करना चाहिये । शरीरमे बल बढ़ानेके लिये बरतैन आदिका मलना, घरको झाड़ना-बुहारना, आटा पीसना, चावल कूटना, जल भरना, बड़ोकी सेवा-शुश्रूषा आदि परिश्रमके काम करने चाहिये । कन्याओंके लिये यही उत्तम व्यायाम है, इनसे शरीरमे बलकी वृद्धि एवं मनकी पवित्रता भी होती है । शारीरिक और मानसिक कष्ट सहने आदिकी आदत डालनी चाहिये । पूर्वमे बताये हुए पुरुषोके और स्त्री-जातिके सामान्य धर्मोको सीखनेकी भी कोशिश करनी चाहिये । बड़ो और दूसरोके कहे हुए कठोर वचनोको भी शिक्षा मानकर प्रसन्नतासे सुनना और उनमे शिक्षा हो सो ग्रहण करनी चाहिये । दूसरोके कहे हुए कड़वे और अप्रिय वचनोमे भी हित

खोजना चाहिये । देवी और देवताओंका पूजन, साधु-महात्मा, ज्ञानी और ब्राह्मणोंका सदैव सत्कार करना चाहिये । ऊपर बताये हुए सारे काम ईश्वरको याद रखते हुए ही करनेका स्वभाव बनाना चाहिये ।

अपने भाई-बहिन आदिके साथ प्रेमपूर्वक रहने एवं उनका प्यार करने और लालन-पालन करनेकी सभी बातें सीखनी और करनी चाहिये जिससे आगे चलकर अपनी सन्तानका भी पालन कर सके ।

कन्याको उचित है कि पिता या पिताकी सलाहसे भ्राता एवं पिताका देहान्त होनेके उपरान्त केवल भ्राता जिस पुरुषके साथ विवाह कर दे उसकी आजीवन सेवा एवं आज्ञाका पालन करे और पतिका देहान्त होनेके बाद भी उसके बताये हुए व्रतका कभी उल्लङ्घन न करे । क्योंकि मनु आदि महर्षियोंने कन्याके धर्म बतलाये हैं—

यस्मै दद्यात् पिता त्वेनां भ्राता वानुमते पितुः ।

तं शुश्रूषेत जीवन्तं संस्थितं च न लङ्घयेत् ॥

(मनु० ५ । १५१)

‘कन्याको उसका पिता अथवा पिताकी अनुमतिसे भाई जिस पुरुषके लिये दे दे उसके जीवनपर्यन्त उसकी भलीभाँति सेवा करनी चाहिये और मरनेके बाद भी उसके प्रतिकूल आचरण नहीं करना चाहिये ।’

विवाहिता स्त्रियोंके कर्तव्य

विवाहिता स्त्रीके लिये पातिव्रतधर्मके समान कुछ भी नहीं है इसलिये मनसा-वाचा-कर्मणा पतिके सेवापरायण होना चाहिये स्त्रीके लिये पतिपरायणता ही मुख्य धर्म है । इसके सिवा सब धर्म गौण

हैं। महर्षि मनुने साफ लिखा है कि स्त्रियोंको पतिकी आज्ञा बिना यज्ञ, व्रत, उपवास आदि कुछ भी न करने चाहिये। स्त्री केवल पतिकी सेवा-शुश्रूषासे ही उत्तम गति पाती है एवं स्वर्गलोकमें देवतालोक भी उसकी महिमा गाते हैं।*

जो स्त्री पतिकी आज्ञा बिना व्रत, उपवास आदि करती है वह अपने पतिकी आयुको हरती है और स्वयं नरकमें जाती है।†

इसलिये पतिकी आज्ञा बिना यज्ञ, दान, तीर्थ, व्रत आदि भी नहीं करने चाहिये, दूसरे लौकिक कर्मोंकी तो बात ही क्या है। स्त्रीके लिये पति ही तीर्थ है, पति ही व्रत है, पति ही देवता एवं परम पूजनीय गुरु भी पति ही है। ऐसा होते हुए भी जो स्त्रियाँ दूसरेको गुरु बनाती है वे घोर नरकको प्राप्त होती है। जो लोग परस्त्रियोंके गुरु बनते हैं यानी परस्त्रियोंको अपनी चेली बनाते हैं वे ठग हैं। वे इस पापके कारण घोर दुर्गतिको प्राप्त होते हैं। आजकल बहुत-से लोग साधु, महन्त और भक्तोंके वेषमें बिना गुरुके मुक्ति

* नास्ति स्त्रीणा पृथग्यज्ञो न व्रतं नाप्युपोषणम्।

पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते ॥

(मनु० ५। १५५)

स्त्रियोंको पतिसे अलग यज्ञ, व्रत और उपवासका अधिकार नहीं है; क्योंकि वह जो पतिकी सेवा करती है उसीसे स्वर्गमें आदर पाती है।

† पत्न्यौ जीवति या तु स्त्री उपवासं व्रतं चरेत्।

आयुष्यं हरते भर्तुर्नरकं चैव गच्छति ॥

जो स्त्री पतिके जीवित रहते उपवास-व्रतका आचरण करती है वह पतिकी आयु क्षीण करती है और अन्तमें नरकमें पडती है।

साध्वी यानी पतिव्रताको ईश्वरके समान मानकर उसकी सदा सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये ।

विशीलः कामवृत्तो वा गुणैर्वा परिवर्जितः ।

उपचर्यः स्त्रिया साध्व्या सततं देववत् पतिः ॥

(मनु० ५ । १५४)

अपमान तो अपने पतिका कभी नहीं करना चाहिये; क्योंकि जो नारी अपने पतिका अपमान करती है वह परलोकमें जाकर महान् दुःखको भोगती है ।

वृद्ध रोगवस जड़ धनहीना । अंध बधिर क्रोधी अति दीना ॥
ऐसेहु पति कर किँ अपमाना । नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥

साध्वी स्त्रियोको पुरुषों और स्त्रियोके जो सामान्य धर्म ब्रतलाये हैं उनका भी पालन करना चाहिये । पातिव्रतधर्मके रहस्यको जानने-वाली स्त्रियोको अपने पतिसे बड़ो-सास, ससुरादिकी पतिके समान ही सेवा-पूजा और आज्ञापालन करने चाहिये; क्योंकि वे पतिके भी पति हैं । पातिव्रतधर्मके आदर्शस्वरूप सीता-सावित्री आदिने ऐसा ही किया है । जब सावित्री अपने पतिके साथ वनमें गयी तब पतिकी आज्ञा होनेपर भी सास-ससुरकी आज्ञा लेकर ही गयी थी । श्रीसीताजी भी श्रीरामचन्द्रजीके साथ माता कौसल्यासे आज्ञा, शिक्षा और आशीर्वाद लेकर ही गयी थीं ।

साध्वी स्त्रियोको उचित है कि अपने लड़के-लड़कियोको आचरण एवं वाणीद्वारा उत्तम शिक्षा दें । माता-पिता जो आचरण करते हैं, बालकोंपर उनका विशेष असर पड़ता है । अतः स्त्रियोको झूठ-

कपट आदि दुराचार एवं काम, क्रोध आदि दुर्गुणोंका सर्वथा त्याग करके उत्तम आचरण करने चाहिये । बहुत-सी स्त्रियाँ लड़कियोंको 'राँड' और लड़कोको 'तू मर जा' 'तेरा सत्यानाश हो जा' इत्यादि कटु और दुर्वचन बोलती हैं एवं उनको मुलानेके लिये 'मै तुझे अमुक चीज मँगवा दूँगी' इत्यादि झूठ विश्वास दिलाती है और 'बिल्ली आयी' 'हाऊ आया' इत्यादि झूठ भय दिखाती हैं । इनसे बहुत नुकसान होता है, अतएव ऐसी बातोंसे स्त्रियोंको बचना चाहिये । बालकका दिल कोमल होता है, अतः उसमें ये बातें जम जाती हैं । और वह झूठ झोलना, धोखा देना आदि सीख जाता है एवं अत्यन्त भीरु और दीन बन जाता है । बालकोंके दिलमें वीरता, धीरता, गम्भीरता उत्पन्न हो ऐसे ओज और तेजसे भरे हुए सच्चे वचनोद्वारा उनको आदेश देना चाहिये । उसमें बुद्धि और ज्ञानकी उत्पत्तिके लिये सत्-शास्त्रकी शिक्षा देनी चाहिये । बालकोंको गाली आदि नहीं देनी चाहिये; क्योंकि गाली देना उनको गाली सिखाना है । अश्लील, गंदे-कडुवे अपशब्दोका प्रयोग भी नहीं करना चाहिये । सङ्गका बहुत असर पड़ता है । पशु-पक्षी भी सङ्गके प्रभावसे सुशिक्षित और कुशिक्षित हो जाते हैं । सुना जाता है कि मण्डन मिश्रके द्वारपर रहनेवाले पक्षी भी शास्त्रके वचन बोला करते थे । देखा भी जाता है कि गाली बकनेवालोंके पास रहनेवाले पक्षी भी गाली बका करते हैं । अतः सदा सत्य, प्रिय, सुन्दर और मधुर, हितकर वचन ही बहुत प्रेमसे धीमे स्वरसे और शान्तिसे बोलने चाहिये । बालकोके सम्मुख पतिके साथ हँसी-मजाक एवं एक शय्यापर सोना-बैठना

कभी नहीं करना चाहिये । जो स्त्रियाँ ऐसा करती हैं वे अपने बालकोको व्यभिचारकी शिक्षा देती हैं ।

पर-पुरुषका दर्शन, स्पर्श, एकान्तवास एवं उसके चित्रका भी चिन्तन नहीं करना चाहिये । लोभ, मोह, शोक, हिंसा, दम्भ, पाखण्ड आदिसे सदा बचकर रहना चाहिये । और उत्तम गुण एवं आचरणोके लिये गीता, रामायण, भागवत, महाभारत एवं सती-साध्वी स्त्रियोके चरित्र पढ़नेका अभ्यास रखना चाहिये और उनके अनुसार ही बालकोको शिक्षा देनी चाहिये ।

बच्चोको खिलाने-पिलाने इत्यादिमे भी अच्छी शिक्षा देनी चाहिये । मदालसाने अपने बालकोको बाल्यावस्थामे ही ज्ञान और वैराग्यकी शिक्षा देकर उन्हे उच्च श्रेणीके बना दिया था । बच्चे बुरे बालको एवं बुरे स्त्री-पुरुषोंका सङ्ग करके कुशिक्षा ग्रहण न कर ले, इसके लिये माता-पिताको विशेष ध्यान रखना चाहिये । हाथके बुने स्वदेशी वस्त्र स्वयं पहनने और बालकोको भी पहनाने चाहिये । बच्चोको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये जिससे उनका प्रेम श्रृङ्गारादिमें न होकर ईश्वर और उत्तम शिक्षा आदिमें हो ।

बालकोको गहने पहनाकर नहीं सजाना चाहिये । इससे स्वास्थ्यकी हानि एवं कहीं-कहीं प्राणोकी भी जोखम हो जाती है । बल बढनेके लिये व्यायाम और बुद्धिकी वृद्धिके लिये विद्या एवं उत्तम शिक्षा देनी चाहिये । थियेटर-सिनेमा आदि देखनेका व्यसन और बीड़ी, सिग्रेट, तमाखू, भोंग, गाँजा, सुल्फादि मादक वस्तुओका सेवन करनेकी आदत न पड़ जाय, इसके लिये भी माता-पिताको

ध्यान रखना चाहिये । लड़की और लड़केके खान-पान, लाड़-प्यार और व्यवहारमे भेद-भाव नहीं रखना चाहिये । प्रायः स्त्रियाँ खान-पान, लाड़-प्यार और दुःख-सुख, मरण आदिमे भी लड़कोके साथ जैसा व्यवहार करती है, लड़कियोंके साथ वैसा नहीं करती । उनका अपमान करती हैं । जो स्त्रियाँ इस प्रकार अपने ही बालकोमे विषमताका व्यवहार करती है उनसे समताकी आशा कैसे की जा सकती है ? इस प्रकारकी विषमतासे इस लोकमे अपकीर्ति और परलोकमे दुर्गति होती है । अतः बालकोके साथ समताका ही व्यवहार रखना चाहिये ।

बहुत-सी स्त्रियाँ भूत, प्रेत, देवता, पीर आदिका किसीमे आवेश समझकर भय करने लग जाती है । यह प्रायः फजूल बात है । ऐसी बातपर कभी वहम—विश्वास नहीं करना चाहिये । इस प्रकारकी बातें अधिकांशमे तो हिस्टीरिया आदिकी बीमारीसे होती है । बहुत-सी जगह जान-बूझकर ऐसा चरित्र किया जाता है । कभी-कभी वहम या भयसे भी आवेश-सा आ जाता है । अतः इनपर विश्वास नहीं करना चाहिये । यह सब वाहियात बातें हैं ? इसलिये स्त्रियोंको जादू-टोना, आखा दिखाना, झाड़-फूँक, मन्त्र आदि अपने या अपने घर-वालोपर नहीं करवाने चाहिये एवं ऐसा करनेवाली स्त्रियोंका सङ्ग भी नहीं करना चाहिये ।

वेश्या, व्यभिचारिणी, लडाई-अगड़ा करनेवाली निर्लज्ज और दुष्ट स्त्रियोंका सङ्ग कभी नहीं करना चाहिये; परन्तु उनमे घृणा और द्वेष भी नहीं करना चाहिये । उनके अवगुणोसे ही घृणा करनी

चाहिये । बड़ोंकी, दुखियोंकी और घरपर आये हुए अतिथियोंकी एवं अनार्थोंकी सेवापर विशेष ध्यान देना चाहिये ।

यज्ञ, दान, तप, सेवा, तीर्थ, व्रत, देवपूजन आदि पतिके साथ उसकी आज्ञाके अनुसार उसके सन्तोषके लिये अनुगामिनी होकर ही करें, खतन्त्र होकर नहीं ।

पतिका जो इष्ट है वही स्त्रीका भी इष्ट है, अतः पतिके बताये हुए इष्टदेव परमात्माके नामका जप और रूपका ध्यान करना चाहिये । स्त्रियोंके लिये पति ही गुरु है । यदि पतिको ईश्वरकी भक्ति अच्छी न लगती हो तो पिताके घरसे प्राप्त हुई शिक्षाके अनुसार भी ईश्वरकी भक्ति बाहरी भजन, सत्संग, कीर्तन आदि न करके गुप्तरूपसे मनमें ही करें । भक्तिका मनसे ही विशेष सम्बन्ध होनेके कारण यह जहाँतक बन सके गुप्तरूपसे ही करनी चाहिये; क्योंकि गुप्तरूपसे की हुई भक्ति विशेष महत्त्वकी होती है ।

पति जो कुछ भी कहे उसका अक्षरशः पालन करे; किन्तु जिस आज्ञाके पालनसे पति नरकका भागी हो उसका पालन नहीं करना चाहिये । जैसे पति काम, क्रोध, लोभ, मोहवश चोरी या किसीके साथ व्यभिचार करने, किसीको विष पिलाने, जानसे मारने, भ्रूणहत्या, गोहत्या आदि घोर पाप करनेके लिये कहे तो वह नहीं करे । ऐसी आज्ञाका पालन न करनेसे अपराध भी समझा जाय तो भी पतिको नरकसे बचानेके लिये उसका पालन नहीं करना चाहिये, जिस कामसे पतिका परम हित हो वह काम स्वार्थ छोड़कर करनेकी सदा चेष्टा रखनी चाहिये ।

विधवा स्त्रियोकी सेवापर विशेष ध्यान देना चाहिये; क्योंकि अपने धर्ममें रहनेवाली विधवा स्त्री देवीके समान है । उसकी सेवा-शुश्रूषा करने, उसके साथ प्रेम करनेसे स्त्री इस लोकमें सुख और परलोकमें उत्तम गति पाती है । जो स्त्री विधवाको सताती है, वह उसकी हायसे इस लोकमें दुखिया हो जाती है और मरनेपर नरकमें जाती है ।

ऊपर बताये हुए पातिव्रतधर्मको स्वार्थ छोड़कर पालन करनेवाली साध्वी स्त्री इस लोकमें परम शान्ति एवं परम आनन्दको प्राप्त होती है और मरनेके बाद परमगतिको प्राप्त होती है ।

विधवाओंके कर्तव्य

पतिके शान्त होनेके बाद विधवा स्त्रीको उचित है कि जिस प्रकार पतिकी जीवित अवस्थामें उसके मनके अनुकूल आचरण करती थी उसी प्रकार उसके मरनेपर भी करना चाहिये । धर्मका ऐसा आचरण करनेवाली स्त्री पतिके मरनेपर भी साध्वी कहलाती है और वह उत्तम गतिको प्राप्त होती है । वह पवित्र पुष्प, मूल और फलो-द्वारा अपने शरीरका निर्वाह करती हुई पवित्रताके साथ अपना जीवन बितावे । पर-पुरुषके दर्शन, भाषण, चिन्तनकी बात तो दूर रही, उसका नाम भी उच्चारण न करे ।

कामं तु क्षपयेद्देहं पुष्पमूलफलैः शुभैः ।
 न तु नामापि गृह्णीयात् पत्यौ प्रेते परस्य तु ॥
 आसीतामरणात्क्षान्ता नियता ब्रह्मचारिणी ।
 यो धर्म एकपत्नीनां काङ्क्षन्ती तमनुत्तमम् ॥

(मनु० ५ । १५७-१५८)

पवित्र पुष्प, मूल, फलोके द्वारा निर्वाह करते हुए अपनी देहको दुर्बल भले ही कर दे, परन्तु पतिके मरनेपर दूसरेका नाम भी न ले । पतिव्रता स्त्रियोंके सर्वोत्तम धर्मको चाहनेवाली विधवा स्त्री मरण-पर्यन्त क्षमायुक्त नियमपूर्वक ब्रह्मचर्यसे रहे ।

इस प्रकार ब्रह्मचर्यका पालन करती हुई विधवा स्त्री साध्वी पतिव्रता स्त्रीके अनुसार पतिके उत्तम लोकोको प्राप्त होती है । केवल फल-मूलादिसे काम न चले तो साधारण शाक-अन्नद्वारा एक समय भोजन करके जीवन-धारण करे । यदि ऐसा करके न रहा जाय तो दोनो समय भी हलका और अल्पाहार कर ले; किन्तु मादक और अपवित्र एवं कामोद्दीपक पदार्थोंका कभी सेवन न करे तथा घृत, दूध, चीनी, मसाला आदिका भी जहाँतक हो त्याग करे; क्योंकि ये भी उत्तेजक है । कर्तव्य समझकर निष्कामभावसे पालन किया हुआ धर्म परमगतिको प्राप्त कराता है ।

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥

(गीता २ । ४०)

इस निष्काम कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात् बीजका नाश नहीं है और उलटा फलरूप दोष भी नहीं होता है इसलिये इस निष्काम कर्म-योगरूप धर्मका थोड़ा भी साधन, जन्म-मृत्युरूप महान् भयसे उद्धार कर देता है ।

अतः विधवा स्त्रियोंको निष्कामभावसे पतिव्रता स्त्रियोंकी भाँति पतिके मरनेके बादमें भी पतिको जिस कार्यमें सन्तोष होता था वही

कार्य करके अपना काल व्यतीत करना चाहिये । वर्तमान समयमें कई भाई, जिनको शास्त्रका अनुभव नहीं है, विधवा स्त्रियोंको फुसलाकर उनका दूसरा विवाह करवा देते हैं, किन्तु शास्त्रमें कहीं विधवा-विवाहकी विधि नहीं है । मनुजी कहते हैं—

नोद्राहिकेषु मन्त्रेषु नियोगः कीर्त्यते क्वचित् ।

न विवाहविधावुक्तं विधवावेदनं पुनः ॥

(९ । ६५)

वैवाहिक मन्त्रोंमें कहीं भी नियोगका विधान नहीं किया गया है, और विवाह-संस्कारकी विधिमें कहीं विधवाका पुनर्विवाह करना भी नहीं बताया गया है ।

क्योंकि पिता तो कन्यादान दे चुका अतः उसका अब फिर दान देनेका अधिकार नहीं और पति मर चुका ऐसी अवस्थामें कौन किसको दान दे, इसलिये शास्त्रकारोंने इसका घोर निषेध करते हुए कहा है कि कन्याका दान एक बार ही होता है ।

सकृदंशो निपतति सकृत् कन्या प्रदीयते ।

सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सतां सकृत् ॥

(मनु० ९ । ४७)

पिताके धनका भाग एक ही बार मिलता है, कन्यादान एक ही बार किया जाता है, किसी वस्तुको देनेकी प्रतिज्ञा एक ही बार की जाती है, इस तरह सत्पुरुषोंके ये तीनों कार्य एक ही बार हुआ करते हैं ।

असलमें तो स्त्री-पुरुषोंके लिये आजीवन ब्रह्मचर्य-पालन करना ही सर्वोत्तम है परन्तु ऐसा होना असम्भव-सा है । इसलिये शास्त्रकारों-

ने विवाह करनेकी आज्ञा दी है । किन्तु साथमें यह भी आज्ञा दी है कि जो एक सन्तान उत्पन्न होनेके बाद आजीवन ब्रह्मचर्यका पालन करता है वह भी अत्युत्तम है । इस व्यवस्थाको देखते विधवा-विवाहकी तो बात भी नहीं चलायी जा सकती । अतएव जिस स्त्रीका पति और जिस पतिकी स्त्री शान्त हो जाय उनको तो ब्रह्मचर्यसे ही रहना चाहिये । ब्रह्मचर्यका पालन इस लोक और परलोकमें कल्याण करनेवाला और परम शान्ति एवं आनन्द देनेवाला है । जो लोग विधवाओको विषयसुखका प्रलोभन दिखाकर उनके मनको खराब करते हैं वे वास्तवमें उनकी आत्माका पतन करनेवाले हैं, अतएव उन लोगोकी बातोंपर अपना कल्याण चाहनेवाली स्त्रियोंको कभी ध्यान नहीं देना चाहिये ।

जो स्त्री ईश्वरके रहस्यको जानती है वह पतिकी मृत्युपर भी दुःखित नहीं होती; क्योंकि वह समझती है कि ईश्वर जो कुछ करता है वह भलेके लिये ही करता है । वह पतिकी मृत्यु-सरीखे शोकमें भी ईश्वरकी दयाका दर्शन करती रहती है । भारी पापका फल पतिकी मृत्यु है और पापके फलके उपभोगसे पाप शान्त होता है । ईश्वरने भारी पापसे मुक्त होनेके लिये एवं भविष्यमें पापसे बचनेके लिये तथा नाशवान् क्षणभङ्गुर भोगोंसे मुक्ति पानेके लिये और अपनेमें अनन्य भक्ति करनेके लिये एवं हमारे हितके लिये ही हमें यह दण्ड देकर हमपर अनुग्रह किया है । इस प्रकार पद-पदपर दुःखमें भी ईश्वरकी दयाका अनुभव करनेवाली स्त्री ईश्वरकी अनन्य भक्ति करके परम गतिको प्राप्त हो जाती है । अतः माताओ और

बहिनोको ईश्वरके द्वारा दिये हुए दुःखोमे भी दयाका दर्शन करते हुए उसकी अनन्य भक्ति करनी चाहिये ।

ऊपर बताये हुए पुरुष और स्त्रियोंके सामान्य धर्मका भी पालन करना एवं क्षणस्थायी इन्द्रियोके भोगोंका त्यागकर संयमसे रहना चाहिये ।

प्रातःकाल शौच, स्नान आदि करके अपने घरमे ही एकान्त स्थानमे जप, तप, पूजा, पाठ, स्तुति, ध्यान आदि ईश्वरकी भक्ति करें । उसके बाद बड़ोके चरणोमे प्रणाम करके उनकी सेवा एवं उनकी आज्ञाके अनुसार गृहकार्य ईश्वरको याद रखते हुए ही करें । माता कुन्तीकी तरह गृहकार्य एवं बड़ोकी सेवामें ही दिन बितावें, उसीको अपना परम धन एवं धर्म समझे । जब सेवा एवं गृहकार्यसे छुट्टी पावे तब एकान्तमे बैठकर अनन्य मनसे ईश्वर-भक्तिमे लगें; किन्तु एक क्षण भी निकम्मी न रहें; क्योकि उत्तम कर्म ही परम धन है, इस प्रकार निष्कामभावसे की हुई सेवाद्वारा स्त्री सारे पापोसे छूटकर उत्तम गति पाती है ।

स्त्रियोंकी दृष्टि स्वाभाविक ही पुरुषोंकी तरफ चली जाती है । इसके निरोधके लिये विशेष संयम रखना चाहिये । यदि स्वभावके दोषके कारण भूलसे भी किसी पुरुषका दर्शन हो जाय तो या तो उस दिन एक समय ही भोजन करें या ईश्वरके नामका जप और अधिक करें ।

ससुरालमे या पीहरमे जहाँ कहीं रहना हो अपने घरके पुरुषोंकी आज्ञामें ही रहना चाहिये, घरके बाहर तो उनकी आज्ञा बिना

जाना ही न चाहिये; परन्तु घरमें रहकर भी उनके आज्ञानुसार ही कार्य करना चाहिये; क्योंकि स्त्रियोके लिये स्वतन्त्रता सर्वथा निषिद्ध है। स्वतन्त्रतासे उनका पतन हो जाता है। जो स्त्री स्वतन्त्रतासे बाहर फिरती है वह दूषित वातावरणको पाकर नष्ट-भ्रष्ट हो जाती है।

सभी स्त्रियोको अपने पिता, भाई, पति, देवर, जेठ और पुत्रके विना कथा, कीर्तन, भजन, सत्सङ्ग, व्याख्यान, मन्दिर, तीर्थ और किसी धार्मिक सत्था या स्थानमें भी कभी अकेली नहीं जाना चाहिये; क्योंकि आजकल बहुत-से धार्मिक स्थानोंमें भी स्थानके अधिकारी लोग धन, गहने और धर्मका अपहरण करने एवं और भी भारी अत्याचार करने लग गये हैं। स्त्रियोके लिये पतिके मरनेके बाद भी पतिके अतिरिक्त गुप्त या प्रकट रूपसे गुरु बनाना, उनकी सेवा करना दूसरे पुरुषोंका उच्छिष्ट खाना, उनकी पूजा करना, घरवालोंसे छिपकर उनको रुपये देना, उनके साथ एकान्तवास करना सर्वथा निषिद्ध है। इसलिये इन बातोंसे स्त्रियोको विशेष सावधान रहकर बचना चाहिये; क्योंकि आजकल बहुत-सी स्त्रियों मन्दिर, तीर्थ, गङ्गास्नान और सत्सङ्ग आदिका बहाना लेकर असदाचरण करती हैं। इसी बहाने बाहर निकलकर उन चेली बनानेवाले ठगोंके पंजेमें पड़कर धन, जेवर और सतीत्वको नष्ट कर देती हैं। इस समय तो शास्त्रविपरीत बहुत-से वैश्य, शूद्र और चमारतक भी अपनी जीविका छोड़कर साधु और भक्तोंके वेषमें तीर्थों आदिपर रहकर स्त्रियोसे सेवा करवाते हैं और गुप्तरूपसे उनसे धन मँगवाते हैं, उनके कण्ठी बाँधते हैं, उनको गुरुमन्त्र देते हैं, उनसे पैर पुजवाते हैं, उनके स्थानपर जाकर या

उनको अपने स्थानपर बुलवाकर कथा, कीर्तन, सत्सङ्गके बहाने अनेक प्रकारसे जाल विछाकर भोली-भाली स्त्रियोंका धन और सतीत्व हरते हैं।

विधवा बहिनोके लिये तो एकमात्र ईश्वर ही पति और ईश्वर ही गुरु है। उस परमपूजनीय सर्वव्यापी सगुण-निर्गुणरूप परमात्माकी अपने हृदयरूपी मन्दिरमे चिन्मय दिव्य मनोहर मूर्तिका ध्यान एवं पूजन करना सर्वोत्तम है। यदि ऐसा न हो सके तो सर्वव्यापी अपने इष्टदेवके दिव्य मूर्तिकी बाहर देशमे मनसे स्थापना करके उस मानसिक दिव्य मूर्तिकी मानसिक ही पूजा करनी चाहिये। यदि ऐसा न बन पड़े तो मीराबाईकी तरह अपने घरमे ही इष्टदेव परमात्माकी धातु आदिकी मूर्ति या चित्र रखकर उसकी सेवा, पूजा करनी चाहिये और उसीपर ध्यान जमाना चाहिये।

पीहर या ससुरालमे घरमे कोई निकटवर्ती पुरुष न हो अथवा होकर भी भोजन-वस्त्रादि देकर पालन न करे तो ऐसे विपत्तिकालमें भी उनकी सेवा करते हुए ही गृह-शिल्प या मेहनत-मजदूरी आदि-द्वारा अपने शरीरका निर्वाह करे; परन्तु काम, क्रोध, लोभ और मोहके वशीभूत होकर अपने धर्म और लज्जाका कभी त्याग न करे, अपने पीहर और ससुरालवालोको कलङ्क लगे और अपना लोक-पर-लोक नष्ट हो ऐसा कार्य भारी आपत्ति आ पड़नेपर भी न करे।

पलंग, रंगीन वस्त्र, आभूषण, शृंगार एवं ऐश-आराम, स्वाद, भोग, प्रमाद, आलस्य, दुर्गुण और दुराचारोंका एकदम त्याग कर दे। शृंगार करनेवाली स्त्रियोंके सङ्गका राग और द्वेषसे रहित होकर यथाशक्ति त्याग करे; क्योंकि वह ज्ञान, वैराग्य, ईश्वरशक्ति एवं तपमे

बाधा डालनेवाला है। गाने-ब्रजाने, नाच-विवाह आदि कार्योंसे बचकर रहें। तप-उपवास आदिको यथाविधि धारण-पालन करें।

फालतू बातचीत एवं व्यर्थ चेष्टा करके अपने अमूल्य समयको न बितावें। मृत्युको नजदीक समझकर सारा समय अपने कन्याणके कार्यमें ही लगानेकी कोशिश रखे। मन और इन्द्रियोका संयम एवं यम-नियमादि सामान्य धर्मोंके पालनपर ध्यान रखते हुए ईश्वरके भक्ति-परायण होकर पवित्रताके साथ अपना जीवन बितावें।

उपर्युक्त प्रकारसे जीवन बितानेवाली विधवा-ली देवताओंद्वारा भी पूजनेके योग्य होती है। इस प्रकारकी पवित्र स्त्रियोंकी सेवा करने-वाले पुरुष भी पवित्र हो जाते हैं। जिन घरोंमें ऐसी स्त्रियाँ वास करती हैं वे घर भी पवित्र समझे जाते हैं।

माताओं और बहिनोके दोषोको दिखाते हुए हमने बहुत-सी पुरुषोंका स्त्रियोंके साथ व्यवहार देखा जाय तो उनमें इनसे भी कहीं अधिक दोष मिलेगे। परन्तु स्त्रियोंका विषय हानेके कारण उनके सुधार और ज्ञानके लिये इतनी बातें लिखी हैं। अपेक्षाकृत देखा जाय तो सभी स्त्रियाँ पुरुषोंके साथमें सेवादिका व्यवहार करती हैं पर बदलेमें पुरुष उनके साथ वैसा नहीं करते। कोई-कोई तो बात-बातमें अपनी स्त्रियोका अपमान करते हैं, उनको गालियाँ देते हैं और मार-पीटतक भी करने लग जाते हैं। यह मनुष्यताके बाहरकी बात है। उन भाइयोसे हमारा नम्र निवेदन है कि स्त्रियोंके साथ अमानुषिक व्यवहार कदापि न करें। इस प्रकारके व्यवहारसे इस लोकमें अपकीर्ति और परलोकमें दुर्गति होती है।

कोई-कोई भाई लोभके वशीभूत होकर अपनी कन्याको वृद्ध, रोगी, मूर्ख, अङ्गहीन आदि अपात्रोके प्रति दे देते हैं। वे देने और लेनेवाले दोनों कन्याके जीवनको नष्ट करते हैं और स्वयं नरकके भागी होते हैं। अतः ऐसे पापोसे मनुष्यको अवश्य बचकर रहना चाहिये।

स्त्रियोंके साथ सत्कारपूर्वक अच्छा व्यवहार करना चाहिये। स्त्रियोंका जहाँ सत्कार होता है वहाँ सब देवता निवास करते हैं। जहाँ सत्कार नहीं होता है वहाँ सारे कर्म निष्फल हो जाते हैं। जब घरमे कोई पुरुष बीमार पड़ता है तो उसके लिये जितनी कोशिश होती है उतनी जब कोई स्त्री बीमार पड़ती है तब नहीं होती। यह विषमताका व्यवहार विषके समान फल देनेवाला है, अतः पुरुषोको उचित है कि स्त्री-पुरुष सबके साथ समताका व्यवहार करे।

स्त्रियोमे जो कई प्रकारके दोष दिखाये गये हैं, उनका कारण भी अधिकांशमे पुरुष ही हैं; क्योंकि पुरुष स्त्रियोके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। अतः उनको पुरुषोंसे ही बुरी शिक्षा प्राप्त होती है। यदि पुरुष स्त्रियोके साथ अपना व्यवहार सुधार लें तो उनका बहुत-सा सुधार होना स्वाभाविक ही है; क्योंकि यह न्याय है कि जब कोई किसीके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो दूसरा भी उसके साथ अच्छा ही व्यवहार करता है।

विधवा स्त्रियोके साथ तो पुरुषोका व्यवहार प्रायः निन्दनीय ही है। उसके सुधारकी बहुत ही आवश्यकता है। जिसका पति मर जाता है वह बेचारी अनाथा हो जाती है। उसका लोग कहीं आदर

नहीं करते, न पीहरमे न ससुरालमे । बहुत-से पुरुष अपनी पत्नियोंके वशमे होकर धर्म पालनेवाली सुशील विधवा स्त्रीके साथमें भी सद्-व्यवहार नहीं करते और न उसका पालन-पूषण ही करते हैं । प्रथम तो इस घोर कलिकालमे विधवाका धर्म रहना स्वाभाविक ही कठिन है तिसपर कोई रखना चाहती है तो उसको मदद देना तो दूर रहा, बल्कि लोग अनेक प्रकारके सङ्कटोंमें डालनेकी चेष्टा करते हैं । इसमे कोई-कोई तो दुःखित होकर धर्मको छोड़ देती हैं । अतएव जिनके घरमे विधवा स्त्री हो उन मनुष्योंको स्वयं संयमसे रहकर उनको संयमकी शिक्षा देनी चाहिये । ऐश-आराम-भोगोंको तुच्छ समझकर स्वयं उत्तम आचरणोंको करते हुए उनको क्रियाके द्वारा सीख देनी चाहिये । उनकी तन-मन-धनसे मदद करनी चाहिये । विशेष मदद न दे सके तो उनके स्वत्वपर तो बुरी नीयत कभी न करनी चाहिये । बहुत-से लोग तो ऐसे देखे गये हैं जो पुत्र, भाई आदिके मरनेके बाद उनकी स्त्रियोंके धनपर अधिकार जमाकर उनपर झूठा-सच्चा कलङ्क लगाकर उनको भोजनतक भी नहीं देते और कोई-कोई तो लोभमे आकर धन छीननेके लिये निकालनेतककी चेष्टा करते हैं । उस दुखियाकी हायसे उनका यह लोक और परलोक नष्ट हो जाता है । उन पुरुषोंको ईश्वरकी तरफ और मृत्युकी तरफ खयाल करके इस राक्षसी कर्मसे विरत होना चाहिये । यह लेख स्त्रियोंके विषयका होनेके कारण पुरुषोंके विषयको यहाँ विशेष नहीं लिखकर संक्षेपसे ही कुछ निवेदनमात्र किया है ।



दो शब्द

‘यारै सज्जनवृन्द ! इस दुनियाँ में जन्म लेकर जिस मनुष्य ने प्रभु की स्तुति, भजन, प्रार्थना, परोपकार आदि शुभ कार्य नहीं किये, उसने अपना अमूल्य जन्म वृथा ही खोया है। उस मनुष्य और पशु में तनिक भी अन्तर नहीं है। सांसारिक कार्य जिस तरह मनुष्य करता है, उसी प्रकार पशु भी खाना, पीना, भोग आदि करते हैं। मनुष्य में केवल ज्ञान और बुद्धि की विशेषता है। किन्तु, मनुष्य इस पर तनिक भी ध्यान न देकर अपना अमूल्य जीवन खेल-कूद, दुर्व्यसन और राग-द्वेष आदि में वृथा ही नष्ट करके भविष्य दुःखमय और अन्धकारपूर्ण बनाता है ! यह मनुष्य-जन्म पहले शुभ कर्म करने पर ही मिला है। शास्त्रों के मतानुसार चौरासी लाख जीवा-जूए भुगत लेने पर यह अति उत्तम योनि मनुष्य की मिली है। अतः इस योनि में आकर भविष्य को उज्ज्वल करने के लिये भजन आदि नहीं किया तो उसका इस संसार में मनुष्य-जन्म लेना ही वृथा है। इसलिये मनुष्य मात्र का यह कर्तव्य है कि वह दिन रात के चौबीस घण्टों में एक-दो घण्टा प्रातः सायं प्रभु का भजन करने में अवश्य लगाना ही चाहिये। मनुष्य का बीतने वाला एक-एक पल कीमती है। शरीर का कोई भरोसा नहीं, मृत्यु न जाने कब आकर गला दवाँच दे ! अतः मनुष्य जीवन को सार्थक और कल्याणमय बनाने के लिये यह “भजन अमूल्य रत्नमाला” जब तब मन में अशांति हो अवश्य पढ़नी चाहिये। इसके पढ़ने से आपकी आत्मा को शांति मिलेगी, हृदय को सुख पहुँचेगा और मन की अशांति दूर भागेगी। मैंने इस पुस्तक में अनेक अच्छी भजनों की पुस्तकों में से भजन संग्रह किये हैं। कुछ भजन मैंने भी लिखे हैं, अधूरे भजनों की पूर्ति अपनी बुद्धि के अनुसार की है। आशा है आप इस पुस्तक द्वारा अवश्य लाभ उठावेंगे तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा।

हेडा भवन,

जेष्ठ कृष्णा ५, सं० २००६

आपका सेवक :—

बिहारीलाल हेडा



भजन अमूल्य रत्नमाला



ओ३म् की ध्वनी १

- १॥ ओ३मानंद१ ओ३मानंदम ओ३मानंदम ओ३म ओ३म ओ३म ॥ १ ॥
परमानंदम परमानंदम परमानंदम ओ३म ओ३म ओ३म ॥ २ ॥
सचीदानंदम सचीदानंदम सचीदानंदम ओ३म ओ३म ओ३म ॥ ३ ॥
जगदाधारा जगदाधारा जगदाधारा ओ३म ओ३म ओ३म ॥ ४ ॥
कर्मफलदाता कर्मफलदाता कर्मफलदाता ओ३म ओ३म ओ३म ॥ ५ ॥
मोक्षप्रदाता मोक्षप्रदाता मोक्षप्रदाता ओ३म ओ३म ओ३म ॥ ६ ॥

ओ३म् की ध्वनि गायत्री २

- १॥ प्राणप्रदाता संकट त्राता हे सुखदाता ओ३म ओ३म ओ३म ॥ १ ॥
सविता माता पिता धरेण्यम भगवन् भ्राता ओ३म ओ३म ओ३म ॥ २ ॥
तेरा शुद्ध स्वरूप धरे हम धारण धाता ओ३म ओ३म ओ३म ॥ ३ ॥
प्रेरित प्रिगिया कर सुकर्म में विश्वविधाता ओ३म ओ३म ॥ ४ ॥

ओ३म् की महिमा ३

- ॥ ओ३म ही ओ३म उचारेंगे, ओ३म से जन्म सुधारेंगे ॥ १ ॥
आगे ओ३म पीछे ओ३म दायें ओ३म बायें ओ३म ॥ ओ ॥ २ ॥

ऊपर ओश्म नीचे ओश्म दाये ओश्म बाये ओश्म ॥ ओ ॥ ३ ॥
 मुझ में ओश्म तुझ में ओश्म सब में ओश्म ओश्म
 ही ओश्म ॥ ओ ॥ ४ ॥

आओ आओ हम मिल जावें प्रेम की गंग बहावेंगे ॥ ओश्म ॥ ५ ॥
 विद्या के बिन छोटे हैं हम, उसको पढ़ कर जावेंगे ॥ ओश्म ॥ ६ ॥
 धर्म की खातिर सर्व त्याग कर, हम सब मरमिट
 जावेंगे ॥ ओश्म ॥ ७ ॥

त्यागी बनकर नम्र भाव से, सत्य के बाण
 चलावेंगे ॥ ओश्म ॥ ८ ॥

ओश्म पिता से भेल कूट कर, शक्तिशाली बन जावेंगे ॥ ९ ॥
 हम सब सेबक सृष्टि ओश्म की, ओश्म आदेश
 निभावेंगे ॥ ओश्म ॥ १० ॥

भजन—ओश्म के दर्शन ४

योगी बनकर ओश्म के दर्शन में भी पाऊंगा ।

बश में मनकर आदि को प्रभु में ध्यान लगाऊंगा ॥ टेरे ॥

बसों मैंने व्यर्थ बिताये, पापों में ही ध्यान रहा दुर्जनमंडल में ही
 मेरा बड़ा चढा सन्मान रहा । उसका कटुफल चाखकर, अब सब
 पाप भगाऊंगा ॥ योगी ॥ १ ॥ मन में केवल चाह यही है, निशदिन
 सास्वत ओश्म जपूँ, ब्रह्मचर्य नियमों को पालूँ, चाहे लाखों ताप
 तपूँ, निज अनुभव का ध्यान धर उत्तम कर्म कमाऊंगा ॥ योगी ॥ २ ॥
 सच्चा वैरागी बनकर, चित की वृत्तियों को रोकूंगा, पाप नदी की
 धारा को सुजान सूर्य में सेकूंगा : ओश्म निरूट है जानकर, मन
 की ज्योति जगाऊंगा ॥ योगी ॥ ३ ॥ ओश्म सबदा सारे जग का,
 निशदिन अति कल्याण करे, कभी न खावे कर्मा ना सोवे, नित सुत
 हित का ध्यान धरे, सब से उत्तम ओश्म है, उसके ही गुण
 गाऊंगा ॥ योगी ॥ ४ ॥

भजन ५ वा

भगवान भजन करने के लिये, जो प्रातः समय उठ जाता है,
आनन्द की वर्षा होती है दुनिया में वो सुख पाता है ॥ टेर ॥
संसार को जिसने जान लिया, परमेश्वर को पहचान लिया, उसने
निश्चय मन में ठान लिया, इस दुनिया का क्या नाता
है ॥ भगवान ॥ २ ॥ नहीं निन्दा से वो घबराता जो, नहीं मान के
अन्दर आता जो, एक सेवा धर्म कमाता वो, वह ऊंचा ही उठ
जाता है ॥ भगवान ॥ २ ॥ जो उत्तम कर्म कमाता है, नहीं मौत
से भय वो खाता है, हंस हंस कर प्राण गमाता है वो सच्चा वीर
कहाता है ॥ भगवान ॥ ३ ॥ इस देश का कर कल्याण पिता, और
दे शक्ति का दान पिता, मत कर उसको हैरान पिता, चरणों में
शीश झुकाता है ॥ भगवान ॥ ४ ॥

प्रार्थना हिन्दी ६

हे सप्त भू नव खंड रवि शशि, आदि आदि चराचरम,
विश्वानी देव सदैव देवम, एक मेव गुणा गरम,
सर्वस्व जगदाधार जाननहार, व्यापक सर्वकम,
सविता विधाता, सर्व अन्त, प्रकाशकस्य प्रकाशकम,
प्रभु आप मम प्रिय ताप शाप विलाप जग कारण करण,
दुरितानि खानी परासुवः अथवा विथा कीजे हरण,
यदि सत्य भद्रम मुक्तिप्रदः अंकित सुमति चित दीजिये,
कल्याण प्रद अर्थात् तन्न-कृपाल आसुव कीजिये,

ईश्वर प्रार्थना ७

॥ हे अज अनादि अनन्त अनूपम, अजित लोकपते प्रभो
विश्वस्य सर्वाधार तुम हो, सकल विद्या निधि विभो
तुम चर अचर के प्राण पति हो पालते सवारते,
सत रजोगण रूप में, तुम रूप तीनों धारते, भगवान तुम हो

पतितपावन और निर्मल नाथ हो, जब जब पुकारें भक्त जन तब तुम उन्हीं के साथ हो। अब हे पितामय आत्मा को, शान्ति पूर्ण कीजिये, यह प्रार्थना हम कर रहे हैं निज शरण में लीजिये ॥

पारिवारिक उपासना ८

हे दयामय आप का हम को सदा आधार हो,
आपके भक्तों से ही भरपूर ये परवार हो ॥ १ ॥
छोड़ दें काम को और क्रोध को मदमोह को, शुद्ध और निर्मल
हमारा सर्वथा आचार हो ॥ १ ॥ प्रेम से मिला मिल के सारे गीत
गावें आपके, दिल में बहता आपका ही प्रेम पारावार हो ॥ २ ॥
जय पिता जय जय पिता, हम जय तुम्हारी गा रहे, रात दिन घर में
हमारे आप की जयकार हो ॥ ३ ॥ धन्य धान्य घर में जो सभी है,
आप का ही है दिया। उसके लिये प्रभु आपको धन्यवाद सो सो
वार हो ॥ ४ ॥ पास में अपने न धन हो, तो उसकी कुछ परवाह
नहीं। आप की भक्ति से ही धनवान ये परिवार हो ॥ ५ ॥

प्रार्थना ९

पितृ मातृ सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे
हो। जिन के कुछ और अधार नहीं, तिन के तुम ही
रखवारे हो ॥ १ ॥

प्रतिपाल करो सिगरे जग को, अतिशय करुणा उर धारे हो। भूले
ही है हम तो तुम को तुम तो, हमरी सुध नाथ विसारे हो ॥ १ ॥
उपकारन को कछु अन्त नहीं, छिनहीं छिन जो विसतारे हो,
महाराज महा महिमा तुमरी, समजे विरले बुधवारे हो ॥ २ ॥
शुभ शान्ति निकेतन प्रेम निधे मन मदिर के उजियाले हो। इस
जीवन के तुम जीवन हो, इन प्रानन के तुम प्यारे हो ॥ ३ ॥ तुमसो
प्रभु पाय प्रताप हरि, केहीके अब और सहारे हो ॥ ४ ॥

प्रार्थना सामुहिक १०

॥ हे दयामय हम सभो को शुद्धताई दीजिये, दूर करके हर बुराई को भलाई दीजिये—

ऐसी कृपा और अनुग्रह, हमपे हो परमात्मा । हो सभासद् इस सभा के सब के सब धर्मात्मा ॥ १ ॥ हो उजाला सब के मन में, ज्ञान के प्रकाश से । और अन्धेरा दूर सारा हो अविद्या नाश से ॥ २ ॥ छोटे कर्मों से बचे हम, तेरे गुण गावे सभी । छूट जावें दुःख सारे, सुख सदा पावे सभी ॥ ३ ॥ सारी विद्याओं को सीखे ज्ञान से भगपूर हो, शुभ कर्म में होवें तत्पर दुष्ट गुण सब दूर हो ॥ ४ ॥ यज्ञ हवन से हो सुगन्धित, अग्ना भारतवर्ष देश, वायु जल सुखदाई होवे, जावें मंत्र सारे कलश ॥ ५ ॥ वेद के प्रचार में होवे सभी पुरुषार्थी, होव आपस में प्रीती और बने परमारथी ॥ ६ ॥ लोभी और कामी क्रोधी, कोई भी हम में न हो । सब व्यसनों से बचे, छोड़ देवें मोह को ॥ ७ ॥ अच्छी संगन में रहे, और वेद मारग पर चले, नरे ही होवे उपासक, और कुकर्मों से बचें ॥ ८ ॥ कीजिये हम सब का हृदय, शुद्ध अपने ज्ञान से । मान भक्तों में बढ़ावो सब का भक्तिदान से ॥ ९ ॥

आत्मसमर्पण ११

भगवन मेरा सहारा, तेरे सिवा नहीं है ।

आधार एक तू है, बस दूसरा नहीं है ॥ टेर ॥

तू बन्धु तू सखा है, तू बाप तू ही मां है । तेरे सिवा न कोई, माता पिता नहां है ॥ भगवान ॥ १ ॥ यह कौन वस्तु लाऊं, जिस को तुझे चढाऊं । जो कुछ है सब तेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है ॥ भग० ॥ २ ॥ धीमी सी लग रही है, कर तेज आग अपनी । मेरे ममत्व का मल सारा जला नहीं है ॥ भगवान ॥ ३ ॥ दीपक में ज्युं पतंगा जब तक की धीर कोई, तुझ से जला नहीं है, तुझ से मिला नहीं है ॥ भगवान ॥ ४ ॥

भजन १२

॥ टेर ॥ ओ३म अनेक वार बोल प्रेम के प्रयोगी ।

है वही अनादि नाद, निर्विकल्प-निर्विवाद, भूलते न पूज्यपाद
वीतराग योगी ॥ ओ ॥ १ ॥ वेद को प्रमाणमान अथ योजना
बखान, गा रहे गुणी सुजान, साधु स्वर्ग भोगी ॥ ओ ॥ २ ॥
ध्यान में धरे सो विरक्त, भाव से भजे सो भक्त त्यागत अघी असक्त
पोचपाप रोगी ॥ ओ ॥ ३ ॥ शंकर आदि नित्य नाम, जो जपे
विसार काम । सो बने विवेक धाम, मुक्ति को न होगी ॥ ४ ॥

भजन १३

॥ टेर ॥ है अपरम्पार प्रभु तुम्हारी सहिमा ।

अद्भुत है तुम्हारी माया, नहीं पार किसी ने पाया, गये सब ऋषि
मुनिहार ॥ प्रभु ॥ १ ॥ रविचंद्र और ये तारे, चर अचर जीव जड़
सारे, तुम्हें कर रहे पुकार ॥ प्रभु ॥ २ ॥ तुम हिरण्य गर्भ कहलाये,
सारे ब्रह्मांड रचाये कौन कर सके शुभार ॥ प्रभु ॥ ३ ॥ हो जगत
के आदि कारण, तुम्हीं किये हुये हो धारण, तुम्हीं करते
संहार ॥ प्रभु ॥ ४ ॥ सब बलों में तुम ही बल हो, सब चलें तुम ही
अचल हो, तुम हीं सुख के भंडार ॥ प्रभु ॥ ५ ॥ यों 'वासुदेव' गाता
है, जो शरण तेरी आता है, वही जन होवे पार ॥ प्रभु ॥ ६ ॥

भजन १४

॥ टेर ॥ ओ३म अक्षर अजिला धार जिसने जान लिया ।

एक अखंड अकाय असंगी, अद्वितीय अविकार, व्यापक ब्रह्म विशुद्ध
विधाता, विश्व विश्व भरतार, को पहचान लिया ॥ ओ३म ॥ १ ॥
भूतनाथ भुवनेश स्वयम्भूः अभय भाव भंडार, नित्यनिरंजन न्याय
नियन्ता, निर्गुण निगमाधार, मन को मान लिया ॥ ओ३म ॥ २ ॥
करुणानंद कृपालु अर्कता, कर्म हीन करतार, परमानंद पयोधि
प्रतापी, पूरण परमोधार से सुख ठान लिया ॥ ओ३म ॥ ३ ॥ सर्व

शिरोमणि श्रीसकर को जाना सब का सार, अपना जीवन बेड़ा उसने भवसागर से पार करना ठान लिया ॥ ओ३म ॥ ४ ॥

भजन १४

॥ टेरे ॥ भजन बिन वृथा ही जन्म गयो—

गर्भवास मे उलटो लटकीयो भारी दुख सहयो, लख चौरासी योनी भुगतकर मानुष जन्म भयो ॥ भजन ॥ १ ॥ बाहिर निकस्यो भूख सतायो, दिन भर रोतो रयो, बालकपन सब खेल गमायो, योवन काम भयो ॥ भजन ॥ २ ॥ आशा वृथ्या भइ मन भीतर ममता माथ रयो, क्षणभर बैठन हरि सुमरन कीनो, योही समय गयो ॥ भजन ॥ ३ ॥ या दुनिया मे आकर प्यारे सुकृत कुछ ना कियो, सारी उमर पाप कमायो वृथा ही जन्म लियो ॥ भजन ॥ ४ ॥ वृद्ध हुवा देह कांपन लागी, इन्द्रियां दुखित कियो, कहे बिहारी अब पछताये, मरगट रस्तो लियो ॥ भजन ॥ ५ ॥

भजन १५

॥ टेरे ॥ देखो अब कैसी अविद्या छाई समय अब अई है, सब के मन नीचता छाई है—

दुनियां मे नही कोई भाई का भाई है जग से मिट गई भलाई है, सब हो गये महा अन्यायी है ॥ देखो ॥ १ ॥ जब से यहां अविद्या आई है, जग मे कर दई खव्वारी है, सब के मन बुराई छाई है ॥ देखो ॥ २ ॥ थोड़े अरसे से बलैकमारकीट नई चलाई है, सब जगहो मे हांगई रवाई है छोटे बड़े सब के मन भाई है ॥ देखो ॥ ३ ॥ लेकिन इसका नतीजा ऐसा होगा भाई है, ज्यूं आया ज्यो ही जाई है, नाती का पैसा ठहरेगा भाई ॥ देखो ॥ ४ ॥ देव नागरी संस्कृत छुड़ाई है, फिर विदेशी भाषा पढ़ाई है, धर्म शिक्षा सभी छुड़ाई है, जिससे ऐसा नतीजा हो रहा भाई है ॥ देखो ॥ ५ ॥ सिर से चांटी कटवाई है, फिर सामने इगलिश चोटी लगाई है, सब छे भीमू

मुंडवाई है, जैसे नपुंसक हो गये भाई है ॥ देखो ॥ ६ ॥ गले में नगटाई लगाई है, ये नगटे हो गये भाई है । हाथों में घड़ी लगाई है, ये जेन्टलमेन हाफसेड हो गये भाई है ॥ देखो ॥ ७ ॥ धोती छोड़ी पजामे छोड़े जांगीया पहने भाई है, जिसे हाफपेन्ट बतलाई है, जैसे कुली लंगोटी लगाई है, हाथों में भोली पाई है ॥ देखो ॥ ८ ॥ पगड़ी छोड़ी फेंटे छोड़े नंगे मिर रखे भाई है, ये कैसी फेसन चलाई है, कुलियों का सा मेप बनाई है, इन्हें जरा शरम नहीं आई है ॥ देखो ॥ ९ ॥ इनकी देखा देखी औरतों ने भी चाले बिगाड़ी हैं, इन का भी हाल ऐसा हुवा जारी है, कुछ कहते लजा आ रही है, तुम सुनो सभी नर नारी है ॥ देखो ॥ १० ॥ मिर से ये बोर हटाई है मरदो के से बाल करवाई है, पैरों से कडियें खुलाई है, हाथों में वाच लगाई है ॥ देखो ॥ ११ ॥ फिर सरे बाजार साडी पहने फिरती भाई है, पैरो में चपलें लगाई है, वेश्या का सांग बनाई है, मरयादा सारी मिटाई है ॥ १२ ॥ सब होटलों में खाना पीना किया जारी है कुछ रहा न आचार विचारी है, सब हो गये भ्रष्टाचारी है, इनकी बुद्धि गइ मारी है ॥ देखो ॥ १३ ॥ सब ने धर्म की कर डई खव्वारी है, फिर धर्म ने भी सब की बात बिगाड़ी है, तभी से दुख पाने लगे भाई है, 'बिहारी' फिर कैसे हो सुधारा भाई है ॥ देखो ॥ १४ ॥

भजन १६

॥ टेर ॥ मन मेरो न माने मनाय हारो रे ।

इस मन की अद्भुत है लीला, घड़ी पलक में हो जाय ढीला, ये स्थिर रहने को नहीं रहन हारो रे ॥ मन ॥ १ ॥ इस मन की लहरें बहूभागी, छिन में ही कर देत खव्वारी, ये गोक से भी ना रुका न हारो रे ॥ मन ॥ २ ॥ निन्द्रा में भी स्वपन समय में, ना रहं ये तन के बस में, ये दूर दूर तक भागन हारो रे ॥ मन ॥ ३ ॥ प्रभु भजन करने के वक्त में, ना स्थिर रहे ये उसी हालत में, य दिल में वेग उठावन हार रे ॥ मन ॥ ४ ॥ जो प्राणी नित सतमंगत करता, उसका मन

निश्चय ही रुकता, फिर घुरे बिचारो को छुड़ान हारो रे ॥ मन ॥ ५ ॥
जिस प्राणी ने मन को जीता, इन्द्रियों को उसने ही सहिता, फिर तो
नहो भागे भगो हारो रे ॥ मन ॥ ६ ॥ मन चिन्तन से प्रभु को
ध्यावो, मन को बस में जल्दी लावो. बिहारी हो फिर मन को
चावो रे ॥ मन ॥ ७ ॥

भजन—(राग पनयारी) १७

प्रभु का भजन करो दिन रात मे ओ मेरा प्यारा जी हेलो,
कट जावेगे सारे पाप प्यारा जी ॥ टेरे ॥

दुनियां मे आया है सो जावसी ओ मेरा प्यारा जी हेलो, करलो
कोई शुभ काम प्यारा जी ॥ प्रभु ॥ १ ॥ पल का भरोसा नहीं
जाणसी ओ मेरा प्यारा जी हेलो, जल रहा जी ललकार प्यारा
जी ॥ प्रभु ॥ २ ॥ जीतेजी के सब साथी है ओ मेरा प्यारा जी हेलो,
मरने बाद न कोई साथ प्यारा जी ॥ प्रभु ॥ ३ ॥ फिर तो ले चलने
की करसी जल्दी जी ओ मेरा प्यारा जी हेलो, जाकर जलासी
चिता माय प्यारा जी ॥ प्रभु ॥ ४ ॥ बनी बनी के सब साथी हैं ओ
मेरा प्यारा जी हेलो, बीगड़ी का नहीं कोई साथ प्यारा जी ॥ प्रभु ॥ ५ ॥
सतसंगत तीर्थ करो जी हेलो, भक्ती का करलो सनान प्यारा जी
॥ प्रभु ॥ ६ ॥ प्रभु का भजन साथे चालसी ओ मेरा प्यारा जी
हेलो, स्वर्ग मे होसी धाम प्यारा जी ॥ प्रभु ॥ ७ ॥ अन्तः करण
शुद्ध हो जावसी ओ मेरा प्यारा जी हेलो, 'बिहारी' फिर दर्पन पाय
प्यारा जी ॥ प्रभु ॥ ८ ॥

भजन (सतसंग विषय में) १८

॥ टेरे ॥ जिसको सतसंगत प्यारी है, उसके घर लक्ष्मी सारी है ।
सतसंगत का गुण अति भारी है, दिल की मिट जाय बुराई है,
जग मे विख्यात सराई है ॥ जिस ॥ १ ॥ भवसागर जल बिच भारी
है, वहां सूभंत नहीं किनारी है, सतसंगत वाले ने तारी

है ॥ जिस ॥ २ ॥ मन की लहरे बहु भारी है, छिन मे कर देन खव्वारी है, फिर सतमंगत वाले न टारी है ॥ जिम ॥ ३ ॥ जिम को कुसंगत प्यारी है, उस में मव आंगन जारी है, सतसंग से मिटी विमारी है ॥ जिस ॥ ४ ॥ जिम ने नही सतमंगत धारी है, वो पशु सम ही नर नारी है, ये वेदों की कहावन जारी है ॥ जिस ॥ ५ ॥ नित सतसंग रखो जारी है, सतसंगत की महिमा भारी है, इससे टरजाय 'विहारी' है ॥ जिस ॥ ६ ॥

भजन १६

॥ टेरे ॥ परदेशीया में कौन चलेगा तेरी लार ।

चलेगी मेरी माता चलेगी मेरी नार, हीरे चेतन जावेगे घर तक लार ॥ परदेशी ॥ १ ॥ चलेगा मेरा माल खजाना मेरी लार, नही नही रे चेतन जीते जी का है दरवार ॥ परदेशी ॥ २ ॥ साथ देवेगा मेरा भाई देवेगा परिवार, नही नही रे चेतन मतलब का सारा ससार ॥ परदेशी ॥ ३ ॥ साथ होवेगा मेरा पुत्र सभी घरवार, नही नही रे चेतन जीते जी के है सब यार ॥ परदेशी ॥ ४ ॥ दिया लिया तेरे संग चलेगा, नेकी बढ़ी तेरी लार, फिर हरिनाम ही साथ जावेगा करले कुछ उपकार ॥ परदेशी ॥ ५ ॥ करना है सो करले प्राणी, फिर पीछे पछताय, न मालूम कब काल आवेगा ले जावेगा मार ॥ परदेशी ॥ ६ ॥ पल भर का तेरा नही है ठिकाना, क्यों करता दिल में अभिमाना, 'विहारी' हो जल्दी हुशियार ॥ पर ॥ ७ ॥

भजन २०

॥ टेरे ॥ जिसने है मन को मार लिया, उसने जीवन को सुधार लिया ।
इन्द्रियों को जिसने वश में किया, बाणी से अमृत आपण किया,
किसी ही को न कड़वा वचन किया ॥ जिस ॥ १ ॥ विषयों से चित को हटाय दिया धर्म कार्य में मन को लगाय दिया बुरे कर्मों को दिल से त्याग दिया ॥ जिस ॥ २ ॥ निज स्वार्थ को फिर

त्यग दिया, परमार्थ को पहचान लिया, उपकार में ही सब ध्यान दिया ॥ जिस ॥ ३ ॥ ममता को उसने मार लिया, संतोष जो दिल में धार लिया, तृष्णा को उसने भगाय दिया ॥ जिस ॥ ४ ॥ अपने को नीचा जान लिया, संसार को ऊंचा मान लिया, फिर कभी न दिल में गर्भ किया ॥ जिस ॥ ५ ॥ मन चिन्तन से प्रभु ध्यान किया, मन में ही दर्शन पाय लिया, 'बिहारी' फिर ज्योति से ज्योती मिलाय लिया ॥ जिस ॥ ६ ॥

भजन २१

॥ तेर ॥ है ओ३म् नाम मुझे प्यारा, भवसागर तारन हारा ।
तुम प्रातः समय उठ जावो, फिर प्रभुजी के गुण गावोजी, जिससे होवे तेरा निसतारा ॥ है ओ० ॥ १ ॥ यह मनुष्य जन्म जो पायो, क्यों वृथा इसे गमायाजी, नहीं मिले है बारम्बारा ॥ है ओ० ॥ २ ॥ यह समय बड़ा बलवाना, फिर पीछा नहीं जो आनाजी, करो शुभ कर्म नित प्यारा ॥ है ओ० ॥ ३ ॥ नित सतसंगत में जावो, वहां अच्छी नसीयत पावोजी, जिसे छूटे दुर्व्यसन सारा ॥ है ओ० ॥ ४ ॥ यह झूठा जग का नाता, क्यों इसमें मोह फंमाताजी, यह है सब दुख का भारा ॥ है ओ० ॥ ५ ॥ प्रभुजी से प्रीति बढ़ाओ, दुनियां में सुख सब पावोजी, 'बिहारी' होय भवपारा ॥ है ओ० ॥ ६ ॥

भजन २२

टेर—प्रभु का भजन करने से सभी दुख छूट जाता है, न दिल में रंज रहता है, खुशी से दिन गुजरता है ।

करो कोई काम जो पहले, प्रभु को याद रखो मन में, बुराई दिल में व्यापेगी, तो प्रभु उसको मिटाता है ॥ प्रभु ॥ १ ॥ करो व्योपार सब सच्चा, चलेगा बहुत ही अच्छा, सच्चा व्योपार करने से प्रभु भी खुश होता है ॥ प्रभु ॥ २ ॥ अगर करोगे बलेक मारकीट-तुम, चलेगा थोड़े दिन अच्छा, नतीजा ये जो होवेगा, ज्यूं आता ज्यूं ही जाता

है ॥प्रभु॥३॥ नीति से पैसां जो कमावोगे हमेशा सुख पावोगे,
बुरा पैसा कमाने से मन भी बुरा हो जाता है । प्रभु॥४॥ भलाई जो
करोगे तुम, तुम्हारा भी भला होगा, बुराई जो करेगा वो अन्त में
दुख उठाता है ॥प्रभु॥५॥ रही नित याद में हक की, अगर अपना
भला चाहो, विहारी हक पर रहने से हमेशा आनन्द होता
है ॥प्रभु॥६॥

भजन २३ (गग लोड़ी)

टेर—प्रभुजी की महिमा अपरम्पारा, पार नहीं कोई पाया हेलो ।
अद्भुत है प्रभु तेरी माया, कैसा सुन्दर जगत रचाया मैं क्या
वरनन कर सकूँ हेलो ॥प्रभु॥१॥ पृथ्वी जल और वायु देने, चांद
मूरज दोऊ दीपक देने, कुछ भी कमी नहीं राखी हेलो ॥२॥ अटल
नियम है तेरा जो चलता, बिना हुक्म के पत्ता न हिलता, सभी विश्व
में व्यापक हेलो ॥प्रभु॥३॥ मूर्ख तुम्हको भोग लगावे, जल देवे
और बख चढावे कैसा अपमान करावे हेलो ॥प्रभु॥४॥ मूर्ख वृथा
खोज लगावे, गंगा तीर्थ सब फिर आवे, फिर भी प्रभुजी नहीं मिला
हेलो ॥प्रभु॥५॥ बिना सत्संग के ज्ञान न होता, तब तक मन कभी
स्थिर नहीं होता, स्थिर बिना प्रभु ना मिले हेलो ॥प्रभु॥६॥ घट घट
में प्रभु तुम हो व्यापक, अन्तःकरण सब होवे साधक, विहारी
दर्शन तब पावे हेलो ॥प्रभु॥७॥

भजन २४ (गग लोड़ी)

टेर—माया में फंस कर प्राणी प्रभुजी को भूला, अन्त में तू
पछतासी हेलो ।

गर्भवास के अन्दर में ना ना जो कष्ट उठाया हेलो, बाहिर निकलने
पर भक्ति जो करूंगा, कभी है न भूलूँ थाने प्यारा हेलो ॥माया॥१॥
बाल अवस्था खेल गमाई, तरुण किया वश नारी हेलो । ममता
माया में फंस कर, भूल गया सब विधी हेलो ॥माया॥२॥ बृद्ध

अवस्था में काया ने सताया, कफ और स्वास ने बहुत दबाया,
अब कुछ नहीं पार बसावे हेतौ ॥माया॥३॥ विपत्ता पड़ी जब
अति घबराया, फिर प्रभुजी मुझे याद जो आया, अब करुणा करो
मुझ पर हेतौ ॥माया॥४॥ इस काया का नहीं है भरोसा, कुछ तो
करले आगे का तोषा, बिना खर्ची दुख षासी हेतौ ॥माया॥५॥
ओ३म् नाम ही सबसे प्यारा, 'बिहारी' भजलो बारम्बारा, फिर स्वर्ग
में सुख पासी हेतौ ॥माया॥६॥

भजन २५

॥ टेर ॥ मुसाफिर लेले ओ३म का नाम, नहीं पीछे पड़तायेगा,
प्राणी गया वकत नहीं आन ।

गभेवास के अन्दर तूने, मन में लिया था ठान । बाहिर निकलने पर
भक्ति जो करूंगा तेरी निश्चय जान ॥ मुसाफिर ॥ १ ॥ बाल
अवस्था में याद न आई, प्रभु की पहिचान । युवा अवस्था के
अन्दर नारी नेह में दिया भुलान ॥ मुसाफिर ॥ २ ॥ मात पिता
से भगड़ा करके, हुवा उनसे जुदान, उनकी सेवा कभी न कीनी,
किया तूने मन मान ॥ मुसाफिर ॥ ३ ॥ साधु सन्त की सेवा न
कीनी, किया नहीं शुभ काम । सारी उमर वर्था रामाई पशु पक्षी
सम जान ॥ मुसाफिर ॥ ४ ॥ ऊमर के दिन बीते जाते हैं, पल
पल छिन छिन माय । काल आन जब सिर पर गर्जा, कोई न आवे
काम ॥ मुसाफिर ॥ ५ ॥ करना हैं सो करले प्राणी, दुनियां में
शुभ काम ॥ नहीं भरोसा है पल भर का 'बिहारी' निश्चय
जान ॥ मुसाफिर ॥ ६ ॥

भजन २६

॥ टेर ॥ प्राणी क्यों न भजे भगवान, बिना भज्यां भगवान के प्यारे
कभी न हो कल्याण ।

प्रातः उठकर कर हारि सुमरन, पीछे कर कोई काम । मूल्य लगेना
द्रव्य लगेना लगेना एक छद्माम ॥ प्राणी ॥ १ ॥ बिना मूल्य की

कोई न वस्तु, दुनियां के अन्दर जान । हरिनाम ही सबसे सस्ता
 आवे सभी के काम ॥ प्राणी ॥ २ ॥ फिर भी इसको क्यों नहीं
 भजता, पछतावेंगे प्राण । इस दुनियां में कोई नहीं अपना ये
 निश्चय तू जान ॥ प्राणी ॥ ३ ॥ आगे के लिये आवेगा यह हर
 नाम ही काम, कोई न वस्तु सग जावेगी, छुटेंगे जब प्राण ॥
 प्राणी ॥ ४ ॥ जिस मनुष्य ने दुनिया के अन्दर, कीन्हा नहीं शुभ
 काम । वृथा ही जन्म लियो दुनिया में पशु पक्षी सम जान
 ॥ प्राणी ॥ ५ ॥ हरिं भजन से यहा भी शोभा, वहां भी करे सन्मान ।
 'विहारीलाल' की यही है विन्ती, घट घट में तू जान ॥ प्राणी ॥ ६ ॥

भजन २७

॥ डेर ॥ प्रेम का प्यासा हूं भगवान पिलावो मुझको अमृत पान ।
 इस जगत में आयकर मैंने किया नहीं शुभ काम । सारी जिन्दगी
 वृथा खोई, पशु पक्षी सम जान ॥ प्रेम ॥ १ ॥ लोभ और मोह में
 फंसकर हुवा बहुत हैरान, माया के फन्दों से हटावो, करो मेरा
 कल्याण ॥ प्रेम ॥ २ ॥ अब तो दिल में लग्न यही है भजन कर
 तेरा भगवान । मिटावो मेरे हृदय का तुम साग ही अज्ञान ॥
 प्रेम ॥ ३ ॥ कृपा जब आपकी हो जावेगी जब मिलेगा सुख धाम ।
 अब तो तेरी शरण में आया, करो मेरा शुभ काम ॥ प्रेम ॥ ४ ॥
 अन्तः करण से प्रभु का करोगे जो ध्यान । मिलेगा अमृत का
 प्याला, 'विहारी' निश्चय जान ॥ प्रेम ॥ ५ ॥

भजन २८

नमो सृष्टि कर्त्तानमो हे विधाता, नमो सच्चिदानन्द आनन्ददाता ।
 नमो दीन के दुख हर लेने वाले, नमो विश्व भरता नमो ही
 संहारता ॥ नमो ॥ १ ॥ करो शुद्ध अन्तः करण मेरा स्वामी ।
 यही मांगता नित सायं प्रातः ॥ नमो ॥ २ ॥ करो तीनों तापों से
 रक्षा हमारी, रहूँ सर्वदा तेरी महिमा को गाता ॥ नमो ॥ ३ ॥

तुम्हारी दया का भरोसा है मुझको, न कोई सहायक है सुत बन्धु
 भ्राता ॥ नमो ॥ ४ ॥ भंत्रर बीच नया फंसी नाथ मेरी, पडा काल के
 चक्र में चक्र खाता ॥ नमो ॥ ५ ॥ लगा दीजो अब तो किनारे पै नैया ।
 अधमों का उधार करता कराता ॥ नमो ॥ ६ ॥ बलदेव तेरे दर पर
 अब तो पड़ा है, क्यों न दास अपना इसको बनाता ॥ नमो ॥ ७ ॥

भजन २६

॥ टेरे ॥ बालद भर हरि नाम की, रस्ते मे काम आवेगा ।

दो चार सौ मील तू जाता, दुनियां का सामान मगाता । पहला
 दर्जा खास लिखाता, मिसल करे सब काम की, लम्बी मंजिल
 जावेगा ॥ रस्ते ॥ १ ॥ ऐसी मजिल तू जावेगा, पीछा फिर नहीं
 आवेगा । राजपाट सब यहाँ रह जायगा, कर करनी शुभ काम की,
 करनी आगे पावेगा ॥ रस्ते ॥ २ ॥ सत संगत आभिमान बनाले,
 प्रभु नाम का टिगट कटाले । मनुष्य देही का लाभ उठाले, सुरत
 लगा उस धाम की, जावेगा जीव अकेला ॥ रस्ते ॥ ३ ॥ पूर्व जन्म
 की भली कमाई, जिस कारण नर देही पाई । मद् माया में रयो भुलाई,
 मत कर निन्दा गांव की, भक्ति तन मे छावेगा ॥ रस्ते ॥ ४ ॥ मन मे
 सोच प्रभु को बन्दा, छोड़ कपट दुनिया का फन्दा, धन यौवन मे
 मत हो अन्धा, यही बात है काम की, जगदीश्वर को भावेगा
 ॥ रस्ते ॥ ५ ॥

भजन ३०

॥ टेरे ॥ तनका है चोला कीमती, मट्टी में क्यों मिला रहा । पापो की
 ओर गाफिल मन को है क्यों लगा रहा ।

तू ही बतादे काम क्या तेरी जबानी आयेगी, इतना तो कर विचार
 तू हीरा जन्म गमा रहा ॥ पापों ॥ १ ॥ लेता है नाम राम का,
 करता है याद कृष्ण को, कहना न माना एक का, उलटे ही कर्म
 कमा रहा ॥ पापों ॥ २ ॥ बैठा अकेला दो घड़ी, लेले प्रभु का नाम

तू । जिसकी दया से जी रहा, जिसकी कृपा से ज़ा रहा ॥ पापों
॥ ३ ॥ बात है तेरे काम की, इनको न कभी भुलाना जिसने इन्हें
भुला दिया, बैठा ही पछता रहा ॥ पापों ॥ ४ ॥

भजन ३१

॥ टेरे ॥ प्यारा ओ३म् प्यारा ओ३म् प्यारा ओ३म् प्यारा ओ३म्,
ऋषि मुनि ही करते हैं जिसका भजन ।

और वेद ही गाते हैं जिसके ही गुण, हम पापी पड़े हैं तेरी शरण ॥
प्यारा ॥ १ ॥ भक्त प्रह्लाद को जत्र तक सताते रहे, और आगमें भी
उसको बिठाते रहे । वो तो केवल यही शब्द गाते रहे ॥ प्यारा
॥ २ ॥ एक बार जो अमृत पीता है, वो तेरे सडारे जीता है ।
देती है शिक्षा हमें यही गीता है ॥ प्यारा ॥ ३ ॥ आबो प्रेम से उसको
बुलावे, सभी गीत प्रेम के मिलकर गांवे, सभी आंसू प्रेम के
मिल कर बहावें ॥ प्यारा ॥ ४ ॥

भजन ३२

॥ टेरे ॥ हे जगत पिता भगवान, हमें दो ज्ञान तू ईश्वर प्यारा
दुनियां में एक सहारा ।

बचपन में होस न आया है, जो तन मे पाप कमाया है, अय जाऊ
कहां विषयो ने मुक्त को मारा ॥ दुनियां ॥ १ ॥ दिल मेरा तो यह
कहता है, तू मन मन्दिर में रहता है, दिन रात भटकता रहा मैं
दर दर मारा ॥ दुनियां ॥ २ ॥ समुधार में है वेड़ा मेरा, कृपा कर
आसरा है तेरा, नन्दलाल पाप मे बीता जीवन सारा ॥ दुनियां
॥ ३ ॥ पापों से भगवान हमें बचा, वेदों का सच्चा भक्त बना ।
पाखण्ड भूँठ से सभी करे किनारा ॥ दुनिया ॥ ४ ॥

भजन ३३

॥ टेरे ॥ दुनिया में जो आया है तू कर प्यार प्रभु से, जो मागना
है मांगले दातार प्रभु से ।

धन माल जो तुम्हको है मिला किसने दिया है, जीवन का ये सुख भोग बता किसने दिया है, सब क्या भूला है, सब मिला है, हरबार प्रभु से ॥ दुनिया ॥ १ ॥ संसार की मोह माया मे क्यों दित लगाया, हीरा था जन्म किसलिये यूँ खाक मिताया । कर याद जो कर आया था ईश्वर प्रभु से ॥ दुनियां ॥ २ ॥ क्यों सामने हर एक के तू हाथ पसारे, कुछ लेने की अभिलाषा है तो जा उसके द्वारे, सब मांगत है, निर्धन धनवान प्रभु से ॥ दुनियां ॥ ३ ॥ जीवन जो सफल चाहे, तू मन साफ बनाले । जगदीश्वर की भक्ति में वहां दित को लगाले सब मांगते है वीर तू कर प्यार प्रभुसे ॥ दुनियां ॥ ४ ॥

भजन ३४

तेरे—ईश्वर से करते जाना प्यार ओ नादान मुसाफिर, जीवन की नैया करलो पार ओ नादान मुसाफिर ।

नेकी की संगत करना, बंदियो से हरगिज डरना । कर्ना जो चाहे कर उपकार ओ नादान मुसाफिर ॥ जीवन ॥ १ ॥ जब तक है होश जवानी, विगडी हर बात बनानी, होने न पावे अत्याचार ओ नादान मुसाफिर ॥ जीवन ॥ २ ॥ ऋषियो की शान रखना, भारत की आन रखना, देना जो सर्व देना बांट ओ नादान मुसाफिर ॥ जीवन ॥ ३ ॥ जीवन है अनमोल, हीरा मांटी न रोल बीरां तुम्ह को समझाया बारम्बार ओ नादान मुसाफिर ॥ जीवन ॥ ४ ॥

भजन ३५

तेरे—भक्ति कर भगवान की, काम तेरे जो आवेगी, पाप भरी ये आत्मा ऊचा इसे उठावेगी ।

पर उपकार के भाव हमेशा अपने दित मे लाताजा, दोष जो तेरे जीवन के है उनको दूर हटाता जा, व्योति फिर आनन्द की, अन्दर ही जगजावेगी ॥ भक्ति ॥ १ ॥ अमृत बँले जाग, पवित्र होकर आसन ले जमा, गुण भगवान के धारण करके दिन दिन ही नजदीक जा ।

प्रीति प्राणाधार की अपना रंग चढ़ावेगी ॥ भक्ति ॥ २ ॥ सत्संगी जो कहा हमेशा ऊंचा उठता जावेगा । दर्शन जब भगवान के होंगे मुक्ति पद को पावेगा । तृष्णा बन कर सेविका अपना चरण दवावेगी ॥ भक्ति ॥ ३ ॥ लेकिन जो गफलत की तू इतना देख ध्यान रहे, दुनिया तेरा साथ न देगी साथी ना भगवान रहे, ममता माया ही तुम्हें उलटे नाच नचायेगी ॥ भक्ति ॥ ४ ॥

भजन ३६

टेर—विश्वपति के ध्यान में जिसने लगाई हो लगन, क्यों न हो उसको शान्ति क्यों न हो उसका मन मगन ।

काम क्रोध लोभ मोह शत्रु है महाबली, इसके हनन के वास्ते जितना हो तुमसे कर यत्न ॥ विश्व ॥ १ ॥ ऐसा बना स्वभाव को, चित्त की शान्ति से । पैदा न हो ईर्ष्या की आंच, दिल में करे कहीं जलन ॥ विश्व ॥ २ ॥ मित्रता तू सब से मन में रख त्याग के वैर भाव को, छोड़ दे टेढ़ी चाल को, ठीक कर तू अपना चलन ॥ विश्व ॥ ३ ॥ प्रभु से अधिक न है कोई, जिसने रचाया जगत उसका ही रख तू आसरा, उसकी ही रख तू शरण ॥ विश्व ॥ ४ ॥ छोड़ दे राग द्वेष को, मन में तू उसका ध्यान धर । तुम पर दयाल होवेंगे निश्चय यही परमात्मन ॥ विश्व ॥ ५ ॥ जैसा किसी का हो अमल, वैसा ही पाता है वो फल, दुष्टों को कष्ट मिलता है, शिष्टों का होता हरन ॥ विश्व ॥ ६ ॥ आप दया स्वरूप हैं, आपका ही आसरा, कृपा दृष्टि कीजिये मुझ पर जब हो समय कठिन ॥ विश्व ॥ ७ ॥ मनमें मेरे हो चांदना, मोक्ष का रास्ता मिले, मारके मनको केवल, करके इन्द्रियों का दमन ॥ विश्व ॥ ८ ॥

भजन ३७

टेर—मनवा अवसर आयोरे, तू चूके मत ना चाल, काच ॥ रा सिर पर छायो रे ।

कृपा हुई ईश्वर की जब तू नरतन पायो रे, लावो ले मुक्त को

करले मन चायो रे ॥मन॥१॥ इन्द्रियो का रसभोग सभी जूण
मे आयो रे, मिनख जन्म मुक्ति को मारग वेद बतायो रे ॥मन॥२॥
भरम त्याग अब जाग नीद से गुरां जगायोरे, ले करबट सोवे मत
पाछो, दिन उग आयोरे ॥मन॥३॥ कृपा करी गुरुदेव ज्ञान दे तिमर
नमायोरे, विष्णु ईश अचल अविनाशी घटघट छायोरे ॥४॥

भजन ३८

टेर—करोरे मन, वा दिन की तदबीर ।

जब यमराज आवे लेवण को, प्राण धरत नही धीर । मुगदर मारे
जीव निकाले, नैना मे बरसत नीर ॥करो॥१॥ अंगट घाटा मुसकिल
पेडा, नदिया बहुत गम्भीर, नावडुंडा का दुख घनेग खेवटिया
रघुवीर ॥करो॥२॥ यह काया है काच की चूड़ी, रहे न सदा स्थीर,
पलपल छिनछिन छीजत है, व्यू अंजली का नीर ॥करो॥३॥
मरने बाद कोई घडी न राखे, ने चलने की ढील । जाय चिता मे
रख दिया प्यारे फूंक दिया ये शरीर ॥करो॥४॥ नेकी कमाले
प्रभु को भजले, आगे की है तदबीर । अन्त समय कोई काम न
आवे, जीते जी का सीर ॥करो॥५॥

भजन ३९

॥ टेर ॥ भज मन प्रभु नाम सुखकारी, भूलमत जावनारे, जिसे रहे
सदा सुख चैन प्रभु को ध्यावनारे ।

कका करे कृपा प्रभु दयाला, खजा खूब भजो कृपाला, गगा, गिर-
धागी गुणवाला घघा, घट घट मे जो व्यापक उसी को ध्यावनारे
॥ भज ॥ १ ॥ चचा चाहे हो कुछ काम, छछा छोडो मत प्रभु
नाम जजा जपो सदा हरि नाम, भक्ता भुक भुक करो प्रणाम,
॥ भज ॥ २ ॥ टटा टेरे प्रभु रखवाला, ठठा ठाकुर श्री कृपाला,
डडा डाल गले मे माला, ढढा ढेर करो उपकार ॥ प्रभु ॥ ३ ॥
तता तरना जो कोई चाहे, थथा थिर मन से प्रभु ध्यावे, ददा दया

दृष्टि हो जावे, धधा ध्रज्युं ध्यान लगावे, नना निश्चय प्रभु को
 पाय प्रभु गुण गावनारे ॥ भज ॥ ४ ॥ पपा प्रभु बड़े कृपाला,
 फफा फेरो निशदिन माला बधा बड़े बड़े गुन वाला, भभा
 भक्तो का रखवाला. मम महिमा अपरम्पार ॥ भज ॥ ५ ॥ यया
 यही वान गुण कारी. ररा रखो दया अतिभारी लला लेवो यश
 तुम भारी. ववा वो है सबका हितकारी ॥ प्रभु ॥ ६ ॥ ससा सदा
 करो सतसंग, शशा शान्ति होवे मगन, हहा हाथ जोड़ जगदीश्वर
 के गुण गावना रे ॥ भज ॥ ७ ॥

भजन ४०

॥ टेरे ॥ भजन से रमरहनारे, साधु लगी ओश्म से प्रीत ।
 अमृत बानी बोलिये रे साधु, मनका आपा धोय । औरन को
 शीतल करे रे साधु आप ही शीतल होय ॥ भजन ॥ १ ॥ तन की
 भूख तनिकसी रे साधु एक पाव एक सेर. मन की भूख अनन्त है रे
 साधु निगलत मेरु सुमेर ॥ भजन ॥ २ ॥ आया है मो जावेगारं
 साधु राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ चलारे साधु कोई बाधा
 जात जजीरे ॥ भजन ॥ ३ ॥ इम चौसर चेता नही रे साधु पशु
 पाली देहः प्रभु नाम लीना नही रे साधु पडी बुद्धि पर खेह ॥ भजन
 ॥ ४ ॥ थोडा सुमरन बहुत सुखरे साधु जो कर जाने सोय सूत लगे
 ना बिनावली रे साधु सहजे सब सुख होय ॥ भजन ॥ ५ ॥ प्रभु
 सुमर मत ढील कररे साधु जो सुमरे ते लाह इहा फलक खिदमत
 कररे साधु वहां अमरपुर जाय ॥ भजन ॥ ६ ॥ मन को योगी सब
 कररे साधु मन को बिरला कोय सहजे सब विधी पायेरे साधु जो
 मन योगी होय ॥ भजन ॥ ७ ॥ इत कुल की करनी तजीरे साधु
 उत न भज्यो भगवान तुलसी अब घर के रहेरे साधोज्युं बाहिर
 को पान ॥ भजन ॥ ८ ॥ जेती लहर समुद्र कीरे साधु तेती मन की होइ
 सहजे ही हीरा उपजे रे साधु जो मन आवे दार ॥ भजन ॥ ९ ॥
 तुलसी या संसार मे रे साधु पाच वस्तु है सार साधु मिलन हरि
 भजनरे साधु दयाधर्म उपकार ॥ १० ॥

भजन ४१

॥ टेरे ॥ जगत पिता जगदीश्वर तेरी लीला अपरम्पार है ।

तू एक अनादि अनुप है ना कोई रंगन रूप है तू त्रिभुवन का भूप है
अलख अगोचर अभय अजन्मा, निराकार ओकार है ॥ जगत
॥ १ ॥ अदभुत है प्रभु तेरी माया कैसा सुन्दर जगत रचाया न
भये सूर्य चन्द्र चमकाया कीटे पतंग पशु और पक्षी रचे पुरुष और
नार है ॥ जगत ॥ २ ॥ कहीं सागर कहीं नदियें नाला उचे उचे
पहाड विशाला कहीं सघन वन है हरियाला अटल नियम है तेरा
जिससे चलता सब व्यवहार है ॥ जगत ॥ ३ ॥ जड़ चेतन यह
जगत ये सारा तू सब का है पालन हारा सब मे है और सबसे
न्यारा वेद शास्त्र और ऋषि मुनि तेरे गारहे गुण हर बार है
॥ जगत ॥ ४ ॥ तू स्वामी मैं सेवक तेरा दमा करो अवगुण सब
मेरा मेरो जन्म मरण का फेरा भक्ति भाव से अभय आपसे करता
यही पुकार है । जगत ॥ ५ ॥

भजन ४२

॥ टेरे ॥ मनमोजीडारे, कई सूतो छै सुख भर नीद—

सूतां सूतां क्या करे रे, सूतां आवे नीद । काल सिराने यो खड़ो रे
तोरण आयो बीद ॥ मन ॥ १ ॥ बूढ़ बूढ़ टपकता रे, व्यूँ अंजलीका
नीर । पल पल छिन छिन में रे छीजत जाय शरीर ॥ मन ॥ २ ॥
विषय भोग संसार के जी हैं सब दुःख के मूल, इनमें फंसकर ईशको
मत मूर्ख तू भूल ॥ मन ॥ ३ ॥ धन यौवन को पायकर रे क्यों
करता अभिमान । चढ़ रोज की चांदनी रे कोई दिन का
सहमान ॥ मन ॥ ४ ॥ मरला किसके इशक पर रे, करता किससे
प्यार । यहां सब मतलब के मीत हैं रे देखा गया व्यवहार ॥ मन ॥ ५ ॥
मन को अपने मारले रे, करके योगाभ्यास, जिससे सारी इन्द्रियां
रे, बनी रहे निजदास ॥ मन ॥ ६ ॥ वही शूर वही वीर है रे, वही

नर बनवान, जो रन दृश जीत कर बस मे करना प्राण ॥ मन ॥ ७ ॥
 पानी का सा बुदबुदारे यह है अधम शरीर । कब तक ठहरा रहेगा रे
 वृक्ष नदी के तीर ॥ मन ॥ ८ ॥ तुलसी या संसार मे रे भात भात के
 लोग । सत्र से हिलमिल चालिये रे नदी नाव संजोग ॥ मन ॥ ९ ॥
 जैसे शीशी काच की रे, वैसे नर की देह । जतन करन्ता जावसी रे,
 इरी भज लावा लेह ॥ मन ॥ १० ॥ तुलसी या संसार मे रे कर लीजे
 दो काम, देने को टुकड़ा भला रे, लेने को हरि नाम ॥ मन ॥ ११ ॥

भजन ४३

॥ टेरे ॥ तू ममता माया त्याग बटोही, भज मन प्रभु का नाम—
 इक दिन तुझ को जाना होगा, मौत का कोई बहाना होगा, जाने
 कहां ठिकाना होगा, कोन देश किस गांव बटोही ॥ भज ॥ १ ॥
 जो तन तूने पाला पोसा, इसका पलभर नहीं भरोसा, कुछ तो बांध
 बगल में तोपा, सोच तनिक परणाम । बटोही ॥ भज ॥ २ ॥ भाई
 बन्धु कुटुम्ब कधीला, सब नाते माया की लीला, जब तन पिंजर
 होगा ढीला, कोई न आवे काम । बटोही ॥ भज ॥ ३ ॥ यह संसार
 मुसाफिरखाना, सबने इसको ऐसा माना, जगा हुवा है आना
 जाना, कोई सुबह कोई शाम बटोही ॥ भज ॥ ४ ॥ ओ३म् भजेगा
 सुख पावेगा, बस यही तेरे काम आवेगा, सब कुछ यही छोड़
 जावेगा, राजपाट धन धाम बटोही ॥ भज ॥ ५ ॥ अब तो 'नदकिसोर'
 गुण गाले, रही सही को सफल बनाले, प्रेम सहित प्रभु को अपनाले,
 कर में माला थाम बटोही ॥ भज ॥ ६ ॥

भजन ४४

॥ टेरे ॥ माया के भ्रम बीच भटकत क्यों भूले—

करले कुछ तो पर उपकार, जन्म को तू ले सुधार, पक्षपात त्याग,
 न्याय कीरति यश लेले ॥ माया ॥ १ ॥ दीनो को देले दान, सजनों
 का करले मान, कठिन वचन त्याग प्राणी प्रिय वचन बोले
 ॥ माया ॥ २ ॥ ईश्वर को सत्य मान, आत्मा को करले ध्यान, घंट घंट

में जो व्यापक वही, पाप पुण्य तोले ॥ माया ॥ ३ ॥ तजके सब रागद्वेष पुषार्थ पर कर सन्तोष धर्म कार्य्य कोस, मूर्ख पाप को बटोरे ॥ माया ॥ ४ ॥ द्यानद सरस्वती सत्य असत्य कर बिचार, वेदो का कर प्रचार, कपट जाल खोले ॥ माया ॥ ५ ॥ वेदो की यही है रिती, आपस मे करलो प्रीति, दिन दिन सुख होय, भूलां स्वर्ग के हिन्डोले ॥ माया ॥ ६ ॥ 'नवलसिंह' काया को करना न कछु गुमान, आवे या न आवे स्वांस, काहे को फूले ॥ माया ॥ ७ ॥

भजन ४५

॥ टेरे ॥ इक दिन ऐसा आवेगा, तन तजकर तू जावेगा—

पुण्य पाप तब साथ चलेंगे, धन वैभव नहीं साथ चलेंगे, तन मन लकड़ी संग जावेंगे, कर्मों का फल पावेगा ॥ इक ॥ १ ॥ रोग रहिता जब तक तन मे, और शक्ति है इन्द्रियां मन मे, तब तक तू आत्मा के उदयन मे, यत्न बिना पल्लतावेगा ॥ इक ॥ २ ॥ मरण पूरे तू धर्म कमाले, मन को सुपथ और लगाले, प्रभु से पूरण प्रेम जमाले, पाप तुम्हे बिसरायेगा ॥ इक ॥ ३ ॥ जीवन के उद्देश्य बना कर, तन मन धन उस हेतु लगाकर, पथविघ्न को दूर हटाकर, सच्चा सुख बिम्ब सायेगा ॥ इक ॥ ४ ॥ मति आदिक में बल को भरके, प्राणी मात्र के दुख को हरके, मोक्ष प्राप्ति के साधन करके, मृत्यु समय हर सायेगा ॥ इक ॥ ५ ॥ वो दिन सुख से भर जावेगा, भयसे जब तू तर जावेगा, कभी नहीं दुःख फिर आवेगा, अमृत ओश्म पिलावेगा ॥ इक ॥ ६ ॥

भजन ४६

जो लेना है तो ले हरिनाम का लुट रहा खजाना है,

परलोक का सामान अगर बदे कमाना है ॥ टेरे ॥

न काम आवेगा मालोजर, न कुनवा साथ जावेगा, सिवा एक धर्म के बाकी यहीं सब छोड़ जाना है ॥ जो ॥ १ ॥ हकीमें डाक्टर पढित, न छोड़ा मौत ने कोई, चली नहीं एक की हिकमत, की बेहुदा बाना है ॥ जो ॥ २ ॥ कोई तो आज जाता है, किसी का

कूच कल होगा । पसं सत्र के सत्र यह मान सराये कारखाना है
॥ जो ॥ ३ ॥ गये साथी निकल कोसों, पडा सोता है नू चर्मा हुई
दो पहर की घंटी, तूम भी घर को जाना है ॥ जो ॥ ४ ॥

भजन ४७

मनवा नाहीं विचारी रे,

थारी भारी करता ऊमर बीती सारी रे ॥ टेर ॥

गर्भ वास मे रक्षा किनी प्रभु तुम्हारी रे, अब तो नाथ बाहिर
निकालो भक्ति कबस्युं थारी रे ॥ मन ॥ १ ॥ बालपने मे लाड
लडायो माता थारी रे भर यौवन मे आई जवानी, नारी प्यारी रे
॥ मन ॥ २ ॥ कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी लाख विहारी रे, कोड़ी
कारण राइ उधारी लेतो भारी रे ॥ मनवा ॥ ३ ॥ ममता माया में
फसकर भूल्यो भक्ति सारी रे, रुक गया स्वांस दसो दरवाजा,
मच गई घेरी रे ॥ मनवा ॥ ४ ॥ आयो बुढापे कहने लागी घर
की नारी रे, कत्र मरसी चूढो यो डाकी, चूटे गेल हमारी रे
॥ मनवा ॥ ५ ॥ या संसार में कोई नहीं अपना देख विचारी रे,
कहत कबीर सुनो भाई साधो, करनी थारी रे ॥ मन ॥ ६ ॥

भजन ४८

॥ टेर ॥ काया तेरी कैसे रोई, चल दिन प्राण—

यह शरीर जो सब से प्यारा, छोड़ चला निर्मोही, मैने जाना मेरे
संग चलेगी या कारण काया मल मल धोई ॥ चल ॥ १ ॥ मोटी
मोटी गजी बनाई बला काठ की घोड़ी । चार जने मिल ले जो गइयें
फूंक दी फागुन कीसी होरी ॥ चल ॥ २ ॥ ऊचे नीचे महल बनाये,
गाय भेंस घर घोड़ी । काल आय जब सिर पर गर्जा, काम न आवे
कोई ॥ चल ॥ ३ ॥ घर की तिरया रोवन लागी, थिछुड़ गई मेरी
जोड़ी । कहत कबीर सुनो भाई साधो, जिन जोड़ी तिन
तोड़ी ॥ चल ॥ ४ ॥

भजन ४६

प्रभु नाम भजो, प्रभु नाम भजो, प्रभु नाम ही संकट हारा है ।
 वोही ज्योती जीवन दाता है, वोही सब का ही रखवारा है ॥ टेर ॥
 वोही जल मे है, वोही थल मे है, वोही अदर है वोही बाहर है, वोही
 जगत रचा, वोही जगत पिता, वोही सब का ही रखवारा है ॥ प्रभु ॥ १ ॥
 वोही मन्दिर मे, वोही मसजिद मे, वोही काबा काशी गंगा मे, क्यो
 दर-दर फिरता मारा है, तेरे दिल मे प्रीतम प्यारा है ॥ प्रभु ॥ २ ॥
 कुछ हिरस हवस को छोड़ जरा, फिर देख उसे नेनन मे खड़ा ।
 जिसे समझे न्यारा न्यारा है, वोही सब का पालन हारा है ॥ प्रभु ॥ ३ ॥

भजन ५०

॥ टेर ॥ कहो ओश्म ओश्म मुख सेती, तेरे वेडा होगा पार—
 ईश्वर के निज ओश्म नाम को, सुमरिन कर नित सुबह शाम को ।
 तज दुनिया के सभी काम को, जिससे हो उद्धार, है ओश्म नाम की
 खेती ॥ कहो ॥ १ ॥ इस काया मे भरा मूत्रमल, जिससे शुद्ध
 समझे तू उजवल, क्या धोवे हे इसको मलमल, मन मे जरा विचार,
 बिन ओश्म न शोभा देती ॥ कहो ॥ २ ॥ प्राणो से जो ध्यान
 लगावे तोनो तापो से बच जावे, अन्त सप्रय मुक्ति को पावे, छोड़े
 जब ससार, है पाप काटनी रेती ॥ कहो ॥ ३ ॥ खेल कूद मे गया
 बालपन, युवा हुवा जब फिरा मसतपन । वृद्ध हुवा अब तो कर
 सुमरिन, काल रहा ललकार, शर्मा कहे पछल पछेती ॥ कहो ॥ ४ ॥

भजन ५१

है ईश्वर की जो कृपा अजर अमर अखिलेश, दीन बन्धु हम दीनन के
 काटो सकल क्लेश ॥ हम आये तुमरी शरण तुम हो सर्वाधार,
 नैया डोले बीच मे दीजो पार उतार ॥

टेर—ईश्वर तुम सर्वाधार हो, मेरी लिजो खबर जल्दी से—
 सबके पिता तुम ही माता हो सारे सुखो के दाता हो, शरण
 आपकी जो जाता है उसी के पालन हार हो ॥ मेरी ॥ १ ॥ तुमने

ही रचे पदार्थ सारे, सूर्य चंद्र पृथिवी नभ तारे, सबकी रक्षा करने हारे, कगे दुष्ट संहार हो ॥मेरी॥२॥, यदपि रहा धर्म से न्यारा, विषय भोग में बकल गुजारा, अब तो आपका लिया सहारा, गिरतो के बचाने हार हो ॥मेरी॥३॥ भवसागर में मुझे बचावो, नैया मेरी पार लगावो 'वासुदेव' पर अब दुर जावो, क्यों नहीं सुनत पुकार हो ॥मेरी॥४॥

भजन ५२

(श्री सत्यवृती महाराज हरिरचन्द्र के जीवन का एक द्रश्य है) अब रात्रि भाद्र मास घन घोर बटा दिखलाती है. वादल गर्जे विजली चमके तबयत सुन २ दहलाती है ॥ देखो यह मरघट है एक अबला रुदन मचाती है । आंखों से आंसू बहते हैं, कुछ लकड़ी चुनती जाती है ॥ एक लाश जमी पे रखी है, छाती से उसे लगाती है । मुख चुम्बन करती बार २ रो रो कर कहती जाती है ॥ बेटे दुखिया माना को, निपुत्र ही छोड़े जाते हो । बचपन के जोड़े नाते को, पलभर में तोड़े जाते हो ॥ क्या इसीलिये बलभीर्य पिता, तेरे ने पुत्र गमाया था । क्या इसीलिये तो मास पेट में रख, मैंने दुख पाया था । यदि प्राणपति मिल गये कभी, मैं क्या उनको बतलाऊंगी । बेटे तेरे बिन बतलावो, किस प्रकार सुख दिखलाऊंगी ।

॥दोहा॥ आखिर आसु रोक कर, मनमें धीरज धार । अबला दुखिया ने कसे चुन कर चिता तैयार ॥ जब लाश चिता में रखने लगी, कानों में एक आवाज पड़ी, मत आग लगाना अभा जरा, ठहरो पलक भर हो खड़ी ॥ मरघट में भंगी कफन लेने वाला एक खड़ा जो था । वह भी अबला की देख दशा रो २ के मुंह को धोता था ॥कैसे करमागू दुखिया से, दिल में यह विचार करता है । क्या, कर्न मैं, पस्वश हूं निदेयी बनना ही पडता है ॥ कर रहस अगर दूं छोड इमें, मालिक को क्या बतलाऊंगा । मालिक से तो छिप भी सकता, ईश्वर से कहां छिपाऊंगा ॥ जब आग लगाने को ही थी, वह पहरे-

द्वार कुल्ल आगे बढ़ा । दो कफन मुझे तब फूँको लाश, है यही नियम
युं कहने लगा ॥ रोकर अबला ने कहा, अरे भंगी मुझ पर थी एक
साड़ी । जब कफन पुत्र का नहीं मिला, तब आधी उसमे से फाड़ी ।
बस उसका कफन डाल करके बेटे को मरघट लाई हूँ । आधी साड़ी
से ढका बदन, आधी नंगी ही आई हूँ ॥ सुनकर भंगी ने कहा कि
तू जिसके यहाँ, खिदमत करती थी । गर उससे कफन मांग लेती तो
क्या ज न निकल जाती थी ॥ (स्त्री का जवाब भंगी को) ॥ दोहा
बक बक मत कर बावरे मुंह संभाल कर बोल । क्या जाने तू कौन
मैं, आगे मुंह मत खोल ॥ मैं क्षत्री पति की प्राण प्रिया, राजपाट
सम्पति जिसने एक विप्र को दान दिया ॥ पिया बिका इकलोता
बेटा, मैं बेची नहीं सोच किया, बिक कर दान दिया ब्राह्मण को
कर्ज किसी से नहीं लिया ॥ मैं फिर कर कैसे फैलाती, कहने को
नहीं फटा हिया । (अबला) ॥ दोहा ॥ सुनकर के ऐसा कथन, चोका
पहरेदार । प्राण प्रिये तारावती, क्या तू मेरी नार ॥ क्या तू मेरी नार
लाश रोहिताश कंवर की है क्या । क्या हालत यह हुई तेरी, मम
प्रिया जरा तो बतला ॥ जो चांडाल के हाथ दान के कारण, मित्र
बिका था । पहरेदार मरघट का हरिश्चन्द्र राजा था ॥ लगे मिलकर
दोनों रोने, आंसुओं से मुंह धोने, नैत्र धीरज धर खोले । दीन दुखी
तारा देवी ने मधुर वचन बोले ॥ (रानी का राजा से) लाश आपके
पुत्र की मैं तो दुखिया नार, अब तो इसको फूँक दूँ आज्ञा दो भर-
तार ॥ (हरिश्चन्द्र का उत्तर पत्नी से) अगर तेरे और बेटे के मोह
मे, फसकर धर्म गमाऊँ मैं । क्या कुल कपूत हो सत्यवृती फिर
हरिश्चन्द्र कहलाऊँ मैं ॥ बिना कफन लिये देकर आज्ञा, क्या मुरदा
नाम धराऊँ मैं ॥ छोड़ूँ न धर्म अपना, जब तक की दम मे दम है ।
आये मुसीबते कुल्ल मुझको न रंजोगम है ॥ माना की तू है नगी,
और पुत्र बेकफन है । मुझे मृत्यु के मुकाबिले इसकी नकुल्ल शर्म है ॥
हाय देव आजमाइस पुरी हुई नहीं क्या । अब तक जो हो चुका है
इमतिहान कम है ॥ क्या दोष दे किसी को, अपने कर्म का फल है ॥

किमको कहे कि उमने हम पर किया सितम है ॥

(आजमाइश के लिये ऋषि विश्वामित्र का आना और पहरेदार को आज्ञा देना)

ये बात अभी होनी थी ऋषिबर इक आते नजर पड़े । पहरे वाले को आज्ञा दी यहाँ आकर बात जग सुन ले ॥ सुनते ही पहरेदार गया, क्या आज्ञा है महाराज कडो । तलवार निकाली म्यान से, और कहा हाथ से उमे गडो । मुरदा बच्चे को लेकर के, इक औरत जो यहाँ आई है ॥ वह पापीन यहा के राज पुत्र की जान मार कर लाई है ॥ ले जावो तलवार अभी उस पापिन के गले पै धरदो । और एक हाथ मे हथ्यारी का, धड़ से न्यारा सर कदो ॥ दोहा ॥ सुन कर वे उस जहा गये, हरिश्चन्द्र ततकाल । तारा से सारा कहा, दुख दायक यह हाल ॥ (हरिश्चन्द्र का कहना तारा से (व वजन सोहनी) जो हाथ मेरे है प्रिये, तेरे गले के हाथ थे । कमबख्त आज तूके वही घातक समान निहारते ॥ कुछ नहीं अपराध है प्यारी मेरा, परबस हूँ मैं वही सत् पुरुष जो स्वामी की आज्ञा पालते ॥ मन में आता है छुरी मैं भी जिगर में खा महं काल देव को न हमें, दुख सिन्धु से अब तारते ॥ मौत आजाती मेरी भां, तानो जन एक भिल कर स्वर्ग में सिवारते । (तारा का पति से कहना) प्राण पति मत हो दुखित मेरा बडा सौभाग्य है । हाथ कोमल आपके जो शीश मेरा उतारते । मैं बड़ी हैरान हूँ शेरों के बच्चे आप हैं, क्यों जरासी बात पर फिर आज हिम्मत हारते ॥ (तारा का कहना) ॥ दोहा ॥ प्राणपति ठहरो जरा मुझे नहीं इन्कार । स्तुति करलूँ ईश की और मिनट दो चार ॥ तारा की स्तुति) ॥ दोहा ॥ वनू दूसरे जन्म में स्त्री कर्म अनुसार । प्राणपति हरिश्चन्द्र हो मैं होऊँ नकी तार ॥ (दोहा) तलवार खीच के म्यान से जध की हुवे तैयार । हाथ पकड. ऋषि ने कहा धन्य वीर बलिहार ॥ ऐसे सतधारी दृढ प्रतिज्ञरु भारत तूने कहाँ गमा दिये, क्यों रत्न अमूल्य

खोयकर । ये कुडा मटी जमा किये ॥ जगदीश्वर इस ऋषि भूमि मे
कोई हरिश्चन्द्र फिर पैदा हो ॥ अन्धेरी रात्रि जो नाश करे और देश
धर्म का हो सदा ॥ 'सुखलाल' हकीकत स, गर कुछ खून बुजगो का
तुम मे । हाथ मे लो सत्यवाण अब धूम मचादो आत्म मे ॥

भजन ५३

॥दोहा॥ स्वामी सध संसार का, है अविनाशी एक । जिसके माया-
जाल में उलझे जीव अनेक ॥

॥ टेर ॥ है अपार महिमा तेरी कोई गावे तो कैसे गावे ।
कैसे रचे पदार्थ सारे, रविगशि पृथ्वी नभतारे, है एक से एक
न्यारे, नहीं अकल काम दे मेरी, कर विचार चित चकरावे ॥ कोई
॥ १ ॥ कभी शीतल झकोले लगावे, सरदी से काया थररावे ।
कभी बसन्त ऋतु चल आवे, कहीं गरमी मे आन्धी अन्धेरी, कही
पानी नजर न आवे ॥ कोई ॥ २ ॥ कभी घटा घमासान मंडरावे
बरसे जब जंगल भग्दे, जंगल मे मगल करदे, ॥ बेलो और वृक्षो में
सकल ठोरी, कही खुशकी नजर नही आवे ॥ कोई ॥ ३ ॥ कैसा
सुन्दर शरीर बनाया, जाने कोन मसाला लगाया । जाने कहां से
रंग चढया, खबर नहीं कोन मिनाई फेरी, नहीं बात समझ मे
आवे ॥ कोई ॥ ४ ॥ कही चक्र अस्त कमल का, कही लगा फंवारा
जल का । कहीं वेग वायु मण्डल का, कही नस नाडी की ग्रन्थी
घेरी, कहीं अगनी चमक दिखलावे ॥ कोई ॥ ५ ॥ कही मटीमाल
सारे में कहीं आकाश चौबारे मे, कहीं मन शक्ति द्वार में, कही तीर
सना अलमस्त बछेरी, बिना भाग वश मे नहीं आवे ॥ कोई ॥ ६ ॥
तू है जड़ चेतन का दाता, तू सब को चुगा पहुँचाता ॥ जो तेरे
को भोग लगाता, यहां वह भूल रहा अन्धेरी, नहीं बात समझ में
आवे ॥ कोई ॥ ७ ॥ 'हरिसिंह' की और निभादे, दुख धारा से पार
लगादे । अब सुख स्वरूप दरशादे, मित्र मत कर मिलने में देरी,
बिन मिले जीया घबरावे ॥ कोई ॥ ८ ॥

भजन ५४

॥ टेर ॥ पीलेरें ध्याला होजा मतवाला, प्याला प्रेम हरि रस कारे ।
पाप पुण्य दोऊ भुगतन आये कोन तेरा तूँ किस कारे । जो दम जीवं
प्रभु गुण गाले वन यौवन सुपना निशकारे ॥ पीले ॥ १ ॥ बाल
अवस्था खेल गमाई, तरुण भया नारी जिस कारे, वृद्ध भया कफ
वायने घेरा, खाट पड़ा नहीं जाय मसकारे ॥ पीले ॥ २ ॥ नाम-
कमल विच है कस्तूरी, कैसे भ्रम मिटे पशुकारे । मन सत गुरु यों
भरमत डोले, जैसे भृगु फिरे वनकारे ॥ पीले ॥ ३ ॥ लख चोरासी
मे छूटा चाहे, छोड़ कामिनी चसकारे, प्रेम लगन चरण दास कहत
है, नख सीख स्वास भरा विषकारे ॥ पीले ॥ ४ ॥

भजन ५५

॥ टेर ॥ परम पछतावनारे, हमने जीवन योही गमाया ।
पढ़े ना चारुं चरित्र श्रुपियों के, नित धकवाद् मचाया । भूल गये
महिमा नर तत्व की अन्धकार अब छाया ॥ परम ॥ १ ॥ चोरी
जारी मे सुख माना, नाम भला न धरया । नाना विधिकर प्राप्त
अधोगति हा उपवास कराया ॥ परम ॥ २ ॥ चार आंख पढ़ पतरा
वाधा, कभी न सुयश कमाया । विविध मतों के जालों में फंस,
सच्चा इसे भुलाया ॥ परम ॥ ३ ॥ कुल सपूत अब कोन कहेगा,
पाप प्रपंच बढ़ाया । हाय करन भारत माता को, भारी दुख
पहुँचाया ॥ परम ॥ ४ ॥

भजन ५६

॥ टेर ॥ भूला डोले जगत में प्रानी ।
करत फिरत है मेरी मेरी सुत कुदुम्य सम्पति रजधानी ॥ भूला
॥ १ ॥ न्याय अन्याय कुछ भी नहीं जाने, करत फिरत अपने मन-
मानी ॥ भूला ॥ २ ॥ अपना धर्म नहीं पहचानत, निशदिन काम
करे शैतानी ॥ भूला ॥ ३ ॥ हटता नहीं बलदेव बदी से, जगत में
तनिक तेरी जिन्दगानी ॥ भूला ॥ ४ ॥

भजन ५७

॥ टेरे ॥ भवसागर से नैया दीजो पार उतार ।

मुझे काम क्रोध ने घेरा, मरुधर पड़ा है बेड़ा, किस विध उतरूँ पार ॥ भव ॥ १ ॥ मेरी नाव बही जाती है, यहाँ कोई नहीं साथी हूँ सब मतलब के यार ॥ भव ॥ २ ॥ मेरा लोभ और मोह हटावो, अपनी भक्ति सिखलाओ, जिससे हो जाऊँ पार ॥ भव ॥ ३ ॥ सुन मात पिता और भ्राता, अब कोई नजर नहीं आता, इतना था परिवार ॥ भव ॥ ४ ॥ बल वासुदेव को दीजे, एक विनय मेरी मुन लीजे, तुमही को रहा पुकार ॥ भव ॥ ५ ॥

भजन ५८

॥ टेरे ॥ सुनो जगदीश विन्ती को तुम्हीं से आस भारी है । सुधारो अब कृपा करके दशा बिगड़ी हमारी है ।

अविद्या देश मे फैली, हुवा मूर्ख ये भारत वर्ष, बिगाड़ा रीति नीती को परस्पर वैर जारी है ॥ सुनो ॥ १ ॥ रहा न धर्म यहाँ पर कुद्व, न रहने की आशा है । निरुद्यमता ने धर दबा रखा, हुवा भारत भिकारी है ॥ सुनो ॥ २ ॥ नहीं है देश की ममता किमी भारत निवासी को, करें क्या यत्न अब प्रभु जी, पड़ा दुख सर पे भारी है । ॥ सुनो ॥ नहीं कोई है ऐसा जन, जो हमको आके धीरज दे । यह क्या करते हो साहिब, ठगो से रक्त जारी है ॥ सुनो ॥ ४ ॥

भजन ५९

॥ टेरे ॥ तूँ सुमरिन करले प्रभु नाम, दिन नीके बीते जाते हैं ।

और विषयो का तजो काम, तेरे सग न चले एक छद्दाम, जो देते है सो पाते हैं ॥ दिन ॥ १ ॥ भाई बन्धु कुटुम्ब परिवारा, तूँ किसका और कौन तुम्हारा, किसके बल हरिनाम विसारा, आपस मे मिल करो बिचारा, सब देखत ही के नाते हैं ॥ दिन ॥ २ ॥ लख चोरासी भुगत के आया, बड़े भाग्य मानुष तन पाया, जापर भी नहीं करी कमाई, जब मांगेगा लेखा साईं, फिर पीछे पछताते हैं ॥ दिन

॥ ३ ॥ जैसे जल में गले पतासा, मूर्ख फसा मोज की फांसा, क्या देखें तू स्वांस की आशा, ये गये हाथ नहीं आते हैं ॥ दिन ॥ ४ ॥

भजन ६०

टेर—जप प्रभु नाम की माला, क्यों फिरे अभिमान में ।

एक दिन तुझको जाना होगा, यह धन माल विराना हीगा, फिर तेरा नहीं आना होगा, मर्दन के मैदान में, क्यों फिरे मरद मतवाला ॥जप॥१॥ सुनसुन बज रहा कूब नकारा, मान-पिता तेरा कुटुम्ब कधीरा और लगे परिवार में, कोई है नहीं गुणवाला ॥जप॥२॥ गिनत गिनत दुनिया का नाता, सहज सहज दिन बीता जाता, सुरत नहीं तेरी हरि भजन में तेरे लगा भ्रम का ताला ॥जप॥३॥ ये रंगरूप बना दो दिन का, करले भजन पार होने का, सालिगराम कहे आगया मौका, बैठो हरि विमान में, करी कृपा हरी दयाला ॥जप॥४॥

भजन ६१

टेर—ऊधो कर्मन की गति न्यारी ।

हम सब हरि के विरह में जगत हैं कुवजा ताही पियारी, गंगा जमुना को जल भीठो, समुद्र कर दीयो खारी ॥ऊधोजी॥१॥ उज्वल पंख दिये बगुला को, कोयल किस विध कारी, मूर्ख मूर्ख राजा कीने, पंडित फिरत भिखारी ॥ऊधोजी॥२॥ लघु लघु नयन दिये हस्ती को, रहत जो फोज अगारी, सुन्दर नयन मृगन को दिने, जंगल भटकत हारी ॥ऊधोजी॥३॥ चातुर नार बांभ रख दीनी, झूहड़ जन जन हारी, वेश्या ओढे साल दुसाला, पतिव्रता फिरे उधारी ॥ऊधोजी॥४॥ सूर स्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी ॥ऊधोजी॥५॥

भजन ६२

टेर—सुन मेरे मना, अबतो समज कर चाल ।

बाल गयो यौवन पुनि बीत्यो, श्वेत भये सब बाल ॥सुन॥१॥ जो, न

तजे तू इन विषयन को, आन छुडासी काल ॥सुन॥२॥ जाना दूर
मुसाफिर तुभको, पास नही कछु माल ॥सुन॥३॥ प्रभू को नाम
सुमरले प्यारे छोड़ जगत जजाल ॥सुन॥४॥

भजन ६३

टेर—मिर पर मोत सवार रे, जाने कब आन घेरे ।

चलते फिरते सोते खाते करते धरते आते जाते, मुंह खोले है
त्याररे ॥जाने॥१॥ माता भी रोवे भगनी भी रोवे, सारा कुटुम्ब
महा शोक में होवे, कोन बचावन हाररे ॥जाने॥२॥ वृत्त में जल मे
आग्नि पवन मे, बन उपवन वा तरे भवन मे, कह करे कैसे अहाररे
॥जाने॥३॥ पाठकजी जीतो मोत को प्यारे, केवल ठहरो धर्म सहारे,
जप प्रभु को हर वाररे ॥जाने॥४॥

भजन ६४

टेर—सदा तुम करते रहो सत्पुरुषो का संग ।

सत्संगत की महिमा का कोई अब क्या करे बखान, सदाचार
सत्संग के कारण हो जाता कल्याण ॥सदा॥१॥ सत्पुरुषो का संग
करो तुम, यही धर्मका अंग, गहरे पानी मे बह जाता लोहा काट
के संग ॥सदा॥२॥ खोटी संगत के करने से हो जाती मती भंग, कुसंगत
मे जा जा मित्रो जल जल मरे पतंग ॥सदा॥३॥ पानी ढलते ढलते
मित्रो विसजाता प्राखान । ऋषि सगसे हुआ भील भी बालमीक
गुणवान ॥सदा॥४॥ बन बन फिर फिर स्वामी दयानन्द कीन्हा खूब
विचार, आखिर श्री बृजानन्दजी के संग मे किया देश उद्धार
॥सदा॥५॥ सच्ची बात नही आती समझ मे ऐसी पीलई भंग, भव
सागर से तरना चाहो कर लेवो सत्संग ॥सदा॥६॥ अन्तिम विनती
'रामचन्द्र'की लीजे मन मे धार आद्यर्ष जनों की सत्संगत से हो जावोगे
प्रार ॥सदा॥७॥

भजन ६५

टेर—सताते जो गरीबो को उन्हे ईश्वर सतावेगा, रुलाते जो अनाथो

को उन्हें ईश्वर रुलावेगा ।

भलाई का भला फल है, बुराई का बुरा फल है, बुराई जो करेगा
वो बुरा फल क्यों न पावेगा ॥सताते॥१॥ दया दीनों पै कर लीजे,
किसी को दुःख नहीं दीजे, तुम्हारी नाव को मालिक किनारे से
लगावेगा ॥सताते॥२॥ करो रक्षा अनाथों की, कि जो कुछ बन सके
भाई, न दौलत में से पैसा भी तुम्हारे साथ जावेगा ॥सताते॥३॥
फिरा किस ऐंठ में भूले भजन कर रूप ईश्वर का, अरे नादान फिर
ये दम, नहीं नर नन में पावेगा ॥सताते॥४॥

भजन ६६

टेर—मनवा तू दुख पासी रे, क्यों विसरायो हरि नाम, साथे क्या
ले जासी रे ।

कुटम्ब कवीला सुख सम्पति धन, यहां रह जासीरे, निकल जायगो
हंस, काया तेरे काम न आसीरे ॥मन॥१॥ जो कुछ करलेसी सो तुझ
को वहां मिल जासीरे, कौल वचन कीना था सो तेरे काम ही आसीरे
॥मन॥२॥ दान पुण्य कर लेसी जग तोय भलो बतानीरे, बिना
भज्यां भगवान, भजन बिन मुक्ति न पासीरे ॥मन॥३॥ आगे पूछे
धरमराज तू क्या बतलासीरे, पडसी मुगदर मार प्यारे कुण छुडवा-
सीरे ॥मन॥४॥ पाप पुण्य कीना सो तुमको सब भुगतासीरे, चोरासी
नहीं छूटे फिर फिर गोता खासीरे ॥मन॥५॥ सत्गुरु कालूराम
दया कर ज्ञान बतानीरे, दीन जान प्रभु तुमको पार लगासीरे
॥ मन ॥ ६ ॥

भजन ६७

टेर—मनवा क्यों पछतावेरे, सिर पर श्री भगवान बैड़ा पार
लगावेरे ।

निज करनी को याद करूं तो जी घबरावेरे, प्रभु की महिमा सुन
सुन मन में धीरज आवेरे ॥मन॥ ॥ जो मेरे अपराध गिनुं तो अन्त
न पावेरे । ऐसे दीन दयाल दिल में एक न लावेरे ॥मन॥२॥ जो

कोई प्राणी चित्त मन से हरि को ध्यावेरे, वाके घरके योग क्षेम हरि पार लगावेरे ॥मना॥३॥ शरणागत की लाज प्रभु आपही को आवेरे तीन लोक के नाथ लाज हरि नहीं गमावेरे ॥मना॥४॥ पतित उधारन बीरद वाको वेद बतवेरे, मोय दीनन को काज प्रभुबिन कौन संवारेरे ॥मना॥५॥ महिमा अपरम्पार पार कोई नहीं पावेरे, ऐसा प्रभु भक्तो को प्रेमी पार उतारेरे ॥मना॥६॥ 'रामनिवास' भक्त की ओर निभावेरे । तू मत होय उदास प्रभु को दास कहावेरे ॥मना॥७॥

भजन ६८

टेर—बिगड़ी कौन सुधारे नाथ बिन बिगड़ी कौन सुधारेरे ।
बनी बनी के सब कोई साथी, बिगड़ी का कोई नाहीरे । भरी सभा मे लज्जा राखे दीनानाथ गुसाईरे ॥बिगड़ी॥१॥ एक समय रावण की सुधरी स्वर्ण की लका पाईरे, देखत देखत उन की बिगड़ी दुश्मन हो गया भाईरे ॥बिगड़ी॥२॥ एक समय हरिश्चन्द्र की सुधरी स्वर्ण छत्र फिराईरे, देखत देखत इनकी बिगड़ी नीच घर नीर भराईरे । बिगड़ी॥३॥ नेम धरम को जहाज बनाई, समुद्र बीच तिराईरे, धर्मी धर्मी पार उतर गये, पापी नाव डुबाईरे ॥बिगड़ी॥४॥ कड़ी बेल की कड़ी तूबड़ियां, सब तीर्थ कर आईरे । घाट घाट को जल भर लाई, तो भी ना मिटी कुटलाईरे ॥बिगड़ी॥५॥ पाच वरण की चुंदड़ी अमोलक, चुंदड़ी के दाग लगाईरे नाथ जलन्धर गुरु हमारा, गोरखनाथ यश पाईरे ॥ बिगड़ी ॥ ६ ॥ बिगड़ी सुधरी दोनों ही बहिना पारा पारीसुं आईरे, नाथ जलन्धर गुरु हमारा, राजा मान जस गाईरे ॥बिगड़ी॥७॥

भजन ६९ (राग बनजारा)

टेर—संसार काल का चारा, इस तन का करो निसतारा ।
चढ आई काल की फौजां, थारी धरी रहे सब मौजांजी, इस काल से सब जग हारा ॥संसार॥१॥ धन सम्पति दौलत माया जो है बादल की छायाजी, नहीं चलै है जोर तुम्हारा ॥संसार॥२॥ दारा सुत

वांधव भाई, सध मतलब के बाप और माई जी, नहीं चले है संग तुम्हारा ॥संसार॥३॥ कहे 'रामचरण' मतवाला, खुल जाय भ्रम का ताला जी, इस जीव से तन है न्यारा ॥संसार॥४॥

भजन ७०

टेर—प्रभु नाम की पी लेना बूँटी तेरी काया रहे अलमस्त :—
तन की कुन्डी मनकी घोटी, सूरत रगड़ी बूटि । छान कपट कर पीले रे प्रानी ज्ञान की गुटी । नाम ॥१॥ धन दौलत और माल खजाना, सभी वस्तु भूँठी, प्रभु नाम भजयो नहीं थारी जिदगानी खोटी । ॥प्रभु॥२॥ एक जीवेड़ा पड़ा समुद्र में टुजी नाव टूटी । दीना है तो ले ले रे प्रानी, तेरे हिया की फूटी ॥प्रभु॥३॥ जावे जगत से हाथ पसारे, आवे बांध मूँठी, कहत कबीर सुनो भाई साधो कल से डोर छूटी ॥प्रभु॥४॥

भजन ७१

टेर—कर्मन की रेखा न्यारी रे विधिना टारी नाय टरे :—
गुरु वशिष्ठ महामुनि ज्ञानी, लिख लिख लगन धरे । सीता हरण मरण दशरथ को, बनवन राम फिरे ॥विधिना॥१॥ लख घोड़ा लख पालकीरे ऊपर चंवर फिरे । ऐसे सत्यवादी हरिश्चन्द्र राजा, नीच घर नीर भरे ॥ विधिना॥२॥ पांचव पांडव अधिक सनेही, बन बन विपत पड़े, कीचक बन में श्रान सतायो, प्रभु बाकी साय करे ॥विधिना॥३॥ होनहार भावी से बस है, भावी बस न परे । सूरदास होनी सो होवे । मूर्ख सोच करे ॥विधिना॥४॥

भजन ७२

टेर—धन धन हो तेरी कारीगरी करतार—
जब निराकार निर्विकार हो साकार बना दिया जग कैसे, जागृत स्वप्न सुसुपति तुम रचा मुक्ति का मग कैसे । क्या वस्तु लई, जिसे, देह भई, फिर बना दिया रग र कैसे, सबकी धार रम सब रहा, फिर रहा अलग सबसे कैसे । जब सब में तू सब गुलो की

बूमबरुहो की रूह सुगम कैसे, जब अपानि पादो गृहनोंत्वा फिर
 कोई पकड़े पग कैसे । जब सृष्टिका करना भरता धरता, हरता
 रहता अनद्रग कैसे । जब काशी कावे मे नहीं पता, फिर आयो
 बना यहां मग कैसेजी, सूर्य चन्द्र पृथ्वी नभ तारे सबको रहा तू,
 कैसे धार ॥धन॥१॥ किये रंग विरंगे फूल और बादल रंग की रेणी
 कही नहीं । सूर्य से चमकते अजब पदाथ चमक निगली कहीं नहीं,
 नर तनसा चोला सीव दिया, सूई धागा हाथ मे कही नहीं । पत्तै र
 की कतरण न्यारी, तेरे हाथ कतरणी कही नहीं, बरसे जब जंगल
 भरदे, आकाश में सागर कही नहीं । दे भोजन कीड़ी कुंजर को,
 तेरा चढ़ा भंडारा कही नहीं दिन रात न्याय मे फर्फ नहीं । लगी
 कचेरी कही नहीं कर्मो का फल दे यथा योग्य, मिले रुओ रियाचत
 कही नहीं । अखड ज्योति अपार माया कि किन्हूँ ने तैने पायो
 पार ॥धन ॥२॥ जाने कोन विधि गर्भ मे रख कर दे कीड़ा बालक
 पन की । फिर जोवन जवानी आई कहां से, कभी रही नहीं जोवन की,
 फिर वृधापन देकर दिखा दे सबको, बनो मो एक दिन विगडन की ।
 कोई पैसे पैसे का मोहताज है, कोई खोल रहा कोटी धन की ।
 कोई पी संग कामिन खेल करे । कोई रो रो राख करे तन की, मरु
 भूमि टीवे पर टीवे कही र लहरे हरे बन की, कहीं ताल सुरंगे जल
 सु भरें, कही चौटी चमक रही पर्वत की । कही शरड ऋतु के भोले
 लगे, कही धूप गरमीधन की जी । चतुरमास घटा चढ़ आवे वरम
 के गहा दे जल धार ॥धन॥३॥ चाहे कितना ही बरतो ना निवड़े
 जब देने लगे तू इतना माल । नहीं दे चाहे दिन रात कमावो,
 फिर भी वह नर रहे कंगाल, अदना से आला कर पलक मे, जब
 नर पर तूं होय कृपाल । राजो का राज ताजो का ताज, तू ही
 महाराज कालो का काल, तू ही ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश नरेश
 हमेशा निराली चाल । तू इतना जबर नहीं दे तूं खबर, मेरी सुन
 दिलवर मुझे करे निहाल । रहूं तेरी शरण गहुं तेरी चरण, मत दे
 तूं मरण हम तेरे लाल । अय सुख निधान, रख मेरा मान, दे भक्ति

ज्ञान होकर दयालजी । दीन बन्धु हम सदा दीनन के अथ प्रभु पतिन उदार ॥धन॥४॥ तू अनन्त तेरी गति अनन्त तुझे देखें सन्त, का योग ध्यान । है साधन तेरे अमीत नाड़ेरे परे रवि शशी सं महान । जाने कहाँ सिखना दीखे जी, कीड़ी के बना दिये नाक कान, नहीं छाया धरे रंग इतने भरे, नहीं जीत सकत है जहान, सब जगह नहीं जोर तूफ सा, और सिर सवाके मोड़ सब का प्रधान । मायानुगामी जीव के स्वामी, अर्न्तयामी बलनिधान, सचीदानन्द तू करुणा कंद मै महामद । तुझे अपना जान अति दुखित भयो तुझे कुरु रहाकर मुझ पै दया दे अपना ज्ञानजी । तू ही सखाँ मनेहीमंगा, तू ही है सच्चा परिवार ॥धन॥५॥ चार वेद छः शास्त्र पुकारे, सारे गुणों की संभार नहीं ऋषि मुनि और सन्त महन्त थके, गा गा कर वेरा पार नहीं । जो करदे नहीं बदल सकें किसी ओरो को अखत्यार नहीं, जो करना चाहे कर गुजरे । किसी काम में तू लाचार नहीं जो करे सो ईश्वर आप करें, किसी ओरो की चाहत सार नहीं करी भक्ति रंग गले लिपटे, बिन भक्ति भूप से प्यार नहीं । जो प्रेम करे उससे परिचय, तेरे ऊंच नीच की टार नहीं । यह हरिसिंह दरवाजे खड़ा, क्यों इसकी सुनत पुकार नहीं जी । शुभ स्वरूप दरसादे अपना, खोल के अखंड द्वार ॥धन॥६॥

भजन ७३

टेर—गम खाना चीज बड़ी है, कोई देखो ज़रा गम खायके । गम खाई पहलाद पियारे, लाख जतन कर असरुज हारे, खंभ फाड़ हिरनाकुस मारे, नरसिंह रूप बनाय के भटपट से विपत हरी है ॥गम॥१॥ करी तपस्या बालकपन में, ध्यान धरियो जब प्रभु के चरण में, प्रभु से ध्यान लगाय के जाकी अटल जो भंडी खड़ी है ॥गम॥२॥ गम खाके सुग्रीव सिधाया, ऋषि मूक पर्वत पर चल आया, एक बाण से बाली मारियो तालकी ओट लगाय के, गल फूलन की माला डली है ॥गम॥३॥ गम खाई विभिषण भाई, सही लात रावण की भाई, एक बाण से रावण मारियो, सारा असुर

खपाय के जाकी सहाय हरी ने करी है ॥गमा॥४॥ ऐसा गम का है
उजियाला, गम खाने से चले गुजारा, शकर कहे समज ले प्यारा,
काम क्रोध, बुझाय के गम खाना अमर जड़ी है ॥गमा॥५॥

भजन ७४

टेर—दम दम मे कम हो जावसी, इस दम का नहीं ठिकाना ।
निकल जायगा कम दम होकर, पलंग छोड़ पाटा पर सो कर, धन
परिवार सभी छोड़ कर, चलने की ठहरावसी, बस बाकी रहा उठाना
॥इस॥१॥ भाई बन्धु कुटुम्ब स्नेही, जम का दूत बनेगा वो ही, हाथो
हाथ उठाते लेही, घडी एक न गम खावसी. जल्दी ले जाय मसाना
॥इस॥२॥ तू कहता नर मेरा मेरा, खड़ा होय तन फूँके तेरा,
लेकर बास फेरे चोफेरा, मारो ही मार मचावसी, बोलो तेरा है कौन
विराना ॥इस॥३॥ भजन बंदगी करले वडा, मती होय माया मे
अधा, है यह जगत दुख का फंदा, कोई नहीं आडो आवसी, भूठा
है नेह लगाना ॥इस॥४॥ पूंजी करले प्रभु नाम की, कोड़ी लगे नहीं
तेरे गांठ की, कहे मनु ये तेरे काम की, भवसागर तर जायगा, फिर
होय नहीं आना ॥इस॥५॥

भजन ७५

टेर—बंगला खूब बनारे, जिसमे नारायण बोले ।

इस बंगले के दस दरवाजे, बीच पवन का खभा, आवत जावत कुछ
नहीं सूके यही बड़ा अचम्भा ॥बंगला॥१॥ पांच पचीसों पातर नाचे,
मनवा ताल बजावे, सुरत निरत का बाजा बाजे, राग छतीसों आवे
॥बंगला॥२॥ तीन गुणां की ईंट बनाई, पाच तत्व को धारी, रुम रुम
कर छान छवाई, चेतन चुनने तालों ॥बंगला॥३॥ कहे कबीर सुनो
भई साधो यह पद है निरवाणो, इस पद का कोई अर्थ करेगा सो
साधु सुर जानो ॥बंगला॥४॥

भजन ७६ (ईश्वर प्रार्थना)

टेर—परम पिता तुम हमें सुधारो, हमें सुधारो, हमें सुधारो ।

न व्याधि व्याधा हमें सतावे, कभी अविद्या पास न आवे, मिस्त्र-
लाओ ऐसा सु मन्त्र स्वामी, हे न्यायकारी हमें सुधारो ॥परम॥१॥
विवेक साथी बने हमारे, रहे सदाचार प्राण पियारे, कहें हम सब
सुयश तेरा, जगत नियन्ता हमें सुधारो ॥परम॥२॥ सदैव तेरे चित्र
गाऊं सखा प्रलय में तुम्हें बनाऊ, नरेश अंकांक्षा यही है मेरी, हे
सब व्यापी हमें सुधारो ॥परम॥३॥

भजन ७७

देर—है जिसने सारे विश्व को धारण किया हुआ, वह एक वस्तु के
अंदर मिला हुआ ।

मिलता नहीं इसलिये अज्ञानियों को वह, अज्ञान का बुद्धि पै पड़दा
पड़ा हुआ ॥जिसने॥१॥ सबी खुशी से रहते हैं वो जन सदा अलग,
मन जिनका विषय भोग में फंसा हुआ ॥जिसने॥२॥ खोते हैं खेल
कूद में, जो उमर गमावेगा, अफसोस उनकी बुद्धि को क्या जाने
क्या हुआ ॥जिसने॥३॥ मन तो मलीन वैसा ही मूर्ख रहा तेरा, गंगा
में रोज जाके न्हाया तो क्या हुआ ॥जिसने॥४॥ दुनियां के दुख स्वरूप
समुद्र से है वे जो पार, जगदीश्वर से प्रेम ही उनका लगा हुआ
॥जिसने॥५॥ अज्ञानियों से रहता है वो केवल दूर दूर, खुल जाय
ज्ञान चक्र तो वो है मिला हुआ ॥जिसने॥६॥

भजन ७८

(वीर अभिमन्यु का माता से युद्ध की आज्ञा मांगना)

॥ देर ॥ इजाजत दे मुझे माता की रण भूमि में जाऊं मैं भुजा
बल और शक्ति, युद्ध में जाकर दिखाऊं मैं ।

लगाऊं खोद सरपर, बाजुओं पर बांधलु नेशन, जिरह बखतर से,
सारा तन बदन अपना सजाऊं मैं ॥ इजाजत ॥ १ ॥ कमर में मेरे
लटकाऊं, तो तरकश पुस्त पर डालुं, कमान हाथो में लेकर, तीर
चीन्ने पै चडाऊं मैं ॥ २ ॥ गदा लेकर मैं गरजूं सिंह सम मैदान में
जाकर, लगाऊं चोट ऐसी होस शत्रु के मुलाऊं मैं ॥ इजाजत ॥ ३ ॥

जिगर थर्राय दुशमन का, रिपू का तन वदन कापै, अगर तेवर बदल कर, आहिना खंजर उठाऊं मैं ॥ इजाजत ॥ ४ ॥ गिरा देता है फल जमी पर जिस तरह आंधी, जमी पर इस तरह से दुशमन का सर गिराऊं मैं ॥ इजाजत ॥ ५ ॥ है जिस तेजी से जिस फुरती से, वन मे तितलियां उड़ती, उसी फुरती से कौरवो का सर उड़ाऊं मैं ॥ इजाजत ॥ ६ ॥ तुम्हारे दूध की तासीर, माता रण मे दिखाऊं मैं, पिता के जोर का गौरव, जमाने पर बिठाऊं मैं ॥ इजाजत ॥ ७ ॥ दिखा कर गैर को नीचा, विजय का सख जब फूंकूं जमा क्या चीज है माता, फलक का दिल हिलाऊं मैं ॥ इजाजत ॥ ८ ॥

भजन ७६

(गुरु गोविन्दसिंहजी के दो बच्चो का प्यारा धर्म)

॥ टेर ॥ करदो कतल खुशी से हमको उजर नहीं है, प्यारा है धर्म अपना जितना की सर नहीं है होने को हैं न मुसलमां दो बन्धु मे से कोई, दीवार मे चुनेगे इसका भी डर नहीं है ॥ करदो ॥ १ ॥ पाबन्द धर्म के है, चुन जायेगे खुशी से, दोनों को इसकी परवाह बिलकुल इधर नहीं है ॥ करदो ॥ २ ॥ माता पिता हमारे, सिखला चुके है हमको, मरना सभी को होगा कोई अमर नहीं है ॥ करदो ॥ ३ ॥ जिसने मनुष्य होकर, रक्षा न धर्म की कीनी, सीगो से हीन पामर पशु है वह नर नहीं है ॥ करदो ॥ ४ ॥ हम धर्म बेच अपना, लेंगे न जिन्दगी को, हैं राज के न भूखे दरबार जर नहीं है ॥ करदो ॥ ५ ॥ होता रहेगा जब तक जुल्मो सीतम तुम्हारा । इसका भी अन्त समझो, ईश्वर किधर नहीं है ॥ करदो ॥ ६ ॥

भजन ८० (कबाली)

॥ टेर ॥ धर्म के साथ इस जग मे मोहबत हो तो ऐसी हो । दिया सर तेज बहादुर ने, न सर देने से वो भिक्के । धर्म जब नाश होता हो हिफाजत हो तो ऐसी हो ॥ धर्म ॥ १ ॥ गुरु गोविन्दसिंहजी के दो लड़के, धर्म पर हो गये कुरवान सुनहरि गुफतगू

उनकी, इवारत हो तो ऐसी हो ॥ धर्म ॥ २ ॥ न छोड़ा धर्म दोनों
ने, चुन गये दीवारों में, बसीसर हिन्दू जा देखो, इमारत हो तो
ऐसी हो ॥ धर्म ॥ ३ ॥ न छोड़ा धर्म पूरन ने, गिरा-कूबे कटाकर हाथ,
लड़कपन में, ये लड़को की जो आदत होतो ऐसी हो ॥ धर्म ॥ ४ ॥
पद्ममनी धर्म की प्यासी, न हरगिज धर्म से हारी, जमाने में नारी
पतिव्रता हो तो ऐसी हो ॥ धर्म ॥ ५ ॥ करो एक ओ३म की पूजा,
न कोई ओर है दूजा । जपो एक ओ३म तर जावो, इजाजत हो तो
ऐसी हो ॥ ६ ॥

भजन ८१

॥ टेर ॥ उड़ जायगा रे हंस अकेला, दो दिन का जग में मेला ।
राजा भी जायेंगे जोगी भी जायेंगे, गुरु भी जायेगा चेला । मात
पिता भाई बन्धु भी जायेंगे और रुपैयों का थैला ॥ उड़जाय ॥ १ ॥
मंवा भी जायगा मिसटान भी जायगा गुठी भी जायेगी बेला । तन
भी जायगा, धन भी जायगा, तू क्यों हुवा है गेला ॥ उड़जाय
॥ २ ॥ तू भी जायगा, मैं भी जाऊंगा, ये सब माया का खेला ।
कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी संग चलेना धेला ॥ उड़ जाय ॥ ३ ॥ साथी
साथी पार उतर गये, तू क्यों रहा अकेला रामनाम निश काम
भजो मन बीत जायगा बेला ॥ उड़ जाय ॥ ४ ॥ एक दिन ऐसा
आवेगा बन्दे बीखन जायेगा मेला, कहत कबीर सुनो भाई साधो,
सुकृत करले गेला ॥ उड़ जाय ॥ ५ ॥

भजन ८२

टेर—कर किरपा पार उतारियो, मेरी टूटी सी कीस्ती है ।
तुम अविनाशी अजर अमर हो, सारं भूमंडल के घर हो, सबके
भीतर और बाहिर हो कारीगर बड़े भारी हो रची अजब सकल सृष्टी
है ॥मेरी॥१॥ सबका न्याय करो जगराई बिन बजीर और बिन
सिपाही, करो फौसला कलम न स्याही, ऐसे न्यायकारी हो, नहीं
गलती पड सकती है ॥मेरी॥२॥ हमने दुख भोगे हैं भारी, बहुत

हुई दुर्दशा हमारी, अब हम आये शरण तुम्हारी, तुम जग हित-
कागी हो, तारो तो तर सकती है ॥मेरी॥३॥ बिन कृपा करुणा
निधि तेरी, कुछ नहीं पार बसावे मेरी, तेजसिंह भारत की बेडी,
काट सभी दुख टारियो, जो हृदय कुमति बसती है ॥मेरी॥४॥

भजन ८३

टेर - कर गुजरान गरीबी मे, मगरूरी किसपे करता है ।
वस्तु नाशवन्त है जग मे, ममता क्यों तू धरता है, मट्टी चुन चुन
महल बनाया, बन्दा कह घर मेरा है ॥कर॥१॥ ना घर तेरा ना घर
मेरा चिड़ीयां रेन बसेरा है, इस दुनियां मे कोई नहीं अपना, अपना र
कहता है ॥कर॥२॥ कच्ची मिट्टी का बना पुतला, घड़ी पलक मे ढलता
है । इस दुनिया के नाटक चेटक देख भटकता फिरता है ॥कर॥३॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो प्रभु नाम नहीं रटता है ॥कर॥४॥

भजन ८४

टेर—प्रभु भज प्रभु भज मन बावरे, फिर बार र तुम्हे मिले न ऐसो
शुभ दाव रे । मानुष जन्म तू पा गया, मोका भला ये आ गया, इसको
जा तू गमा गया फिर मिले ना बारम्बार रे ॥प्रभु॥१॥ सब
योनियो मे भटकना है, नरक जेरे लटकना है, रो र के सर पटकना
है, मत छोड करसे लाव रे ॥प्रभु॥२॥ यह जग जुवा का खेल है,
इन तिलो मे ना तेल है, संसार मीठी जेल है, मत जेल मे दे तू
पांव रे ॥प्रभु॥३॥ चीला मिला है कीमती, मिलती है इसी से सद्-
गति, क्यों न भजता है तू श्री पति, तुलसी न और उपाय रे
॥प्रभु॥४॥

भजन ८५

टेर—छोड मन तू मेरा मेरा अन्त में कोई नहीं तेरा—
धन कारण भटकियो फिरयो रचा नया नित ढंग, ढूँढ र कर पाप
कमानो, चली न कोड़ी सग, होय गया मालिक बहु तेरा ॥छोड॥१॥

टेडी बांधी पागड़ी बना छबिला छैल, धरती पर पग गिन २ रत्निया,
 मोत सिरोने गेल, बखेरा हाड हाड तेरा ॥छोड़॥२॥ नित सावण से
 न्हाइयो, इत्तर फुलेल लगाय, सजी सजाई पूतली तेरी गई मसाने
 जाय, जला कर भस्म किया देरां ॥जोड़॥३॥ मदमाता करडो रयो ।
 राखया राता नैन, आया को आदर नहीं कीनो, मुख नहीं मीठा
 बैन, अन्त जमदूत आन घेरा ॥छोड़॥४॥ पर धन पर नारी तकौ,
 पर चरचा सुं हेत, पाप पोट माथे पर रखली, मूर्ख रहा अचेत,
 होय फिर नरको में डेरा ॥छोड़॥५॥ दुर्लभ देही खोदई, कर्म किया
 बदकार, हू हू करतो ही मरियो तूं गयो जमारो हार, पड़ा फिर
 जन्म भरण फेरा ॥छोड़॥६॥ हरिनाम लीनो नहीं, नहीं सतसंग
 सुं नेह, जहर पियो अमृत तज दीनो, पड़ी बुद्धि पर खेह । श्वांस
 सब व्यर्थ गया तेरा ॥छोड़॥७॥ काम क्रोध मद लोभ तज कर
 अन्तर में चेत, मैं मेरो को छोड़ हृदय से कर श्री प्रभु से हेतु जन्म
 फिर सफल होय तेरा ॥छोड़॥८॥

भजन ८६ (गजल सोहनी)

टेर—जन्म वो किस अर्थ का है, देह है किस काम की । रट लगाई
 है नहीं जिसने हरि के नाम की ।

अन्धकार अज्ञान माया स्वप्ने मे आते नहीं जिनके मन मे लग रही
 है, लगान प्रभु के नाम की ॥जन्म॥१॥ जिनको ईश्वर ने दिया है,
 प्रेम भक्ति का प्रसाद । उनको कुछ इच्छा नहीं है इन्द्रादिक के धन
 धाम की ॥जन्म॥२॥ प्रेम है मेरा पिता, और भक्ति मेरी मात है ।
 यह जुगल जोड़ी है, मेरे हृदय के विश्राम की ॥जन्म॥३॥ में सदा
 सेवक रहूं और तुम सदा स्वामी रहो । आरजू हर रोज है, बस यही
 श्री भगवान् की ॥जन्म॥४॥

भजन ८७

टेर—जोवन धन पावणा, दिन चारा, या को गर्व करे सो गर्वारा
 हाड मांस का बना पींजरा, भीतर भरा भंडारा, रंग पतंग लगायो

ऊपर, कारीगर करतारा ॥जोवन॥१॥ पशु चाम की बनी पनैया,
 नोषत और नगारा, या देही को कुछ ना बनेगो, समझत नहीं रे
 गवांरा ॥जोवन॥२॥ एक लख पुत्र सवा सख नाती, पुत्र पौत्र परि-
 वारा, ऐसा मर्द गद्दे में मिल गया, लंका का सरदारा ॥जोवन॥३॥
 ये संसार हाट का मेला बणिज करो व्योपारा, कहत कबीर सुनो
 भाई साधो, हरिभज उतरो पारा ॥जोवन॥४॥

भजन ८८

टेर—तजो जी मन हरि विमुखन को संग—

जिनके सग कुमति उपजत है परत भजन में भंग ॥ कहा होय पय-
 पान कराये विष नही तजत भुजंग ॥तजो॥१॥ काग ही कहा कधूर
 चुगाये, श्वान नहाये गंग ॥ खर को कहा अरग जालेपन, मरकट
 भूषण अंग ॥तजो॥२॥ गज को कहा नहायो सरिता, बहुरि धरे
 खेही छंग । पान पतित बान नहीं छेदत, रीतो करत निखंग ॥तजो॥३॥
 सूरदास खल कारी कामरी, चंडत न दूजो रंग ॥तजो॥४॥

भजन ८९

टे—तुम देखो रे लोगों, भूल भुलैया का तमासा ।

ना कोई आता, ना कोई जाता । यही जगत का नाता, कौन किसी
 की बेन भानजी, कौन किसी का भ्राता ॥देखो॥१॥ देहली तक
 तिरिया का नाता, पोली तक का माता । मरघट तक के संग
 बराती, हंस अकेला जाता ॥देखो॥२॥ लट्टा पहरे बुक भी पहरे ।
 पहरे मलमल खासा, शाल दुसाले सब ही ओढ़े, अन्त खाक मे
 बासा ॥देखो॥३॥ कोड़ी २ माया जोड़ी, जोड़ा पांच पचासा कहत
 कबीर सुनो भाई साधो संग चले नहीं माश ॥देखो॥३॥

भजन ९०

टेर—दम आवे ना आवे अजब क्या है—

आना हुवा तो जाना भी होगा, ईश्वर का इसमें गजब क्या है
 ॥दम॥१॥ विषयो मे फंस के भलाई को भूला, हरामी को हरि का

अदब क्या है ॥दम॥२॥ झूठे झमेले का मेला लगा है, सच्चा सा
सूजे सबव क्या है ॥दम॥३॥ रोटी से राजी नहीं तू है शंकर,
बता पाजी तेरी तलब क्या है ॥दम॥४॥

भजन ६१

टेर—दम का नहीं भरोसा, करले चलने का रे, तन पींजरे से निकल
जायगो, पल मे पंछी प्राण रे ।

चलते फिरते सोवत जागत, करत खान अरु पान रे, छिन छिन
छिन में आयु घटत तेरी, होत देह को हान रे ॥दम॥१॥ माल मुल्क
और सुख सम्पति में, क्यों हुवा गलतान रे, देखत देखत विनश
जायगो, मत कर मान गुमान रे ॥दम॥२॥ इस जग मे कोई बड़ी
न राखे, ये निश्चय तू जान रे, अबहु छोड़ कपट कुटलाई.
मूर्ख नर अज्ञान रे ॥दम॥३॥ टेर चितावे ज्ञान बतावे, गीता वेद
पुराण रे, चरणदास सुखदेव कहत है हरि नाम उर ठान रे
॥दम॥४॥

भजन ६२

टेर—नाथ ये डाली होय कबूल ।

हृदय वाटिका से चुन लाया, भक्ति भाव के फूल । मेवा का कुछ
मेवा लाया तेरी रुचि अनुकूल ॥नाथ॥१॥ पहले इसमे बहुत जमे थे,
धूँड़ और वंबूल, पर तेरी करुणा कटाक्ष से किया इन्हें निर्मूल
॥नाथ॥२॥ अश्रु वारि से सजी वाटिका, लगा कड़ा महसूल, कांटो
से छिद् गये हाथ ये, तब आये फल फूल ॥नाथ॥३॥ आस पवन
मे डाली डाली रही नाथ ये भूल, चरण कमल जब तेरे आवे, महनत
होय बसूल ॥नाथ॥४॥

भजन ६३

टेर—वृथा धन वैभव सारा है, प्रेम ही मुझको प्यारा है ।

चाहे जितने मूल्य का मुझ को दे उपहार, किन्तु न देवें प्रेम से,
तो मुझे नहीं स्वीकार, प्रेम से सब कुछ हारा है ॥प्रेम॥१॥ बस मे

अपने कर सके न कोई मुझको वीर, प्रेमी मेरे पांख में डाल सके
जंजीर, प्रेम पर वारा न्यारा है ॥प्रेमा॥२॥ मुझ पर ही निर्भय रहे,
ले मेरा ही नाम, मिलता है उस जीव को निश्चय मेरा धाम, वही
पाता छुटकार है ॥प्रेमा॥३॥ फल सारा देकर मुझे, करता जो नर-
कर्म, पालन करता है वही जग मे सच्चा धर्म, उसी ने जन्म सुधारा
है ॥प्रेमा॥४॥ प्रेमी होकर जो मेरा, है मुझमें अमुक्त, बस वही
मेरा है भक्त और मैं हूँ उसका भक्त, भक्त ही मुझे दुलारा है ॥प्रेमा॥५॥

भजन ६४

टेर—छोड़ो न तुम धर्म को चाहे जान तन से निकले, सच्चा सखुन
हो लेकिन सीरीदहन से निकले ।

ईश्वर कहां है भाई, अफसाना हो गये क्या माता वो कोशल्या के
जो थे वतन से निकले ॥छोड़ो॥१॥ चुनलो धरम करम को, बाहरे
जवानी में गुल, नहीं तो खिजामे रोनी, बुलबुल चमन से निकले
॥छोड़ो॥२॥ हर वक्त मोत सिर पर चल लेले तोबा भाई, भक्ति
विनय की करलो, जितनी इस तन से निकले ॥छोड़ो॥३॥ पाया
मनुष्य का चोला, इसकी विचारो कीमत, ऐसा जतन तो करिये,
अविचार मन से निकले ॥छोड़ो॥४॥ संगत सज्जनो की प्यारो करनी
सदा भली है, जिससे कुवासना मल, अन्तःकरण से निकले
॥छोड़ो॥५॥ उपकार ऐसा करिये संसार कीर्ति गावे, स्वार्थ हो
अलहदा, मन से वचन से निकले ॥छोड़ो॥६॥ रहना नही किसी
को, इस लोक मे सदा है, कर्तव्य के साथ त्रुटि, राधा कृष्ण से
निकले ॥छोड़ो॥७॥

भजन ६५

टेर—क्या तन माजतारे, आखिर माटी में मिल जाना ।
माटी ओढन माटी पहनन, माटी का सिरहाना । माटी का कलबूत
बनाया, जैसे भवर समाना ॥क्या॥१॥ माटी कहे कुमार से, क्या
तू रुधे मोय एक दिन ऐसा आवेगा प्राणी मैं रुंधूंगी तोया ॥क्या॥२॥

फाटा चोला भया पुराना, कब लग सीवें दरजी, दिलका मरहम
कोई न मिल्या, जो मिलया अलगर्जी ॥क्या॥३॥ दिल के महरम
सत्गुरु मिल गये उपकारन के गरजी, नानक चोला अमर भयो जो,
सन्त मिल गये दरजी ॥क्या॥४॥ चुन चुन लकड़ी महल बनावे,
बन्ना कह घर मेरा । ना घर मेरा ना घर तेरा चिड़िया रैन बसेरा
॥क्या॥५॥

भजन ६६ (गजल)

टेर—हमारी एक विनय तुम से, दयामय दीन हितकारी, मिटावो
मेरे हृदय की अविद्या रूप अधियारी ।
प्रकाशित ज्ञान अपने का, हृदय मे कीजिये सूरत । मिले कल्याण
का रस्ता, वने हम सुख के अधिकारी ॥हमारी॥१॥ गया है छूट
वो मारग हमारे पूर्व पुरुषो का, बिना उसके हमारी हो गई दुर्दशा
भारी ॥हमारी॥२॥ हमारा धर्म वैदिक था, उपासक आपके हम थे,
हुवे अब पन्थ नाना ही, इष्ट और धर्म औतारी ॥हमारी॥३॥
अहिंसा त्याग चोरी था हमारे पूर्व पुरुषो का । वहां हिंसक व बट-
मारी, शरावी और जुवारी ॥हमारी॥४॥ जहां ऋषि मुनि थे ब्रह्म-
चारी, पुरुष नारी सदाचारी । वहां अब प्रायः नरनारी, हुवे कुटिल
और व्यभिचारी ॥हमारी॥५॥ यहां के दीन और दुखिया, नहीं
इमदाद पाते हैं । मुशन्डे सांड और अरु वैश्या, उड़ावें माल बढकारी
॥हमारी॥६॥ मचा अन्धेर अब ऐसा, हवा बदली जमाने की ।
तुम्हीं पर आशा है भारी, तुमही पितु मात महतारी ॥हमारी॥७॥
तुमही हो धर्म के पालक, अधर्मी दुष्ट कुल घातक, समझ 'बलदेव'
निज बालक, वचावो वेग बलधारी ॥हमारी॥८॥

भजन ६७

॥ टेर ॥ मेरी सुनियो नाथ पुकार, सब की रक्षा करने हारे ।
यहां थी पहले धर्म की बहार, अबदी सबने हिम्मतहार, होगा तमसे
ईश सुधार, सबको धीरज बन्धाने वाले ॥ मेरी ॥ १ ॥ पहले यहां

पर थे ब्रह्मचारी, उनकी जगह हुवे व्यभिचारी । वे वेश्या लगती
जिनको प्यारी, ऐसा पाप कमाने वाले ॥ मेरी ॥ २ ॥ हैगी तुमसे
ईश पुकार, नैया करो हमारी पार । ये तो डोलत है मङ्गधार, वेड़ा-
पार लगाने वाले ॥ मेरी ॥ ३ ॥ कहता रामप्रसाद ये टेरे, मेरी
दशा लीजिये फेर । इसमे कभी न कीजे देर, तुमने बड़े, बड़े काम
सम्भाले ॥ मेरी ॥ ४ ॥

भजन ६८ (राग बनजारा)

॥ टेरे ॥ तू है प्रभु नाथ हमारा, तू ही दुख से छुड़ावन हारा ।
तू सचिदानन्द अनुपम, हम हैं सारे अधमा-अधम, जी रखें तेरा ही
एक सहारा ॥ तू है ॥ १ ॥ तुम सब कुछ जानन हारे, हम मोह मे
है मतवारे, जी तुम्हे सब विधिनाथ विसारा ॥ तू है ॥ २ ॥
तुम हो करुणा सागर स्वामी, हम क्रोधी भी और कामी, जी मैं तो
न्याय पे तेरे बलिहारा ॥ तू है ॥ ३ ॥ तुम्हें बुद्धि व मन और बानी
वही पावें साधारण ज्ञानी ॥ जी ॥ तेरी महिमा है अपरम्पारा ॥ तू
है ॥ ४ ॥ प्रभु ये धर्म की नाव हमारी, प्रभु डोलत है मङ्गधारी
॥ जी ॥ गहरी नदिया है दूर किनारा ॥ तू है ॥ ५ ॥ हमने बन्धु
भी सब अजमाये, अब तेरी शरण मे आये ॥ जी ॥ कहे पाठक
ये दास तुम्हारा ॥ तू है ॥ ६ ॥

भजन ६९

॥ टेरे ॥ दीनानाथ तुम्हारा ही सहारा हमें, यहां सूके न कोई हमारा
हमे ।

अपने स्वार्थ के है सब साथी, नहीं दीखे कोई दिल दारा हमे ॥
॥ दीना ॥ १ ॥ पडी भंवर बीच नैया पुरानी, कीजे नाथ अब
पारा हमे ॥ दीना ॥ २ ॥ पतित उधारन कहाये जगत मे फिर
क्यो विसारा हमे ॥ दीना ॥ ३ ॥ काम क्रोध अरु लोभ मोहनै,
सब विधि नाथ बिगाड़ा हमे ॥ दीना ॥ ४ ॥ बालकपन से आजतलक
प्रभु, तुमने ही तो संभारा हमे ॥ दीना ॥ ५ ॥ दूँड फिरे हम सारे

जहां मे, भिलान तुभसा प्यारा हमें ॥ दीना ॥ ६ ॥ अन्धकार मे
हमे हटावो ज्ञान का दो जजियारा हमें ॥ दीना ॥ ७ ॥ भव सागर
से पार लगावो, जलदी से दो छुटकारा हमे ॥ दीना ॥ ८ ॥
बलदेव हूँ और ना चाहिये कछु, काफी तुम्हारा ही सहारा हमे
॥ दीना ॥ ९ ॥

भजन १००

॥ टेर ॥ मेरी पड़ी भवर मे नैया, नाथ इसे टारदे टारदे टार ।
नहीं आवे नजर किनारे, हम इसीसे हिम्मत हारे, दुखदें तीनों ताप
हमारे, कृपा कर इन्हे टारदे टारदे टार ॥ मेरी ॥ १ ॥ मेरे पांचों तो वैरी
सग में, नहीं बाहिर भीतर अंग में, कर दिया इन्होंने अति तग में,
नाथ इन्हें मारदें मारदे मार ॥ मेरी ॥ २ ॥ यह मनुष्य का देह
दुषवार है, यह मोका न बारम्बार है, हे ईश्वर तूँ सर्वाधार है,
जीवन का हमे सारदे सारदे मार ॥ मेरी ॥ ३ ॥ जो तेरे दर पर आवे
वो मन इच्छा फल पावे, पद तेजसिंह गावे हमे भी फल चारदे
चारदे चार ॥ मेरी ॥ ४ ॥

भजन १०१

तुम सुनो दीन के नाथ, विनय एक मेरी ।

अब कृपा करो भगवान शरण में तेरी ॥ टेर ॥

यह दास आपकी चरण शरण में आया, रख लीजे दीनानाथ
विश्वपति राया, तब नाम अन्त अपार वेद मे गाया, गुण गावत
ऋषि मुनि पार नहीं पाया, मैं क्या वर्णन कर सकूँ अल्प मति
मेरी ॥ तुम ॥ १ ॥ तुम निर्बिकार निर्मल पवित्र हो स्वामी, मैं महा-
मलीन मतिमंद कुटिल खल कामी, तुम हो सच्चिदानंद सेवग सकल
घटयामी, मोये कीजिये नाथ अब शुद्ध जान अनुगामी, देओ आनंद
पद मे बास त्रास निरवेरी ॥ तुम ॥ २ ॥ इस जग में जन्म मरन
महादुख पाया, लख चौरासी मे फिरत फिरत घबराया, तब नाम
अन्त अपार वेद में पाया, करुणानिधि दीनदयाल दय कर

आया, काटो करुणामय कर्म कठिन की वेड़ी ॥ अब ॥ ३ ॥ मैं
 किसे सुनाऊं व्यथा आपने मनकी, यहां अपना कोई नहीं, आश
 करू मैं जिसकी । निज स्वार्थ को संसार आश करे धन की, तुम
 जानत हो सब पीर आपने जनकी, अति आरत है बलदेव कहत ये
 टेरी ॥ अब ॥ ४ ॥

भजन १०२ (दादरा)

॥ टेरे ॥ प्रभु नैया किनारे लगादो जी —

सोये पड़े हैं सारे खिवैया, निद्रा से इनको जगा दो जी ॥ प्रभु ॥ १ ॥
 डोल रही है नैया भंवर में, करुणा हस्त बढ़ा दो जी ॥ प्रभु ॥ २ ॥
 डूबने में अब कुछ कसर नहीं है, देकर सहारा बचा दो जी
 ॥ प्रभु ॥ ३ ॥ भटक रहे हैं अन्धकार मे, भूलो को राह बता दो जी
 ॥ प्रभु ॥ ४ ॥ वैदिक मार्ग पर, हम सबको प्रभु फिर से आरूढ़
 करा दो जी ॥ प्रभु ॥ ५ ॥ सत्य धर्म की देकर औषधि, मुरदो को
 जिन्दा करा दो जी ॥ प्रभु ॥ ६ ॥ कहतवा बनीने, दुखित किये है,
 इनको यहां से भेगा दो जी ॥ प्रभु ॥ ७ ॥ सालिगराम प्रभु नैय्या
 हमारी, जलदी से पार लगा दो जी ॥ प्रभु ॥ ८ ॥

भजन १०३

॥ टेरे ॥ तुमही रक्तक हो महाराज, दीनानाथ कहाने वाले—

हम तो पापो मे हैं लीन. कुछ नहीं रहा ठिकाने दीन । बन गये बुद्धि
 विवेक विहीन, विष रस पान कराने वाले ॥ तुम ॥ १ ॥ तुम ही
 सब के हो आधार, जाना हमने इसका सार, पूरा न्याय विवेचन
 धार, हो तुम न्याय चुकाने वाले ॥ तुमही ॥ २ ॥ देते दुष्ट जनो को
 दंड, कर के धारण रूप प्रचंड, तुम पै रुद्र प्रभाव अखंड, क्या गुण
 गावें गाने वाले ॥ तुमही ॥ ३ ॥ हम सब तुम्हरी हैं सन्तान, अपना
 चाह रहे कल्याण । पाठक त्यागो भ्रम अज्ञान, हो सब तुम्हरे ध्याने
 वाले ॥ तुमही ॥ ४ ॥

भजन १०४

॥ टेरे ॥ करियो स्वीकार विनती नाथ हमारी—

आनन्द सुधा बरसावो, सब के दुख दूर-भगावो, कहावो हरि
हितकार ॥ विनती ॥ १ ॥ गौरव के दिवस दिखावो, व्रत शील
सुबोध जनावो, करावो, पर उपकार ॥ विनती ॥ २ ॥ ऋजु मारग
मांही चलावो, नित नीके कर्म करावो, करावो विविध प्रकार
॥ विनती ॥ ३ ॥ माया से मोह छुड़ावो, करुणाधम को अपनावो,
लगावो भवनिधि पार ॥ विनती ॥ ४ ॥

भजन १०५

विन आपके प्रभुजी कोई नहीं हमारा ।

है आपका ही केवल हमको बड़ा सहारा ॥ टेरे ॥

हालत हमारी स्वामी, अवतर बहुत हुई है, सुख सम्पदा ये हम से,
कर गई है किनारा ॥ विन ॥ १ ॥ आफत आजकल जो भारत पर
आ रही है उसको किसी ने अब तक दिल में नहीं विचारा
॥ विन ॥ २ ॥ ताऊन और कहत ने, लाखों को मार डाला, सदा
वस्तियों को भूचाल ने उजाडा ॥ विन ॥ ३ ॥ थर थर लरजने लगता
है, जब खोफ से कलेजा, आंखों में कांगड़े का, बहता है नजारा
॥ विन ॥ ४ ॥ मातम कहासा भारत. अब बन रहा है हरसू, घर
घर से आ रहा है. आहो बुका का नारा ॥ विन ॥ ५ ॥ सोने की
हाय सुमि में, रहने वाले इन्सान, फाके से फाका करके, करते है
गुजारा ॥ विन ॥ ६ ॥ पंद्रा बरस से कम की है बीस लाख वेवा,
नित शोक में पति के करती है हा हा कार ॥ विन ॥ ७ ॥ पांच पाच
बरस की कन्या जिस देश में विवाह हो । डूवे न फिर भला क्यों
उस देश का सितारा ॥ विन ॥ ८ ॥ ऋषियों की हाय सन्तति,
मूर्ख बनी फिर है । हालत को देख इनकी फटता जिगर हमारा
॥ विन ॥ ९ ॥ सालिग की है दयामय, तुम्हीं से विनय यही है ।
भारत निवासियों का, कर दुख दूर सारा ॥ विन ॥ १० ॥

भजन १०६

॥ रटे ॥ विनती कर दीनदयाल की, जो है सब का हित कारी—
 नहीं भरोसा है पलभर का, काम न आवे कोई घर का । सुमरन
 करले जगदीश्वर का, आदत छोड़ कुचाल की, मन से कुछ समझ
 अनाड़ी ॥ जो ॥ १ ॥ जग में कोई नहीं है तेरा, जीते जी का सभी
 बखेड़ा । क्या करता है मेरा मेरा, बातें खराब खयाल की, इसमें ही
 उमर गुजारी ॥ विन्ती ॥ २ ॥ काम क्रोध मद लोभ विसारो, दशों
 इन्द्रियां अपनी मारो, सत्य धर्म को मन में धारो, फासी ममता जाल
 को तोड़ो हो मुक्ति तुम्हारी ॥ जो ॥ ३ ॥ बाग बगीचा किला
 तवेला, राजपाट तज सभी झमेला, आखिर जायेगा आप अकेला,
 घड़ी आवे जब कालकी, पड़ी दौलत रहे मुरारी ॥ जो ॥ ४ ॥

भजन १०७

प्रभु को छोड़कर तूने लगन किससे लगाई है ।

हुवा नादान क्यों ऐसा अकल क्या बेच खाई है ॥ टेरे ॥

जो है सब सृष्टी का पालक, भुलाया उसको तू मूर्ख, बुतों को पूज
 कर प्यारे नफा क्या तूने पाई है ॥ प्रभु ॥ १ ॥ जो है हर वस्तु में
 व्यापक, ईश निराकार अविनाशी । बनाकर उसकी जड मूर्ति
 मंदिर में जा बिठाई है ॥ प्रभु ॥ २ ॥ वह है मौजूद सब घट में,
 हमेशा देखता सब को, बदी नेकी का फलदेता, वह ईश्वर न्याय
 कारी है ॥ प्रभु ॥ ३ ॥ नहीं वह जन्म मृत्यू के कभी बन्धन में आता
 है । बताकर जन्म क्यों उसका, वृथा तुहमत लगाई है ॥ प्रभु ॥ ४ ॥
 छुटा नहीं मैल है मनका, बहाया लाख तिरवेणी, लिखाया नाम
 सन्तो में, भरी दिल में खुटाई है ॥ प्रभु ॥ ५ ॥ राम और कृष्ण सत
 पुरुषों की, क्यों निन्दा करे मूर्ख । बनाकर स्वाग फिर उनका हंसी
 तेने कराई है ॥ प्रभु ॥ ६ ॥ हजारों दीन और दुखिया, न पाते एक
 टुकड़ा तक । तें दे दे दान दुष्टों को वृथा दौलत लुटाई है ॥ प्रभु ॥ ७ ॥

जरा अब होश में आ जा, उठा गफलत के पड़दे को । भजन बलदेव ईश्वर का, हमेशा खुश नमाई है ॥ प्रभु ॥ ८ ॥

भजन १०८ (राग धनजारा)

॥ टेरे ॥ सग धर्म ही चलने हारा, कोई दमका रैन गुजारा ।

करो होसलो अब भी जागो, गफलत की निन्द्रा को त्यागो ॥ जी ॥
 रखो प्रभु प्रीतम का सारा ॥ सग ॥ १ ॥ जब सृत्यु वारंट ले आवे,
 बड़ी पल नहीं टलने पावे ॥ जी ॥ रोवे जिवडा हो दीन विचारा
 ॥ सग ॥ २ ॥ रोवे सब दिन माय तुम्हारी, छटे मास बहनिया
 प्यारी ॥ जी ॥ त्रिया नयन दो दिन जल धारा ॥ संग ॥ ३ ॥ करो
 दान धर्म कुछ प्यारो, अपने अन्त करण को सुवारो ॥ जी ॥ चूका
 समय बारम्बारा ॥ संग ॥ ४ ॥ हरिअन्द्र से सतब्रतीधारी, विके
 आप भी संग सुत नारी ॥ जी ॥ पर धर्म से पग नहीं टारा
 ॥ सग ॥ ५ ॥ विद्यादान है सुखकारी, बढ़ कर गुरुकुल से अधिकारी
 ॥ जी ॥ पाठक तन मन धन क्यों न वारा ॥ संग ॥ ६ ॥

भजन १०९

जपो जगदीश को प्यारे, वही मुक्ति का दाता है ।

वही पालन करे सबका, वही सबका संगता है ॥ टेरे ॥

सिवा उसके न है कोई, है तू कोई और या जग में, न बेटा है न
 दादा है, न बन्धु है न भ्राता है ॥ जपो ॥ १ ॥ करे अभिमान तू
 धन का, न तेरे साथ जाता है, न जावें साथ रथ हाथी, धर्म ही
 साथ जाता है ॥ जपो ॥ २ ॥ पड़ा गफलत में क्यों सोवे, सहर
 अब होने वाला है । सफर परलोक का करले, अभी वो काल आता
 है ॥ जपो ॥ ३ ॥ सता मत वेगुनाहों को, दुखा मत चित दीनों का ।
 सताया जायगा वो भी, किसी को जो सताता है ॥ जपो ॥ ४ ॥
 भजन बलदेव ईश्वर का, हमेशा चाहिये करना । वही सब का है
 पितु माता, वही सब का संगता है ॥ जपो ॥ ५ ॥

भजन ११०

देर—अरे मतिमन्द अज्ञानी, जन्म हरि भक्ति बिन खोया । बिगड़ड़ा
काम अपने को रहा अज्ञान में सोया ।

पड़ा परदा जिहालत का, अकल की आंख पर तेरे । सुधा के खेत में
तूने जहर का बीज क्यों बोया ॥जन्म॥१॥ विषय और भोग में
फसकर न कर बरषाद जीवन को । विमुख निज ईश से होकर,
वृथा सिर भार ही ढोया ॥जन्म॥२॥ भलाई खल्क की खातिर, तुझे भेजा
था मालिक ने, अगर अफसोस उलटा ही, चला तू जानकर सोया ।
॥जन्म॥३॥ जाँ करना फर्ज था तेरा, किया तूने नहीं मूर्ख, चला
आखिर को दुनियां से, तो फिर बलदेव क्यों रोया ॥जन्म॥४॥

भजन १११

देर—प्रभु सुमरिन बिन गोते खावोंगे ।

क्या लेकर तूने जन्म लिया है, क्या लेकर चले जावोंगे ॥प्रभु॥१॥
यह तन है कागज की पुड़िया बूंद पड़त गल जावोंगे ॥प्रभु॥२॥ सुट्टी
बांधे आये जगत में, हाथ पसारे जावोंगे ॥प्रभु॥३॥ कहत कवीर
सुनो भाई साधो, हरि नाम बिना पछतावोंगे ॥प्रभु॥४॥

भजन ११२ (लाल रत्न की)

देर—ओ३म् जपन क्यों छोड़ दिया तूने ।

काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया ॥ओ३म्॥
॥ १ ॥ भूठे जग में दिल ललचा कर, असली वतन क्यों छोड़ दिया
॥ओ३म्॥२॥ कोड़ी को तो खूब संभाला, लाल रत्न क्यों छोड़ दिया
॥ओ३म्॥३॥ जिस सुमिरन से अति सुख पावे, तिन सुमरिन क्यों
छोड़ दिया ॥ओ३म्॥४॥ खालिश एक प्रभु भरोसे, तन मन धन
क्यों न जोड़ दिया ॥ओ३म्॥५॥

भजन ११३

देर—प्रभु से प्रीति लगावोजी, ऐसा समय न पावो ।

जिसने रचा है ये भू मण्डल, उसको घंट में बसाओजी ॥ऐसा॥१॥
 चकित हो लख जिसकी रचना, उसही के गुण गावोजी ॥ऐसा॥२॥
 देश हितैपी, समाज हितैपी, सब हाँ मिल कर आवोजी ॥ऐसा॥३॥
 निश्चल हो आडम्बर छोड़ो, सत्य से प्रीति लगावोजी ॥ऐसा॥४॥
 ताता धीन धीन ता थैया मे, मतना समय गमावोजी ॥ऐसा॥५॥
 सब जग को समदृष्टि से देखो, धर्म का लाभ उठावोजी ॥ऐसा॥६॥
 देश भक्ति वा शास्त्र भक्ति की, विमल ध्वजा फहरावोजी ॥ऐसा॥७॥
 अमली जीवन अपना संवारो, तब पाठक सुख पावोजी ॥ऐसा॥८॥

भजन ११४

टेर—मुख भजन करन को दीना, नर छोड भूठ तोफान को ।
 सत्य कहे नहीं सत्य सुनाता, भूठ साक्षी मे क्या पाता, नित अभ्यक्त
 मांसदिक खाता, दधि तज मदिरा पान को, विकार जगत मे जीना
 ॥ मुख ॥ १ ॥ वेदो का नहीं करे उचारण, लगा पुरानो मे सरमारन,
 होगा यूँ भव निधि उधारन, भर उर मे अभिमान को, बनना चाहे
 परवाना ॥ मुख ॥ २ ॥ आंखें जती सती लखने को, सन्तों के
 दर्शन करने को आप लगे रंडी तकन को, खो बैठे ईमान को, क्यों
 ऐसा अधर्म कीना ॥ मुख ॥ ३ ॥ चरण दिये सत पर चलन को,
 दोलत दीनन के पालन को, पीटन लागे कंगाल न को, हाथ दिये थे
 दान करन को, मत खेल जुवा मत हीना ॥ मुख ॥ ४ ॥ कान दिये
 ब्रह्मज्ञान सुनाकर, ठुमरी ढप्पे सुरता जाकर, गीसा कहे चेत मे
 आकर, धर ईश्वर के ध्यान को, सत् धर्म चाहिये चीना
 ॥ मुख ॥ ५ ॥

भजन ११५

टेर—उस जगदीश को रे, मन से कभी ना भूलो प्राणी ।
 आदि जगत मे सकल विश्व की, रचना कैसी कीनी । बालक और
 ब्रह्म नहीं किना, युवा अवस्था दीनी ॥उसा॥१॥ पुनि मैथुनी सृष्टि
 होने का नियम किया निरधार । गर्भवास मे रक्षा करके, किया

अधिक उपकार ॥उस॥२॥ अग्नि और अदित्य अंगीरा, वायु ऋषि के द्वार, ऋग यजु साम अथर्व, संहिता प्रगट करी है चार ॥उस॥३॥ एक पिता की जितनी सन्तति, सबका सम अधिकार । इसी नियम को धारण करके, वेद का करो विचार ॥उस॥४॥ ईश्वर रचे पदार्थ जैसे, सबके लिये समान । ब्राह्मण क्षत्री वैश्य शुद्र को तैसे ही वेद विधान ॥उस॥५॥ सूय चन्द्रमा अग्नि वायु जल, जिनसे निश दिन काम । परम पिता ने कृपा दृष्टि से दिया सभी वेदाम ॥उस॥६॥ उपकारी जीवों को रचके, सुख हम को अति दीना । जिनको मार र कर खाते, मरघट पेट ही कीना ॥उस॥७॥ राधा शरण मनुष जन्म मे, प्रभु से चित लगाई, आवागमन के दुख से छूटो, फिर पीछे पछताई ॥उस॥८॥

भजन ११६

टेर—मेरी विनती सुनो कर ध्यान ।

गृहस्थाश्रम ही सबसे श्रेष्ठ है, क्या कोई करे बखान । पुरुष तो है घर की शोभा, पुरुष की स्त्री जान ॥मेरी॥१॥ स्त्री की पतिव्रत है शोभा, रक्षा करे भगवान् । दोनो की शोभा प्रीति परस्पर, पानी दूध समान ॥मेरी॥२॥ जिस घर मे दोनो ये खुश है, वो घर स्वर्ग समान, मुख की शोभा मृदु वचन है, हाथ की शोभा दान ॥मेरी॥३॥ दान की शोभा पात्र हो अच्छा, कह गये पुरुष महान् । पर उपकार है तन की शोभा, मन की शोभा प्रान ॥मेरी॥४॥ धर्म से शोभित प्राण बताया मर्म यही प्रधान । वेद शास्त्र की ओश्म् है शोभा, अरु जीवन का ध्यान । ध्यान की शोभा ओश्म् जाप है, लीजे इतना मान ॥मेरी॥५॥ कहे वृजलाल नगर की शोभा, जिसमे होय समाज । समाज की शोभा कर्मकान्ड हो, सदस्य हो गुणवान ॥मेरी॥६॥

भजन ११७ (दादरा)

टेर—मत लड़ना आपस मे भाई रे ।

कोरव पांडव ने आपस मे लड़के, भारत को दीना डुबोई रे ॥मत॥१॥

पृथ्वीराज ने जै चंद्र से लड़के, अपने को दीना मिटाई रे ॥मत्ता॥२॥
 जयसिन्ध ने कृष्ण से लड़के, कर दीथी कुल की सफाई रे ॥मत्ता॥३॥
 लाखों करौड़ों राव और राजा, बिगड़े हैं, करके लडाई रे ॥मत्ता॥४॥
 आपस के जगड़े ही का कारण है, भारत पर आफत जो आई रे
 ॥मत्ता॥५॥ आपस में यहां पर भगड़े न होते, न आते मुसलमान
 इसाई रे ॥मत्ता॥६॥ सालिग जो चाहो अपना सुधारा, वेदो के बनो
 अनुयाई रे ॥मत्ता॥७॥

भजन ११८

दोहा—बोली एक अनमोल है, बोली जाय तो बोल ।

हिये तराजुतोलकर मुख से बाहिर खोल ॥

टेर—वचन तू मीठा बोल, बाणी का बाण बुरा है—

जिसकी बानी में मीठापन है, उसको सब जगह अमन है । जी चाहे
 जहां डोल ॥बाणी॥१॥ इस बाणी से प्रीति हो गहरी, और यही
 बनादे बैरी, कलेजा देती है छोल ॥बाणी॥२॥ इससे मित्र शत्रु सब
 जाने, और कोयल काक पिछाने, जब दे मुखड़ा खोल ॥ बाणी
 ॥३॥ बाणी से हवा बतलाया, बच्चों को लु लु सुनाया, सुन कर
 बैठ गई होल ॥बाणी॥४॥ सबकी कीमत होती है, हीरा माणक
 मोती है, नहीं बाणी का मोल ॥बाणी॥५॥ कहे तेजसिंह सच बोलो,
 मत असत्य से मुख खोलो, है जिनकी कची है तोल ॥बाणी॥६॥

भजन ११९ (लावनी)

॥ टेर ॥ उमर सब गफलत में खोई, किया शुभ कर्मन तें कोई ।
 फिरयो स्वार्थ मे दीवाना, नहीं परमार्थ पहिचाना, खेलना खाना
 फिटलाना, काम क्रीड़ा में सुख माना ॥ दोहा ॥ जग धन्धो मे
 खो दिया, सारा समय अमोल, रैन गमाई सोयकर बीती उमर
 फजूल, बेलतें पापो को बोई ॥ उमर ॥ १ ॥ विमुख हुवे निज प्रभु
 से प्यारे, किये दुर्गन भारे भारे, हजारो बेगुनाह मारे, दीन और
 दुखिया हन डारे ॥ दोहा ॥ अब क्या उत्तर देयगा, न्यायाधीश

दरबार, वहा नही भूठे साक्षी, नही बकोल मुखतियार, चलेगी
 वहां न बढ कोई ॥ उमर ॥ २ ॥ समज मन अब तो सैलानी, छोड
 मिथ्या वेइमानी । चले गये लाखो अभिमानी, तू है किस गिन्ती
 मे प्रानी ॥ दोहा ॥ हरि सुमरन कर जीवड़े, कहूँ तुम्हे हरबार । सारी
 उमर नींद मे खोई, अयमतिमन्द गवार । वेग उठ बहुत लिया
 सोई ॥ उमर ॥ ३ ॥ सुहृदय सुत पितु कुटम्ब द्वारा, हुवा क्यो धन
 पर मतवारा, काल का आवेगा हलकारा, छुटेगा एक दिन संसारा
 ॥ दोहा ॥ सपनासा हो जायगा सुत कुटुम्ब सुख धाम । हो सचेत
 बलदेव नींद से । जप ईश्वर का नाम । मनुष तन फिर फिर नही
 होई ॥ उमर ॥ ३ ॥

भजन १२० (दादरा)

॥ टेर ॥ भूठी देखी जगत की यारी ।
 अपने स्वार्थ के हैं सब साथी, मात पिता भगनी सुत नारी ॥ भूठी
 ॥ १ ॥ मिथ्या मोह जताय कुटम्ब सब देत अमोलक जन्म बिगाडी
 ॥ भूठी ॥ २ ॥ बनी बनी के सब कोई संगी, बिगडी का नही हित-
 कारी ॥ भूठी ॥ ३ ॥ या जग में अपना नही कोई, देख लीनी हम
 आख उगारी ॥ भूठी ॥ ४ ॥ मोह फांस मे फंसत जीवजो, फिर सिर
 धुन धुन पछतात पिछारी ॥ भूठी ॥ ५ ॥ अपनो धर्म बिसारी जगत
 मे, दुख भोगत बहू भांति अनारी ॥ भूठी ॥ ६ ॥ छोड़ प्रीति बलदेव
 जगत से, भज प्रभु भय भंजनहारी ॥ भूठी ॥ ७ ॥

भजन १२१

॥ टेर ॥ प्रभु गुण मे हो लीन, तभी जग मे सुख पावेगा ।
 मात पिता बन्धु सुत नारी, जिनके अर्थ लई पाप कटारी । धन जोड़े
 है व्यर्थ अन्त कोई, काम न आवेगा ॥ तभी ॥ १ ॥ गर्वित है जिस
 कुटम्ब के ऊपर, क्षण भंगुर है तन जग भीतर । अन्त समय जब
 होय, साथ एक धर्म ही जावेगा ॥ तभी ॥ २ ॥ जिनके ऊंचे ऊंचे
 मन्दिर, ओढ़े पीत रेस्मी अम्बर, पूछो जाकर दशा बड़ा ही कलेश

वतावेगा ॥ तभी ॥ ३ ॥ चढ़ने को सुन्दर असचारी, संवक लाखों
 आज्ञाकारी, बाहिर से दीखे सुखी, वै अन्दर चोट वतावेगा । तभी
 ॥ ४ ॥ सच्चा वन तू शुद्ध आचारी, होजा भाई पर उपकारी, इस
 काया के चाम की क्या जूती वतावेगा ॥ तभी ॥ ५ ॥ करले
 अब भी धर्म कमाई, इसको जरा समजले भाई, मुट्टी बांधे आया
 जगत में खाली यहां से जावेगा ॥ तभी ॥ ६ ॥ ममता मोह न रखे जो नर
 ईश भजन में रहे नित तन पर, पाठक होवे मुक्ति, वो ही सच्चा सुख
 पावेगा ॥ तभी ॥ ७ ॥

भजन १२२

॥ टेर ॥ यह काया की रेल रेल से अजब निराली ।

मन का इनजन बुद्धि ड्राइवर, कलों नसों के बन्धन ऊपर, रज का
 जल और वीर्य अग्नि मिल, भाफ बनाई है ॥ यह १ ॥ इन्द्रियों के
 रच के स्टेशन, अन्त करण का बना है जंकसन, सम सन्तोष विराग
 ज्ञान की लैन निकाली है ॥ यह ॥ २ ॥ घटी विवेक स्वांस की
 सीटी, नाड़ी तार ध्वनि लागत फीकी । जीव है सैकिंड गार्ड, बच्च
 पखा रखवाली है ॥ यह ॥ ३ ॥ उत्तम मध्यम आदि अधम तन, मेल
 पैसेजर लोकिलमेकिन, टिगट धर्म के बट, धर्म की खेप लदादी है ॥
 यह ॥ ४ ॥ काम क्रोध मद लोभ ऊंच के, दाव घात के जो बड़े मक्के ।
 धर्म अर्थ और मोक्ष की लूट मचाली है ॥ यह ॥ ५ ॥ गार्ड वही
 प्रभु टिगट कलेक्टर, योग्य ध्यान का है लेन किलीयर, सैकिंड आर्ड
 गाडी में गार्डे से मिलता खादी है ॥ यह ॥ ६ ॥ मात पिता सुत आदि
 यहां पर दी, घण्टी मोह की हरि दिखाकर प्रीति का सिंगल गिरा बस
 गाड़ी थमाली है ॥ यह ॥ ७ ॥ जब की गार्ड नहीं रहे, ड्राइवर, खाली
 पड़ा है इनजन वहां पर, पाठक फेर नहीं चले शोक की वृथा
 प्रनाली है ॥ यह ॥ ८ ॥

भजन १२३

टेर — कभी मत भूल ईश्वर को, जमाना खाक सारी है । न कोई

रहा जीवित सभी खलकत सिधारी है ।

न हटना धर्म अपने से मुनासिब है कभी तुझ को । भजन कर हर
घड़ी उसका, ये जिसकी फूलवाड़ी है ॥कभी॥१॥ सु प्रणधारी
हरिश्चन्द्र ने न छोड़ा धर्म अपने को, बिके रोहिताश व रानी, के जिनका
नाम जारी है ॥कभी॥२॥ हुवे ऐसे हकीकत भी कि जिसने धर्म नहीं
छोड़ा । कतल हुवे धर्म के ऊपर, जिन्होंने जान वारी है ॥कभी॥३॥
सताना जीव का प्यारे, नहीं कुछ भी तो अच्छा है । अहिंसा धर्म
का पालन, कहा सुख मूल अहारी है ॥कभी॥४॥ कहे नथु सनातन
का अमल इखतीयार कर प्यारे । महा सुख मूल जिन्दगानी, वृथा
ही क्यो गमाई ह ॥कभी॥५॥

भजन १२४

टेर—इस काल बली ने हाथ, एक दिन सबको खाया है ।

जरा आंखे तो खोलो अभिमानी, क्यो पड़ा बुद्धि पर पानी । मत
काम करे शैतानी, समझ मन क्यो घबराया है ॥इसा॥१॥ चाहे
राजा हो चाहे बलधारी चाहे निर्बल हो चाहे भिकारी, चले अपनी
अपनी वारी, वार जिस किसी का आया है ॥इसा॥२॥ डाक्टर
वैद्य विचारे लुकमान आदि हुवे सारे । अकबर से बढकर हारे,
मोत का नुकसा न पाया है ॥इसा॥३॥ चले काल चक्र की आरों,
कटती जावे आयु सारी, कुछ मन मे समझ अनारी, तेजसिंह ने पढ़
गाया है ॥इसा॥४॥

भजन १२५

टेर—काल तोय ओचक मे घेरे, है बड़ा भयानक हाथ ।

अन्त समय नर धन बतलावे, उगली का संकेत दिग्वावे, टप टप टप
आसु टपकावे, पड़ा २ हैरे ॥है बड़ा ॥१॥ दीखे पर देखा नहीं जावे,
बोले है पर बोल न आवे, फिर युं हाथ पांव पटकवे, महा दुःख
मेरे ॥है बड़ा॥२॥ मन विचारता रहा विचारा, बुद्धि याद ने किया
किनारा, हुवा मूर्छा संग वो न्यारा, जीव देही सेरे ॥है बड़ा॥३॥

पाठक करले जो करना है, तुम्हें भी एक दिन तो मरना है, जाना तुम्हें चित्ता पर नर है, ओ३म् ओ३म् टेरे ॥है बडा ॥४॥

भजन १२६

टेर—तू क्यो करता अभिमान, मोत आती एक पल में है ।
 आवे श्वांश आवे या न आवे, खबर नहीं कब काल दबावे, ऐसे ही जीवन जान, बुलबुला जैसे जल में है ॥तू॥१॥ रावण कंस हुवे अभिमानी, जो कहे थे हम हैं लासानी, पर यह भी नहीं रहे, गुसा जब काल बगल है में है ॥तू॥२॥ क्या मन में सोचे वैठा है, क्या ऐठा ऐठा है, कुछ समझ नादान, हुवा क्यो फितूर अकल में है ॥तू॥३॥ ये मन के संकल्प तुम्हारे, यहां के यहां रह जावें सारे, जैसे भंबरा बंद हुवा एक फूल कमल में है ॥तू॥४॥ क्यो जीवन पर हो मद्माता वासुदेव क्यो जन्म गवांता, कुछ तो करलो धर्म, पड़ा क्यो खवाब अपल में है ॥तू॥५॥

भजन १२७

टेर—भूला भूला रे मुसाफिर कहां गठरी ।
 बायदा करके आयाजो गर्भ मे, पृथ्वी बीच गिरा भूला तू ॥भूला॥१॥ ब्रह्मचर्य तूने नहीं धारा, मन अपने को तें नहीं मारा, काम देव मे भूला तू ॥भूला॥२॥ लोभ मोह के बस में होकर, नियम धर्म सब अपना खोकर, धन इकट्ठा कर भूला तू ॥भूला॥३॥ रहो हुशियार भजन कर रब का, वो मालिक है सारे जग का, इन्द्रियों के बश भूला तू ॥भूला॥४॥

भजन १२८ (गजल)

टेर—जरा तो सोचिये गफिल के दम का क्या ठिकाना है,
 निकल गया जब वो तन से तो सब अपना बिगाना है ।
 मुसाफिर तू है और दुनियां, सराय है भूत मत गफिल । सफर परलोक का आखिर तुम्हें परदेश जाना है ॥ जरो ॥ १ ॥ लगाता

है अबस दौलत पै, क्यो तू दिल को अब नाहक, न जावे कुछ संग हर-
गिज, यही सब छोड़ जाना है ॥ जरा ॥ २ ॥ न भाई बन्धु है कोई,
न कोई आसना अपना, बखूबी गौर कर देखा, तो मतलब का जमाना
है ॥ जरा ॥ ३ ॥ रहो नित याद मे हक की, अगर अपनी सफा चाहो,
अबस दुनिया के धन्धों मे हुवा तू क्यो दिवाना है ॥ जरा ॥ ४ ॥

भजन १२६

टेर—भाईयो जगत में आकर, वृथा हुवा है जीना ।

मुश्किल से अय प्यारो बुजरगो, पाया मनुष्य का चोला, अफसोस
फिर भी मित्रो, कुछ भी धर्म न कीना ॥ भाईयो ॥ १ ॥ इन्द्रियो
के बस मे होकर, मनका गुलाम बन कर, विषयो मे फंस के पापी,
तन मन वो धन है दीना ॥ भाईयो ॥ २ ॥ आया था किसलिये
तू कुछ भी खबर नहीं है, बेहोस हो रहा है, अय मूर्ख बुद्धि हीना
॥ भाईयो ॥ ३ ॥ बेमोल तेरा जीवन, क्षणक्षण मे जा रहा है, हा
शोक है तो यह है, कुछ भी भजन न कीना ॥ भाईयो ॥ ४ ॥ अय
'वासुदेव' उठो गफलत मे क्यो पड़े हो । समझो सराय दुनिया,
यहां पर नशा न पीना ॥ भाईयो ॥ ६ ॥

भजन १३० (दादरा)

टेर—नर तन पाके उमर क्यो गमाई ।

लख चोरासी योनि भुगत कर, मुश्किल से मनुष्य देह पाई । बाल
अवस्था खेल में खोई विषयो मे बीती तरुणाई ॥ नर ॥ १ ॥ वृद्ध
हुवा देह कांपन लागी, इन्द्रियां थकित हो जाई । प्रसत किया रोगो
ने आकर, रोवे हाहाकार मचाई ॥ नर ॥ २ ॥ काल आन जब
सिर पर गर्जा काम न दे एक दवाई, इकला लाद चला बनजारा,
छोड़ सकल सुख संपति भाई ॥ नर ॥ ३ ॥ भाई बन्धु माता सुतनारी
रो रो कर सब देत दुहाई । यह शरीर जो सब से प्यारा, जलभुन
जाय चिता मे भाई ॥ नर ॥ ४ ॥ ब्रता संगते किसको लीना, धर्म बिना
है कोन सहाई । बांध लई पापो की गठरी, दुनियां से ले चला

बुराई ॥नर॥१॥ हाय शोक यो ही जीवन खोया रो रो कर मल मल
पछताई, जो चाहो तुम जन्म सफल हो, 'वासुदेव' करो नेक कमाई
॥ नर ॥ ६ ॥

भजन १३१

टेर—काहे खोवे उमरिया अनारी रे ।

ममता माया के बस मे गर्वित है तू कुटम्ब के ऊपर, नाम न लाना
प्रभु का छिन भर. प्रभु बिन रहेगा दुखारी रे ॥ काहे ॥ १ ॥ रूप
गणित लखि मोहित होवे, जो काया विकार मय होवे, तन मन धन
वा उस पै खोवे, अब भी दशा ले सुधारी रे ॥ काहे ॥ २ ॥ सन्ध्या
द्वन तूने विसराया, पितृ यज्ञ का ध्यान न लाया. छल से तू ने द्रव्य
कमाया, क्या हो सके तू सुखारी रे ॥ काहे ॥ ३ ॥ काल तुम्हे नित्य
जगावे, घन्टी अपनी गूज सुनावे, क्यों नहीं चेत समय बतावे.
भक्ति का बने भिकारी रे ॥ काहे ॥ ४ ॥ अजर अमर जो है मरवोपरी,
जिससे रुची फिरी है तेरी, पाठक है वो तेरा मातृ पितृ, रखले
भरोसा भारी रे ॥ काहे ॥ ५ ॥

भजन १३२

दोहा— मरता किसके इशक पर, करता किसपै प्यार,
यहां सब मतलब के मीत हैं, देखा गया विचार ।

टेर—सब स्वार्थ का ससार है, तू किसपे प्यार करता है ।

जब तक प्यारे करे कमाई तब तक सारे करे बड़ाई, चचा भतीजा
ससुर जवाई. कुनवा ताबेदार है दिल भरी का दम भरता है
॥ तू किसपै ॥ १ ॥ जब तू शक्ति हीन हो जावे, अपनी हाजत कुछ
फरमावे, यार दोस्त कोई काम न आवे, भिट जाता सत्कार है,
कमबखत नाम पड़ता है ॥ तू किस पे ॥ २ ॥ जिसके प्यार में ईश
बिसारा, धर्माधर्म तनिक न विचारा, उस कुन्वे का किया कितारा,
कोन है गम खवार है, कह कह के यूँ मरता है ॥ तू किस पे ॥ ३ ॥

मत बन जान बूझ कर भोला, है खुद गर्जे यार मिठ बोला, ये बलदेव मानषी चोला फिर मिलना दुस्वार है, जप उसे जो दुख हरता है ॥ तू किस ॥ ४ ॥

भजन १३३

॥ दोहा ॥ धन योवन को पायकर, क्यों करता अभिमान ।

चन्द रोज की चांदनी, कोई दिन का महिमान ।

॥ टेरे ॥ मत ऐठ प्रीत अभिमान में ये जरासी जिन्दगानी है । बड़े बड़े शूर वीर धनवाले, और हकीम तरह दार निराले, सितमगार मुंह कर गये काले, बसे जाय शमशान मे गई छूट हुकम रानी है ॥ ये जरा ॥ १ ॥ मुंसिफ होकर कर सरदारी नही तो पीछे होगी खव्वारी, चली जाय सब खुद मुख्तारी तू है जिसके गुमान मे, येजिस्म तेरा फानी है ॥ येजरा ॥ २ ॥ दुर्द दूसरे का न विचारे, बिन अपराध गरीब न मारे दुखी दीन को नित्य पछाडे, सूक्त नहीं जहान में तुम्हे यमकी मार खानी है ॥ येजरा ॥ ३ ॥ जुल्म किसी पर मत कर भाई, ये दुनियां ईश्वर ने बनाई, अब तो छोड़ कपट कुटलाई, लगजा उसके ध्यान मे, बलदेव जोगत पानी है ॥ येजरा ॥ ४ ॥

भजन १३४

॥ टेरे ॥ ये दुनियां चन्द रोजा है प्रभू का ध्यान धर लीजे । गुजरती आयु जाती है, सब विधी से सुधर लीजे ।

न जाने कौन से क्षण मे बजेगी आखरी नोबत, नकारा कूच का बजता है, इसी पर गोर कर लीजे ॥ ये ॥ १ ॥ पड़े सोते हो तुम अब तक गये साथी निकल कोसो । कठिन रस्ता है मंजिल-दूर, उठ ये कर सफर लीजे ॥ ये ॥ २ ॥ खुशी के साज और साजा, फिरे है जिस पे तू सोदां, हमारा मान कर कहना, नजर इनसे हटा लीजे ॥ ये ॥ ३ ॥ फंसाया हमको पापो ने, बुरे मनके विचारों ने, अगर कुछ चाहते हो अपनी भलाई, तो संभर लीजे ॥ ये ॥ ४ ॥

न अशरत काम आवेगी, मगर हसरत सतावेगी । वेहतर धर्म धारणकर, सुपथ मे ही गुजर लीजे ॥ ये ॥ ५ ॥ प्रभु के प्रेम साधन-से, मगन होने का कर उद्यम, जमा के मन को सध्या मे, परम सुख की लहर लीजे ॥ ये ॥ ६ ॥

भजन १३५ (गजल)

॥ टेरे ॥ भूला है किसपे अय मनुष्य, फिरता है किसपे यूं मगन ।
 क्या ये ख्याल कर लिया, क्या है अमर ये मेरा तन ।
 इत्र लगाके जिस पे तू होता है दिल में सुखरू, रखिये जहीने नसीन,
 तू ये नाश होगा एक दिन ॥ भूला ॥ १ ॥ गाव लिवासो मालोजर,
 जिससे है तेरा करोर फल, सभी रहेगा यहां ही पर, स्वर्ग मे होगा
 जब गमन ॥ भूला ॥ २ ॥ रखते हैं तुम्ह से अब जो प्यार, मात-
 पिता और स्त्री यार, देखेगे सब एक बार, जलते हुवे तेरा वदन
 ॥ भूला ॥ ३ ॥ प्यारी तेरी जब आन कर, मारेगी हाथ तान कर,
 छाती पे-तेरी अयबसर, होगा न फिर कुछ यत्न ॥ भूला ॥ ४ ॥ दोस्त
 कहेगे वरमाला, जल्दी से ले चलो उठा, दिन है बोटसा चड गया,
 होती है देर श्रेष्ठ जन ॥ भूला ॥ ५ ॥ इससे न ऐसा काम कर,
 पहुँचे किसी को जो भरर, मोत का दिल मे रख तू डर अन्त मे
 होता महन ॥ भूला ॥ ६ ॥ प्रीति परस्पर अब तूं कर, सबसे मिल-
 जुल के सर, निन्दा भी कोई करे अगर स्तुति तूं अपनी उसको गिन
 ॥ भूला ॥ ७ ॥ धर्म का तूं प्रचार कर, जान भी जाय तो ना डर,
 होगा तूं इस तरह अमर, गरचे करेगा यह यत्न ॥ भूला ॥ ८ ॥
 मोत है सर पर हर घड़ी, न मालूम कब आन पड़ी ये तन है बालु
 की मढ़ी, न जाने कब लगे गिरन ॥ भूला ॥ ९ ॥ थे जो महाराज
 नाम भर, जग मे था जिनका खूब डर, खाते हैं ठोकर उनके सर,
 काल ने जब किया हनन ॥ भूला ॥ १० ॥ लंक पति अब यहां कहां,
 वश का अब कहा निशान, शिक्ता लो इनसे मेहरबान, दास की लगी
 यही लगन ॥ भूला ॥ ११ ॥

भजन १३६

॥ टेरे ॥ है थोड़े दिन जग मे रहना, मत कड़वे बोले बोल ।
 वैमनस्य घर घर है लड़ाई, दुश्मन है भाई का भाई, इसने जग मे
 अशान्ति फैलाई, बुद्धि तुला पर तोल ॥ है थोड़े ॥ १ ॥ मोनव्रत
 उनको बतलाया, जिनको मीठा वचन न आया, क्यों नही प्रभुका
 भक्त कहलाया, मन की घुन्डी खोल ॥ है थोड़े ॥ २ ॥ आवागमन की
 कट जाये फांसी, भजले निराकार अविनाशी, वह है अगम अतोला
 ॥ है थोड़े ॥ ३ ॥ किसी जीव का दिल न दुखावो धर्म अहिंसा जग
 फैलावो, पाठक यूँ फिर प्रभु को पावो, वो है रतन अमोल
 ॥ है थोड़े ॥ ४ ॥

भजन १३७

॥ टेरे ॥ भरोसा नही एक स्वांस का रे, क्यों भूला फिरे गवार ।
 वना शरीर ये हाड मांस का है मलमूत्र का धार । समज देख तू
 दिल मे प्यारे, क्या है इस में सार ॥ भरोसा ॥ १ ॥ चोरासी लख
 योनी भुगतकर, आये मुक्ति के द्वार । फिर भी फस गये विषय भोग
 मे, किया न ईश विचार ॥ भरोसा ॥ २ ॥ याद करहु जब मित्र गर्भ
 मे, सकट पड़े अपार । उस प्रभु को भूला अभिमानी, जिसने किया
 था पार ॥ भरोसा ॥ ३ ॥ सुत धन दारा संग न जावेगे, समझ सोच
 ले यार । जा दिन डंका बजे काल का छूटेगा संसार ॥ भरोसा ॥ ४ ॥
 नेकी कभाले प्रभु को भजले, समय न बारम्बार, ऋषि राजकी
 यही है शिक्षा, कहत पुकार पुकार ॥ भरोसा ॥ ५ ॥

भजन १३८

यह है असार संसार वृथा इस में लिपटावेगा ।

कर जगत पिता का ध्यान, तभी आनन्द सुख पावेगा ॥ टेरे ॥
 यह मनुष्य का तन पाया, जप योग में चित लगाया । विषयो मे
 व्यर्थ गमाया, अन्त मे दुख ही पावेगा ॥ कर ॥ १ ॥ हुवे बड़े बड़े,
 विद्वान और शूर खिलाड़ी, गये काल गाल बारी बारी, एक दिन

तुम्हे भी खावेगा ॥ कर ॥ २ ॥ धनयोवन सुत और दारा. जावेंगे तुम से किनारा, कोई संग नहीं चलने हारा, ये तेकी बंदी साथ जावेगा ॥ कर ॥ ३ ॥ जवानी को तूने यूं ही वित्ताया, जब जवाने आन दबाया, सोने मे कफरुन्द आया, जाक फिर तूं क्या बनावेगा ॥ कर ॥ ४ ॥ तूं है ऋषिराज अनारी, दी प्रभु की भक्ति विसारी, पाता है तभी दुख भारी, नहीं हरगिज सुख पावेगा ॥ कर ॥ ५ ॥

भजन १३६

॥ टेरे ॥ करलेहु प्रशंसित काम, रही अब थोड़ी जिन्दगानी ।
रहो न यो ही अपयश पाते पापी पामर पोत्र कहाते । मंगल मय
मारग अपनाओ यह सिख सुखदानी ॥ रही ॥ १ ॥ झलवल कर्म
कुकर्म विसारो, यम नियमो को उर में धारो. कबहु न काहु ऐठ
द्विखावो, चेतो अभिमानी ॥ रही ॥ २ ॥ दीन अनाथन के दुख टारो,
देश दशा का ढग सुधारो, सादस पाय बनो लाखन में, शूरवीर
दानी ॥ रही ॥ ३ ॥ कीरति की नित सन्पति जोड़ो, पतित समागम
से मुख मोड़ो, साथ न होयगी हाय देह भी, त्यागो अभिमानी
॥ कर ॥ ४ ॥ ऐसी देह न पुनि पावोगे, कर लो कुछ भी पछतावोगे,
अन्तः करण की घड़ी सामने समजाते ज्ञानी ॥ कर ॥ ५ ॥

भजन १४०

॥ दोहा ॥ पानी का सा बुदबुदा, यह है अधम शरीर ॥
कब तक ठहरा रहैगा, वृत्त नदी के तीर ॥
॥ टेरे ॥ थोड़े से जीवन पर, क्यों इतना अभिमान ।
ये क्षण भगुंर काया है, बादल की सी छाया है, जिस से रहा
स्थिर जान ॥ थोड़े ॥ १ ॥ नित अपनी अकड़ में डोले, नहीं सीधा
किसी से बोले, चढा सिर पर शैतान ॥ थोड़े ॥ २ ॥ क्या इस मे तेरी
चतुराई, छोड़ी सध नेक कमाई, किये दुख के सामान ॥ थोड़े ॥ ३ ॥
कहे तेजसिंह शर्मा तूं, कुछ अब भी होश में आ तूं, अगर तूं है
इन्सान ॥ ४ ॥

भजन १४१ (दादरा)

टेर—मत बाधो गठरिया तुम अपयश की, है थोड़ी ऊमर तेरी दिन
दस की ।

अकड़ बेग यहा कितने ही आगये, गये धरती मे सब धस धस की
॥मत॥१॥ कोई दिन का महिमान जगत में, मत कर बातें तू अनरथ
की ॥मत॥२॥ अबहुँ विचार धर्म अपने को, धीरे धीरे उमर जात
तोरी खसखस की ॥मत॥३॥ नही कजा से चली है कजा की, ठसग
रहेगी सब ठसठस की ॥मत॥४॥ यम के द्वारे मार पड़े मोटी, बदी
निकस जाये नस नस की ॥मत॥५॥ भज प्रभु को बलदेव बेग अब,
नही तो काल लेत तोय भसभम की ॥मत॥६॥

भजन १४२ (दादरा)

टेर—चलना है मुसाफिर, रहना नहीं ।

क्यों सांवे गफलत की नींद मे, यहां एक पल का ठिकाना नहीं
॥चलना॥१॥ तेरे सगाती कितने चले गये, तेरा यहा कुछ थाना
नही ॥चलना॥२॥ इस सराय मे चोर बसत है उनसे माल चुराना
नही ॥चलना॥३॥ बली पहलवान हजारो ही आये, चलते समय
काहु जाना नहीं ॥चलना॥४॥ जिस मालिक का है मुलक दुनियां,
उसको तू पहचाना नहीं ॥चलना॥५॥ भक मारत फिर फिर दुनिया
मे, दिवाना है तू कुछ दाना नहीं ॥चलना॥६॥ यम को जवाब देय
किम मुख से, है कोई बाकी बहाना नहीं ॥चलना॥७॥ अब तो जाग
'बलदेव' नींद से, फिर फिर नरतन पाना नहीं ॥चलना॥८॥

भजन १४३

टेर—कब लेगा प्रभु का नाम, उमरिया गई रे रही थोड़ी ।
कोन भूल मे पड़ा सोच कर, नाचे काल कुचाली मिर पर, लालच
की लीला में फंस कर क्यों पूंजी जोड़ी ॥कब॥१॥ केवल खेल कूद मन
भाया, हित साधन मे चित न लगाया, हाय अभागे पाप कमाया,
सत्संगत छोड़ी ॥कब॥२॥ मात-पिता भ्राता सुत दारा, साथ रहे

परिवार न सारा, मानी मान मोह की धारा, कितको मती मोड़ी
॥कष॥३॥ अबहुँ जीवन को न सुधारे, करनी को झड़ करन बिगाड़े,
नेक न हरि की और निहारे, प्रेम लता तोड़ी ॥कव॥४॥

भजन १४४

टेर—करो सदा सत्कर्म धर्म तुम, मिले न पुनि नर की काया,

बड़े भाग्य से प्रियवर तुमने ऐसा शुभ अवसर पाया ।

चेतो क्यों न जीवन को प्यारे, विषयो बीच गमाते हो, तज विवेक की
बातें क्यों तुम, ऐसा पाप कमाते हो । दीन अनाथ दुखी को लख कर

नेक तरस नहीं खाते हो । बन सुधीर मन मांही विचारो, दुख
इसी से पाते हो, सारी त्याग दीजिये जड़ता, बहुतक तुमको सम-

झाया ॥बड़े भाग्य॥१॥ करके मेल मिलाप सदावर, वेद धर्म को
विसतारो, यही भलि सामाजिक शिक्षा अपने जीवन में धारो । नाना

मतपंथो के झगड़े, सारे के सारे टारो, सदा करो कल्याण देश का मन
अपसुवस हारो, ऋषि मुनियों की चाल चली, क्यों अपने कुल को

शरमाया ॥बड़े भाग्य॥२॥ पर के दुख को निज दुख समझो, पर
दुख को निज दुख जानो । पर नारी को निरखे प्यारे, निज माता

भगनी जानो, काम क्रोध मद लोभ मोह को अब तो त्यागो सागानो,
जमा शील सन्तोष बढ़ावो, मिले सदा सुख मन चाया ॥बड़े भाग्य॥

॥३॥ सायं प्रातः सन्ध्या करके, जगदीश्वर में चिन लगावो ।
अग्नी-होत्र का नियम निभा कर, परमारथ को नित पावो, भूलो मती

बलि विश्व देव को, पितरी यज्ञ को फैलावो । फैले सुख सारी दुनियां
में, श्रेष्ठ आर्य तुम कहलावो, विविध भाव से भरा ख्याल तुलसी ने

अपना पथ गाया ॥बड़े भाग्य॥४॥

भजन १४५

टेर—सुनो रे मित्रवर एक दिन यहां से सबको जाना है, करो शुभ
कर्म निशवासर तभी आनन्द पाना है ।

बने अज्ञानी फिरते हो, न होता चेत है बिलकुल । अविद्या आदि

से सोचो, जरूरी चित हटाना है ॥सुनो॥१॥ जिसे ठहराया वेदो ने
तुम्हारा फर्ज आवश्यक, बड़ा अफमोस है देखो, उसे तुमने न
माना है ॥सुनो॥२॥ पड़े सोते हो गफलत में, जरा अब आंख तो
खोलो, हुवा है प्रात उठ बैठो, तुम्हें होना रवाना है ॥सुनो॥३॥
न सम्पति काम आवेगी, न भाई बन्धु सुत दारा । अरे इनकी मोहब्बत
मे, वृथा चित को फसाना है ॥सुनो॥४॥ महा सुख मूल जगदीश्वर,
सकल श्रृष्टि के करता को । कभी मत भूल अय तुलसी, वही तेरा
ठिकाना है ॥सुनो॥५॥

भजन १४६

टेर—कोई दम का यहां बसेरा रे ।

जिस घर को तू अपना जान, यह तो नहीं है तेरा रे ॥कोई॥१॥
बड़े र भूप और योधा कर गये यहां पर फेरा रे ॥कोई॥२॥
काल बली ने एक दिन सबको, आ कर यहां से खदेड़ा रे ॥कोई॥३॥
विषय भोग में फंस मन मूर्ख, ईश्वर से चित फेरा रे ॥कोई॥४॥
न जाने कब आवे बुलावा, करले काम सबेरा रे ॥कोई॥५॥
करले जीव रे धर्म कमाई, क्यो आलस ने घेरा रे ॥कोई॥६॥
सालिगराम ईश को जपले, पार होय तेरा बेड़ा रे ॥कोई॥७॥

भजन १४७

टेर—कल्याण रूप जो बाणी हर जगह उसे पहुँचावो ।

किस गफलत में तुम पड़े हो जागो जागो, इस घोर निद्रा को अब तो
त्यागो त्यागो, करो धर्म पाप से मित्रो भागो भागो, पर उपकारी
कर्मों मे लागो लागो । यह है कर्तव्य तुम्हारा, मत इसे कगे
किनारा, इसने सब देश सुधारा, इस बिन नहीं होत गुजारा । दो सब
के कान में डाल, अभी फिल हाल, करो मत टाल, हुक्म लासानी,
जो ऋषि सन्तान कहावो ॥हरा॥१॥ वेदों के प्रचार में तन मन
अपना देदो जी अपना दे दो, जो बने बांट के धन में से धन दे दो,
चारो पन में से एक आप पन दे दो, जीवन इसके लिये सन्यासी

वन दे दो, मुलको र मे जा कर, सचे उपदेश सुना कर, पड़े भ्रम में जो समझा कर. उन्हे ईश्वर भक्त बनालो । बनो यश के तुम भंडार, करो उपकार, मन में लो धार, समझें सब प्राणी, वैदिक सिद्धान्त सुभावी ॥हर जगह॥१॥ छिपा विद्या का प्रकाश मिटा उजधाला, हर एक ने अपना चिराग अलहदा वाला, चांगे ने भी फिर चोरी का ढंग निकाला, घर फोड़ र कर मित्रो माल निकाला, छिपा मूरज हुवा अन्वेरा, चहु दिशी से भारत घेरा. कोई कह यह मत मेरा, भूठा है सचा तेरा । फिर करी ईश्वर ने दया, ऋषि एक भया ज्ञान दे गया, बड़ा वो दानी, मिल के उसके गुण गावो ॥हर जगह॥३॥ जो ईश्वर की आज्ञा है उसको पालो, दो और काम सब छोड़ न इसको टालो, सब अनुग्रह मात्र के हृदय में इसको डालो, सचा है वैदिक धर्म न भूठ निकालो । सबको उपदेश सुना दो, सीधा मार्ग बतलावो, दुनियां में धूम मचा दो और सब के भर्म मिटा दो, लिजे जीवन का सर करो इखितयार, वेद संचार, बना ओसानी, फिर मन चाया फल पावो ॥हर जगह॥४॥

भजन १४८

टेर का करता है भाई अभिमान, थोड़े इस जीवन पर ।

अर्जुन सं हो गये बलकारी, रावण जैसे लका में जारी, और कुबेर से मायाधारी, छोड़े सब सामान ॥थोड़े॥१॥ विद्योत्मा सी राज दुल्लारी, मुलभा जैसी तत्व विचारी, उभय भारती विदुषी नारी, हरा गई विद्वान ॥थोड़े॥२॥ हरिश्चन्द्र से सतवृत धारी, जमदगनी से मूल अहारी, गौतम कपील से ऋषि बड़े भारी, सुख दे गये है महान् ॥थोड़े॥३॥ देश हितैपी हो गये सारे महा ऋषि दयानन्द से प्यारे, लेखराम से प्राण पियारे, वारे तन मन प्राण ॥थोड़े॥४॥ हो गये बड़े र चित उधारी, पाठक तुम भी बनो उपकारी, ऋषि ऋण देवो शांघ्र उतागी, सुख पावे ऋषि सन्तान ॥थोड़े॥५॥

भजन १४६

टेर—तूने सारी उमरिया गुजारी रे ।

बालपन गयो खेल में, खोई जवानी प्यार मे, नित्य प्रति कीने कलह
 ब्रेड़ा तेरा मझधार मे, अब मरने की आ गई है बारी रे ॥तूने॥१॥
 खेल चोसर हिंसा कीनी, दिन का सोना बढ़ गया । दूमरो क दोष
 कह व्यसनों का झंडा गढ़ गया । फिर करते हो सुख की तैयारी रे
 ॥तूने॥२॥ विषय रस का स्वाद लीना, नाना मृदुताने सुनी । गीत
 सुन २ नाच देखा, फिर भी दीखे अनबनी । वृथा धूम पीवे मद्बारी
 रे ॥तूने॥३॥ चूगली कर वे काम कीने जो न करना चाहिये । बिना
 कारण बुर करते, डाह कर कर दुख दिये । फिर पछताने की आ
 गई है बारी रे ॥तूने॥४॥ चोरी की जूवा भी खेला, गाली देते
 दिन गये । लड़ते भिड़ते सब से थे, पर अब तो आपुस छिन गये ।
 काम क्रोध है शत्रु भारी रे ॥तूने॥५॥ ध्यान धर उस ईश का जिसने
 जगत पैदा किया, अब तो चेतो नौंइ तज, जो पूरण सुख चाहो
 लिया, तुमको पाठक यही सुखकारी रे ॥तूने॥६॥

भजन १५०

टेर—देखो रे भाईयो बिगड़ा है सारा जमाना, महाभारत के घोर
 युद्ध मे हो गया सभी दीवाना, आर्यवर्त था देश हमारा, सब देशो
 मे दाना । हिन्दू हवसी काला काफिर हाथ उसे अब माना
 ॥देखो॥१॥ जगत गुरु ब्राह्मण-होते थे जाने सारा जमाना, पीर
 बबरची भीस्ती खरकी पदवी उन्हें दिताना ॥देखो॥२॥ सिंह समान
 गर्जता था ये कभी राजपूताना । आज नाम पर सिंह लगा कर
 क्षत्री बंग लजाना ॥देखो॥३॥ प्राणी मात्र की रक्षा करना, जग से
 पाप हटाना । आज उन्होंने धर्म समझ लिया, मद्य, मांस का खाना
 ॥देखो॥४॥ पशु रक्षा और खेती करना, देश देश में जाना, करे
 व्यवहार व्याज ले थोड़ा वो है वैश्य समाना ॥देखो॥५॥ धीकेबाजी
 अब वैश्य करने लगे, हो गये शूद्र समाना । वर्ण आश्रम सारे

विगड़े, विगाड़ा सारा जमाना ॥देखो॥६॥ उदय भाग भारत के हो गये, हुवा ऋषि का आना । धन्य धन्य है स्वामीजी को धार २ गुण गाना ॥देखो॥७॥

भजन १५१ (रावण को सीता का समझाना)

टेर—अय रावण तू धसकी दिखाता किसे, मुझे मरने का खोफ खतर ही नहीं । मुझे मारेगा क्या तेरी खेर मना, तुझे होने की अपनी खबर ही नहीं ।

तू जो सोने की लंका का मान करे, मेरे आगे यह मट्टी का घर है नहीं, मेरे दिल का समेरु डिंगेगा कहां मेरे मन में किसी का डर ही नहीं ॥अय॥१॥ आवे इन्द्र नरेन्द्र जो, मिल के सभी क्या मजाल है जो शील को मेरे हरे । तेरी हस्ती है क्या, सिया राम पिया, मेरी नजरों में कोई बसर ही नहीं ॥अय॥२॥ तूने सहस्र अठारह जो रानी करी, तुझे इतने पै आई खबर ही नहीं । पर तिरया पर जो तूने ध्यान दिया, क्या नर्क का तुझको कोई डर ही नहीं ॥अय॥३॥ मेरी चाह थी, तेरे दिल में बसी, क्यों न जीत स्वयम्बर तू लाया मुझे । वो कोनसा देश है जो दे तू बता, जहां पहुँची स्वयम्बर की खबर ही नहीं ॥अय॥४॥ जो हुवा सो हुवा अब भी मान कहा, मुझे राम पै जल्दी से दे तू पठा । कहे सीता बरना तू देखेगा क्या, चंद्र रोज में तेरा सर ही नहीं ॥अय॥५॥

भजन १५२

टेर—मुझे है आस दरसन की, निहारोगे तो क्या होगा । मैं भव सागर में डूबा हूँ उबारोगे तो क्या होगा । तसद्दुक जानो तुम दिल पर निहारोगे तो क्या होगा ।

हो लड़का कैसा ही नाकिस, पिता को रहम लाजिम है । यही गुण नाथ विगड़ी के संभारोगे तो क्या होगा ॥मुझे॥१॥ अधम कैसा ही गो मैं हूँ, पतितपावन हो तुम स्वामी, पवित्र कर ये तन, दुख, नाथ टारोगे तो क्या होगा ॥मुझे॥२॥ मुझे मद लोभ आलस ने

प्रभु कुछ दिन से घेरा है, इन्हें ले ज्ञान का खंजर, जो मारोगे तो क्या होगा ॥मुक्ते॥३॥ शरण ली आपकी अब तो, भुकाउं सर को मैं आगे, निगह एक रहम की करके, जो तारोगे तो क्या होगा ॥मुक्ते॥४॥ तुम्हें तज और को पूजें, भुकावें सर जो नीचों को, इस मूखता को भारत से भगा दोगे तो क्या होगा ॥मुक्ते॥५॥ चाहे कुछ भी कहो हमको नहीं घटती है कुछ इज्जत, अधम या दास कह करके पुकारोगे तो क्या होगा ॥मुक्ते॥६॥

भजन १५३ (निर्बल के बलराम)

टेर—सुने री मैने निर्बल के बलराम ।

पिछली साल भरुं सन्तन की, आडे संवारे काम । जब लग गज बल अपनी बरत्यों, नेक सरो नहीं काम । निर्बल होय बलराम पुकारे, आये आधे नाम ॥सुने॥१॥ दुपट सुत निर्बल भई, ता दिन गह लायो निज धाम । दुशासन की भुजा थकित भई, वसन रूप भये श्याम ॥सुने॥२॥ अपबल तपबल और बाहुबल, चौथा है बलदाम । सूर किशोर कृपा से सब यल हरि को हरि नाम ॥सुने॥३॥

भजन १५४

टेर—प्रेम हो तो श्री हरि का प्रेम होना चाहिये, जो बनें विषयो के प्रेमी उन पै रोना चाहिये ।

दिन बिताया ऐश व आराम में तुमने अगर, रात को सुमरिन हरि का करके सोना चाहिये ॥प्रेम॥१॥ मखमली गहो पै सोये, तुम यहां आराम से, सफर लम्बे के लिये भी कुछ बिछोना चाहिये ॥प्रेम॥२॥ बीज बोकर बाग में फल खाये है तुमने सभी, वास्ते परलोक के कुछ भी बोना चाहिये ॥प्रेम॥३॥ हरि भजन से जो लगा, जंजाल दुनियां छोड़ दे, राम भजन आनन्द पाकर मगन होना चाहिये ॥प्रेम॥४॥

भजन १५५

टेर—आगाह अपनी मोत से कोई बसर नहीं, सामान खो बरस का पल की खबर नहीं ।

नदी किनारे देखिये, समन सब संसार, कोई उतरे कोई चढ रहे कोई बुगचा बांध तैयार ॥आगाह॥१॥ समन रोवे कौन को, हंस जो कौन विचार, गये सो आवन के नहीं, रहे सो जावन हार ॥आगाह॥२॥ भिखा भूखा कोई नहीं, सबकी गठरी लाल । गिरह खोल नहीं जानते इहि विधी रहे कंगाल ॥आगाह॥३॥ सह जो गुरु प्रताप से ऐसी जान पड़ी, नहीं भरोसा स्वांस का, आगे मोत खड़ी ॥आगाह॥४॥ सहजो नोबत खास की, बाजत है दिन रैन, मुख सोबत है यहाँ चेतन को नहीं चैन ॥आगाह॥५॥

भजन १५६

टेर—लोभी मन माया काहे को जोड़ी रे ।

जोड़त जोड़त पोली तक आयो, तो भी कहे माया थोड़ी रे ॥लोभी॥
 ॥ १ ॥ ऊंचा नीचा महल चुनाया, गाय भेंस घर घोड़ी रे ॥लोभी॥
 ॥ २ ॥ चार जने के खांदे जो चढिया, जैसे काठ की घोड़ी रे ॥लोभी॥
 ॥ ३ ॥ घर की तिरिया रोवन लागी, बिलुड गई मेरी जोड़ी रे ॥लोभी॥४॥ जाय जगल में डेरा जो दीना फूंक दिया जैसे होली रे ॥लोभी॥५॥ कहत कवीर सुनो रे भाई साधो, जिन जोड़ी बिन तोड़ी रे ॥ लोभी ॥ ६ ॥

भजन १५७

टेर—तुम ही तुम प्रभु याद आवो दर्द में ।

माता-पिता और कुटुम्ब कबीला, भीड़ पड़े भग जाये दरद मे ॥तुमा॥
 ॥ १ ॥ ये संसार अरठ की घुड़ लयां, भरी आवे खाली जावे दरद में ॥तुमा॥२॥ ये संसार कागद की पुडिया बूंद पड़त गल जाय दर्द मे ॥तुमा॥३॥ ये संसार ओंस को पानी, धूप पड़े दल जाय दरद मे

॥ तुम ॥ ४ ॥ ये ससार केर को कांटो, पांव धरे लग जाये दरद मे
 ॥ तुम ॥ ५ ॥ लख चौरासी जीवां जूए मे भटक भटक दुख पायी
 दरद मे ॥ तुम ॥ ६ ॥ कहत कबीर सुनो भाई साधो, वृथा ही जन्म
 गवायो दरद मे ॥ तुम ॥ ७ ॥

भजन १५८

टेर—काल की जाल खड़ी मेरे सिर पर, हां जी प्रभु धर्म की नैया
 लगाय दीजो ।

हां जी सतगुरु थांके मैं लागुं पाय, प्रभु से मुझको मिलाय दीजो
 ॥ काल ॥ १ ॥ दुखड़ा की बेल खड़ी है मारा सिर पर, हा जी प्रभु
 अमृत बूंद चखाय दीजो ॥ काल ॥ २ ॥ घर में ना सूझे भीतर
 अधारो हां जी प्रभु ज्ञान का दीपक जलाय दीजो ॥ काल ॥ ३ ॥ बहुत
 दिना सुं सूझे मारो हंसो, हाजी प्रभु जलदी से इसको लगाय दीजो
 ॥ काल ॥ ४ ॥ इस काया के अन्दर पाच चोर बसे हैं, इनको जलदी
 भगाय दीजो ॥ काल ॥ ५ ॥ कहत कबीर सुनो भाई साधो, हांजी प्रभु
 काया का बन्धन छुड़ाय दीजो ॥ काल ॥ ६ ॥

भजन १५९

॥ टेर ॥ जपो हरि नाम वन्दे बिहानीरे ।

बाल पणो सब खेल गमायो, तिरिया मोह जवानी रे । वूढापन मे
 रोग सतावे, सुन्दर काया तेरी हो गई लुभानीरे ॥ जपो ॥ १ ॥ दिन
 दिन पल पल छिन छिन जावे, ज्यू अंजलीका पानी रे, गया वक्त
 फिर के नही आवे, छूटा तीर जैसे चढ़ेना कमानी रे ॥ जपो ॥ २ ॥
 हाथी घोड़े मालखजाना, राजपाट पटरानी रे । स्वांस निकल जब
 जाय वदन से, सब सम्पति होय विगानी रे ॥ जपो ॥ ३ ॥ स्वपन
 सम संसार की रचना । कयो भूला अभिमानी रे । करुणानन्द भजन
 बिन प्रभु के व्यथ तेरी जिन्दगानीरे ॥ जपो ॥ ४ ॥

भजन १६०

॥ टेर ॥ दिखाता रंग क्या क्या है ये किसमत का बदल जाना ।

कभी रानी कभी दासी, ये तन फकीराना । कभी बछ है रंसम के,
 कभी तन पर फटा बाना ॥ ये ॥ १ ॥ कभी गहने हैं सोने के,
 कभी तन जोगीया बाना । कभी है सेज फुलो की, कभी है कुस का
 बिछोना ॥ ये किस्मत ॥ २ ॥ कभी बरसों सुखी रहना, कभी दिन-
 रात गम खाना कभी छत्तीस व्यन्जन है, कभी फल फूल का
 खाना ॥ ये किस ॥ ३ ॥ कभी है वास बस्ती में, कभी वन वन में
 घर छाना, कभी है सैकड़ो दासी, कभी खुद दास दासाना ॥ ये
 किस ॥ ४ ॥ कभी है सवारी हस्ती की कभी हम खुद सवाराना ।
 कभी कोई ले गया नाने, की बन्दी जो के कर जाना ॥ ये कि ॥ ५ ॥
 जाकर मिलाना तू किसी से, ऐसा वे प्रीत क्यों होना । यही है रग
 दुनियां का, कोई आना कोई जाना ॥ ये कि० ॥ ६ ॥

भजन १६१

॥ टेरे ॥ हे प्रभुजी काल बडा बलकारी, याको भोजन है नर नारी ।
 ब्रह्मा रुद्र इन्द्रगण खाये, खाये दैत्य हजारी, बड़े बड़े पृथ्वी के राजा
 खाये, रावण से अधिकारी ॥ प्रभु ॥ १ ॥ सूरज चांद सितारे नदियां,
 सागर पर्वत भारी । काल चक्र में सब पिस जावे अपनी अपनी
 बारी ॥ प्रभु ॥ २ ॥ जलचर नभचर वनचर थलचर, सब देही तन
 हारी । सब ही प्राणी काल के मुख में, घूम रहे रात दिनारी ॥
 प्रभु ॥ ३ ॥ नाम तुम्हारा अमर निरंजन काल पास भयखारी ।
 मुक्तानन्द कहे जीव नहीं मरता, कर्म भोग भोगारी ॥ प्रभु ॥ ४ ॥

भजन १६२

॥ टेरे ॥ अरे तैने कुछ भी नहीं जाना, तेरे धोले हो गये बाल, मौत
 का है ये परवाना ।

कुत्ता कब्बा भुडकर्मों और सुकर तन धार, मल खायो मल में रयो,
 अब तो विषय विसार, जला धन वन के परवाना ॥ अरे ॥ १ ॥
 उलटो लटकियो गर्भ में किया वहां रज पान । सब ने दारुण दुख
 सयो, जाने सकल जहान, मनुष तन है मुशकिल पाना ॥ अरे ॥ २ ॥

बाहार आयो नर्कते, मल लिपटियो सब घात, चेत हीन बेवश,
 रोवत और चिलात । जुधा से पिडीत मुख बाना ॥ अरे ॥ ३ ॥
 सरदी गरमी रोग में, प्रसित हुवा हर बार, मक्खी मछर दंसने, किया
 देह सब छार, नहीं कुछ सकता बतलाना ॥ अरे ॥ ४ ॥ कूकर
 खासी सूकिया गल कन्दु कनभेड़ । रीरो के व्याकुल हुवा, जो दिया
 किसी ने छेड़, शीतला से हो गया काना ॥ अरे ॥ ५ ॥ बालपन गयो
 खेल मे तरुण हुवा अब लाल, धर्म, कर्म त्यागन कियो, लगीयो नयो
 जंजाल, देख नारी हुवा मस्ताना ॥ अरे ॥ ६ ॥ लाज शरम सब
 तज दई, तजेमात और तात । काले सर की कामनी; धरियो शीश
 पर हाथ, उल्टा उन्हें देने लगा ताना ॥ अरे ॥ ७ ॥ भूषण व्यसन-
 मकान की, पुत्री पुत्र विवाह । नाम होय संसार में लागी धन की
 चाह, कपट छल पाप कियो नाना ॥ अरे ॥ ८ ॥ पुरुषार्थ थकतो
 गयो करे न कोई स्नेह । जैसे बूढ़ बैल को, कोन बांध भुसदे, जगत
 सारे को बिसराना ॥ अरे ॥ ९ ॥ बहुत गई थोड़ी रही, कर ईश्वर से
 हेत । गुप्ता फिर पछतायगा, चिड़या चुग गई खेत । समय फिर हाथ
 नहीं आना ॥ अरे ॥ १० ॥

भजन १६३

॥ दोहा ॥ वही सूर वही वीर है वही नर बलवान ।

जो इन दश को जीतकर बस में करता प्रान ॥

॥ टेर ॥ जिन दश इन्द्रियो को जीता, है मर्द वही मरदाना ।

प्रबल प्रचड इन्हीं की शक्ति, नहीं करने दे प्रभु की भक्ति, बिन मारे
 नहीं होवे मुक्ति, सुनो मेरे तुम मीता, जय इन से कठिन है पाना
 ॥ है मरद ॥ १ ॥ किया कैद इसने जग सारा, बजे फतेह का नित
 नकारा, इन से लड़े शूर सो भारा, भारी-किया फजीता, कोई कैसा
 ही हो दाना ॥ है मरद ॥ २ ॥ ज्ञान खडग ले अपने हाथ मे,
 विद्या बुद्धि मित्र साथ मे, लगा रहे फिर इनकी घात में, वोही करे
 नर चीता, नहीं कुछ हो दुख उठाना ॥ है मरद ॥ ३ ॥ जिसने किया

योग का साधन, वश में हो गया है उस का मन, कहे मुरारी उत्तम
वो जन, ब्रह्म ज्ञान जल पीता, ऐसा सज्ज शास्त्र बखाना ॥ है मरद ॥ १॥

भजन १६४

॥ टेर ॥ मन कहाँ कहाँ तू डोलता, ईश्वर की ओर नहीं जाता ।
जीते जी का है सब नाता, मात पिता द्वारा सुत भ्राता, अन्त समय
कोई काम न आता, निकल जाय जब बोलता, जिन में तू चित
लगाता ॥ ईश्वर ॥ १ ॥ रात दिन छल कपट करे तू, फिर कुटम्ब
का पेट भरे तू, जाय अकेला नरक पड़े तू, क्यों अब कमती तोलता,
यहाँ विरथा पाप कमाता ॥ ईश्वर ॥ २ ॥ अपना खूब समझता
स्वार्थ, कीना नहीं कभी परस्परथ, कोई न जावे साथ पदार्थ, क्यों
नहीं आँखें खोलता, क्यों वृथा जन्म गंवाता ॥ ईश्वर ॥ ३ ॥ बिन
हाकिम नहीं न्याय चुकावे, रिशवत ले लेकर तू खावे कहे मुरारी
सुख नहीं पावे, अमृत में विष घोलता, तू अब क्या मोज उढाता
॥ ईश्वर ॥ ४ ॥

भजन १६५

॥ दोहा ॥ मनको अपने मार ले करके योगाभ्यास ।

जिससे सारी इन्द्रियां, यनी रहे निज दाम ।

॥ टेर ॥ मन कहा नहीं तू मानता, बहुभांति तुझे समझाया ।

विषय भोग में तू फंस फसकर, आयु खोवे है हस हंसकर, हिंसा
करे कमर कस कसकर, छाई क्या अज्ञानता, नहीं ईश्वर का गुन
गाया ॥ बहु ॥ १ ॥ निशदिन भूँठ अरे तू बोले, भगा कुमारग मे
नित डोले, मद में आँख नहीं तू खोले, लंथी चादर तानता क्या
अन्धकार अब छाया ॥ बहु ॥ २ ॥ काम क्रोधने तुझे दबाया, लोभ
मोह के वश में आया, नहीं ध्यान प्रभु में लाया, फिरे काक तू
ज्ञानता, क्या तूने नफा उठाया ॥ बहु ॥ ३ ॥ जगत दुख का तुम
जानो घर, हस में सुख मिले नहीं छिन भर, कहे मुरारी जावेगा र,
सार भजन जो जानता, आनंद उसीने पाया ॥ बहु ॥ ४ ॥

भजन १६६

॥ दोहा ॥ विषय भोग संसार के, है सब दुख के मूल ।

इन में फंसकर ईश को मत मूर्ख तू भूल ॥

॥ टेरे ॥ पड़ा लोभ मोह के जाल में नर आयु क्यो खोता है ।

यह जग जान रैने का सुपना, जिसको कहता अपना अपना, भूल गया ईश्वर का जपना । फंसा हुआ धन माल में, क्या सुख की नींद सोता है ॥ नर ॥ १ ॥ चले अकब बन छैल छबीला अन्त समय सब हो जाये दीला, काम न आवे कुटुम्ब कबीला, फूला जिनके खयाल में, कोई साथ नहीं हाता है ॥ नर ॥ २ ॥ अब क्यो सिर धुन धुन पछतावे, कुछ नहीं तेरी पार बसावे, चूका पहली चाल में, क्या खड़ा खड़ा रोता है ॥ नर ॥ ३ ॥ समझ सोचकर कदम उठाना, मुशकिल मानुष जन्म का पाना, कहे मुरारी जो हो दाना, भज प्रभू को हर बार म क्यो पाप बीज बोता है ।

भजन १६७

॥ टेरे ॥ ऐसा शरीर बार बार तू न पावेगा, गुजरा हुआ वक्त फिर नहीं हाथ आवेगा ।

सुत नारी बन्धु यार ये साथी सराय के, इन में से बता कौन तेरे साथ जावेगा ॥ ऐसा ॥ १ ॥ सोता है पडा नींद में गाफिल तू बेखबर, लुट जावेगा तू यार फिर अफसोस खावेगा ॥ ऐसा ॥ २ ॥ मद् मोह लोभ काम में निकाम क्यो हुवा, इस देह के गुमान में तू गम उठायेगा ॥ ऐसा ॥ ३ ॥ रह जायगा सब माल खजाना पड़ा यहीं, आखिर में एक धर्म तेरे साथ जावेगा ॥ ऐसा ॥ ४ ॥ करने उपाय लाख मगर रह नहीं सकता, जिस दिन तुम्हें वो काल आकर दबावेगा ॥ ऐसा ॥ ५ ॥ अफवाज असफ फिल की ले कोट छोड़कर एक दिन तू इसी जहान से अकेला जावेगा ॥ ऐसा ॥ ६ ॥ बलदेव कर तू में ल उस मालिक जहान से, बेशक वो तुम्हें मोत के मुह से बचावेगा ॥ ऐसा ॥ ७ ॥

भजन १६८

॥ टेरे ॥ खबर नहीं जग में एक पल की ।

प्रभु सुमरले सुमरिन करले को जाने है कलकी, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, माया छलबल की ॥ खबर ॥ १ ॥ पाप की गठरी सिर पर भारी, क्योंकर होवे हलकी, अपनी करनी पार उतरनी, और न करनी क्या फल की ॥ खबर ॥ २ ॥ भवसागर में आय फसे हैं, थाह नहीं है जल की, जब लग साधु मदी के अन्द्र, शोभा मडल की ॥ खबर ॥ ३ ॥ प्राण पुरुष जब निकल जावेंगे, माटी जंगल की । कहत कबीर सुनो भाई साधो, दुनिया भतलव की ॥ खबर ॥ ४ ॥

भजन १६९

॥ टेरे ॥ मुखड़ा क्या देखे दरपन मे, तेरे दया धर्म नहीं मन मे ।

जब तक फूल रही फूलवारी, बास रही फूलन मे । एक दिन ऐसा होयगा प्राणी, खाक उड़ेगी तन मे ॥ मुखड़ा ॥ १ ॥ गहरी नदिया नाब पुरानी, उतर जाय एक छिन मे । धर्मी धर्मी पार उतर गये, पापी रहे अधम में ॥ मुखड़ा ॥ २ ॥ चंदन अगर कसूंबी जामा, सोवत गोरे तन में । भर यौवन डूंगर का पानी, उतर जाय एक छिन में ॥ मुखड़ा ॥ ३ ॥ कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, सूरत लगी इस धन में । दस दरवाजे बंद भये जब, रह गई मन की मन में ॥ मुखड़ा ॥ ४ ॥ नाना दुख पिता माता ने पाये तेरे जनन में । कर सेवा जीते जी उन की, फिर क्या प्राण गमन में ॥ मुखड़ा ॥ ५ ॥ जिस जीवा ने वेद पढ़ा नहीं सोहे वृथा बदन में । जो नहीं करे मधुर संभासन गिन ये उसे व्यसन में ॥ मुखड़ा ॥ ६ ॥ पगडी बांधत पेच सवारत तेल मले अंगन में । कहत कबीर सुनो भाई साधो, काया लड़ेगी रन में ॥ मुखड़ा ॥ ७ ॥

भजन १७०

॥ टेरे ॥ जीना दिन चार का रे मन मूर्ख क्यों फिरे मसताना । मंदिर महल अदारी मांडी, नकदी माल खजाना । जिस दिन कूंच

करेगा मूर्ख. सब कुछ हो वेगाना ॥ जीना ॥ १ ॥ कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, बन बैठा धनवाना । साथ न जावे फूटी कोड़ी, निकल जाय जब प्राणा ॥ जीना ॥ २ ॥ राम गये और रावेण चले गये बाली अरु हनुमाना । राव युधिष्ठिर दुरयोधन और भीमसेन बलवाना ॥ जीना ॥ ३ ॥ अपने आपको बडा जानकर, क्यों करता अभिमाना । तेरे जैसे लाखों चले गये तू किस का महिमाना ॥ जीना ॥ ४ ॥ मान ले शिक्षा खन्नादास की, जो चाहे कल्याणा । परमार्थ और नित्य कर्म में, दे यतीमो को दाना ॥ जीना ॥ ५ ॥

भजन १७१

॥ टेर ॥ प्रभु सुमरिन करले मेरे मना, बीती जात उमर हरिनाम बिना । पन्थी पख बिना, हस्ती दन्त बिना, नारी तो देखो भला कंथ बिना, वेश्या को पुत्र पिता बिन होनी, जैसे प्राणी हरिनाम बिना ॥ तू सुम ॥ १ ॥ धनुष तीर बिन, कूप नीर बिन, मंदिर सूनी दीपक बिना, फल बिन एक सरवर सूनी, जैसे ही प्राणी हरिनाम बिना ॥ तू सुम ॥ २ ॥ देह नैन बिन, रैन चंद्र बिन, धरती तो सूनी भला मेघ बिना । वेद विहीनी पंडित सूनी, जैसे ही प्राणी हरिनाम बिना ॥ तू सुम ॥ ३ ॥ काम क्रोध मद लोभ विसारी, ईर्षा तो त्यागो भला सन्त जना, कहे गंगसा सुन अकबरजी, इस युग मे कोई नहीं अपना ॥ तू सुम ॥ ४ ॥

भजन १७२

टेर—जपता क्यों नहीं रे हरि नाम, तुझे कोड़ी लगे ना छदाम । नर देही सुमरिन को दीनी, बिन सुमरियां बेकाम, शीश दिये प्रमुजी को नवन को, मुख दीना ले नाम ॥ जपता ॥ १ ॥ दांत दिया है मुख की शोभा, जीभ दई भज राम । पैर दिये बन्दा तीर्थ करने को, हाथ दिया दे दान ॥ जपता ॥ २ ॥ आंख दई दर्शन करने को, कान दिया सुन ज्ञान । तुलसीदास भजो भगवाना, कृपा करो भगवान ॥ जपता ॥ ३ ॥

भजन १७३

टेर—तेरी काया मिल जावेगी रेत में, क्यों मैं के बोझ मरे है ।
 मारी मारी करती डोले, अन्धो भयो नैत्र नहीं खोले । काना से तू
 हो रयो बहरो, रहना बहुत सचेत से, सिर ऊपर काल फिरे है
 ॥क्यों॥१॥ जब लग तेरी मैं नहीं मिटे, तब तक गैल कभी नहीं छूटे ।
 वहां जम तेरा सिर पीटे, खड़ा रहे गमसान मे, करनी का डंड भरे
 है ॥क्यों॥२॥ मैं की पोट धरी सिर ऊपर, जैसे गूणां लदां खचर पर,
 लेजा पूछेगा उस घर पर, रहा कुटम्ब के हेत में, वहां सभाल करे
 है ॥क्यों॥३॥ मेरी मेरी कितना कर गया, जोड़ जोड़ माया नै धर
 गया, काल बली जब उसको मिल गया, चिड़ियां चुग लई खेत नं,
 ऊमर ने काल चरे है ॥क्यों॥४॥ चित्र गुप्त की कलम बहत है, उसमें
 फरक रती न रहत है, ब्रह्मानन्द यो हेला देत है, प्रभु से ध्यान
 लगाय के, सत्संग से नाव तिरे है ॥क्यों॥५॥

भजन १७४ (राग असावरी)

टेर—ममता तू न गई मेरे मन ते ।

पाके केश जन्म के साथी, लाज गई लोकन्ते । कर थाके कर कम्पन
 लागे, उयोति गई नेनन ते ॥ममता॥१॥ सरवन वचन सुत्तत काहू के
 बल गये सब इन्द्रियन ते । टूटे दसन, वचन नहीं आवत, शोभा
 गई मुखन ते ॥ ममता ॥ २ ॥ कफ पित वात कठ पर बोले, सुत
 ही बुलावत करते । भाई बन्धु सब परम पियारे, नारी निकालत
 घरते ॥ममता॥३॥ जैसे शशी मडल विश्व छाई, छूटे न कोटि
 जतन से, तुलसीदास बली जाऊं चरण पे, लोभ पराये धन ते
 ॥ममता॥४॥

भजन १७५ (राग विहाग)

टेर—हे मन गुमानी चेत कर, हरि को सुमर,
 हरि को सुमर, बीती जाती है उमर ।

नारी नर की खान है, जिस पर जगत गलतान है, इसका मजा इस आन है ॥हरि॥१॥ सुत बन्धु माता और पिता, कुनवा कबीला आसना सब सुख के साथी है तेरे ॥हरि॥२॥ दुनियां कही क्या माल है, माया का फैला जाल है, इस पर तू क्यों खुश हाल है ॥हरि॥३॥ कहना मेरा मान ले तू, हरगिज न कर अभिमान तू, एक ईश्वर को सच्चा जान तू ॥हरि॥४॥

भजन १७६

टेर—तू क्या देख दिवाना हुवा रे ।

माया बनी सार की सूली, नारी नरक का कूवा रे ॥तू॥१॥ हाड चाम का बना पीजरा ता मे मनवा सूवा रे ॥तू॥२॥ भाई बन्धु और कुटुम्ब घनेरा, तिन मे पच पच मूवा रे ॥तू॥३॥ कहत कबीर सुनो भाई साधो, हार चला जग जूवा रे ॥तू॥४॥

भजन १७७ (राग काफ़ी)

टेर—नर समझत नही रे अनारी ।

गर्भवास मे उलटो लटक्यो, पायो यो दुख अति भारी । जो प्रभु मैं अबके बाहिर निकसूं, तेरो भजन करुं हर बारी । पलक नही देऊ बिसारी ॥नर॥१॥ जन्म होत माया लिपटायो, भूल गये सुध सारी, भक्ति भाव चित मे ना राख्यो, ऐसी कुमति बिचारी, जन्म की कर दी खुव्वारी ॥नर॥२॥ आया था कुछ लाभ करन को, गांठ की पूंजी हारी । सोदा करले हरि नाम का आवो शरण गिरधारी, भरोसा जिनका है भारी ॥नर॥३॥ श्री सत्गुरु तोय नित समझावे, वे है सबके हितकारी । आप नरे औरो की तारे, कहे हरिदास पुकारी, उमर यों ही मुफ्त गुजारी ॥नर॥४॥

भजन १७८ (राग धन सारी)

॥टेर॥ हरि बिन औरन कोई अपना प्रभू बिन औरन कोई रे ।
मात पिता सुत बन्धु कुटुम्ब सब स्वार्थ के ही हीरे रे ।

या काया को भोग बहुत दे, मरदन कर कर सोई रे, सो भी छूटन
नेकन खस की, संगत चालन सोई रे ॥ हरि ॥ १ ॥ घर की नारी
परम पियारी, तन में नाही होईरे । जीवत कहती संग चलू गी डर-
पन लागी सोई रे ॥ हरि ॥ २ ॥ जो कहीये ये द्रव्य आपनो, उन
उज्वल मती खोह रे, आवत कष्ट रखत रजवारी, चलत प्रान ले
जोई रे ॥ हरि ॥ ३ ॥ इस जग में कोई हितून दीखे, मैं समझाऊं
तोई रे । चरणदास सुखदेव कहत हैं, सुन लीजो सब
कोई रे ॥ हरि ॥ ४ ॥

भजन १७६

॥ टेरे ॥ सुध राखो वा दिन की, तुम कुछ सुध राखो वा दिन कीरे,
जा दिन तेरी देह छुटेगी ठोर बसेगी वन कीरे ।

जिनके सग बहुत सुख कीन्हे, वोह तेरा मुख ढक होंगे न्यारेंरे, जम
के त्रास होय यहु भाँति, कौन छुड़ावन हारे रे ॥ सुध ॥ १ ॥ दहली
तक तेरी नारी चलेगी, बड़ी पोत लों माईरे । मरघट तक के संग
बराती, हंस अकेला जाईरे ॥ सुध ॥ २ ॥ द्रव्य रहे और महल पड़े
रहे, पूत रहे घर माईरे । जिसके काज पचे दिन राती, सो सग
चालत नाही रे ॥ सुध ॥ ३ ॥ देव पितर तेरे काम न आवे ।
जिनकी सेवा चित लाईरे । चरणदास सुखदेव कहत प्यारे, हरि
बिन मुक्ति पावेना पाई रे ॥ सुध ॥ ४ ॥

भजन १८०

॥ टेरे ॥ मूर्ख छोड़ वृथा अभिमान, ओसर बीत चलयो है तेरो, तू
दो दिन का महिमान ।

भूप अनेक भये पृथिवी पर, रूप तेज बलवान । कौन बच्यो इस
काल बली से, मिट गये नाम निशान ॥ मूर्ख ॥ १ ॥ धवल धाम
वन गजरथ सेना, नारी चन्द्र समान । अन्त समय सध ही को तज-
कर, जाय बसे समसान ॥ मूर्ख ॥ २ ॥ तज सत संग भ्रमत विष-
यन में, जा विधी मरघट स्वान । क्षण भर बैठ न सुमरिन कीनो,

तांसू होत कल्याण ॥ मुख ॥ ३ ॥ हे मन मूढ़ अन्त मत खोवे, कयो
हमारो मान । नारायण बृजराज कंवर से बेग लेवो पहचान
॥ मुख ॥ ४ ॥

॥ टेरे ॥ अरे दिल तू क्या खुशी करता है, तुम्हे संसार क्या करना ।
तुम्हे जंगल मे रहना है तूम्हे घर बार क्या करना ।

रहा मालोमकां किसका, जो रहेगा तेरा बाकी । यहां दो दिन का
जोना है, तूम्हे संकर क्या करना ॥ अरे ॥ १ ॥ हजारों नामवर
गुजरे नही जिनका निशां बाकी, ये दो दिन की दुनियां है, तुम्हे जर
तार क्या करना ॥ अरे ॥ २ ॥ उठाले हाथ तू सबसे, हरि से दिल
लगा अपना । तूम्हे ये लाल याकुलो के गजरे हार क्या करना ॥
अरे ॥ ३ ॥ बतन जागीर को लेकर, करेगा क्या बतातो दिल ।
लहद को याद कर अपनी, तुम्हे गुलजार क्या करना ॥ अरे ॥ ४ ॥
ये सब दो दिन के हैं साथी, मां बाप और भाई । जो मुशकिल में
नहीं साथी, उन्हें फिर प्यार क्या करना ॥ अरे ॥ ५ ॥ कुजारिस्तम
कुजाहिस्तम, कुजालुकमां कुजादारा । हमादर खाक शुद्ध पीन्हा,
तूम्हे इजिरेहार क्या करना ॥ अरे ॥ ६ ॥ महल किसका मकां
किसका, किधर जगह और तेरी, तू खुद हुशियार है ऐ दिल, तुम्हे
हुशियार क्या करना ॥ अरे ॥ ७ ॥ दिल अपना इश्क में मावुद
के रंगले बहुत पका । तूम्हे रंग रेंजीये गुल्ह अनार क्या करना ॥ ८ ॥

भजन १८२

टेरे—तरेगा तो वो ही नर, जाके हृदय बीच दर है ।

गंगा के न्हाये से जो पापी नर तर जाय, मीन क्यों न तर जाय
जाको गंग बीच घर है ॥तरेगा॥१॥ शंख के बजाये से जो पापी नर
तर जाय, श्वान क्यों न तरे जाको शख को सो स्वर है ॥तरेगा॥२॥
भस्मी के रमाये से जो पापी नर तर जाय, गद्हा क्यों न तरे, जो
लोटे दिन भर है ॥तरेगा॥३॥ जटा के बढ़ाये से जो पापी नर तर
जाय, मोर क्यों न तरे, जाके लम्बे २ पैर है ॥तरेगा॥४॥ तिलक

के लगाये से जो पापी नर तर जाय, हाथी क्यों न तरे, जाके लगे सिद्धर है ॥तरेगा॥५॥ अग्नि के तपाये से जो पापी नर तर जाय, भुरजी क्यों न तरे, भोके दिन भर भाड़ है ॥तरेगा॥६॥

भजन १८३

टेर—जगदीश यह वितय है, जब प्रान तन से निकले । प्रिय देश रटते यह प्रान तन से निकले । भारत वसुन्धरा पर सुख शील संयुता पर, सुची सस्य सामला पर, यह प्रान तन से निकले ॥जग॥१॥ देशाभिमान धरते, जातीय गान करते । निज देश व्याधि हरते, यह प्रान तन से निकले, ॥जग॥२॥ भारत का चित्र सुन्दर, युग नेत्र के निकट हो, श्री जाह्नवी का तट हो, जब प्रान तन से निकले ॥जग॥३॥ दुख दैत्य पै विजय हो, अज्ञान रात्रि क्षय हो । भारत समीन्द्र मय हो, जब प्रान तन से निकले ॥जग॥५॥ उद्योग सत्य, सुख हो, आलस्य हो न दुख हो, सबका प्रसन्न मुख हो जब प्रान तन से निकले ॥जग॥५॥

भजन १८४

टेर—तेरा ओ३म् नाम मुझे धारा, तुम हो सखा पिता माता । बाग बगीचो में कुवे तलावो में, तेरी प्रभुता है करता, दीखे दीखे है अपरम्पारा ॥तेरा॥१॥ जीव चराचर गुण तेरे गावें, हम है अनाथ, अय दीनानाथ, नहीं तुम बिन हमारा गुजारा ॥तेरा॥२॥ मैं लब लीन हूँ तेरी भक्ति में, दर्शन दिखा, दुख सब मिटा, मुक्त दीनन को तेरा सहारा ॥तेरा॥२॥ परदेशी बन जगत हितैषी, प्रभु गुण गा, शुभ कर्म कमा, जिससे होवे तेरा निसतारा ॥तेरा॥४॥

भजन १८५

टेर—हे आनन्द घन चहुं और सुख की वर्षा करो । पाप ताप सब दूर नसावो, करी कृपा दग कोर ॥सुख॥१॥ दूर करो सब ज्योति से अपनी, मोह तिमिर घन घोर ॥सुख॥२॥ सुरभित शीतल मदन पवन हो, प्रमुदित हो मन मोर ॥सुख॥३॥

भजन १८६

टेर—नर तेरा चोला रतन अनमोला, विरथा खोवे मतीना ।
 प्यारे रे देह दीनी तूफे नर की, तूने भक्ति करी नहीं प्रभु की, सुध
 बुध भूल गथा उस घर की, नीद मे सोवे मतीना ॥नर॥१॥ नर तेर
 पहले की है करनी, तुझको यहां पर पड़ेगी भरनी, चारो वेदो मे एक
 वरणी, विपत में रोवे मतीना ॥नर॥२॥ देखे ऋषि मुनि फिकर मे,
 फस गये माया के चकर में, किशती आन लगी टकर मे, किसी को
 डुवोये मतीना ॥नर॥३॥ हो गये हरिश्चन्द्र से, दानी बिक गये तीनों ही
 प्राणी, जिन्होने भरा नीच घर पानी, सत को छोड़े मतीना ॥नर॥४॥
 बट्टी बांध कमर कस करडा, ये सब भूठ जगत का रगड़ा, कोशीश
 करो मोक्ष का पगड़ा, कायर होवे मतीना ॥नर॥५॥

भजन १८७

टेर—जय जगदाधार, जीवन प्राण हमारे ।
 अज्ञान महातम टारो, विज्ञान प्रकाश पसारो करावो पर उपकार
 ॥जीवन॥१॥ आलस्य असुर को मारो, पुनि पातक पुंज पजारो,
 हरो भ्रम जनित विचार ॥जीवन॥२॥ भवसागर पार उतारो, सुध
 लेऊ देऊ फल चारो, दया निधि परम उदार ॥जीवन॥३॥ शिव शंकर
 नाम तुम्हारो, सब संकट काटन हारो, जपे जन बारम्बार
 ॥जीवन॥४॥

भजन १८८

टेर—शरण अपनी मे रख लोजे, दयामय दास हूँ तेरा ।
 तुम्हे तज कर कहां जाऊ, हितू कोई नहीं मेरा ।
 भटकता हूँ मैं मुदत से, नहीं विश्राम पाता हूँ, दया की दृष्टि से देखो
 नहीं तो डूबता बेड़ा ॥शरण॥१॥ सताया राग द्वेषो ने, तपाया तीन
 तापो ने, जलाया जन्म मृत्यु ने किया तंग हाल है मेरा ॥शरण॥२॥
 मेरा दुख मेटने वाला, सिवा तेरे न है कोई, शरण में आ गिरा अ
 तो भरोसा नाथ है तेरा ॥शरण॥३॥ क्षमा अपराध कर मेरे, फकत

एक आश है तेरी, दया बलदेव पर करके, बनाले नाथ निज चेरा
॥शरण॥४॥

भजन १८६

टेर—नैया डोल रही मङ्गधार, प्रभुजी आन लगावो पार ।
तेरी माया अपरम्पार, पावे न कोई पार । बड़े बड़े योगी और
मुनिवर, सब ही गये है हार ॥प्रभुजी॥१॥ काम क्रोध ने मुझको
वेरा, हुवा बहुत लाचार, अब तो अपनी शरण मे लेवो, होवे वेड़ा
पार ॥प्रभु॥२॥ सत्य ज्ञान बिन अंध सभ डोले, करे अमित आचार ।
तुमरी दया बिन को समरथ है, करे दीनन को पार ॥प्रभु॥३॥ धर्म
कर्म कुछ भी नहीं कीना, कैसे होऊंगा पार । है भरोसा केवल तेरा,
तुमही करो उद्धार ॥प्रभु॥४॥ तुम ही मेरे मात-पिता हो, तुम ही
प्राणाधार । राम के वेड़े को प्रभुजी तुम ही करोगे पार ॥प्रभु॥५॥

भजन १६०

टेर—जगत मे सबसे प्यारा ओ३म् ।

भक्ति भाव भरपूर हृदय से पूज्य हमारा ओ३म्, मात-पिता गुरु
नृप से बढ़ कर पालनहारा ओ३म् ॥जगत॥१॥ रोगी मूर्ख निर्वल
निर्धन, सकल सहारा ओ३म् भवनिधि मंजित सब नावो का खेवन
हारा ओ३म् ॥जगत॥२॥ पाप सभी हैं डूबन हारे, तारन हारा
ओ३म्, पुण्य विनाशक सब दुष्टो का खेवन हारा ओ३म् ॥जगत॥
॥ ३ ॥ सब मे रहता सब की सुनता, सबसे न्यारा ओ३म् अक्षय
शकर निर्भय भय हर भर भर तारा ओ३म् ॥जगत॥४॥ पल खल
प्रियतम अनुभम शिवतम, सुख भंडारा ओ३म्, योगी का बन्धन से
करता सुख भंडारा ओ३म् ॥जगत॥५॥

भजन १६१

टेर—भज ओ३म् नाम सुखदाई, अन्त समय में होगा सहाई ।
मात पिता भाई सुत बन्धु, संग नहीं कोई जाई ।

विषय भोग मे फंस मन मूर्ख, अन्तकाल पछताई, धन दौलत तेरे संग न जावे, सब ठाठ पड़ा रह जाई ॥भज॥१॥ यह दुनिया है अजब तमाशा, रही करनी का फल पाई, पल मे तोला पल मे मासा, रती घटे नही राई ॥भज॥२॥ मुट्टी बाधे आया जगत मे, हाथ पसारे चला जाई, जैसे पछी लेत बसेरा, भोर भई उड जाई ॥भज॥३॥ वकत गया फिर हाथ न आवे, फिर पीछे पछनाई, संग तेरे कुछ भी नही जावे, हरि नाम सुमर ले भाई ॥भज॥४॥ मनुष्य जन्म असौलक पाय कर, वृथा न इसको गमाई, बड़े बड़े राजा आये जगत मे, लिया रे काल ने खाई ॥भज॥५॥

भजन १६२

टेर—प्रभुजी क्या तेरे भेट करुं कुछ नही है पास हमारे ।
खाली हाथ मै यहां पर आया, नही साथ कुछ मेरे लाया, जग मे नही पदार्थ पाया सन्मुख आप करुं ॥प्रभुजी॥१॥ मूर्ख तुम्हको भोग लगावे, जल देवे और वस्त्र चढ़ावे, फिर अपना अहसान बतावे, कहते हुए डरू ॥प्रभुजी॥२॥ जीवन मृत्य पदार्थ जो है, दिये हुये आपके ही सो हैं, अपने कहे मूर्ख नर वोह हैं, मै तो शरण पडुं ॥प्रभु॥३॥ बड़ा यहा पर धोका खाया, प्रकृति से चित लगाया, शरमा नही ईश गुण गाया, इससे दुख भरुं ॥प्रभुजी॥४॥

भजन १६३

॥ टेर ॥ जिस की तूं फिरे तलाश मे, वो सदा पास रहता है ।
घट घट व्यापक अन्तर्यामी, सकल जगत का जो है स्वामी, वेदो मे नित कहे नमामी, सोई पवन आकाश मे, कोई उसे नही गहता है ॥ वो ॥ १ ॥ सब मे वो उस मे सब जग है, उसे नही कोई चीज अलग है, यही ऋषि मुनियो का मग है, सूर्य चंद्र प्रकाश मे. यही वेद वचन कहता है ॥ वो ॥ २ ॥ मूर्ख वृथा डूंड मचावे, घूम घूम कर उमर गमावे । नहीं कही ईश्वर को पावे, काशी और कैलाश मे, क्यो नाहक तू दुख सहता है ॥ वो ॥ ३ ॥ जब तक तूमे ज्ञान नहीं

होवे, तब तक तू गफलत में सोवे । वृथा समय मुरारी खोवे, तू
फिरे मुक्ति की आश में, भवसागर में बहता है ॥ वो ॥ ४ ॥

भजन १६४

शरण प्रभुजी की आवोरे, यही समय है प्यारो ।

आवो हरी गुण गावो रे, यही समय है प्यारो ॥ टेरे ॥

ईर्ष्या द्वेष कपट को त्यागो, सत्य में चित्त लगावो रे ॥ यही ॥ १ ॥

उदय हुवा ओ३म नाम का भानु आवो दर्शन पावोरे ॥ यही ॥ २ ॥

भ्रातृ भाव से मिलो परस्पर, मत ना क्रोध बढ़ावो रे ॥ यही ॥ ३ ॥

पान करो इस अमृत रस को पीके अमर हो जावो रे ॥ यही ॥ ४ ॥

हरि की भक्ति बिना नहीं मुक्ति, दृढ़ विश्वास जमावो रे ॥ यही ॥ ५ ॥

मनुष्य जन्म अभोलक पायकर, वृथा न इसको गमावो रे ॥ यही ॥ ६ ॥

कर लो नाम हरि का सुमरिज, अन्तः को ना पछतावो रे ॥ यही ॥ ७ ॥

धन्य दया जो सब को पाले, मत उसको विसरावो रे ॥ यही ॥ ८ ॥

छोटे बड़े सब मिलकर खुशी से, गुण ईश्वर के गावो रे ॥ यही ॥ ९ ॥

भजन १६५ (धर्म के दस लक्षण)

॥ टेरे ॥ दस चिन्ह धर्म के भाई महाराज मनु बतलाते ।

प्रथम तुम धीरज को धारो, दूजे सब के काज सुधारो । तीजे मन

अपने को भारो, यही उपदेश सुनाते ॥ महाराज ॥ १ ॥ चौथे तज

चोरी का पैसा, मिटे सकल नर तेरा कलेशा । रहो पांचवे शुद्ध

हमेशा, ऋषि मुनि यही गाते ॥ महाराज ॥ २ ॥ छठे इन्द्री बश में

करना, सप्तम चित्त विचार न धरना, अष्टम विद्या मन में भरना,

जो तुम मनुष्य कहलाते ॥ महाराज ॥ ३ ॥ नवें सत्य को धारण

कीजे, दसवें क्रोध त्याग तुम दीजे, हरि भजन मुरारी कीजे क्यों वृथा

समय गंवाते ॥ महाराज ॥ ४ ॥

भजन १६६

॥ टेरे ॥ जिस में तेरा नहीं विकाश, ऐसा कोई फूल नहीं है ।

मैंने देख लिया सब ठोर, तुझसा मिला न कोई और, सब का तू ही

है सिर मोर, इस मे कुछ भी भूल नहीं है ॥ ऐसा ॥ १ ॥ तुझ से मिलकर करुणानंद, मुनीवर पाते हैं आनंद, तेरा प्रेम सचीदानंद, किसको संगल मूल नहीं है ॥ ऐसा ॥ २ ॥ उर धर धर्म जीवनाधार, मुनिवर कहत पुकार पुकार, उसका बेड़ा होगा पार, जिसके तू प्रतिकूल नहीं है ॥ ऐसा ॥ ३ ॥ तेरा गाय गाय गुण ग्राम, करनी करता है निशकाम, मन में है संकर सुखधाम, तेरे संशय शूल नहीं है ॥ ऐसा ॥ ४ ॥

भजन १६७

अजब हैरान हूं भगवन, तुम्हे कैसे रिभाऊं मैं ।

नहीं कोई ऐसी वस्तु जिसे सेवा में लाऊं मैं ॥ टेरे ॥

भुजाये हैं न गर्दन हैं, न सीना है न पेशानी, तू है निर्लेप नारायण, कहां चदन चढाऊं मैं ॥ अजब ॥ १ ॥ तुम ही हो मूरतियो मे तुम्हीं व्यापक हो फूलो में, भला भगवान को भगवान पर कैसे चढाऊं मैं ॥ अजब ॥ २ ॥ तुम्हारी व्योति से रोशन है, सूरज चांद और तारे, महा अन्धेर है कैसा, तुम्हे दीपक दिखाऊं मैं ॥ अजब ॥ ३ ॥ लगाना भोग प्रभू तुमको, यह इक अपमान करना है, खिलाते विश्व को तुम हो, तुम्हें कैसे खिलाऊं मैं ॥ अजब ॥ ४ ॥ बड़े नादान हैं वे जन जो घड़ते आप की मूरत, बनाते विश्व को तुम हो, तुम्हे कैसे बनाऊं मैं ॥ अजब ॥ ५ ॥

भजन १६८

॥ टेरे ॥ मगन ईश्वर की भक्ती में अरे मन क्यो नहीं होता । पड़ा आलस्य में मूरख रहेगा कब तलक सोता ।

जो इच्छा है तेरे कट जाय सारे मैल पापो के, प्रभु के प्रेम जल में, क्यो नहीं अपने को तू धोता ॥ मगन ॥ १ ॥ विषय और भोग मे फंसकर, न कर बरबाद जीवन को, दमन कर चित की वृत्तियों को लगाले योग मे सोता ॥ मगन ॥ २ ॥ नहीं संसार की वस्तु, कोई भी सुख की हेतू है, वृथा इनके लिये क्यो समय अतमोल तू खोता

॥ मगन ॥ ३ ॥ धर्म ही एक ऐसा है, जो होगा अन्त में साथी । न जोरु काम आवेगी, न वेटा और कोई पोता ॥ मगन ॥ ४ ॥ भटकता जावता नाहक फिर सुख के लिये सालिग, तेरे हृदय के अन्दर ही रहे आनन्द का सोता ॥ मगन ॥ ५ ॥

भजन १९६

॥ टेर ॥ पिताजी तुम पतित उधारन हार ।

दीन कारण कंगाल के स्वामी, दुख के मोचन हार ॥ पिता ॥ १ ॥
 पतित प्रवाह भयंकर जल मे डूबत हैं मम्धार ॥ पिता ॥ २ ॥ इस जग माया जाल ब्रह्म में, सूझो न सार असार ॥ पिता ॥ ३ ॥ मृत्यु ज्ञान बिन अन्यसम डोले, करे असत्य आचार ॥ पिता ॥ ४ ॥ तुमरी दया बिन को समरथ है, कहे दीनन को पार ॥ पिता ॥ ५ ॥ अपने स्वार्थ के मव साथी, मात पिता परिवार ॥ पिता ॥ ६ ॥ हो निरास सब ओर से स्वामी, आये तेरे द्वार ॥ पिता ॥ ७ ॥ अब की वार दया कर हम पर, हो जावें भवपार ॥ पिता ॥ ८ ॥

भजन २००

॥ टेर ॥ जो प्रभु से प्रीति लगाता है, वो परमानन्द को पाता है ।
 नहीं भय वो काल से खाता है, नहीं मन में कभी घबराता है ।
 वो तेज स्वरूप हो जाता है, जराभी चमक दिखाता है । दुनिया मे सब को भाता है, वो महा पुरुष कहलाता है । उसे कोई कलेश नहीं आता है, नित निर्भय हरि गुण गाता है ॥ जो ॥ १ ॥ जो ईश्वर को विसराता है । दुनियां मे दुख उठाता है । लज्जत चन्द रोजाना पाता है, फिर अन्त समय पछताता है फिर आवागमन में जाता है, नहीं मनुष्य जन्म को पाता है ॥ जो ॥ २ ॥ खन्ने एक वो ही दाता है, जो सब को रिजक पहुंचाता है, वो ही कारण करण विधाता है, पापों से हमें बचाता है, वो सबका पिता और माता है ये वेदों में बतलाता है ॥ जो हरि ॥ ३ ॥

भजन २०१

॥ दीजो प्रभु दान अपनी हमे भक्ति का ।

हम आये शरण तुम्हारी, तुम रक्षा करो हमारी, होय सबका कल्याण ॥ अपनी ॥ १ ॥ भारत की दशा सुधारो, सबके दुखो को टारो, होय आनन्द महान ॥ अपनी ॥ २ ॥ मत करो नाथ अब देरी, होय नष्ट अविद्या मेरी, मिटे सारा अज्ञान ॥ अपनी ॥ ३ ॥ कहे वासुदेव कर जोरी, एक विन्ती सुनियो मोरी न होने पावे हान ॥ अपनी ॥ ४ ॥

भजन २०२

॥ टेर ॥ तेरे दर को छोड़ कर, किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कोन है, किसे सुनाऊं मैं ।

जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाये हैं, क्या जानूँ इस जीवन अन्दर कितने पाप कमाये हैं, हूँ शरमिन्दा आपसे क्या बतलाऊं मैं ॥ तेरे ॥ १ ॥ मेरे पाप कर्म ही तुझ से प्रीति न करने देते हैं । कभी जो चाहूँ मिलूँ आपसे, रोक मुझे ये लेते हैं, कैसे स्वामी आपके दशन पाऊं मैं ॥ तेरे ॥ २ ॥ तू है नाथ वरो का दाता, तुझसे सब वर पाते हैं । ऋषि मुनि और योगी सारे तेरा ही गुन गाते हैं, छीटा देदो ज्ञान का होश मे आऊं मैं ॥ तेरे ॥ ३ ॥ जो बीती सो बीती लेकिन बाकी उम्र सम्भालूँ मैं । चरणो मे मैं बैठ आपके, गीत प्रेम के गालूँ मैं, जीवन अपने आपका सफल बनाऊं मैं ॥ तेरे ॥ ४ ॥

भजन २०३

टेर—तेरे पूजन को भगवान्, बना मन मन्दिर आलेशान—

किसने जानी तेरी मूरत, कोन बतावे तेरी मूरत । तुम हो निराकार भगवान् ॥ बना ॥ १ ॥ किसने जानी तेरी माया, किसने भेद तुम्हारा पाया, हारे ऋषि मुनि कर प्राण ॥ बना ॥ २ ॥ तू ही जल में, तू ही थल में, तू ही बन में तू ही मन में, तेरा रूप अनूप महान ॥ बना ॥ ३ ॥

तू हर गुल मे, तू बुलबुल मे, तू हर डालन की ह० पातन मे. तू हर दिल में मूर्तिमान ॥बन॥४॥ तू ने राजा रंक बनाये, तूने भिलुक राज विठाये, तेरी लीला ईश महान ॥बन॥५॥ भूठे जग की भूठी माया, मुख इसमें क्यों भरमाया कर जीवन का कल्याण ॥बन॥६॥ माया मे चित ना फसावो. प्रेम ईश्वर से लगावो, प्रेम में बसे हुवे भगवान ॥बन॥७॥

भजन २०४

टेर—शरणागत पाल कृपाल प्रभो, हमको इक आम तुम्हारी है । तुमरे सम दूसर और कोउ नहीं, दीनन को हितकारी है । सुध लेत सदा सब जीवन की अति ही करुणा बिसतारी है । प्रतिपाल करो विन ही बदले अस कौन पिता महतारी है ॥शरण॥१॥ जब नाथ दया कर देखत है, छुटि जात बिथा संसारी है । बिसराय तुम्हे सुख चाहत है, अस कौन नादान अनारी है ॥शरण॥२॥ परवाह तिन्हे नही स्वर्गहु की, जिनको तव कीरती प्यारी है । धन ही धन है सुखदायक जो, तव प्रेम सुधा अधिकारी है ॥शरण॥३॥ सब भांति समर्थ सहायक हो, तव आश्रित बुद्धि हमारी है । 'प्रतापनारायण तो तुमरे पद पकज पै बलिहारी है ॥शरण॥४॥

भजन २०५

टेर—सोच जग इनसान तू, दुनियां मे क्यों आया है । कितना जीवन काल मे सेवा धर्म कमाया है । विधवा और अनाथो की जो पीड़ा नहीं मिटाई है, मन से अगर किसी की तूने सोची नहीं भलाई है । निश्चय करके जान ले विरथा ही जन्म गवाया है ॥सोच॥ ॥ पी पी खून गरीबो का, जो बेशक भरा खजाना है, अन्त समय मालूम है तुमको खाली हाथों जाना है । पापों के फस जाल मे अपने आप मिटाया है ॥सोच॥२॥ मन से वचन कर्म से जो तू करवाता उपकार कभी । सर को धर्म की भेट चढ़ा कर बन जाता सरदार कभी, दुनियां आती देखने, किस

माता ने जाया है ॥सोची॥१॥ होता हो जो भला किसी का, तुझ पर संकट आने से, जाति में जो जान हो जाती तेरे प्राण गमाने से । वेशक हो वेदार तू जन्म अमोलक पाया है ॥सोच॥४॥

भजन २०६

टेर—निर्वल के प्राण पुकार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे :—
श्वासो के स्वर झनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे ॥निर्वल॥१॥
आकाश हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचर में, ये मधुर बोल गुंजार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे ॥निर्वल॥२॥ जब दया दृष्टि हो जाती है, सूखी खेती हरयाती है । इस आश पै जन उच्चार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे ॥निर्वल॥३॥ सुख दुख की हमे चिन्ता ही नहीं, भय है के विश्वास न जावे कहीं, दूटे न लगा यह तार रहे जगदीश हरे जगदीश हरे ॥निर्वल॥४॥

भजन २०७

टेर—दुख दूर कर हमारा. संसार के रचैया । जल्दी से दी सहारा मझधार मे है नैया ।

चारों तरफ से हम पर गम की घटायें छाई, सुख का करो उजाला, सु प्रकाश के रचैया ॥दुख॥१॥ डूबा है जहाज मेरा, एक बारगी भंवर में, मल्लाह गुम हुए सब, कोई नहीं खिवैया ॥दुख॥२॥ इक तख्ते के सहारे, भगवन में तिर रहा हूं । ईश्वर न तुम खुदा हो, तुम हो फकत रचैया ॥दुख॥३॥ सुख के हैं सभी संगती, दुनियां के यार सारे, तेरे सिवा नहीं अब, धीरज कोई बन्धैया ॥दुख॥४॥ अब डूबने से मेरे कुछ भी कसर नहीं है, कर पार मेरा बेड़ा, पतवार के लगैया ॥दुख॥५॥ तुम बिन कोई हमारा, रक्षक नहीं है यहां पर, हूँदा जहान सारा, तुझसा नहीं खिवैया ॥दुख॥६॥ अच्छा बुरा हूँ जैसा राजी मैं राम रहता, चेरा हूँ तुम्हारा, सुध लेऊ सुध लिवैया ॥दुख॥७॥

भजन २०८

टेर—प्रेमी बन कर प्रेम से ईश्वर के गुण गाया कर, मन मन्दिर
मे गाफिल भाड़ू रोज लगाया कर ।

सोने मे तो रात गुजारी, दिन भर करता पाप रहा । इसी तरह
बरवाद तू बन्दे, करता अपने आप रहा । प्रातः समय उठ ध्यान
से सत्सगत मे जाया कर ॥प्रेमी॥१॥ नर तन का चोला पाना बच्चों
का कोई खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल
नहीं, नर तन पाने के लिये उत्तम कर्म कमाया कर ॥प्रेमी॥२॥ दुखिया
पास तेरे है कोई, तू ने भोज उडाई क्या । भूखा प्यासा पडा पडांसी,
तू ने रोटी खाई क्या । सबसे पहले पूछ कर, पीछे भोजन खाया कर
॥प्रेमी॥३॥ देख दया उस ईश्वर की, वेदों का जिसने ज्ञान दिया ।
वीर तू मन मे सोच जरा तो, कितना है कल्याण किया । सब
कर्मों को छोड कर उसका ध्यान लगाया कर ॥प्रेमी॥४॥

भजन २०९

टेर—ओ३म भू ओ३म भू ओ३म भू ओ३म भू ।

तू ही स्वार्थ बिना सब की रक्षा करे, तू ही स्वर्ग सब को समीक्षा
करे । तू ही वेदों मे कर्तव्य शिक्षा भरे, तू ही माता पिता गुरु मित्र
प्रभू ॥ओ३म॥१॥ तू ही पृथ्वी आकाश समुद्र मे है, तू ही बन
पर्वत रवि चन्द्र मे है । तू ही वसता सदा सब भवभर मे है, तू ही
जग का रचैया प्रभु ॥ओ३म॥२॥ तेरा रूप नहीं तेरा भूप नहीं, तेरा
दंड भी क्रूर स्वरूप नहीं, तेरा भक्त हूं तुझसा अनूप नहीं, तेरा दिद्रजु मे
शम्भू हे स्वयंभू ॥ओ३म॥३॥ मैं हूं तेरा ऋणी तू ने सब कुछ दिया,
मैं हूं तुझपै अर्पित मेरा प्राण हिया । मैं हूं विरही दरशन बिन
तड़फे जिया, मैं हूं जल बिन मीन परि भू ॥ओ३म॥४॥

भजन २१०

टेर—प्रभु कर दूर हमारी, सब बुरी वासना मन की ।

यह चंचल पापी नहीं रुकता, ज्ञान ध्यान की और न लगता, ईश्वर

से फिरता है लुकता, बड़ा दुष्ट है भारी, कुछ भय नहीं वेद वचन की ॥सब॥१॥ सन्ध्या करने से नहीं लगता, विषय भोग से दूना जलता, खोई है आयु सारी इच्छा नहीं करी भजन की ॥सब॥२॥ आन्त्य वस्तु से हित कीना, योगादिक का नाम न लीना । जहर पिया अमृत तज दीना माना नहीं अनारी, रही सदा लालसा धन की ॥सब॥३॥ कभी नहीं प्रभु गुण गाया, राग द्वेष मे समय गमाया, उच्च दशा से मुझे गिराया, अब है शरण तुमारी, काटो बेड़ी बंधन की ॥सब॥४॥

भजन २११

टेर—भगवन हमारा जीवन संसार के लिये हो,

यह जिन्दगी हो लेकिन उपकार के लिये हो ।

ब्रह्मचर्य के ब्रती हो, सत् धर्म मे रती हो, बस लगन जो लगी हो उपकार के लिये हो ॥भगवन॥१॥ उपदेश को अधूरा मर जाय पर न छोड़ें, पनवार बुद्धि कर मे मभधार के लिये हो ॥भगवन॥२॥ उत्तम स्वभाव मेरा दुश्मन का दिल रिक्तावे, वह देखते ही कह दे, तुम प्यार के लिये हो ॥भगवान॥३॥ मन से शरीर धन से, जग का सदा भला हो, मन से घृणा हमारे, कुविचार के लिये हो ॥भगवन॥४॥ संसार ही की सेवा, शुभ टेक है हमारी । हम आर्य्य चाहे यह तन, बलिदान क लिये हो ॥भगवन॥५॥

भजन २१२

टेर—तू आंख खोल कर देख जरा, इस जग मे तेरा कोई नहीं ! जब तक पास मे पैसा है, और शरीर मे सुख है तेरे । तब बनी बनी के सब कोई साथी, बिगड़ गई तो कोई नहीं ॥तू॥१॥ जब मोत आनकर घेरेगी, और मरने को तैयार हुवा, तब रोने वाले सब कोई है संग चलने वाला कोई नहीं ॥तू॥२॥ यह स्वार्थ जगत का नगता है, सुख चाहे तो भूट छोड़ इसे । तू प्रीति कर जग मालिक से, नहीं सिवाय उनके कोई नहीं ॥तू॥३॥ यह काम क्रोध मद लोभ

मोह, शत्रु हैं तेरे संग सदा, जब विचार करके देख लिया, सत्संग बराबर कोई नहीं ॥तू॥४॥

भजन २१३

॥ टेरे ॥ हे मनमानी दुनिया, काहे तूं लागी सोच विचार में ।
 भाकर सूँ एक भाटो लाया, लाकर नाकियो घाटे । पूजा पाती भोपा
 ले गया, मुह गडकड़ा चाटे ॥ हे मन ॥ १ ॥ माटी की गनगोर
 बनाई, पूजे लोग लुगाई । बतलाई बोले नहीं जब कुवा मे पधराई
 ॥ हे मन ॥ २ ॥ बो ही पीतल हाथां याथे, वोहो पीतल पगा । उसी
 पीतल का देव बनाया मारे वेटा ठगा ॥ हेमन ॥ ३ ॥ भेरुं आगे
 वेटा मांगे, अजियासुतरे साटे । अपणा पूत जीवावण खातिर गला
 पराया काटे ॥ हेमन ॥ ४ ॥ बीजासन की पातल पाड़ी, दोबड़ रात
 जगाई । काल पड़ियो जब वेचर खाई, कटे गई सकलाई ॥ हेमन
 ॥ ५ ॥ तुलसी सालिग का विवाह रचाकर, पूरा नेग करावे ।
 ढोलिया बरतन सिरख पस्थरना, माल फोगटिया ले जावे ॥ हेमन ॥
 ६ ॥ बालकृष्ण को रूप बताकर, छपन भोग लगावे । श्री नाथ ने
 तालो देकर, माल भमकरा लावे ॥ हे मन ॥ ७ ॥ शिव पारवती रूप
 बनाकर गुमलिग पुजवावे । वं वं हर हर करके गांजा भांग
 उड़ावे ॥ हेमन ॥ ८ ॥ निराकार करतार भूलिया, भूल गया श्रुति-
 वान । भाटा माही फिरयो भटकता, कब होवे कल्याण ॥ हेमन ॥९॥
 पंच यज्ञ को करनो सिखो, वर्णाश्रमनेधार । वेद शास्त्र थे पढ़ो
 पढ़ावो, तव होमी उधार ॥ हेमन ॥ १० ॥ कैवे है श्रीसाय देश में
 वैदिक धर्म पसारो । अंड बंड पाखण्ड ने थे खड बंड करड़ारो
 ॥ हेमन ॥ ११ ॥

भजन २१४ (उपदेशक वा सभासद को धन्यवाद देना)

॥ दोहा ॥ करुं नमस्ते सब को बीच सभा के आज ।

तरुण वृद्ध बालक यति रहे या जो गाज ।

॥ टेरे ॥ अति दीन जानकर लीजियो मेरी सज्जनो सभी नमस्ते ।

धन्य धन्य प्रभु की प्रभुताई, धन्य धन्य स्वामीजी को भाई। जिन बिसरी बिद्या पुनि फौलाई, अब विद्या रस को पीजियो, नही फिरोगे यार तरस्ते ॥ मेरी ॥ १ ॥ धन्य धन्य है पण्डितजी को अति उपदेश सुनायो जिसको। भ्रम दूर कर दियो सबी को, धन्यवाद सब दीजियो जिससे चले धर्म के रस्ते ॥ मेरी ॥ २ ॥ धन्य धन्य है इन पुरुषन को, कष्ट उठाकर आये तन को। श्रवण किया जो व्याख्यान को, प्रभु तीक्ष्ण बुद्धि दीजिये हो जाय सभी सुरस्ते ॥ मेरी ॥ ३ ॥ धन्य भाग है इस स्थान के, जहां बिचारे नित ज्ञान को। होती रहे सतसंग प्रातः साम के, प्रभु सब को सुमारग कीजिये, नही चले कभी कुरस्ते ॥ मेरी ॥ ४ ॥

(प्रातः समय में गाने की प्रभातियां वा भजन स्तुति)

भजन २१५ (प्रभाति)

॥ टेरे ॥ उठ जाग मुमाफिर भोर भाई अब रैन कहा जो सोवत है। जो सोवत है सा खोवत है जो जागत है सो पावत है। कई बरसो से सोवत है, अब होस मे क्यो नहीं होवत है। टुक नीद से आंखे खोल जरा, और अपने ईश से ध्यान लगा ॥ उठ ॥ १ ॥ यह प्रीति करन की रीति नही, सब जागत है तू सोवत है। जो कल करना सो आज करले, जो आज करना सो अब करले ॥ उठ ॥ २ ॥ यह ओसर बीता जाता है, जो नाय करे पछतावन है। जब चिड़ियो ने चुग खेन लिपा, फिर पछताये क्या होवत है ॥ उठ ॥ ३ ॥ नादान भुगत करनी का फल, ऐ पापी पाप मे, चैन कहाँ। जब पाप को गठनी शीसधरी, फिर सीस पकड क्या रोवत है ॥ उठ ॥ ४ ॥

भजन २१६

टेरे—जप ईश्वर को, जप ईश्वर को, आलस्य ने क्यो घेरा रे जीवड़े। कहा गये चक्रवर्ती राजे, जिनके बजे थे चहुँ दिशी बाजे, काल का सिर पर बादल गाजे। यह जग रैन बसेरा रे जीवड़े ॥ जप ॥ १ ॥ कीनी

न तूने कोई भलाई, स्याही गई रे सफेदी आई, वृद्ध भया बीती तरु
 णाई, पलपल होत अवेरा रे जीवड़े ॥जय॥२॥ दिन गया सेवा करने
 पराई,सो सो सारी रैन गमाई । मूर्ख तुमको सुध नहीं आई अब नू
 जाग सवेरा रे जीवड़े ॥जपा॥३॥ सुनो २ मित्रो प्यारे लालो, ईश्वर
 की तुम आज्ञा पालो । सत्य विद्या का दीपक जालो, आगे बहुत
 अन्धेरा रे जीवड़े ॥जपईश्वर॥४॥ वाग बगीचे बनाये बगले, शीशे
 लगाये रगाये जगत्ते, कौन चलेगा इनको संग ले, आखिर को मरघट
 डेरा रे जीवड़े ॥जपा॥५॥ सिधसनकादिक दश अवतारी अभीर
 बड़े २ मायाधारी विक्रम भोज दधीच से भारी, कर गये जो गोदा
 फेरा रे जीवड़े ॥जपा॥६॥

भजन २१७ (प्रभाती)

टेर मुसाफिर क्यो सोवे अब जाग ।

इन विरछन की थिर नहीं छाया, देख भुलाया वाग ॥मुसाफिर॥१॥
 इस सराय में रहना नार्ही काहे करत है राग ॥मुसाफिर॥२॥ यह
 सब चोर लगे संग तेरे इनसे बच कर भाग ॥मुसाफिर॥३॥ प्रभु
 सुमरिन मत देर कीजे अपने मारग लाग ॥मुसाफिर॥४॥

भजन २१८ (प्रभाती)

टेर—भोर भयो पत्तीगण बोले, उठो जन प्रभू गुण गावी रे ।

लखो प्रभात प्रकृति की शोभा, बार बार हरसावो रे ॥भोर॥१॥
 प्रभू की दया सुमरि निज मन मे सरल स्वभाव उपजावो रे
 ॥भोर॥२॥ हो कृतज्ञ प्रेम में उसके नेनन नीर वहांवो रे ॥भोर॥३॥
 ब्रह्म रूप सागर में मन को, बारम्बार डुबावो रे ॥भोर॥४॥ निर्वल
 शीतल लहरे ले ले आतम ताप बुझावो रे ॥भोर॥५॥

भजन २१९ (प्रभाती)

टेर—उठ जाग रे मुसाफिर, किस नींद सो रहा है । जीवन अमूल्य
 प्यारे क्यो मुफ्त खो रहा है । रहना न यहां पै होगा, दुनियां सराय
 फानो, फंसकर बदी मे प्यारे क्यो मस्त हो रहा है ॥उठ॥१॥ माता

पिता वो भाई सुख के सभी संगती । क्यों मोह रूपी बोझा नाहक
को ढो रहा है ॥उठा॥२॥ किस्ती तेरी पुरानी, हिकमत से पार करले ।
ऐ दिल अथाह जल में तू क्यों डुबो रहा है ॥उठा॥३॥

भजन २२० आरती

टेर—ओ३म जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे । भक्त जनन
के संकट, क्षण में दूर करे । जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का-
सुख सम्पति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ॥ओ॥१॥ मात पिता
तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी । तुम बिन औरन कोई आश करूँ
मैं जिसकी ॥ओ॥२॥ तुम पूर्ण परमात्मा तुम अन्तर्यामी । पार ब्रह्म
परमेश्वर तुम सबके स्वामी ॥ओ३म॥३॥ तुम करुणा के सागर तुम
पालन करता । मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता ॥ओ३म॥४॥
तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति । किस बिधी मिलूँ दया मय
तुम से मैं कुमति ॥ओ॥५॥ दीन बन्धु दुख हरता तुम रत्नक मेरे ।
करुणा हस्त बढ़ावो, द्वार पड़ा तेरे ॥ओ३म॥६॥ विषय विकार
मिटवावो, पाप हरो देवा । श्रधा भक्ति बढ़ावो सज्जनो की सेवा
॥ओ३म॥७॥ तुम हो आदि अनादि, नित और अविनाशी । भक्त
जन शरण तुम्हारी काटो भव फांसी ॥८॥

भजन २२१ (आरती)

टेर—ओ३म जय शंकर स्वामी हो पिता जय शंकर स्वामी, अविचल
अन्तर्यामी एक अपरिणामी ।

मंगल मूल महता, अनुपम शिव हरता । सत्य सनातन सता, अजर
अमर अता ॥ओ३म॥१॥ व्यापक विश्व बिहारी, अभय अधिकारी
मुक्त महा बलधारी जन संकट हारी ॥ओ३म॥२॥ लोचन हीन निहारे,
मुख बिन उच्चारें । मस्तक बिना बिचारे, निर्गुण ही हारे ॥ओ३म॥३॥
रच रच न्यारे न्यारे, भवन भानु धारे । तेजस पिंड सवारे, चमके
सहस्र तारे ॥ओ३म॥४॥ प्रकृति जीव को जोड़े, फिर उलटे मोड़े ।
आप मिलाप न छोड़े, नेक न त्रिक तोड़े ॥ओ३म॥५॥ जल की तीत

उड़ावे, बाढ़ल बरसावे, अन्नादिक उपजावे, जग दुमती पावे
 ॥ओ३मा॥६॥ अखिलाधार विधाता, जीवन सुख दाता, मित्र बन्धु
 गुरु भ्राता, परम पिता माता ॥७॥ कपट जाल से छूटे, छल के घट
 दूटे । लठ लवार न लूटे, भ्रम के मट फूटे ॥ओ३मा॥८॥ विरचे भोग
 अभोगी सबके उपयोगी । कर्म विपाक वियोगी, अनग उद्योगी
 ॥ओ३मा॥९॥ बालक उत न ऊले, वीर न बल भूले । बस कल्प नर
 फूले, जीवन फल फूले, ॥ओ३मा॥१०॥ ललता जन्म न खोवे । कुल
 विदुषी होवे । हा कुलटा न विगोवे, रांड न दुख रोवे ॥ ओ३म ॥११॥

भजन २२२ (आरती)

टंर—जयत्रिभुवन कर्ता हो स्वामी, जयत्रिभुवन कर्ता, तीनों ताप
 निवारण दाता सूरपुर का । प्रभु सकल सृष्टि के तारण धारण
 भारन तूं भर्ता । पालन सर्व बिना शक आप नहीं मरता ॥ओ३मा॥१॥
 प्रभु सब कुछ तूने रचा नहीं तूं आप जन्म धर्ता, निराकार निर्दोष आत्मा,
 जगत चरा चर का ॥ओ३मा॥२॥ प्रभु नहीं काला नहीं लाल श्वेत नहीं
 पीत वर्ण हर का, नहीं बालक नहीं वृद्ध रूप नहीं नारी और नर का
 ॥ओ३मा॥३॥ प्रभु प्राण पवन इन्द्री मन बस कर, ओ३म अक्षर
 पढ़ता, क्षमा शील सन्तोष दया रख भव सागर तरता ॥ओ३मा॥४॥
 प्रभु खुले, ज्ञान की आंख होय जब दर्शन ईश्वर का, मूर्ख हुवे मन
 हीना, बतावे तुम्हको पत्थर का ॥ओ३मा॥५॥ प्रभु सब को रहा तूं
 देख नहीं तूं आप जन्म धरता । अखंड अचल सम भरा, नहीं कोइ
 नियम तेरे घर का ॥ओ३मा॥६॥ प्रभु तुम्ह बिन धर्म और मोक्ष
 पदार्थ कार्य नहीं सरता, जो नित उठ ध्यान लगावे उनके दुख
 हरता ॥ओ३मा॥७॥ प्रभु तेजसिंह करे आरती हम पर करो कृपा ।
 अन्धकार से टारो, इससे जीव डरता ॥ ओ३म ॥ ८ ॥

भजन २२३ (आरती)

टंर—ओ३म जय जगदीश हरे, निर्विकार दुख नाशक दुख सब
 दूर करे ।

निराकार हे दयामय सुख सम्पत्ति सिन्धो, करुणा कर कर करुणा
 दम पर हे बन्धो ॥ ओ३म् ॥ १ ॥ सर्वेश्वर जग पावन सारे ही दुखहरो,
 अनूपम अन्तर्यामिन वैदिक भाव भरो । ओ३म् ॥ २ ॥ तेजोमय हो
 भगवन् तेजस्वी कर दो । मातृ भूमि सेवा हित भुज बल पौरुष
 दो ॥ ओ३म् ॥ ३ ॥ मेधामय जगदीश्वर तुमको गुरु माना, मेधावी
 हम सब ही तज पातक नाना ॥ ओ३म् ॥ ४ ॥ परमानन्द पिता हम
 हिय से विनय करे । ईश्वर आनन्दामृत सुख से पान करे ॥ ओ३म्
 ॥ ५ ॥ तुम ही एक अनादि नित और अविनाशी, हम सब शरण
 तुम्हारी घट घट के बासी ॥ ओ३म् ॥ ६ ॥

भजन २२४ (ओ३म् की आरती)

॥ टेर ॥ ओ३म् है जगका नियन्ता, ओ३म् ही कर्तार है । ओ३म्
 राजा न्यायकारी, ओ३म् भव भरतार है ।

ओ३म् गुरु सर्वज्ञ माता ओ३म् वेदाधार है, ओ३म् जनता शक्ति
 सागर ओ३म् प्रेमागार है ॥ १ ॥ ओ३म् सर्वेश्वर अभय है ओ३म्
 सर्वाधार है । ओ३म् अजरा अमर अजन्मा. ओ३म् जीवन सार
 है ॥ २ ॥ ओ३म् प्रियतम नित्य सतंचित, ओ३म् सुख भंडार है ।
 ओ३म् अनुपम निर्विकारी, ओ३म् मल संहार है ॥ ३ ॥ ओ३म्
 आकृति रहितविभु है, ओ३म् अपरम्पार है । ओ३म् करुणाकंद
 सिवतम, ओ३म् दुख हरतार है ॥ ४ ॥

भजन २२५ (जगत पिता की प्रार्थना)

त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः ॥

मात तू ही गुरु तान तू ही, मितत्रात तू ही धन धाम भंडारो ।

ईश तू ही जगदीश तू ही मम शीश तू ही, प्रभु राखन हारो ॥

राव तू ही उमराव तू ही मन भाव तू ही, मम नयन को तारो ।

सार तू ही करतार तू ही घरवार तू ही, परिवार हमारो ॥

२२६—भगवान की बड़ाई

अपाणि पादो जवनो गृहीता, पश्यत्यचक्षुः स कृणोत्य कर्ण, सर्वेत्ति-
वेधम न च तस्यास्तिवेत्ता, तमाहुरग्र्य पुरुषं महान्तम् ॥

बिन पद चले सुने बिन काना, कर विनु कम करे विवी नाना ।
आनन रहित सकल रसभोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ योगी । तन
बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहै ब्राण बिनु वास अशंपा । अस
सब भांति अलौकिक करणी, सहिमा जाहि जासु नहीं वरणी ॥

२२७—ज्ञान के दस लक्षण

अ क्रोध वैराग्य जितेन्द्रिय त्वमः, क्षमा दया सर्वजन प्रिय त्वम ।
निर्लोभदाता भय शोक हाताः, ज्ञानस्य, लोके दश लक्षणानि ॥

अ क्रोध. वैराग्य, जितेन्द्रियता, क्षमा, दया, सर्वजनों से प्रेम,
निर्लोभता, दान, भय हरना और शोक हरना ससार में ये दस लक्षण
ज्ञान के हैं ।

२२८—नर और पशु में भेद

अहार निद्रा भय मैथुनं च, सामान्य मेतत्पशुर्भिनराणाम् : धर्मो
हितेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समाना ॥

भय मैथुन सोना अरु खाना, नर पशुओं में सभी समाना,
धर्म ही से नर होत प्रधाना, धर्म बिना नर पशु समाना ॥

२२९—धर्म के दस लक्षण

धृति क्षमाः दमोऽस्तेयं, शौच मिन्द्रिय निग्रहः । धीर्विद्या सत्यम
क्रोधो, दशकम् धर्मं लक्षणम् ।

धैर्य क्षमा मन को बुराई से रोकना, चोरी त्याग पवित्रता, इन्द्रियों
को बश करना, बुद्धि का बढ़ाना, विद्या सत्य और अक्रोध ये दस
धर्म के लक्षण हैं ।

— दोहा —

धैर्य क्षमा और शान्ति स बिना अनुराग । शुद्ध बुद्धि जितेन्द्रियता
चोरी क्रोध का त्याग । दस लक्षण ये धर्म के, धर्म की पहिचान । धर्म
शास्त्र के बीच में कहे मनु भगवान ।

प्रार्थना २३०

जय जय पिता परम आनन्द दाता, जगदादि कारण मुक्ति प्रदाता ।
अन्त अनादि विशेषण हैं तेरे, सृष्टि का सृष्टा तू धरता सहर्ता ।
सूक्ष्म से सूक्ष्म तू है स्थूल इतना, कि जिसमें ये ब्रह्मांड सारा समाता ।
मैं लालित ना पालित हूँ पितृ स्नेह का, यह प्राकृतिक संबंध है तुझ
से ताता । करो शुद्ध निर्मल मेरे आत्मा को, करुं मैं विनय नित,
सायं व प्रातः । मिटावो मेरे भय को आवागमन को, फिरुं ना
जन्म पाता और बिल बिलाता ।

भजन २३१ (राग भैरवी)

॥ टेर ॥ इस प्राणी को हरि भजन ही, परमानन्द दिखाता है । बिना
किये हरि भक्ति जगत में मुक्ति न कोई पाता है ।
धन दौलत और कुटम्ब कबीला, कोई काम नहीं आता है । सब
अपने स्वार्थ के साथी मुख देखे का नाता है ॥ इस प्राणी ॥ १ ॥
द्वारा पुत्र पौत्र के ऊपर, फूला नहीं समाता है । माया लोभ के वश
में होकर नाहक जन्म गंवाता है ॥ इस ॥ २ ॥ अब भी समझ अरे
अज्ञानी, कहे जिन्हे तू भ्राता है । अन्त समय कोई काम न आवे,
आप अकेला जाता है ॥ इस प्राणी ॥ ३ ॥ काल आय जब सिर पर
गाजत कफ घट में घिर जाता है, आंख फाड़ चहुँ दिशी देखत
सिर धुन धुन पछताता है ॥ इस प्राणी ॥ ४ ॥ हरिभज हरिभज हरि
के वन्दे, वही सकल सुख दाता है । वही है सकल जगत का स्वामी,
सब दुख द्वन्द मिटाता है ॥ इस प्राणी ॥ ५ ॥ माया मोह द्रोह
ममता तज, जो नर हरिगुण गाता है । सालिगराम वही इस जगमें
पूरण ब्रह्म कहाता है ॥ इस प्राणी ॥ ६ ॥

भजन २३२ (गजल)

॥ टेर ॥ विधाता तू हमारा है, तू ही विज्ञान दाता है । बिना तेरी दया कोई नहीं आनन्द पाता है ।

तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है । उसी बिया अधिकारी को अविद्या से छुड़ाता है ॥ विधाता ॥ १ ॥ सनाता जो न औरो को, न धोका आप जाता है । वही सद्भक्त है तेरा, सदाचारी कहाता है ॥ विधाता ॥ २ ॥ सदा जो न्याय का प्यारा प्रजा को दान देता है । महाराजा उसी को तू बड़ा राजा बनाता है ॥ विधाता ॥ ३ ॥ तजे जो धर्म को, धारा, कुकर्मों की कहता है । न ऐसे नीच पापी को कभी उंचा चढाता है ॥ विधाता ॥ ४ ॥ स्वयम् भू शकरानन्दी, तूमे जो जान लेता है । वही कैवल्य सत्ता की, महत्ता में समाता है ॥ विधाता ॥ ५ ॥

भजन २३३

॥ टेर ॥ आनन्द रूप भगवन, किस भांति तूझ को पाऊं । तेरे समीप स्वामिन मैं किस तरह से आऊं ।

अनुपम परम छवीले. बिन रंग रस रसीले. कंटक सखा है फूलवा, क्या तेरे सर चढ़ाऊं ॥ आनन्द ॥ १ ॥ सुख मूल मुक्त रूपम्, मंगल कुशल स्वरूपम् । घड़याल संख को क्या, सन्मुख तेरे में लाऊं ॥ आनन्द ॥ २ ॥ गंगा है तेरी दासी । सेवग है इन्द्र तारे । तेरे शरीर पर क्या अंजली से जल चढाऊं ॥ आनन्द ॥ ३ ॥ छोटे से दास तेरे रविचन्द्र है उपस्थित, करते हैं नित उजाला, घृत दीप क्या जलाऊं ॥ आनन्द ॥ ३ ॥ श्री लक्ष्मी है तेरी, निश दिन चरण की चेरी । ताबा का एक पैसा, मैं नाथ क्या दिखाऊं ॥ आनन्द ॥ ५ ॥ आगम निगम से लेकर, मेधाव- सर्वतीतक, गुण तेरा गारहे हैं. क्या गाके मैं रिक्काऊं ॥ आनन्द ॥ ६ ॥ कौटाती कौटभूमि, उन पर असंख्य प्राणी । जगदीश अपना नम्बर, मैं कौनसा गिनाऊं ॥ आनन्द ॥ ७ ॥

विनती किशोर की है, निशदिन यही दयामय । हृदय में लो लगी है, आंखों में मैं समाऊ ॥ आनन्द ॥ ८ ॥

भजन २३४

॥ टेरे ॥ मूरखमन होवत क्यो हैरान ।

सचमुच तेरी रैन अन्वेरी, संकट मे है प्रान ॥ मूर्ख ॥ १ ॥ सुख दुख दोनों एक बराबर दो दिन के महमान ॥ मूर्ख ॥ २ ॥ ये भी देखा वो भी देखले, दोनों की पहिचान ॥ मूर्ख ॥ ३ ॥ हूँ ड डगरिया, बांध गठरिया, कृपा करे भगवान ॥ मूर्ख ॥ ४ ॥

भजन २३५

॥ टेरे ॥ उस ईश्वर दीन दयाल को, वैराग्य बिना नहीं पाया ।

एक समय थी भरी जवानी, काम देव निजध्वज फैरानी, रूप देख होय बुद्धि दीवानी, भूला प्रभु बिसाल को मन विषयो मे ललाचाया । आंखों का रूप लुभाया, एक दिन दिल में शरमाया ॥वैराग्य॥१॥ जहां कामना पूर्ण पाई, क्रोध ने अपनी आंखे दबाई, झूठ से तह ठन गई लडाई, पहुंचाया उस हाल को अपना घर तक फुंकवाया ॥वैराग्य॥२॥ एक समय मन लोभ समाया, धन दौलत मैने खूब कमाया, झूठ दगा छल से घर लाया, जोडा बहु धन माल को, नहीं खर्चा नहीं खुद खाया ॥वैराग्य॥३॥ बेटा बेटी परिजन नारी, जिनके लिये सब उमर गुजारी, अपने ही सुख की करे प्यारी, देख के उसकी चाल को, मेरे मन वैराग्य समाया, मैने सत्संगत अच्छा पाया, मुझे निरनजन थल ही भाया ॥वैराग्य॥४॥ एक समय अहंकार समाया, अपने धन बल पर गर्वाया । इसने भी नीचा दिखलाया, हल किया अहम सवाल को, मन निर्मल शोश बनाया । आंखों को बन्द कराया, बाणी को ठीक सदाया ॥वैराज्ञ॥५॥ आखिर उपनिषदों को विचारा, वेद ज्ञान का लिया सहारा, पाठक बन जाना प्रभु प्यारा, छोड़ा सब जंजाल को, अविनाशी ईश्वर पाया, जिसने ये जगत रचाया मैं उसका भक्त कहाया ॥वैराज्ञ॥६॥

भजन २३६

टेर—शरण हम प्रभु तेरी आये हुवे हैं दौकर जोड़ सर को भुकाये हुवे हैं ।

न भक्ति न श्रद्धा मे मन चित्त को लगात, बने पापी पुण्य को भुलाये हुवे है ॥शरण॥१॥ त्यागा पुरुषार्थ अहंकार मे फंम, कुसंगति से हरदम दबाये हुवे हैं ॥शरण॥२॥ न बल है न बुद्धि विद्या की शक्ति, अधोगति मे अपनी भुलाये हुवे हैं ॥शरण॥३॥ सर्व न ज्ञान मन को भटकाता फिरे यह, विपयो से बहुत हम सताये हुवे हैं ॥शरण॥४॥ करो हम पर कृपा दयामय पिताजी, उठावो हमें जो गिराये हुवे है ॥शरण॥५॥ प्रवृती हो शुभ कर्म और शुभ गुणों में मिले धर्म धन जो गमाये हुवे है ॥शरण॥६॥ हो सत विद्या और ज्ञान से शुद्ध हृदय, नियम पालें जो तू बनाये हुवे हैं ॥शरण॥७॥ धर्म भूख हमको सदा ही प्रभुजी, बड़े शान्ति भारी जो जलाये हुवे हैं ॥शरण॥८॥ गगाराम से प्रीती उपकार सीखे मिटे कपट जो मन में लाये हुवे हैं ॥शरण॥९॥

भजन २३७

टेर—भलाई कर चलो जग में तुम्हारा ही भला होगा ।

किया जो काम न कोबद, वह एक दिन वरमला होगा ॥ सताते दीन दुखियो को, न खाते खोफ मालिक का, सितमगर भी कोई देखा, जो फूला और फला होगा ॥भलाई॥१॥ समझ कर जान अपनी सी, दुखाओ मत किसी का दिल । जलावेगा तुम्हे वेशक, जो तुम से ही जला होगा ॥भलाई॥२॥ फरायज अपने वो हर दम, अदा करते रहो फोरन, मजा बलदेव विपयो का तुम्हे एक दिन मिला होगा ॥भलाई॥३॥ ईश्वर के हैं सभी वन्दे, बनोमत खून के प्यासे । छुरी जल्लाद के नीचे तुम्हारा खुद गला होगा ॥ भलाई ॥ ४ ॥

॥ समाप्त ॥

